

मुद्रक—सदलराम जायसवाल,
राम प्रिंटिंग प्रेस, कीटगंज,
इलाहाबाद

अनुवादक की सूचना

छोटे छोटी पुस्तकों में भी जब भूमिका देना, प्रचलित प्रथा अनुसार अनिवार्य समझा जाता है तब इतने बड़े ग्रन्थ के आरम्भ में भी भूमिका का होना परमावश्यक है। किन्तु भूमिका या तो स्वयं ग्रन्थकार की लिखी होनी चाहिए अथवा ग्रन्थकार से घनिष्ठ परिचय रखने वाले उसके किसी आत्मीय, सम्बन्धी अथवा मित्र की लिखी हुई। ये दोनों प्रथाएँ आज ही प्रचलित हुई हैं, यह कहना उचित न होगा। इस देश में ये दोनों ही प्रथाएँ प्राचीनकाल से प्रचलित जान पड़ती हैं। इस इतिहास-ग्रन्थ-रत्न श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में भी भूमिका है और यह भूमिका स्वयं आदिकवि की लिखी हुई नहीं, प्रत्युत उनके किसी शिष्य प्रशिष्य की लिखी हुई है। वालकाण्ड के प्रथम सर्ग को छोड़, दूसरे से ले कर चौथे सर्ग तक—तीन सर्ग—आदिकाव्य के भूमिकात्मक हैं। इसको रामायण के टीकाकारों में श्रेष्ठ, आचार्यप्रवर गोविन्दराज जी ने भी स्वीकार किया है। यथा—

“सर्गत्रयमिदं केनचिद्वाल्मीकिशिष्येण रामायण
निर्वृत्यनन्तरं निर्माय वैभवप्रकटनाय संगमितं । यथा
याज्ञवल्क्यस्मृत्यादौ यथैव तत्र विज्ञानेश्वरेण व्याकृतं ।”

उक्त तीन सर्गों में यत्र तत्र इस अनुमान की पुष्टि करने वाले प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। यथा चतुर्थ सर्ग का प्रथम श्लोक है :—

“प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान्ऋषिः
चकार चरितं कत्स्नं विचित्रपदमात्मवान् ॥

इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि जी के लिए “ भगवान् ” और “ आत्मवान् ” जो दो विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं, वे आदि काव्यरचयिता जैसे मार्मिक एवं सर्वज्ञ ग्रन्थरचयिता, शिष्टतावश स्वयं अपने लिए कभी व्यवहार में नहीं ला सकते। फिर इस श्लोक के अर्थ पर ध्यान देने से भी स्पष्ट विदित होता है कि, इस श्लोक का कहने वाला ग्रन्थ रचयिता नहीं, प्रत्युत कोई अन्य ही पुरुष है। अतः ग्रन्थ की भूमिका पढ़ने के लिये उत्सुक जनों को, बालकाण्ड के दूसरे तीसरे और चौथे सर्ग को पढ़ सन्तोष कर लेना चाहिए। क्योंकि ग्रन्थ की भूमिका में जो आवश्यक बातें होनी चाहिए, वे सब इसमें पाई जाती हैं। यथा, ग्रन्थ की उत्कृष्टता का दिग्दर्शन, ग्रन्थ में निरूपित विषयों का संचिप्त वर्णन, ग्रन्थनिर्माण का कारण, ग्रन्थनिर्माण का स्थान, ग्रन्थनिर्माण का समय, ग्रन्थ का प्रकाशन-काल और ग्रन्थ पर लोगों की सम्मति। ये सभी बातें उक्त तीन सर्गों में पाई जाती हैं। अतएव इसमें नयी भूमिका जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

तब हाँ, इस ग्रन्थ के पढ़ने पर ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से पढ़ने वाले किन सिद्धान्तों पर उपनीत हो सकते हैं, यह बात दिखलाने की आवश्यकता है। प्राचीन टीकाकारों ने इस प्रयोजनीय विषय की उपेक्षा नहीं की। उन महानुभावों ने भी यथास्थान अपने स्वतंत्र विचार लिपिवद्ध किए हैं। उन्हींके पथ का अनुसरण कर, इस ग्रन्थ के अनुवादक ने भी यथास्थान अपने स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करने में अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की। किन्तु स्थान स्थान पर जो विचार प्रकट किए गए हैं, वे सूत्ररूप से होने के कारण उनको विशद रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता का अनुभव कर, अनुवादक का विचार, ग्रन्थ

के परिशिष्ट भाग में, अपने विचारों को विषयानुक्रम से विस्तार पूर्वक लिपिवद्ध करने का है। अतएव इस ग्रन्थ के पाठकों को परिशिष्ट भाग छपने तक धैर्य धारण करने का अनुवादक की ओर से साग्रह अनुरोध है।

अनुवादक को अनुवाद के विषय में विशेष कुछ भी वक्तव्य नहीं है। जो कुछ भला बुरा अनुवाद वह कर सकता है, वह प्रकाशक महोदय की प्रेरणा से सर्वसाधारण के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। हिन्दू जाति की इस शोच्य अधःपतित अवस्था में, इस ग्रन्थरत्न के सुलभ मूल्य पर प्रचार करने से, हिन्दुओं की प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति और प्राचीन पद्धतियों का जीर्णोद्धार हो, इस ग्रन्थ को हिन्दी भाषा में अनुवाद कर, प्रकाशित करने का अनुवादक और प्रकाशक, दोनों ही का यह मुख्य उद्देश्य है।

काहं मन्दमतिर्गभीरहृदयं रामायणं तत्क्व च,
व्याख्यानेऽस्य परिभ्रमन्नहमहो हासास्पदं धीमताम् ।
को भारोऽत्र मम स्वयं कुलगुरुः को दण्डपाणिः कृपा
कूपारोऽरचयत्पदः सपदि मज्जिह्वाग्रसिंहासनः ॥

दारागंज--प्रयाग
कार्तिक शुक्ला १४शी सं० १९८२

अनुवादक



विषयानुक्रमणिका

- पहला सर्ग १—२६
नारद जी द्वारा वाल्मीकि जी को रामचरित का संहिस्र
उपदेश ।
- दूसरा सर्ग २६—३७
तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि का बहेलिया को शाप
देना । रामायण बनाने के लिए ब्रह्मा जी का वाल्मीकि जी
को प्रोत्साहित करना ।
- तीसरा सर्ग ३७—४६
समाधि द्वारा ऋषि का सम्पूर्ण रामचरित को “प्रत्यक्ष-
भिव” देखना ।
- चौथा सर्ग ४६—५४
आश्रमवासी श्रीरामचन्द्र जी के पुत्र कुश और लव को
वाल्मीकि द्वारा रामायण का पढ़ाया जाना और कुश और
लव का राजसभा में रामायण गाना ।
- पाँचवाँ सर्ग ५४—६१
अयोध्या नगरी का विस्तृत वर्णन ।
- छठवाँ सर्ग ६१—६६
अयोध्या में महाराज दशरथ के शासनकाल का वर्णन ।
- सातवाँ सर्ग ६६—७४
अमात्यों, पुरोहितों और ऋत्विजों के साथ महाराज
दशरथ के व्यवहार का वर्णन ।

आठवाँ सर्ग

७४—८०

महाराज दशरथ का पुत्रप्राप्ति के लिए यज्ञ करने का विचार करना और कुलपुरोहित वसिष्ठ जी से परामर्श करना ।

नवाँ सर्ग

८०—८४

ऋष्यशृङ्ग की कथा और सुमंत्र का उनको बुलवाने की आवश्यकता प्रकट करना ।

दसवाँ सर्ग

८४—९१

राजा रोमपाद के यहाँ ऋष्यशृङ्ग के आगमन की कथा । रोमपाद की कन्या शान्ता के साथ ऋष्यशृङ्ग के विवाह की कथा ।

ग्यारहवाँ सर्ग

९१—९८

महाराज दशरथ का यज्ञ करवाने के लिए अंगदेश में जाकर ऋष्यशृङ्ग को अयोध्या में लाना ।

बारहवाँ सर्ग

९८—१०२

ऋष्यशृङ्ग की आज्ञा से महाराज दशरथ का ब्राह्मणों को बुलवा कर सरयू के दक्षिण तट पर यज्ञविधान के लिए मंत्रियों को आज्ञा देना ।

तेरहवाँ सर्ग

१०२—११०

यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए देशदेशान्तरों के राजाओं तथा ब्राह्मणों का बुलवाया जाना ।

चौदहवाँ सर्ग

११०—१२२

यज्ञ का वर्णन और ऋष्यशृङ्ग की भविष्यद्वाणी ।

पन्द्रहवाँ सर्ग

१६४—२०२

दशरथावध और ताड़कावध पर देवताओं का सन्तोष का ऋः करना । विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमारों का भगवभर ताड़कावन में वास ।

घोषर
गाँ सर्ग

२०२—२०७

सोलहवाँ ामित्र का श्रीरामचन्द्र जी को समस्त अस्त्रों का देना ।

अग्निर्ग
सर्ग

२०७—२१२

दशर
विभा
मित्र का राजकुमारो को अस्त्र फैक कर, उनको की विधि बतलाना । यज्ञ में विघ्न डालने वाले

सत्रहवाँ स का परिचय देने के लिए श्रीरामचन्द्र जी की ब्रह्मा ज्ञेत्र जी से प्रार्थना ।

उत्पत्ति ।र्ग

२१२—२१६

अठारहवाँ स में विश्वामित्र और दोनों राजकुमार । सिद्धाश्रम

उत्तान्त
यज्ञ समाप्त

२१६—२२४

यज्ञ समाप्त

पुत्रों का जन्मारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा । मानवान् राजकुमारों के सागर में फेकना । आग्नेयान्त्र से सुवाह होना । विश्वामित्रसे अन्य राजसों का वध ।

उन्नीसवाँ सर्ग

२२४—२२६

विश्वामित्र जी का और धनुष देखने के लिए आश्रमवानी से माँगना और महाराज से प्रर्थना करना । नमस्त मुनियों मित्र जी के मुख से श्रीराम साध कौशिक की जनकपुर-यात्रा । किया जाना । ल को निवास । वरों रात ने

उस प्रान्त का वृत्तान्त सुनने की श्रीरामचन्द्र द्वारा इच्छा प्रकट किया जाना ।

बत्तीसवाँ सर्ग • २२६—२३५

विश्वामित्र जी के वंश का विस्तृत वर्णन ।

तेँतीसवाँ सर्ग २३५—२३६

कुशनाभ की कन्याओं के विवाह का वर्णन ।

चौँतीसवाँ सर्ग २४२—२४७

गाधि की उत्पत्ति । विश्वामित्र और विश्वामित्र की वहिन की उत्पत्ति का वर्णन ।

पैंतीसवाँ सर्ग २४७—२५२

विश्वामित्र जी के मुख से गङ्गा और उमा की कथा का वर्णन ।

छत्तीसवाँ सर्ग २५३—२५६

क्रुद्ध उमा का देवताओं को शाप देना ।

सैंतीसवाँ सर्ग २५६—२६६

कार्तिकेय की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन ।

अड़तीसवाँ सर्ग २६७—२७२

सगर के साठ हजार पुत्रों की उत्पत्ति । सगर का यज्ञ ।

उनतालीसवाँ सर्ग २७२—२७४

सगर के यज्ञीय पशु का इन्द्र द्वारा हरण । यज्ञीय पशु की खोज में सगर के साठ हजार पुत्रों की यात्रा । सगर पुत्रों द्वारा पृथिवी का खोदा जाना । देवताओं का विचलित हो ब्रह्मा जी के पास जा प्रार्थना करना ।

चासीलवाँ सर्ग

२७८—२८४

ब्रह्मा जी का घबड़ाए हुए देवताओं को धीरज बँधाना ।
 यज्ञीय पशु के न मिलने के कारण, महाराज मगर की
 आज्ञा से पुनः सगरपुत्रों द्वारा पृथिवी का खोदा जाना ।
 अन्त में कपिल जी का दर्शन और कपिल के हुंकार शब्द
 से साठ हजार सगरपुत्रों का भस्म होना ।

इकतालीसवाँ

२८४—२९०

साठ हजार पुत्रों की खोज में अंशुमान का जाना । सगर-
 पुत्रों की भस्म को देख उसका दुःखी होना । यज्ञीय पशु
 का कपिल आश्रम में अंशुमान द्वारा देखा जाना तथा दग्ध
 हुए सगरपुत्रों के उद्धारार्थ गङ्गा लाने के लिए गरुड़ जी
 द्वारा अंशुमान को उपदेश मिलना । यज्ञीय पशु लेजा कर
 अंशुमान का महाराज को दे कर यज्ञ को पूरा करवाना
 और उनसे अपने पितृव्यों के भस्म होने का वृत्तान्त कहना ।

चयालीसवाँ सर्ग

२९१—२९६

अंशुमान का कुछ दिनों तक राज्य कर के अपने पुत्र दिलीप
 को राज्य सौंप स्वयं तप करने के लिए हिमालयशृङ्ग पर
 जाना और वहाँ से स्वर्ग सिधारना । दिलीप का अनेक
 यज्ञ करना और पुरखों के उद्धार के लिए चिन्तित हो,
 अपने पुत्र भगीरथ को राज्य सौंप, स्वयं स्वर्ग सिधारना ।
 तदनन्तर भगीरथ का उग्रतप कर वर पाना ।

तेतालीसवाँ सर्ग

२९६—३०५

गङ्गा के वेग के धारण करने के लिए भगीरथ का एक
 वर्ष तप कर महादेव जी को प्रसन्न करना । गङ्गावतरण ।
 गङ्गा को अपने जटाजूट में शिव जी का हिपा रखना

तब भगीरथ का पुनः तप द्वारा शिवजी को प्रसन्न करना। तब शिवजी का गङ्गा को विन्दुसरोवर में छोड़ना। गङ्गा का भगीरथ के पीछे पीछे बह कर, उनके पूर्वजों का उद्धार करना।

चौवालीसवाँ सर्ग

३०५—३१०

भगीरथ पर ब्रह्मा जी का अनुग्रह। रसातल में गङ्गाजल से भगीरथ का अपने पितरों का तर्पण करना।

पैंतालीसवाँ सर्ग

३१०—३२०

अगले दिन गङ्गा को पार कर उत्तर तट पर पहुँच कर कौशिकादि का विशापुरी को देखना। श्रीरामचन्द्र जी के पहुँचने पर विश्वामित्र जी का विशालापुरी का इतिहास सुनाना। दिति और अदिति के पुत्रों का वृत्तान्त वरुण। समुद्रमंथन की कथा। समुद्र से निकले हुए हलाहल को शिवजी का अपने कण्ठ में रखना। धन्वन्तरादि की समुद्र से उत्पत्ति।

छियालीसवाँ सर्ग

३२०—३२५

दिति का दुःखी हो मरीच पुत्र और अपने पति कश्यप से इन्द्रहन्ता पुत्र के लिए याचना करना। कश्यप का दिति को ईप्सितवर देना। दिति की सेवा करते हुए इन्द्र का दिति के गर्भ में घुसकर गर्भस्थ बालक के वज्र से टुकड़े-टुकड़े कर डालना।

सैंतालीसवाँ सर्ग

३२५—३३०

वायु की उत्पत्ति। विशाला क्री उत्पत्ति का वृत्तान्त। राजा सुमति की इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं की नामावली राजा सुमति और विश्वामित्र का समागम।

अड़तालीसवाँ सर्ग

३३०—३३८

सुमति का दोनों राजकुमारों के सम्बन्ध में विश्वामित्र जी से प्रश्न और विश्वामित्र जी का उत्तर । राजा सुमति द्वारा दोनों राज कुमारों का सत्कार । तदनन्तर सब का मिथिला के लिए विशाला से प्रस्थान । मिथिला के निकटस्थ एक आश्रम के विषय में श्रीरामचन्द्र जी का विश्वामित्र से प्रश्न । उस आश्रम में पूर्वकाल में बसने वाले गौतम की कथा । अहल्या और कपट रूपधारी इन्द्र का समागम गौतम का, इन्द्र को, अपने आश्रम से अहल्या के साथ व्यभिचार करके निकलते हुए देखना । गौतम का अहल्या और चन्द्र को शाप देना । श्रीरामचन्द्र जी के पादस्पर्श से अहल्या के शापोद्धार की बात, गौतम द्वारा अहल्या से कहा जाना ।

उनचासवाँ सर्ग

३३९—३४४

गौतम के शाप से इन्द्र के अण्डकोशों का गिर पड़ना । अग्नि आदि देवताओं की प्रार्थना से पितृ देवताओं से इन्द्र को मेष के अण्डकोशों की प्राप्ति । विश्वामित्र के प्रोत्साहन प्रदान से श्रीरामचन्द्र जी का गौतम के आश्रम में जाना । शाप से छुटकर अहल्या का श्रीरामचन्द्र जी का सत्कार करना और गौतम तथा अहल्या का मिल कर श्रीरामचन्द्र जी का पूजन करना ।

पचासवाँ सर्ग

३४४—३५०

श्रीरामचन्द्रजी सहित विश्वामित्र का जनक महाराज की यज्ञशाला में जाना और वहाँ टहलना । जनक द्वारा विश्वामित्रजी का आतिथ्य । दोनों राजकुमारों का परिचय

पाने के लिए राजा जनक का विश्वामित्र से प्रश्न ।
विश्वामित्र जी का उत्तर ।

इक्यावनवाँ सर्ग

३५१—३५७

विश्वामित्र के मुख से अपनी माता के शाप छूट जाने का वृत्तान्त सुन, शतानन्द का प्रसन्न होना । शतानन्द कृत श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति । शतानन्द द्वारा कौशिक वंश का वृत्तान्त कहा जाना । गाधिनन्दन राजा विश्वामित्र का ससैन्य वसिष्ठाश्रम में प्रवेश ।

बावनवाँ सर्ग

३५८—३६३

कौशिक और वशिष्ठ का परस्पर कुशल प्रश्न । कौशिक का आतिथ्य करने के लिए, वशिष्ठ जी का शवला को सामग्री व प्रस्तुत करने के हेतु प्रेरणा करना ।

त्रेपनवाँ सर्ग

३६३—३६६

वसिष्ठ जी द्वारा शवला की सहायता से विश्वामित्र का अपूर्व सत्कार । कौशिक का वसिष्ठ जी से शवला को माँगना । वसिष्ठ जी का शवला देना अस्वीकृत करना ।

चौअनवाँ सर्ग

३६६—३७४

कौशिक का वरजोरी शवला को बाँध कर ले जाना । शवला का बंधन छुड़ा कर वसिष्ठ जी के पास आना और दुःख प्रकट करना । वसिष्ठ जी का शवला को धीरज बँधाना । विश्वामित्र का सामना करने के लिए शवला को म्लेच्छ यवनादि को उत्पन्न करना ।

पचपनवाँ सर्ग

३७५—३८१

वसिष्ठ और विश्वामित्र का युद्ध । विश्वामित्र की पराजय । विश्वामित्र का अपने पुत्र को राज्य सौंप कर, तप करने को

हिमालय पर जाना । वरदान में महादेव जी से समस्त अस्त्रों का प्राप्त कर, विश्वामित्र का पुनः वसिष्ठाश्रम पर आक्रमण करना और आश्रम को उजाड़ना ।

छप्पनवाँ सर्ग

३८१—३८६

वसिष्ठ जी का अपने ब्रह्मदण्ड से विश्वामित्र के चलाए समस्त अस्त्रों को निष्फल कर देना । विश्वामित्र के चलाए ब्रह्मास्त्र तक को अपने ब्रह्मदण्ड से वसिष्ठ जी का निष्फल कर डालना । तब ब्रह्मवल को सर्वोत्कृष्ट जान, विश्वामित्र का ब्रह्मवल सम्पादन करने को प्रतिज्ञा करना ।

सत्तावनवाँ सर्ग

३८६—३९१

रानी को साथ ले विश्वामित्र का महर्षिपद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में जा घोर तप करना । वहाँ उनको अपनी रानी से हविःष्यन्दादि पुत्रों की प्राप्ति और एक हजार वर्ष तप करने के बाद ब्रह्मा जी का प्रकट होकर उनको "राजर्षि" की पदवी प्रदान करना । इन्हीं बीच में राजा त्रिशंकु का सदेह स्वर्ग जाने के लिए वसिष्ठ जी से यज्ञ कराने की प्रार्थना करना । उनके निषेध करने पर त्रिशंकु का वसिष्ठ जी के पुत्रों के पान जाना ।

अष्टावनवाँ सर्ग

३९२—३९७

गुरु आज्ञा उल्लङ्घन-कारी राजा त्रिशंकु को वसिष्ठपुत्रों द्वारा चाण्डालत्व को प्राप्त होने का शाप । तब त्रिशंकु का विश्वामित्र के निकट गमन और उनसे अपना अर्धाष्ट निवेदन

उनसठवाँ सर्ग

३९८—४०२

विश्वामित्र का त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा करना । त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अपने मित्र

भेज कर विश्वामित्र का अन्य ऋषियों को बुलवाना ।
वसिष्ठपुत्रों का तथा महोदय नामक ऋषि का बुलाने पर न
आना । अतः विश्वामित्र का उनको शाप देना ।

साठवाँ सर्ग

४०३—४१०

त्रिशंकु के यज्ञ का वर्णन । यज्ञ भाग लेने के लिए
उस यज्ञ में बुलाने पर भी देवताओं का न आना । इस
पर क्रुद्ध हो विश्वामित्र का अपने तपोबल से त्रिशंकु
को सदेह स्वर्ग भेजना । किन्तु इन्द्रादि देवताओं को
त्रिशंकु का सदेह स्वर्ग में आना भला न लगने पर, त्रिशंकु
का पृथिवी पर गिरना और “वचाइये वचाइये” कह कर
चिल्लाना । तब क्रोध में भर विश्वामित्र का नयी सृष्टि
रचने में प्रवृत्त होना । तब घबड़ा कर देवताओं का विश्वा-
मित्र जी को मनाना । त्रिशंकु सदा आकाश में सुख पूर्वक
रहें, देवताओं के यह स्वीकार कर लेने पर, नयी सृष्टि रचना
से विश्वामित्र का निवृत्त होना ।

इकसठवाँ सर्ग

४१०—४१५

दक्षिण दिशा में तप में विघ्न होने पर विश्वामित्र जी
का उस दिशा को छोड़ पश्चिम में पुष्कर में जाकर
उग्रतप करना । इस बीच में अम्बरीष राजा का यज्ञ
करना । उनके यज्ञपशु का इन्द्र द्वारा चुराया जाना । यज्ञ
पूरा करने के लिए पुरोहित का अम्बरीष से किसी यज्ञीय
नरपशु को लाने का अनुरोध करना । गौओं के लालच
में आ ऋचीक का अपने विधले पुत्र शुनःशेष को राजा
के हाथ बेचना । शुनःशेष को ले राजा अम्बरीष का
प्रस्थान करना ।

वासठवाँ सर्ग

४१५—४२१

राजा अम्बरीष का पुष्कर में आगमन । शुनःशेष का विश्वामित्र के निकट जा प्राण बचाने और अम्बरीष का अधूरा यज्ञ पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करना । विश्वामित्र का शुनःशेष के बदले अपने पुत्रों को नरपशु बन कर राजा के साथ जाने की आज्ञा देना । आज्ञा न मानने पर विश्वामित्र का पुत्रों को शाप देना । विश्वामित्र के बतलाए मंत्रों का जप करने से शुनःशेष की यज्ञ में रक्षा और अम्बरीष के यज्ञ की समाप्ति ।

त्रेसठवाँ सर्ग

४२२—४२८

विश्वामित्र का और मेनका का समागम । पीछे पुष्कर-क्षेत्र छोड़ विश्वामित्र का उत्तर दिशा में जा कौशिकी के तट पर रह कर तप करना । किन्तु वहाँ भी अभीष्ट मिट न होना । उनका पुनः घोर तप करना ।

चौसठवाँ सर्ग

४२८—४३३

विश्वामित्र को तप से डिगाने के लिए इन्द्र का रम्भा अप्सरा को विश्वामित्र के पास भेजना । विश्वामित्र का क्रोध में भर रम्भा को शाप देना । क्रोध के कारण नर नष्ट होने पर विश्वामित्र का आगे कभी क्रोध न करने का सङ्कल्प करना ।

पैंसठवाँ सर्ग

४३३—४४३

एक हजार वर्षों तक निराहार तप करने के पीछे विश्वामित्र का आहार करने को बैठना और उस समय नन्द का रूप धर इन्द्र का आ कर विश्वामित्र से भोजन माँगना और विश्वामित्र का उनको अपने नामने रखा हुआ न न

भोजन उठा कर दे देना । तब विश्वामित्र का घोर तप करना । उनके तप से तीनों लोकों के नष्ट हो जाने की शङ्का से ब्रह्मा का विश्वामित्र को ब्रह्मर्षिपद प्रदान करना । वसिष्ठ जी द्वारा विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि होने का अनुमोदन । शतानन्द के मुख से विश्वामित्र का वृत्तान्त सुन, राजा जनक का हर्षित हो और विश्वामित्र से आज्ञा माँग कर वहाँ से विदा होना ।

छियासठवाँ सर्ग

४४४—४५०

विश्वामित्र का राजा जनक को दोनों राजकुमारों का धनुष देखने के लिए वहाँ आना बतलाना । राजा जनक का उस शिवधनुष का पूर्व वृत्तान्त कहना । फिर हल चलाते हुए सीता की प्राप्ति का वृत्तान्त राजा जनक द्वारा कहा जाना । जनक का यह भी कहना कि, दूसरों से न चढ़ाए गए धनुष पर यदि श्रीरामचन्द्र जी रोदा चढ़ा देंगे तो, वीर्य शुल्का सीता उनको विवाह दी जायँगी ।

सत्रसठवाँ सर्ग

४५०—४५६

विश्वामित्र जी के कहने पर राजा जनक का शिवधनुष मँगवा कर दिखलाना । श्रीरामचन्द्र जी का अनायास उसे उठा लेना और उस पर रोदा चढ़ा कर खींचना । खींचने में बड़े धड़के के साथ धनुष के दो टुकड़े हो जाना । विश्वामित्र जी की अनुमति से वरात सजा कर लाने के लिए, राजा जनक का अपने दूतों को अयोध्या भेजना ।

अड़सठवाँ सर्ग

४५६—४६१

मिथिलेश्वर के दूतों से शुभ संवाद सुन, महाराज दशरथ का मंत्रियों और पुरोहितों से सलाह कर, अगले दिन प्रातःकाल जनकपुर को प्रस्थान करना ।

उनहत्तरवाँ सर्ग

४६१—४६५

महाराज दशरथ की जनकपुरयात्रा । जनकपुर में दशरथ और जनक की भेंट और दोनों का दोनों को देख, हर्ष प्रकट करना ।

सत्तरवाँ सर्ग

४६५—४७६

राजा जनक का दूत भेज कर सांकाश्यपुर से अपने भाई कुशध्वज को बुलवाना । राजाजनक और श्रीकुशध्वज का, पुत्रों तथा पुरोहित वशिष्ठ सहित, महाराज दशरथ से समागम । वसिष्ठ जी का दशरथ की वंशावली का निरूपण करना और श्रीरामचन्द्र एवं लक्ष्मण के विवाह के लिए कन्याओं का माँगना ।

इकहत्तरवाँ सर्ग

४७६—४८१

जनक के मुख से अपने वंश का परिचय । श्रीराम और लक्ष्मण को सीता और ऊर्मिला देने की राजा जनक की प्रतिज्ञा ।

बहत्तरवाँ सर्ग

४८१—४८७

वसिष्ठ की अनुमति से विश्वामित्र जी का कुशध्वज की लड़कियों को भरत और शत्रुघ्न के लिए माँगना । जनक का देना स्वीकार करना अगले दिन विवाह करने का निश्चय हो जाने पर, महाराज दशरथ का जनवासने में जाना और गोदानादि वहाँ करना ।

तिहत्तरवाँ सर्ग

४८७—४९७

राजा जनक के राजभवन में श्रीरामचन्द्रादि के विवाह होने का वर्णन ।

चौहत्तरवाँ सर्ग

४६७—५०३

अगले दिन श्रीरामचन्द्रादिकों को आशीर्वाद दे कर विश्वामित्र का विदा होना । महाराज दशरथ की जनकपुर से विदाई और जनक द्वारा दायजे का दिया जाना । महाराज दशरथ की यात्रा और मार्ग में विघ्न । परशुराम जी का आगमन । परशुराम और श्रीरामचन्द्र का परस्पर वार्तालाप ।

पचहत्तरवाँ सर्ग

५०३—५०६

परशुराम जी की श्रीरामचन्द्र जी से कुछ गर्मागर्मी की बातचीत । महाराज दशरथ की परशुराम जी से बालकों को अभयदान देने की विनती । परशुराम जी का शिवधनुष की अपेक्षा वैष्णवधनुष का अधिक प्रभाव बतलाया जाना ।

छियत्तरवाँ सर्ग

५०६—५१५

श्रीरामचन्द्र जी का वैष्णवधनुष पर बाण रख उसे खींचना और परशुराम जी की परलोकगति को उससे नष्ट कर देना । तब गर्व त्याग कर परशुराम जी का श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा करते हुए महेन्द्र पर्वत पर गमन ।

सतत्तरवाँ सर्ग

५१६—५२२

महाराज दशरथ का प्रसन्न हो अयोध्या की ओर पुनः प्रस्थान । महाराज दशरथ के राजधानी में पहुँचने पर नगरनिवासियों का हर्ष प्रकट करना । शत्रुत्र सहित भरत का ननिहाल जाना । सीता और श्रीराम के पारस्परिक प्रेम की वृद्धि ।

ग्रन्थ में व्यवहृत सङ्केताक्षरों की व्याख्या

(गो०) गोविन्दराजीय भूपणटीका ।

(रा०) नागेश भट्ट की रामाभिरामी टीका ।

(शि०) शिवसहायराम की शिरोमणिटीका ।

(वि०) विषमपदत्रिवृत्तिटीका ।

() जो वाक्य ऐसे कोष्टक के भीतर हैं वे अनुवादक के अपने हैं और कर्था की सङ्गति बैठाने के लिए जोड़ दिए गए हैं ।

[टिप्पण] ऐसे कोष्टक के भीतर महीन अक्षरों में जो टिप्पणियाँ दी गई हैं, वे अनुवादक के स्वतंत्र विचार हैं ।

(शि० गो०) अनुवाद के जिस श्लोक के अन्त में (शि०) या (गो०) अक्षर दिए गए हैं, वहाँ समझना चाहिए कि वह श्लोक शिरोमणि टीकाकार के मतानुसार अथवा गोविन्दराजीय भूपणटीका के अनुसार अनूदित किआ गया है ।

(ती०) संकेत महेश्वर तीर्थ विरचित टीका के लिए है ।

॥ श्रीः ॥

श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रमः

[नोट—सनातनधर्म के अन्तर्गत जिन वैदिकसम्प्रदायों में श्रीमद्रामायण का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायों के अनुसार उपक्रम और समापन क्रम प्रत्येक खण्ड के श्राद्धि और अन्त में क्रमशः दे दिए गए हैं ।]

श्रीवैष्णवसम्प्रदायः

—:०:—

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥१॥
वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः ।
शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् ॥२॥
यः पिबन्सततं रामचरितामृतसागरम् ।
अवृषस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकव्यमपम् ॥३॥
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् ।
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥४॥
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् ।
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥५॥
मनोजवं मारुततुल्यवेग
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।
चातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥६॥

उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं
यः शोकवर्हि जनकात्मजायाः ।

आदाय तेनैव ददाह लङ्कां
नमाति तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥७॥

आञ्जनेयमतिपाटलाननं
काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्
पारिजाततरुमूलवासिनं
भावयामि पवमाननन्दनम् ॥८॥

यत्र यत्र रघुनाथकीतनं
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।

वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥९॥

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।
वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥१०॥

तद्गुणगतसमाससन्धियोगं
सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम् ।

रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं
दशशिरसञ्च बधं निशामयध्वम् ॥११॥

श्रीराघव दशरथात्मजमप्रमेय
सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम्

आजानुवाहुमरविन्ददलायताक्षं
रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥१२॥

वैदेहीसहित सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।

अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥१३॥

—:०:—

माध्वसम्प्रदायः

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥१॥
लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः ।
श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम् ॥२॥
वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।
आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥३॥
सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परम् ।
सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम् ॥४॥
सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकम् ।
जानकीजानिमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम् ॥५॥
अभ्रमं भङ्गरहितमजड विमलं सदा ।
आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् ॥६॥
भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी
जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः ।
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा
मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च ॥७॥
मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसनविचक्षणः ।
जयतीर्थाख्यतरणिर्भासतां नो हृदम्वरे ॥८॥

चित्रैः पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानैरखण्डितैः ।

गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक् ॥६॥

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।

आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥१०॥

वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः ।

शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् ॥११॥

यः पिबन्सततं रामचरितामृतसागरम् ।

अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥१२॥

गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् ।

रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥१३॥

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् ।

कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥१४॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं

जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम् ।

वातात्मजं वानरयूथमुख्य

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥१५॥

उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं

यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः ।

आदाय तेनैव ददाह लङ्कां

नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥१६॥

प्राञ्जनेयमतिपाटलाननं

काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् ।

पारिजाततरुमूलवासिनं

भावयामि पवमाननन्दनम् ॥१७॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।

चाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं

मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥१८॥

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।

वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्गामायणात्मना ॥१९॥

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् ।

लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥२०॥

तदुपगतसमाससन्धियोगं

सममधुरोपनतार्थवाक्यत्रयम् ।

रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं

दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् ॥२१॥

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे

मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।

अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं

व्याख्यानं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥२२॥

वन्दे वन्द्यं विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रं.

व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च ।

धूतावद्यं सुखचितिमयैर्मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः

सानाथ्यं नो विद्वदधिकं ब्रह्म नारायणात्म्यम् ॥२३॥

भूपारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्न

लीलारत्नं जलधिदुहितुद्वेवताभौलिरत्नम् ।

चिन्तारत्नं जगति भञ्जतां सत्सरोजद्युरत्नं
कौसल्याया लसतु मम हृन्मण्डले पुत्ररत्नम् ॥२४॥

महाव्याकरणम्भोधिमन्थमानसमन्दरम् ।

कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे ॥२५॥

मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम् ।

नानावीरसुवर्णानां निकपाश्मायितं व्रभौ ॥२६॥

स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसै ।

उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्धावधये नमः ॥२७॥

वाल्मीकेर्गाः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया ।

यद्दुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तर्णका इव ॥२८॥

सूक्तिरत्नाकरे रस्ये मूलरामायणार्णवे ।

विहरन्तो महीयांसः प्रोयन्तां गुरवो मम ॥२९॥

हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् ।

तस्य निःसरते वाणी जह्कन्याप्रवाहवत् ॥३०॥

—*—

स्मार्तसम्प्रदायः

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।

प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥१॥

वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे ।

यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम् ॥२॥

दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना

हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुक्रं पुस्तकं चापरेण ।

भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥३॥

कृजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥४॥
वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः ।
शृण्वन् रामकथानाद् को न याति परा गतिम् ॥५॥

यः पिवन्सततं रामचरितामृतसागरम् ।
अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥६॥
गोप्यदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् ।
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥७॥
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् ।
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥८॥

उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं
यः शोकवर्हि जनकात्मजायाः ।
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां
नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥९॥

आञ्जनेयमतिपाटलाननं
काञ्चनाद्रिकमर्नायत्रिग्रहम् ।
पारिजाततरुमूलवासिनं
भावयामि पवमाननन्दनम् ॥१०॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं
तत्र तत्र कृतमन्तकाञ्जलिम् ।

वाष्पत्रारिपरिपूर्णलोचनं

मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥११॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।

वातात्मजं वानरयूथमुख्यं

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥१२॥

यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरहः सम्पक्पिवत्यादरात्
वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु ।

जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं

संसारं स विहाय गच्छति पुमान्विष्णोः पदं शाश्वतम् ॥१३॥

तदुपगतसमाससन्धियोगं

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम् ।

रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं

दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् ॥१४॥

वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी ।

पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥१५॥

श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलम् ।

काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् ॥१६॥

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।

वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥१७॥

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे

मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।

अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं

व्याख्यानं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥१८॥

वामे भूमिसुता पुरश्च हमुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः

शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाग्वादिक्रीणेषु च ।

सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्

मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् ॥११॥

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय

देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै ।

नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो

नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणैभ्यः ॥२०॥



श्रीरामचन्द्रायनमः

श्रीमते रामानुजाय नमः


आचार्यं शठकोपदेशिकमथ प्राचार्यंपारम्परीम्,
श्रीमल्लदमणयोगिवर्ययमुनावास्तव्यनाथादिकान् ।
वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवतावल्लभं,
सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे ॥१॥

पितामहस्यापि पितामहाय,
प्राचेतसादेशफलप्रदाय ।
श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय,
श्रीशैलपूर्णाय नमोनमस्तात् ॥२॥

लक्ष्मीनाथ समारंभाम्,
नाथयामुनि मध्यमां ।
अस्मदाचार्यपर्यन्ताम्,
वंदे गुरुपरम्पराम् ॥३॥

श्रीवृत्तरत्नकुलवारिधिशीतभानुं,
श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यसुतंसुतांसम् ।
गोविन्ददेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजम्,
रामानुजार्यं गुरुवर्यमहं भजामि ॥४॥







श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम्

बालकाण्डः

ॐ

तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्? ।

२ नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॥१॥

तपस्या और स्वाध्याय (वेदपाठ) में निरत और बोलने वाले में श्रेष्ठ, श्रीनारद मुनि जी से वाल्मीकि जी ने पूछा ॥१॥

को न्वस्मिन्सांप्रतं लाके गुणवान्कश्च वीर्यवान् ।

धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥२॥

चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः ।

विद्वान्कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः ॥३॥

१ नारदान तद्ददातीति नारदः । यद्वा

गायन्नारायणकथा सदा पापभयापहान

नारदो नाशयन्नेति नृणामनानजं तमः ।

२ यावद्विवक्षितार्थप्रतिपादनक्षमशब्दप्रयोगविदः तेषां वरम् केष्ट (ने०)

आत्मवान्को^१ जितक्रोधो द्युतिमान्कोऽनसूयकः
कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥४॥

इस समय इस संसार में गुणवान्, वीर्यवान्, धर्मज्ञ, कृतज्ञ २ (किये हुए उपकार को न भूलने वाले) सत्यवादी, दृढ़व्रत, अनेक प्रकार के चरित्र करने वाले, प्राणीमात्र के हितैषी, विद्वान्, समर्थ ३ अति दर्शनीय, धैर्यवान्, क्रोध को जीतने वाले, तेजस्वी, ईर्ष्या-शून्य और युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाले, कौन हैं ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे ।
महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवविधं नरम् ॥५॥

हे महर्षे ! यह जानने का मुझे बड़ा चाव है (उत्कट इच्छा है) और आप इस प्रकार के पुरुष को जानने में समर्थ हैं । अर्थात् ऐसे पुरुष को बतला भी सकते हैं ॥ ५ ॥

श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः ।
श्रूयतामिति चामन्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् ॥६॥

यह सुन, तीनों लोकों का (भूत, भविष्य, और वर्तमान) वृत्तान्त जानने वाले देवर्षि नारद प्रसन्न हुए और कहने लगे ॥६॥

बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः ।
मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः ॥७॥

१ आत्मवान्—धर्मवान् (गो०)

२ कई उपकारों की अपेक्षा न कर, एक ही उपकार को बहुत मानने वाले । (रा०) ।

३ लौकिक व्यवहार = प्रजारक्षणनादिक, उसमें कुशल । (रा०)

हे मुनि ! आपने जिन गुणों का वखान किया है, वे सब दुर्लभ हैं, किन्तु हम अपनी समझ से ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को बतलाते हैं, सुनिये ॥७॥

इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो^१ नाम जनैः श्रुतः ।

नियतात्मा^२ महावीर्यो द्युतिमान्^३ वशी^४ ॥८॥

महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न श्रीरामचन्द्र जी को सब जन जानते हैं । वे नियतस्वभाव (मन को बश में रखने वाले) बड़े बली, अति तेजस्वी, आनन्दरूप, सब के स्वामी ॥८॥

धृद्धिमान्नीतिमान्^५ वाग्मी श्रीमाञ्छत्रनिवर्हणः ।

विपुलांसो महाबाहुः^६ कम्पुग्रीवो महाहनुः ॥९॥

महोरस्को महेष्वासो गृहजत्रुररिदमः ।

आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥१०॥

सर्वज्ञ, मर्यादावान्, मधुरभाषी, श्रीमान्, शत्रुनाशक, विशाल कंधे वाले और गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शत्रु के समान गरदन पर तीन रेखा वाले, बड़ी ठुड़ी (ठोड़ी) वाले, नाँगा छाती वाले और विशाल धनुषधारी हैं । उनकी गरदन की दृष्टिया

१ रमन्ते योगिनोऽन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि ।

इति राम पदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयते ।—अगस्त्यसंहितायाम् ।

२ नियतात्मा—नियतस्वभावः (गो०) वशीकृतान्त.कर्म. (गो०)

३ धृतिमान्—निरतिशयानन्दः (गो०) ४ वशी—अस्त्रेण वशेऽस्यास्तीति वशी, सर्वस्वामीत्यर्थः (गो०)

५ बुद्धिमान्—सर्वज्ञः (गो०) ६ नाँतिमान्—मर्यादावान् (गो०)

७ महाबाहुः—वृत्तपीवरबाहुः (गो०) ।

(हसुली हड्डियाँ) माँस से छिपी हुई हैं, उनकी दोनों बाँहें घुटनों तक लटकती हैं । उनका सिर और मस्तक सुन्दर है और वे बड़े पराक्रमी हैं ॥६॥१०॥

समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् ।

पीनवक्षा विशालाक्षो ऽलक्ष्मीवाञ्शुभलक्षणः ॥११॥

उनके समस्त अङ्ग न बहुत छोटे हैं और न बहुत बड़े हैं, (जो अंग जितना लंबा या छोटा होना चाहिए वह उतना ही लम्बा या छोटा है । उनके शरीर का चिकना सुन्दर रंग है, वे प्रतापी या तेजस्वी हैं । उनकी छाती माँसल है, (अर्थात् हड्डियाँ नहीं दिखलाई पड़ती) उनके दोनों नेत्र बड़े हैं, उनके सब अङ्ग प्रत्यङ्ग सुन्दर हैं और वे सब शुभ लक्षणों से युक्त हैं ॥११॥

धर्मज्ञः^२ सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः ।

यशस्वी ज्ञानसंपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्^३ ॥१२॥

वे शरणागत की रक्षा करना, इस अपने धर्म को जानने वाले हैं । प्रतिज्ञा के दृढ़ (वादे के पक्के) अपनी प्रजा (रियाया) के हितैषी, अपने आश्रितों की रक्षा करने में कीर्ति प्राप्त, सर्वज्ञ, पवित्र, भक्ताधीन, आश्रितों की रक्षा के लिए चिन्तावान् अथवा आश्रितों पर ध्यान रखने वाले हैं ॥१२॥

प्रजापतिसमः श्रीमान्धाता रिपुनिषूदनः ।

रक्षिता जावलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥१३॥

१ लक्ष्मीवान्—अवयवशोभायुक्तः (गो०)

२ धर्मज्ञः = शरणागतरक्षणरूपं जानातीति धर्मज्ञः (गो०)

३ समाधिमान्—समाधिः आश्रितरक्षणचिन्तातद्वान् (गो०)

रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य^१ च रक्षिता ।

वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदं च निष्ठितः ॥१४॥

वे ब्रह्मा के समान प्रजा का रक्षण करने वाले, अति शोभान् सब के पोषक, शत्रु का नाश करने वाले अर्थान् वेदद्रोही और धर्मद्रोही जो उनके शत्रु हैं, उनका नाश करने वाले, धर्म-वर्तक, स्वधर्म* और ज्ञानी जन के रक्षक हैं । वेद वेदाङ्ग के ज्ञो को जानने वाले तथा धनुर्विद्या मे अति प्रवीण । ॥ १३ ॥ १४ ॥

सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान्प्रतिभानवान्^२ ।

सर्वलोकप्रियः साधुर्दोनात्मा विचक्षणः^३ ॥१५॥

वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली भाँति जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति (याददाश्त) वाले, महा प्रतिभाशाला, सर्वप्रिय, परमसाधु, कभी दैन्य प्रदर्शित न करने वाले, अर्थान् बड़े भीर और लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं ॥१५॥

सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः ।

आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः ॥१६॥

१ स्वजनः—स्वभूतोजनः स्वजनः ज्ञानी (गो०) २ प्रतिभानवान्—
तस्याभुतस्य वा भटिति स्फुरण प्रतिभानम् तद्वान् । (गो०) ३ विच-
क्षणः—लौकिकालौकिक क्रियाकुशलः (गो०)

* अपने धर्म, अर्थात् यज्ञ, अर्पण, दान, दण्ड और युद्ध में शेष रूप से रक्षा करने वाले हैं ।

† धर्मशास्त्रपुराणंचमीमांसाऽऽन्वीक्षिकी तथा ।

चत्वार्यैतान्युपनिषद्शास्त्राणि शास्त्राः सप्रचक्षते ॥

जिस प्रकार सब नदियाँ समुद्र तक पहुँचती हैं, उसी प्रकार सज्जन जन उन तक सदा पहुँचते हैं अर्थात् क्या अस्त्राभ्यास के समय, क्या भोजन काल में, उन तक अच्छे लोगों की पहुँच सदा रहती है। अच्छे लोगों के लिए उनके पास जाने की मनाई कभी नहीं है। वे परम श्रेष्ठ हैं, वे सबको अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—पशु, पक्षी—जो कोई उनका हो, उसको समान दृष्टि से देखने वाले हैं और सदा प्रियदर्शन हैं ॥१६॥

स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः ।

समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव ॥१६॥

विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः ।

कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥१८॥

वे सब गुणों से युक्त कौसल्या के आनन्द को बढ़ाने वाले हैं। वे गम्भीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय की तरह पराक्रम में विष्णु की तरह, प्रियदर्शनत्व में चन्द्रमा की तरह, क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा करने में पृथिवी के समान हैं ॥१७॥१८॥

धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः ।

तमेवंगुणसंपन्नं रामं सत्यपराक्रमम् ॥१९॥

वे दान देने में कुवेर के समान हैं अर्थात् जब देते हैं तब अच्छी तरह देते हैं, सत्यभाषण में मानों दूसरे धर्म हैं। ऐसे गुणों से युक्त सत्यपराक्रमी श्री रामचन्द्र जी हैं ॥१९॥

ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतम् ।

प्रकृतीनां^१ हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया ॥२०॥

यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत्प्रीत्या महीपतिः ।

तस्याभिषेकसंभारान्दृष्ट्वा भार्याञ्च कैकेयी ॥२१॥

(ऐसे) श्रेष्ठ गुणों से युक्त प्यारे तथा प्रजा के हित को चाहने वाले ज्येष्ठ (पुत्र) श्रीरामचन्द्र जी को, प्रजा की हितकामना के उद्देश्य से, महाराज दशरथ ने प्रीति पूर्वक युवराज पद देना चाहा । श्रीरामाभिषेक की तैयारियाँ देख, महाराज दशरथ की प्रिय महिषी कैकेयी ने ॥२०॥२३॥

पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत ।

विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् ॥२२॥

पहिले पाए हुए दो वरदान (महाराज दशरथ से) माँगे । एक वर से श्रीरामचन्द्र जी के लिए देशनिकाला और दूसरे से (अपने पुत्र) भरत का राज्याभिषेक ॥२२॥

स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः ।

विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम् ॥२३॥

धर्मपाश से बद्ध, (अर्थान् अपनी बात के धनी होने के कारण) सत्यवादी महाराज दशरथ ने, प्राणों से भी बढ़ कर अपने प्यारे पुत्र श्रीरामचन्द्र जी को वनगमन की आज्ञा दी ॥२३॥

स जगाम वनं वीरः प्रतिजामनुपालयन् ।

पितुर्वचननिर्देशात्कैकेयाः प्रियकारणात् ॥२४॥

वीरवर श्रीरामचन्द्र जी, पिता की आज्ञा का पालन करने और कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए, पिता की आज्ञानुसार वन को गए ॥२४॥

तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम ह ।

स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥२५॥

माता सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाले* स्नेह और विनय से सम्पन्न श्रीलक्ष्मण जी (भ्रातृ-स्नेह-वश)† श्रीरामचन्द्र जी के पीछे हो लिए ॥२५॥

भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् ।

रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमा हिता ॥२६॥

जनकस्य कुले जाता ऽदेवमायेव निर्मिता ।

सर्वलक्षणसंपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः ।

सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा ॥२७॥

दोनो भाइयों को जाते देख, श्रीराम जी की प्राणों के समान सदा हितैषिणी, राजा जनक की बेटी, साक्षात् लक्ष्मी का अवतार और स्त्रियों के सर्वोत्तम गुणों से युक्त, श्रीसीता जी भी श्रीरामचन्द्र जी के साथ वैसे ही गई, जैसे चन्द्रमा के साथ रोहिणी ॥२६॥२७॥

पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च ।

शृङ्गवेरपूरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् ॥२८॥

इन तीनों के पीछे दूर तक महाराज दशरथ और पुरवासी भी गए । शृंगवेरपुर में पहुँच कर, गङ्गा जी के किनारे, श्रीराम-

१ देवमायेवनिर्मिता—अमृतमथनानन्तरमसुरमोहनार्थनिर्मिता विष्णु-मायेवस्थिता (गो०)

* विनय से सम्पन्न । † सुभ्रातृभाव का प्रदर्शन करते हुए ।

चन्द्र जी ने (रथ सहित अपने) सारथी (सुमन्त) को भी लौटा दिया ॥२८॥

गुहमासाद्य धर्मात्मा निपादाधिपतिं प्रियम् ।

गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ॥२९॥

ते वनं वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः ।

चित्रकूटमनुप्राप्य^१ भरद्वाजस्य शासनात् ॥३०॥

धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी निपादो (मल्लाहों) के मुखिया अपने प्यारे गुह से मिले। श्रीरामचन्द्र जी, श्रीलक्ष्मण जी, श्रीसीता जी और गुह बहुत जलवाली अर्थात् बड़ी बड़ी नदियों को पार कर, अनेक वनों में पैदल घूमें फिरे और भरद्वाज मुनि के वनलाग हुए चित्रकूट में पहुँचे ॥२९॥३०॥

रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः ।

देवगन्धर्वसंकाशास्तत्र ते न्यवनन्सुखम् ॥३१॥

उस रम्य स्थान में तीनों (श्रीराम, श्रीलक्ष्मण और सीता) रम गए अर्थात् पर्यकुटी बनाकर रहने लगे, वन गए। देवता और गन्धर्वों की तरह वहाँ ये तीनों सुख पूर्वक रहने लगे ॥३१॥

चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा ।

राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन्मुतम् ॥३२॥

१ एषएव विभ्रद्वाजः प्रजयै बांगः ता एव विभिति

बहिर्भक्तिं तस्मात् भरद्वाजः—निवृत्तमृगाररपये ।

भरद्वाजोह विभिरायुभिर्ब्रह्मचर्यमुवा (पा) च । इति भुनेः

२ रम्यमावसथं कृत्वा पर्यशाला इत्वा

श्रीरामचन्द्र जी के, चित्रकूट में पहुँच जाने के बाद (उधर)
अयोध्या में पुत्र-वियोग से विकल, महाराज दशरथ, हा राम !
हा राम !! कह कर विलाप करते हुए, स्वर्ग को सिधारे ॥३२॥

मृते तु तस्मिन्भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः ।

नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः ॥३३॥

(इस प्रकार) महाराज के स्वर्गवासी होने पर, वसिष्ठादि
प्रमुख द्विजवर्यो ने, श्रीभरत जी को राजतिलक करना चाहा ;
किन्तु भरत जी ने यह स्वीकार न किया ॥३३॥

स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः १ ।

गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् ॥३४॥

और वे पूज्य श्रीरामचन्द्र जी को प्रसन्न कर, मनाने को उनके
पास वन में गए । सत्यपराक्रमी, परम महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के
पास पहुँच कर, ॥३४॥

अयाचद्भ्रातरं राममार्यभावपुरस्कृतः ।

त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोऽब्रवीत् ॥३५॥

उन्होंने अत्यन्त विनय भाव से प्रार्थना की हे राम ! आप
धर्मज्ञ हैं (अर्थात् यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है कि, बड़े भाई के
सामने छोटा भाई राज्य नहीं पा सकता) अतः आपही राजा होने
योग्य हैं ॥३५॥

१ रामपादप्रसादकः पूज्यंरामंप्रसादयितुमित्यर्थः (गो०) २ अयाचत्

—प्रार्थयामास (गो०)

रामोऽपि परमोदारः सुमुखः^१ सुमहायशाः^२ ।

न चैच्छत्पितुरादेशाद्राज्यं रामो महाबलः ॥३६॥

किन्तु श्रीराम जी के अति उदार, अत्यन्त प्रमत्तवदन और अति यशस्वी होने पर भी, उन महाबली श्रीराम जी ने पिता के आदेशानुकूल, राज्य करना स्वीकार नहीं किया ॥३६॥

पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा* पुनः पुनः ।

निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः ॥३७॥

राज्य का कार्य चलाने के लिए भरताग्रज श्रीराम जी ने अपनी (प्रतिनिधि रूपी) खड़ाऊँ (भरत को) दीं और अनेक बार समझा कर भरत जी को लौटाया ॥३७॥

स काममनवाप्येव रामपादावुपस्पृशन् ।

नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया ॥३८॥

भरत जी अपने मनोरथ को इस प्रकार प्राप्त कर तथा श्रीराम जी के चरणों को स्पर्श कर तथा श्रीरामचन्द्र जी के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए, नन्दिग्राम में रह कर, राज्य करने लगे ॥३८॥

गते तु भरते श्रीमान्सत्यसंधो जितेन्द्रियः^३ ।

रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च ॥३९॥

१ सुमुखः—अर्थिजनलामेनप्रमत्तमुखः (गो०) २ सुमहायशाः नक्षार्थिनः कार्यवशादुपेताः बाहुत्थवंशे निमुग्गाः प्रयन्ति” निम्नुपुगणे (गो०) ३ जितेन्द्रियः—मानृभग्तादि प्रार्थना वानेऽत्यपि राज्यमेत- लौलित्यरहितः (गो०)

* पुनः पुनः इत्यने न भरतस्य रामविरहात्तद्विपुल्य संशयने । (गो०)

तत्रागमनमेकाग्रोः दण्डकान्प्रविवेश ह ।

प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः ॥४०॥

भरत जी के लौट जाने पर, सत्य प्रतिज्ञ और जितेन्द्रिय श्रीमान् रामचन्द्र जी ने यह विचार कर कि, चित्रकूट में (हमारा बास जान कर) अयोध्यावासियों का आना जाना शुरू हो गया है, (और उन लोगो के आने से चित्रकूट वासी तपस्वियों के जप तप में विक्षेप पड़ता है) पितृ आज्ञा के पालन में दत्तचित्त श्रीरामचन्द्र जी (चित्रकूट छोड़) दण्डकारण्य वन में चले गए और दण्डकवन में पहुँच, राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी ने ॥३६॥४०॥

विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्श ह ।

सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा ॥४१॥

विराध नामक एक राक्षस को जान से मारा। तत्पश्चात् वे शरभङ्ग ऋषि से मिले। तत्पश्चात् वे सुतीक्ष्ण, अगस्त्य और अगस्त्य के भाई से मिले ॥४१॥

अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् ।

खड्गं च परमप्रातस्तूणी चाक्षयसायकौ ॥४२॥

१ एकाग्रः पितृवचनपालने दत्तावधानः (गो०)

* किसी टीकाकार ने ऐसा लिखा है—श्री रामचन्द्र जी ने यह सोच कर कि, चित्रकूट में हमारी स्थिति को जान कर निकट होने के कारण अयोध्यावासी और खास कर महाराज दशरथ के साथ में रहने वाले वृद्ध मन्त्रिगण आने लगेगें फिर चित्रकूटवासियों का यह कहना कि, आप लोग यहाँ से जायँ, अच्छा न होगा; इसलिये उन्होंने चित्रकूट छोड़, दण्डकवन में प्रवेश किया।

अगस्त्य जी के कहने पर उनसे उन्होंने इन्द्र का धनुष प्रहण किया । साथ ही परम प्रसन्न हो कर, एक अति पैंनी तलवार और तरकस, जिसमें के बाण कभी चुकते ही न थे, (श्री रामचन्द्र जी ने अगस्त्य जी से) लिए ॥४२॥

वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः^१ सह ।

ऋष्यांऽभ्यागमन्सर्वे वधायासुररक्षसाम् ॥४३॥

उस वन में, उन वानप्रस्थ ऋषियों के साथ रहने वाने श्रीरामचन्द्र जी के पास राजसों और असुरों का नाश करवाने की कामना रखने वाले ऋषिगण, गए ॥४३॥

स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां^२ वधं वने ।

प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति^३ रक्षसाम् ॥४४॥

श्रीरामचन्द्र जी ने, दण्डकारण्यवासी राजसों के वध कराने के लिए जैसी कि, ऋषियों ने प्रार्थना की थी, तदनुसार युद्ध में उनको मारने के लिए प्रतिज्ञा की ॥४४॥

ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकाण्यवासिनाम् ।

तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी ॥४५॥

इस प्रतिज्ञा को सुन, अग्नि के समान तेजस्वी दण्डकावामी ऋषियों (ने जाना कि, अब राजम अवश्य मारे जायेंगे ।) अपने पश्चात् उसी जनस्थान में रहने वाली ॥४५॥

विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ।

ततः शूर्पणखावाक्याद्बुद्बुक्तान्सर्वराक्षसान् ॥४६॥

^१ वनचरैः—वानप्रस्थैः (ग०) ^२ गच्छमानान्—उत्सवस्थैः ।

^३ संयति—युद्धे (ग०)

खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् ।

निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् ॥४७॥

कामरूपिणी (अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदलने वाली) राक्षसी सूपनखा को, उन्होंने विरूप किया । तत्पश्चात् सूपनखा के वाक्यों से उत्तेजित हो लड़ने के लिए आए हुए खरदूषण त्रिशिरादि तथा उनके सब अनुचरों को श्रीरामचन्द्र जी ने युद्ध में मार डाला ॥४६॥४७॥

बने तस्मिन्निवसता जनस्थाननिवासिनाम् ।

रक्षसां निहतान्यासन्सहस्राणि चतुर्दश ॥४८॥

श्रीरामचन्द्र जी ने उस वन में वसते हुए, चौदह हजार जनस्थानवासी राक्षसों को मार डाला ॥४८॥

ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्च्छितः ।

सहायं वरयायास मारीचं नाम राक्षसम् ॥४९॥

अपनी जाति वालों के वध का (यह) संवाद सुन, रावण बहुत क्रुद्ध हुआ और मारीच नाम राक्षस से सहायता माँगी ॥४९॥

वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः ।

न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते ॥५०॥

मारीच ने रावण को बहुत मना किया (और कहा कि) हे रावण ! अपने से अधिक बलवान-के साथ शत्रुता करनी अच्छी-बात नहीं है ॥५०॥

अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः ।

जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपदं तदा ॥५१॥

किन्तु कालवशवर्ती रावण ने मारीच की बातों का अनादर किआ और उसी समय मारीच को साथ ले वह उम आश्रम में गया जहाँ श्रीरामचन्द्र जी रहते थे ॥५१॥

तेन मायाविना^१ दूरमपवाह्य नृपात्मजौ ।

जहार भार्या रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुपम् ॥५२॥

मारीच दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर ले गया । उसी समय रावण, जटायु नामक गिद्ध को मार, श्रीरामचन्द्र जी की भार्या श्रीजानकी जी को हर ले गया ॥५२॥

गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हतां श्रुत्वा च मैथिलीम् ।

राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ॥५३॥

जटायु को मृतप्राय दशा में देख और उससे मीता जी का हरा जाना सुन, श्रीरामचन्द्र जी बहुत शोकसन्तप्त हुए और विकल हो उन्होंने विलाप किआ ॥५३॥

ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुपम् ।

मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्श ह ॥५४॥

तत्पश्चात् उस शोक से व्याकुल श्रीराम जी ने, जटायु की दाहक्रिया कर, वन में सीता जी को ढूँढते समय, एक राक्षस को देखा ॥५४॥

कवन्धं नाम रूपेण विकृतं योगदर्शनम् ।

तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः ॥५५॥

१ मायाविना—मारीचेन (५०) २ निहत—हनु (५०)

उस राक्षस का नाम कबन्ध था और वह बड़ा विकराल और भयङ्कर रूप का था। श्रीरामचन्द्र जी ने उसे मार कर, दग्ध किया जिससे वह स्वर्ग गया ॥५५॥

स चाऽऽस्य कथयामास शवरीं धर्मचारिणीम् ।

श्रमणीं^१ धर्मनिपुणाम^२ धिगच्छेति राघवम् ॥५६॥

स्वर्ग जाते समय कबन्ध ने तपस्विनी धर्मचारिणी शवरी के पास जाने के लिए श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥५६॥

सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शवरीं शत्रुसूदनः ।

शवर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः ॥५७॥

शत्रु के नाश करने वाले महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी शवरी के पास गए। शवरी ने दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी का भली भाँति पूजन किया ॥५७॥

पद्म्यातीरे हनुमता संगतो वाजरेण ह^३ ।

हनुमद्रचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः ॥५८॥

पंपासर के समीप उनकी भेंट हनुमान नामक वंदर से हुई और हनुमान जी के कहने पर, श्रीरामचन्द्र जी का सुग्रीव से समागम हुआ ॥५८॥

सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः ।

आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः ॥५९॥

पराक्रमी श्रीरामजी ने आदि से लेकर और विशेष कर सीता जी के हरे जाने का, सब हाल सुग्रीव से कहा ॥५९॥

१ श्रमणी—तपस्विनीम् (गो०) नृपायां वैश्यतो जातः शत्रुः परि कीर्तितः मधूनि हसादानीय विक्रीणीते स्ववृत्तये । नारदीये २ धर्मनिपुणाम —धर्मसूक्ष्मज्ञा (गो०) ३ ह—इति हर्षे (शि०)

सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः ।

चकार सख्यं रामेण मीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ॥६०॥

वानर सुग्रीव ने भी श्रीरामचन्द्र जी का सारा वृत्तान्त सुन
और अग्नि को साक्षी कर श्रीराम जी से मैत्री की ॥६०॥

ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति ।

रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद्बहुःखितेन च ॥६१॥

तदनन्तरं वानरराज ने श्रीरामचन्द्र जी से दुःखों हो बाली के
साथ शत्रुता होने का सम्पूर्ण हाल कहा ॥६१॥

प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बालिवधं प्रति ।

बालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः ॥६२॥

उसे सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने बाली के वध की प्रतिज्ञा की ।
तब सुग्रीव ने बाली के बल पराक्रम का वर्णन किया ॥६२॥

सुग्रीवः शङ्कितश्चार्त्तान्नित्यं वीर्येण राघवे ।

राघवप्रत्ययार्थं^१ तु दुन्दुभेः कायशुचिसम्^२ ॥६३॥

सुग्रीव को श्रीरामचन्द्र जी के अत्यन्त बली होने से शङ्का थी,
अतः श्रीरामचन्द्र जी की जान बचाव के लिए दुन्दुभी राघव के
बड़े लंबे शरीर की हड्डियों का ॥६३॥

दर्शयामास सुग्रीवो महापर्दतसंनिभम् ।

उत्समयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः ॥६४॥

१ राघवप्रत्ययार्थं—रामविषयज्ञानार्थं (नो) २ कायं—बाहु-
रास्थि (नो०) ३ उत्तमं—उन्नतं (नो०)

ढेर, जो एक बड़े पहाड़ के समान था, सुग्रीव ने लंबी भुजाओं वाले श्रीरामचन्द्र जी को दिखलाया। उसको देख महा बलवान् श्रीरामचन्द्र जी मुसक्याए ॥६४॥

पादांगुष्ठेन चिक्षेपः संपूर्णं दशयोजनम् ।

विभेद च पुनः सालान्सप्तैकेन महेषुणा ॥६५॥

और पैर के अँगूठे की ठोकर से हड्डियों के उस ढेर को वहाँ से दस योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही बाण सात ताल वृत्तों को छेदता हुआ, ॥६५॥

गिरिं रसातलं चैव जनयन्प्रत्ययं तदा ।

ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः ॥६६॥

पहाड़ फोड़, रसातल को चला गया। तब तो सुग्रीव का संदेह दूर हो गया। तदनन्तर सुग्रीव प्रसन्न हो और विश्वास कर ॥६६॥

किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां^२ तदा

तसोऽगर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ॥६७॥

श्रीरामजी को साथ ले गुफा की तरह पर्वतों के बीच बसी हुई किष्किन्धा पुरी को गए। वहाँ पहुँच पीले नेत्र वाले सुग्रीव ने जोर से गर्जना की ॥६७॥

तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः ।

अनुमान्य^३ तदा तारां सुग्रीवेण समागतः ॥६८॥

१ उच्चिक्षेप—उच्चम्यच्चिक्षेप (गो०) २ गुहां—गुहावत्पर्वतमध्यवर्तिनी-पुरी (गो०) ३ अनुमान्य—परिसान्त्वय ; सन्तोष्य (गो०)

उस महागर्जन को सुन महावली वाली बाहिर निकला । (तारा के मना करने पर) वालि ने तारा को समझाया और वह सुग्रीव से आ भिड़ा ॥६८॥

निजयान च तत्रैनं शरैर्गणेन राघवः ।

ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवे ॥६९॥

श्रीरामचन्द्र जी ने इसी बीच में एक ही बाण से युद्ध करते हुए वाली को मार डाला । तदनन्तर सुग्रीव के कहने से सुग्रीव से युद्ध करते समय वाली को मार कर, ॥६९॥

सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् ।

स च सर्वान्समानीय वानरान्वानरर्षभः ॥७०॥

श्री रामचन्द्रजी ने किष्किन्धा का राज्य सुग्रीव को दे दिया । तब वन्दरों के राजा सुग्रीव ने वानरों को एकत्र कर ॥७०॥

दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् ।

ततो गृध्रस्य वचनात्संपातेर्हनुमान्वली ॥७१॥

उनको सीता जी को खोजने के लिए चारों ओर भेजा । तब सम्पाति नामक गृध्र के बतलाने पर, महावली हनुमान, ॥७१॥

शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम् ।

तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम् ॥७२॥

सौ योजन चौड़े खारी समुद्र को लॉप, रावणपालित लंकापुरी में पहुँच ॥७२॥

१ एवं—ररेणसुद्धकृतमपिवालिनम् (गो०)

२ आहवे—सुग्रीवस्य दुद्रे (गो०)

ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम् ।

निवेदयित्वाऽभिज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च ॥७३॥

अशोकवन में श्रीरामचन्द्र जी के ध्यान में मग्न सीता जी को देखा । फिर श्रीरामचन्द्र जी की दी हुई अँगूठी सीता जी को दे दी और श्रीरामचन्द्र जी का सब हाल कह ॥७३॥

समाश्वस्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्^१ ।

पञ्च सेनाग्रगान्हत्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि ॥७४॥

सीता जी को धीरज बँधाया । फिर अशोकवाटिका के बाहिर वाले बड़े फाटक को तोड़ डाला तथा (रावण के) पाँच सेनापति को, सात मन्त्रि-पुत्रों को ॥७४॥

शूरमक्षं च निषिध्य ग्रहणं समुपागमत् ।

अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् ॥७५॥

और शूरवीर (रावणपुत्र) अक्षयकुमार को पीस कर (अर्थात् मार कर) आत्मसमर्पण किया । हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से अपने को ब्रह्माक्ष से मुक्त जान कर भी ॥७५॥

मर्पयन्राक्षसान्वीरो यन्त्रिणास्तान्य^२दृच्छया ।

ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीम् ॥७६॥

छूटने का कोई यत्न न किया । और अपने को रस्सी से बँधवा राक्षसों द्वारा इधर उधर खिंचवाया । फिर श्रीसीता जी के स्थान को छोड़ समस्त लंका का भस्म कर ॥७६॥

१ तोरणं—अशोकवनिकावहिद्वारम् (गो०)

२ दृच्छया—प्रयत्नविना

रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः ।

सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् ॥७७॥

हनुमान जी, श्रीराम जी को यह सुखदायी मंवाड सुनाने को लौट आए । श्रीरामचन्द्र जी की परिक्रमा कर. बलवान हनुमान जी ने ॥७७॥

न्यवेदयदमेयात्मा? दृष्टा सीतंति तत्त्वतः२ ।

ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः ॥७८॥

सीता जी के देखने का ज्यों का त्यों समस्त वृत्तान्त उनसे कहा । तब सुग्रीव आदि को साथ ले (श्रीरामचन्द्र जी) नमुद्र के तट पर पहुँचे ॥७८॥

समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसंनिभैः ।

दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितांपतिः ॥७९॥

और सूर्य के समान चमचमाते (अर्थात् पैंने) बाण ने नमुद्र को लुब्ध कर डाला । तब नदीपति समुद्र सामने आया ॥७९॥

समुद्रवचनाच्चैव नलं संतुमकारयत् ।

तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहव्यं ॥८०॥

समुद्र के कथनानुसार नल ने नमुद्र का पुल दाँधा । उस पुल पर हो कर श्रीरामचन्द्र जी लंका पहुँचे और रावण का पुल में वध कर ॥८०॥

रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् ।

तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदिः ॥८१॥

१ अमेयात्मा—अपरिमितधैर्यबलादिवान् (गो०) २ तत्त्वतः—दृष्टान् (गो०) ३ जनसंसदिः—देवदिसभाया (गो०)

सीता जी को प्राप्त कर वे बहुत संकोच में पड़ गए । श्रीराम-चन्द्र जी ने सब के सामने सीता जी से कठोर वचन कहे ॥८१॥

अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती ।

ततोऽग्निवचनात्सीतां ज्ञात्वाः विगतकल्मषाम् ॥८२॥

उन कठोर वचनों को न सह कर, सीता जी ने जलती आग में प्रवेश किया । तब अग्निदेव की साक्षी से सीता को निष्पाप जान ॥८२॥

वभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः ।

कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥८३॥

सब देवताओं से पूजित श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हुए । महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के इस कार्य से (रावणवध से) तीनों लोकों के चर, अचर ॥८३॥

सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः ।

अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् ॥८४॥

देव और ऋषि सन्तुष्ट हुए । तदनन्तर राक्षसराज विभीषण को लंका के राजसिंहासन पर विठा ॥८४॥

कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमांद ह ।

देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् ॥८५॥

श्रीरामचन्द्र कृतार्थ हुए, निश्चिन्त हुए और हर्षित हुए । देवताओं से वर पा और मृत वानरों को फिर जीवित करा, ॥८५॥

अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्भृतः ।

भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः ॥८६॥

सुग्रीव विभीषणादि सहित पुष्पक विमान में बैठ कर अयोध्या को रवाना हुए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँच सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी ने, ॥८६॥

भरतस्यान्तिकं गमां हनूमन्तं व्यसर्जयत् ।

पुनराख्यायिकां? जल्पन्सुग्रीवसहितस्तदा ॥८७॥

हनुमान जी को भरत जी के पास भेजा फिर सुग्रीव से अपन पूर्व वृत्तान्त कहते हुए ॥८७॥

पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा ।

नन्दिग्रामे जटां हित्वा? भ्रातृभिः महितोऽनघः? ॥८८॥

(श्रीरामचन्द्र) पुष्पक पर सवार हो, नन्दिग्राम में पहुँचे। अच्छी तरह पिता की आज्ञा पालन करने वाले श्रीरामचन्द्र जी भाइयों सहित जटा विमर्जन कर, अर्थान् बड़े बड़े वालों को कटवा ॥८८॥

रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् ।

प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः ॥८९॥

और सीता को प्राप्त कर, अयोध्या की राजगद्दी पर विराजे। श्रीरामचन्द्र जी के राज निहामनासीन होने पर, सब प्रजाजन आनन्दित सन्तुष्ट और पुष्ट तथा सुधार्मिक हो गए हैं ॥८९॥

निरामयोऽक्षरांगश्च? र्भिक्षभयवर्जितः ।

न पुत्रमरणं केचिद्द्रव्यन्ति पुरुषाः क्वचित् ॥९०॥

१ आख्यायिका—पूर्ववृत्तकथा (गो०) २ हित्वा—तोपड़ि डा (गो०)

३ अनघः—सम्यगनुष्ठितपितृवचनः ४ निरामयः—शरीररोगरहित, (गो०)

५ अरोगः—मानसब्याधिरहितः (गो०)

उनको न तो शारीरिक कोई व्याथा ही रही है और न मानसिक चिन्ता ही और न दुर्भिक्ष ही का भय रह गया । किसी पुरुष को पुत्रशोक नहीं होता है ॥६०॥

नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः ।

न चाग्निजं भयं किञ्चिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः ॥६१॥

और न कोई स्त्री कभी विधवा होती है और सब स्त्रियाँ पतिव्रता ही हैं और होंगी न कभी किसी के घर में आग लगती है और न कोई जल में डूब कर ही मरता है ॥६१॥

न वातर्जं भयं किञ्चिन्नापि ज्वरकृतं तथा ।

न चापि क्षुद्रयं तत्र न तस्करभयं तथा ॥६२॥

इस प्रकार न तो कभी आँधी तूफान से हानि होती है और न ज्वर आदि महामारी का भय उत्पन्न होता है । न कोई भूखों मरता है और न किसी के घर चोरी होती है ॥६२॥

नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च ।

नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा ॥६३॥

राजधानी और राष्ट्र धन धान्य से भरे पूरे रहते हैं ।* सब लोग उसी प्रकार आनन्द सहित दिन विताते हैं जैसे सत्ययुग में लोग विताया करते हैं ॥६३॥

अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः ।

गवां कोट्ययुतं दत्त्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति ॥६४॥

* यह रामायण उस समय बनी थी जिस समय श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक हो चुका था और वे राज्य कर रहे थे । इस लिये यहाँ पर वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है ।

श्रीरामचन्द्र जी ने सौ अश्वमेध यज्ञ किए हैं और देवों सुवर्ण का दान दिया है। नारद जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, महायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी करोड़ों गौएँ देकर, वैकुण्ठ को जायेंगे ॥६५॥

असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः ।

राजवंशाञ्छतगुणान्धार्पायप्यति राववः ॥६५॥

महायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी ब्राह्मणों को अपरिमित धन देकर, राजवंश की प्रथम से सौ गुनी अधिक उन्नति करेंगे ॥६५॥

चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन्स्वैर्व्यं धर्मं नियांक्ष्यति ।

दशवर्षमहस्त्राणि दशवर्षशतानि च ॥६६॥

और चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने वर्णानुसार कर्तव्य पालन में लगावेंगे । ११,००० वर्षों, ॥६६॥

रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयान्मति ।

इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च ममितम् ॥

यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥६७॥

फलान्ति

राज्य कर, श्रीरामचन्द्र जी वैकुण्ठ जायेंगे । इस पुनीत, पाप छुड़ाने वाले, पुण्यप्रद, रामचरित को जो पढ़ना है, वह सब पापों से छूट जाता है । क्योंकि यह नव वेदों के तुल्य है ॥६७॥

एतदाग्न्यान्मायुष्यं पठन्वामाचरणं नरः ।

मपुत्रपौत्रः सगणाः प्रेत्य न्वर्गे मर्हयन्ते ॥६८॥

१ वेदैश्चनमितम्—सर्ववेदमहामितम् (गो०) २ माचरणं—पढ़ना

आयु बढ़ाने वाली (वालरामायण की) कथा को जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह अन्त में पुत्र पौत्र और नौकर चाकरों सहित स्वर्ग में पूजा जाता है ॥६८॥

पठन्दिजो वागृषभत्वमीया१-

त्स्यात्क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् ।

वणिग्जनः पण्यफलत्वमीया-

ज्जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात् ॥६९॥

इति प्रथमः सर्गः

इस वालरामायण को ब्राह्मण पढ़े तो वह वेद शास्त्रों में पारङ्गत हो, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वीपति हो, वैश्य पढ़े तो उसका अच्छा व्यापार चले और शूद्र पढ़े तो उसका महत्व अर्थात् अपनी जाति में श्रेष्ठत्व बढ़े या उन्नति हो ॥६९॥

वालकाण्ड का प्रथम सर्ग पूरा हुआ

[इन ६९ श्लोकों के प्रथमसर्ग ही का नाम "मूलरामायण या वालरामायण है। इसका स्वाध्याय प्रायः आस्तिक हिन्दू नित्य किआ करते हैं। इसको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अतिरिक्त शूद्र भी पढ़ सकते हैं, यह बात ६९वे श्लोक से स्पष्ट होती है।]

—:०:—

द्वितीयः सर्गः

—:०:—

नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः^२ ।

पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो महामुनिः ॥१॥

१ ईयात्—प्राप्नुयात् (गो०) २ वाक्यविशारदः—वाक्येविशारदो विद्वान् (गो०)

देवर्षि नारद के मुख से यह वृत्तान्त सुन चुकने पर, महर्षि एवं विद्वान् वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज सहित नारद जी का पूजन किया ॥१॥

[देवर्षि, होने के कारण महामुनि भरद्वाज के वे पूज्य थे ।]

यथावत्पूजितस्तेन श्देवर्षिनारदस्तदा ।

आपृच्छ्यैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम् ॥२॥

देवर्षि नारद जी वाल्मीकि जी से यथाविधि पूजे जाकर और उनसे जाने की अनुमति प्राप्त कर, वहाँ से आकाश की ओर चले गए ॥२॥

स मुहूर्तं गतं तस्मिन्देवलांकं मुनिस्तदा ।

जगाम तमसातीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः ॥३॥

वाल्मीकि जी, नारद जी के देवलोक चले जाने के दो घड़ी बाद, उस तमसा नदी के तट पर पहुँचे, जो श्रीगङ्गा जी से थोड़ी ही दूर पर थी ॥३॥

स तु तीरं समामाद्य तमसाया मुनिस्तदा ।

शिष्यमाह स्थितं पाश्र्वं दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम् ॥४॥

नदी के तट पर पहुँचे और नदी का न्यून, जल ('पथान् कीचड़ रहित) देख, महर्षि वाल्मीकि जी पास नरुं हुए अपने शिष्य भरद्वाज से बोले ॥४॥

अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामयः ।

रमणीयं प्रसन्नाम्बुः सन्मनुष्यमनो यया ॥५॥

१ "नारदाद्यानुरर्षयः" । २ विहायसम्—प्राणसं जगाम (गी०)

३ निशामय—पश्य (गी०) ४ प्रसन्नाम्बु—सन्मनुष्यम् (गी०)

हे भरद्वाज ! देखो तो इस नदी का जल वैसा ही स्वच्छ और रम्य है जैसा सज्जन जन का मन ॥५॥

न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम ।

इदमेवावगाहिष्ये^१ तमसातीर्थमुत्तमम् ॥६॥

हे वत्स ! कलसे को तो जमीन पर रख दो और हमारा वल्कल वस्त्र हमें दो । हम इस उत्तम तीर्थ तमसा नदी में, स्नान करेंगे ॥६॥

एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना ।

प्रायच्छत^२ मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो^३ गुरोः ॥७॥

महर्षि वाल्मीकि के इस कथन को सुन, उनके शिष्य भरद्वाज ने उनको वल्कल (वस्त्र) दिया ॥७॥

स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः ।

विचचार ह पश्यंस्तत्सर्वतो विपुलं वनम् ॥८॥

शिष्य के हाथ से वल्कल ले, महर्षि विशाल वन की शोभा निरखते हुए टहलने लगे ॥८॥

तस्या^४ अभ्याशे^५ तु मिथुनं चरन्तम^६ नपायिनम्^७ ।

ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिःस्वनम् ॥९॥

१ अवगाहिष्ये—अत्रैवस्नास्यामि (गो०) २ प्रायच्छत—प्रादात् (गो०) ३ गुरोर्नियतः—परतन्त्रः भरद्वाजः (गो०) ४ तस्य—तीर्थस्य (गो०) ५ अभ्याशे—समीपे (गो०) ६ चरन्तम्—विहरन्तम् (रा०) ७ अनपायिनम्—वियोगशून्यम् (गो०)

नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि जी ने मीठी चोली बोलने वाले वियोगशून्य एवं विहार करने (जोड़ा खाते) हुए क्राँच पक्षी के एक जोड़े को देखा ॥६॥

तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः १ ।

जवान वैरनिलयो? निपादस्तस्य पश्यतः ॥१०॥

इतने में पक्षियों के शत्रु एक बहेलिये ने उन जोड़े में से नर क्राँच पक्षी को वाल्मीकि जी के नामने ही, मार डाला ॥१०॥

तं शोणितपरीताङ्गं वंष्टमानं महीतले ।

भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम् ॥११॥

उस क्राँच पक्षी की मादा अपने नर को रक्त से लद फट और पृथिवी पर छटपटाते हुए देख, करुणस्वर से विलाप करने लगी ॥११॥

वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन^३ सहचारिणा ।

ताम्रशीर्षेण मत्तन पत्रिणा^४भ्यहितेन वै ॥१२॥

वह क्राँची अब उस लाल चोटी वाले सानमत्त प्राँग सम्भोग करने के लिए पर फैलाए हुए नर-पक्षी से रहित हो गई उससे उसका वियोग हो गया ॥१२॥

तथा तु तं द्विजं दृष्ट्वा निपादंन निपातितम् ।

ऋपेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ॥१३॥

१ पापनिश्चयः -- रतिमनपेसि ननणरान्द्रुःनिश्चय. (गो०) २ वैर-
निलयः अकारणगेहाभयः (रा०) ३ द्विजेन—मदिरा (गो०) ४ पत्रिणा
—सम्भोगार्थम् विस्तारितपत्रिणा (शि०)

बहेलिआ द्वारा पत्नी को गिरा हुआ देख, धर्मात्मा ऋषि के मन में बड़ी दया आई ॥१३॥

ततः करुणवेदित्वादधर्मोऽयमिति द्विजः ।

निशाम्य रुदतीं क्रौंचीमिदं वचनमब्रवीत् ॥१४॥

इस पाप पूरित हिंसा कर्म को और विलाप करती हुई क्रौंची को देख, महात्मा वाल्मीकि ने यह कहा ॥१४॥

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः ।

यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥१५॥

हे बहेलिए ! तूने जो इस कामोन्मत्त नरपत्नी को मारा है, इसलिए तू अनेक वर्षों तक इस वन में मत आना । अथवा तुझे सुख शान्ति न मिले ॥१५॥

तस्यैवं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः ।

शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया ॥१६॥

यह कह चुकने पर और मन में इसका अर्थ विचारने पर, वाल्मीकि जी को बड़ी चिन्ता हुई कि, इस पत्नी के कष्ट से कष्टित हो, मैंने यह क्या कह डाला ! ॥१६॥

चिन्तयन्स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्^१मतिम् ।

शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः ॥१७॥

बड़े बुद्धिमान् और शास्त्रज्ञ वाल्मीकि जी सोचने लगे, तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ ने निज शिष्य भरद्वाज से यह कहा ॥१७॥

पादवद्धोऽक्षरशमस्तन्त्रीलयसमन्वितः ।

शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा ॥१८॥

देखो, यह श्लोक हमने मुख से शोकार्त हो निकाला है, इसमें चार पाद हैं, प्रत्येक पाद में समान अक्षर हैं और वीणा पर भी यह गाया जा सकता है। अतः यह यशोरूप हो अर्थान् यह प्रसिद्ध हो कर मेरा यश बढ़ावे, अपयश नहीं ॥१८॥

शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतां मुनेर्वाक्यमनुत्तमम् ।

प्रतिजग्राह संहृष्टस्तस्य तुष्टोऽभवद्गुरुः ॥१९॥

वाल्मीकि जी के इस वचन को सुन, उनके शिष्य भरद्वाज ने अति प्रसन्न हो वह श्लोक कण्ठाग्र कर लिया। इस पर गुरु जी शिष्य पर प्रसन्न हुए ॥१९॥

सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन्यथाविधि ।

तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वै मुनिः ॥२०॥

यथाविधि उस तीर्थ में स्नान कर और उनी बात को मन ही मन सोचते विचारते ऋषिप्रवर वाल्मीकि अपने आश्रम में लौट आए ॥२०॥

भरद्वाजस्ततः शिष्यां विनीतः श्रुत्वान्-मुनिः ।

कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगाम ह ॥२१॥

उनके पीछे पीछे अति नम्र और शास्त्रज्ञ भरद्वाज जी भी उन्का भरा कलसा लिये हुए, चलेआए ॥२१॥

१ श्रुत्वान्—शास्त्रवान्, सम्भृतयान्दा (गी०)

स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् १ ।

उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः ॥२२॥

आश्रम में पहुँच और देवपूजनादि धर्मक्रियाएँ कर तथा शिष्य सहित बैठ, ऋषिप्रवर विविध पौराणिक कथाएँ मनोयोग पूर्वक कहने लगे ॥२२॥

आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः ।

चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवम् ॥२३॥

इसी बीच में महातेजस्वी, चारमुखवाले, लोककर्ता ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से भेंट करने को उनके आश्रम में स्वयं पहुँचे ॥२३॥

वाल्मीकिरथ तं दृष्ट्वा सहस्रोत्थाय वाग्यतः ३ ।

प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः ॥२४॥

पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः ।

प्रणम्य त्रिविधचचैनं पृष्ट्वाऽनामयमच्ययम् ॥२५॥

ब्रह्मा जी को आते देख, वाल्मीकि जी झट उठ खड़े हुए और नम्र हो उनको प्रणाम किया और अत्यन्त आदर पूर्वक आसन,

१ धर्मवित्—कृतदेवपूजादिधर्मः (गो०) २ अन्याकथाः—पुराण-पारायणानि (गो०) ३ वाग्यतः—अतिसंभ्रमवशाद्यतवाक् मौनव्रतेन प्रयतोऽति नम्रः (रा०)

* बड़े लोगो को सामने देख लोग क्यों उठ खड़े होते हैं, इसका कारण एक श्लोक में यह बताया गया है ।

ऊर्ध्वं प्राणाह्युत्क्रमन्ते यूनःस्थविरत्रागते ।

प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते । (गो०)

अर्घ्य और पाद्यादि से उनकी यथाविधि पूजा कर, कुशल
पूछी ॥२४॥२५॥

अथापविश्य भगवानासने परमार्चिते ।

वाल्मीकये च ऋषये मंदिदेशासने नतः ॥२६॥

पूजा ग्रहण कर, ब्रह्मा जी आमन पर विगजे और वान्मीकि
जी से भी बैठ जाने को कहा ॥२६॥

ब्रह्मणा ममनुजातः साऽप्युपाविशदासने ।

उपविष्टं तदा तस्मिन्साक्षाल्लोकपितामहे ॥२७॥

ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर, महर्षि भी बैठ गए । जब माजान्
लोकपितामह ब्रह्मा जी आमन पर विराज चुके ॥२७॥

तद्गतैर्नैव मनसा वाल्मीकिर्व्यानमास्थितः ।

पापात्मना कृतंकष्टं वैरग्रहण बुद्धिना ॥२८॥

यस्तादृशं चारुख्यं क्रौञ्चं इत्यादकारणान् ।

शांचन्नेव मुहुः क्रौञ्चामृष श्लोकमिमं पृनः ॥२९॥

तब महर्षि का ध्यान उमी वान की ओर गया दि, पाते बर्हेन्दिप
ने आनन्द से बोलते हुए पक्षी का वैरबुद्धि ने यय व्यर्थ ही कर
डाला और क्रौञ्च की याद कर, वे दार दार दक्षी श्लोक-अर्थात्
"मानिपाद" पद, सोचने लगे ॥२८॥२९॥

जगावन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणाः ।

तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहस्य मुनिपृङ्खलम् ॥३०॥

इस प्रकार वान्मीकि को चिन्तानुष और शोधान्वित देख
ब्रह्मा जी ने हँस कर, उनसे कहा ॥३०॥

श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा ।

मच्छन्दादेव? ते ब्रह्मन्प्रवृत्तेयं सरस्वती ॥३१॥

हे ऋषिश्रेष्ठ ! यह तो तुमने श्लोक ही बना डाला है, इस पर कुछ विचार न कीजिए । मेरी ही प्रेरणा से या इच्छा से, वह श्लोक तुम्हारे मुख से निकला है ॥३१॥

रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वमृषिसत्तम ।

धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः ॥३२॥

वृत्तं कथय वीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम् ।

रहस्यं च प्रकाशं च यद्ब्रुवृत्तं तस्य धीमतः ॥३३॥

लोकों में धर्मात्मा, गुणवान् और बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्र जी के छिपे हुए अथवा प्रकट सम्पूर्ण चरितों का वर्णन, तुम वैसा ही करो जैसा कि, तुम नारद जी के मुख से सुन चुके हो ॥३२॥३३॥

रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः ।

वैदेह्याश्चैव यद्ब्रुवृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः ॥३४॥

तच्चाप्यविदितं सर्वं त्रिदितं ते भविष्यति ।

न ते वागवृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥३५॥

श्रीरामचन्द्र, श्रीलक्ष्मण और श्री जानकी जी के तथा राक्षसों के प्रकट अथवा गुप्त जो कुछ वृत्तान्त हैं—वे तुमको प्रत्यक्ष देख पड़ेंगे और इस काव्य में कहीं भी तुम्हारी कही कोई बात मिथ्या न होगी ॥३४॥३५॥

कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाय् ।

यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महोत्तले ॥३६॥

तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ।

यावद्रामायणकथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति ॥३७॥

तावदूर्ध्वमथश्च त्वं मल्लोकेषु निव्रत्स्यसि ।

इत्युक्त्वा भगवान्ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ॥३८॥

अतएव तुम श्रीरामचन्द्र की मनोहर और पवित्र कथा श्लोक-
बद्ध (पद्यों में) बनाओ। जब तक इस धराधाम पर पहाड़ और
नदियाँ रहेंगीं, तब तक इस लोक में श्रीरामचन्द्र जी की कथा का
प्रचार रहैगा और जब तक तुम्हारी रची हुई इस रामायण-कथा
का प्रचार रहैगा, तब तक तुम भी मेरे बनाए हुए लोकों में से जब
तक शरीर रहैगा तब तक पृथ्वी पर और तदनन्तर ऊपर के लोक
में स्थिर रहोगे। यह कह कर ब्रह्मा जी वहीं अन्नधान हो
गए ॥३६॥३७॥३८॥

ततः सशिष्यो भगवान्मुनिर्विस्मयमाययौ ।

तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः^१ श्लोकमिमं पुनः ॥३९॥

यह देख महर्षि को तथा उनके शिष्यों को बड़ा आश्चर्य
हुआ। महर्षि के शिष्य प्रसन्न हो, बार बार उन श्लोक को पढ़ने
लगे ॥३९॥

मुहुर्मुहुः प्रीयमाणा प्राहुश्च भृशविन्मिताः ।

समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो^२ महर्षिणा ॥४०॥

वे प्रसन्न हो और बड़े विस्मित हो, 'पापन में काने लगे जि.
महर्षि ने समान अक्षरों और चार पद वाले जिन श्लोक में
महाशोक प्रकट किया है, उसको बार बार पढ़ने में वह लगे श्लोक
ही बन गया है ॥४०॥

१ पुनर्जगुः—पुनःकथितवन्तः । २ गीतः—इष्ट. (गीत)

सोऽनुव्याहरणाद्भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः ।

यस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकेर्भावितात्मनः१ ।

कृत्स्नं रायायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यहम् ॥४१॥

तदनन्तर अपने मन में परमात्मा का चिन्तन करते हुए, वाल्मीकि जी की समझ में यह बात आई कि, इसी ढंग के श्लोकों में, मैं सारा रामायणकाव्य बनाऊँ ॥४१॥

उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमै-

स्ततः स रामस्य चकार कीर्त्तिमान् ।

समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो

यशस्करं काव्यमुदारधीर्मुनिः ॥४२॥

यह विचार, यशस्वी वाल्मीकि जी परम उदार और अति मनोहर श्रीरामचन्द्र जी का चरित, समान अक्षर वाले तथा यश को बढ़ाने वाले सैकड़ों श्लोकों में वर्णन करने लगे ॥४२॥

तदुपगतसमाससंधियोगं

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम् ।

रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं

दशशिरसश्च वयं निशामयध्वम् ॥४३॥

इति द्वितीयः सर्गः

सन्धियो समासों तथा अन्य व्याकरण के अंगों से सम्पन्न, मधुर और प्रसन्न करने वाले वाक्यों से युक्त, श्रीरामचरित एवं

१ भावितात्मनः—चिन्तितपरमात्मनः (गो०)

रावणवध रूपी काव्य को, महर्षि वाल्मीकि जी ने लोकोपकारार्थ
रचा ॥४३॥

वाल्मीकि का दूसरा सर्ग पूरा हुआ—

—:०:—

तृतीयः सर्गः

—:०:—

श्रुत्वा वस्तु^१ समग्रं तद्दमार्त्ता धर्मसंदिनम्^२ ।

व्वक्तमन्वंपते भूयो यद्रवृत्तं तस्य धीमतः ॥१॥

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का देने वाला बुद्धिमान श्रीगण-
जी का चरित, नारद जी के मुग्ध से सुन और इनने भी प्रथम
चरित जानने की कामना से, ॥१॥

उपस्पृश्योदकं सम्यङ्मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः ।

प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मैणा^३ न्वाक्षते गतिम्^४ ॥२॥

जल से हाथ पैर धो, आचमन कर, हाथ जोड़, गृणान्त पर
पूर्व की ओर मुख कर बैठे हुए महर्षि योगवल ने श्रीगणेशदेवता
के चरितो को देखने लगे ॥२॥

रामलक्ष्मणसीताभी राज्ञा दशरथेन च ।

सभार्येण सराष्ट्रं च यत्प्राप्तं तत्र तन्वतः ॥३॥

हसितं भाषितं चैव गतिर्या यच्च चैष्टितम् ।

तत्सर्वं धर्मवीर्येण^५ यथावन्संपश्यति ॥४॥

१ वस्तु—कथाशरीरं (गो०) २ धर्मसंदिनम्—धर्मसंदिनम् (गो०)

३ धर्मैणा—ब्रह्मप्रसादरूपधेयस्वाधनेन (गो०), योगवलेन (गो०) ४ गतिम्

—रामादिवृत्तं (गो०) ५ धर्मवीर्येण—ब्रह्मब्रह्मदशरथ (गो०)

स्त्रीतृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरता वने ।

सत्यसंधेन रामेण तत्सर्वं चान्ववेक्षितम् ॥५॥

श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण, सीता और कौशल्यादि सहित महाराज दशरथ का और सम्पूर्ण राज्यमण्डल का जो कुछ हँसना, बोलना, आदि वृत्तान्त और चरित थे और सत्यव्रत श्रीरामचन्द्र जी ने वन में जो कुछ चरित किए थे वे सब महर्षि वाल्मीकि को, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से, ज्यों के त्यों वे सबदेख पड़ने लगे ॥३॥४॥५॥

ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः ।

पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणात्रामलकं यथा ॥६॥

योगाभ्यास द्वारा महर्षि वाल्मीकि ने उन सब चरितों को जो पहले हो चुके थे, हथेली पर रखे हुए आँवले की तरह, देखा ॥६॥

तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महाद्युतिः ।

अभिरामस्य रामस्य चरितं कर्तुमुद्यतः ॥७॥

सब वृत्तान्तों को ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यथार्थतः (ज्यों का त्यों) जान लेने के पश्चात्, महाद्युतिमान महर्षि वाल्मीकि लोकाभिराम श्रीराम जी के चरितों को श्लोकबद्ध करने के लिए तत्पर हुए ॥७॥

कामार्थगुणसंबुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरम् ।

समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरम् ॥८॥

स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महर्षिणा ।

रघुनाथस्य चरितं चकार भगवानृषिः ॥९॥

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला, समुद्र की तरह रत्नों से भरा पूरा और सुनने पर मन को प्रसन्न करने वाला

श्रीरामचन्द्र जी का चरित जैसा कि नागद्वी जी से सुन चुके थे, वैसा ही, महर्षि वाल्मीकि जी ने बनाया ॥८॥६॥

जन्म रामस्य सुमहद्वोर्यं सर्वानुकूलताम् ।

लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां मन्यशीलताम् ॥१०॥

नानाचित्रकथाश्चान्या विश्वामित्रसहासने ।

जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम् ॥११॥

श्रीरामचन्द्र का जन्म, उनका पराक्रम, सब या उन पर प्रमत्त रहना, उनके किए लोक-प्रिय कार्य, उनकी जमा, सौम्यता, मन्य-शीलता-गुण-सम्पन्नता विश्वामित्र जी मनायना करना, विश्वामित्र का श्रीरामचन्द्र जी से नाना प्रकार की उथाण करना या उनका सुनना, धनुष का तोड़ना, जानकी जी के साथ उनका विवाह होना, ॥१०॥११॥

गमरामविवादं च गुणान्दाशरथेस्तथा ।

तथा रामाभिपेकं च कैकेय्या दुष्टभायताम् ॥१२॥

श्रीरामचन्द्र जी व परशुराम जी का वादविवाद, गंगामचन्द्र जी के गुण तथा उनके राज्याभिषेक की नैयागियाँ, कैकेयी की दुष्ट भावना ॥१२॥

विद्यानं चाभिपेकस्य गमस्य च विद्यामनम् ।

राज्ञः शोकविलापं च परलांकस्य चाश्रयम् ॥१३॥

तथा अभिषेक के कार्य में विघ्न का पटना, श्रीरामचन्द्र जी का वनगमन, महाराज दशरथ का विलाप तथा जनक के शोक गमन, ॥१३॥

१ दुष्टभायताम् = दुष्टदृष्टम् (गो०)

प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनम् ।

निषादाधिपसंवादं सूतोपावर्तनं तथा ॥१४॥

अयोध्यावासियों का शोकविह्वल होना, फिर उनका अयोध्या को लौट आना, निषादराज का संवाद, सुमन्त का लौटना ॥१४॥

गङ्गायाश्चापि संतारं भरद्वाजस्य दर्शनम् ।

भरद्वाजाभ्यनुज्ञानाच्चित्रकूटस्य दर्शनम् ॥१५॥

श्री रामचन्द्रादि का श्री गङ्गा जी के पार उतरना, भरद्वाज जी का दर्शन, उनकी अनुमति से चित्रकूट गमन, ॥१५॥

वास्तुकर्म^१ विवेशं च भरतागमनं तथा ।

प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम् ॥१६॥

वहाँ चित्रकूट में पर्णकुटी बना कर, और शास्त्रोक्त विधि से उसमें वास करना। भरत जी का श्रीराम जी को मनाने के लिए वहाँ आगमन, श्रीराम जी का पिता को जलदान, ॥१६॥

पादुकाग्र्याभिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनम् ।

दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा ॥१७॥

श्रीरामचन्द्र जी की पादुकाओं का भरत जी द्वारा अभिषेक। अर्थात् पादुकाओं का राजसिंहासन पर अभिषेक कर, नन्दिग्राम में रह भरत का अयोध्या का शासन करना, श्रीरामचन्द्र जी का दण्ड-कारण्य-गमन, विराध-वध, ॥१७॥

१ वास्तुकर्म—शास्त्रोक्तप्रकारेणयथोचितमन्दिरनिर्माणं (गो०)

दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णनापि संगतिम् ।

अनसूयासमास्यां च अङ्गरागस्य चार्पणम् ॥१८॥

शरभङ्ग का दर्शन, सुतीक्ष्ण से भेंट. अनुसूया जी ने मित्तना और उनके द्वारा सीता जी को अंगरान (उवटन) का दिया जाना ॥१८॥

अगस्त्यदर्शनं चैव जटायोरभिसंगमम् ।

पञ्चवद्व्याध्व गमनं शूर्पणख्याश्च दर्शनम् ॥१९॥

अगस्त्य जी का दर्शन, जटायु से भेंट. पंचवटी में जाना. शूर्पणखा का दिखाई पड़ना. ॥१९॥

शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा ।

वधं खरत्रिशरसोरुत्थानंः रावणस्य च ॥२०॥

शूर्पणखा से बातचीत और उसके विरूप करना. खर त्रिशर का मारा जाना (वध) रावण का (लड़ा में) निकलना. ॥२०॥

मारीचस्य वधं चैव वैदेह्या हरणं तथा ।

रावणस्य विलापं च गृध्ररार्जनिवर्तणम् ॥२१॥

मारीचवध, सीताहरण. धीमानचन्द्र जी का (सीता के रिश्वेग में) विलाप करना, जटायु की रावण द्वारा हिना. ॥२१॥

कवन्धदर्शनं चैव पम्पायाञ्चापि दर्शनम् ।

शवर्या दर्शनं चैव हनुमद्दर्शनं तथा ॥२२॥

कवन्ध का मिलना वा पंपानर देहना. शवरी का मिलना सीता हनुमान से भेंट होना. ॥ २२ ॥

१ उत्थानं—निर्गमनम् (गो०)

ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम् ।

प्रत्ययोत्पादनं सर्व्वं वालिसुग्रीवविग्रहम् ॥२३॥

ऋष्यमूक पर्वत पर गमन, सुग्रीव से समागम, सुग्रीव को वालिवध का विश्वास दिला, उनके साथ मैत्री का होना, वालि-सुग्रीव की लड़ाई, ॥ २३ ॥

वालिप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनम् ।

ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनम् ॥२४॥

वालि का वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक, तारा का विलाप, वर्षाऋतु में पर्वत पर श्रीरामचन्द्र जी का निवास, ॥ २४ ॥

कोपं राघवसिंहस्य वलानामुपसंग्रहम् ।

दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् ॥२५॥

सुग्रीव पर श्रीरामचन्द्र जी का कोप, वानरी सेना को जमा करना । वानरो को सीता जी का पता लगाने के लिए, भूमण्डल का वृत्तान्त समझा कर, भेजा जाना, ॥ २५ ॥

अंगुलीयकदानं च ऋक्षस्य विलदर्शनम् ।

प्रायोपवेशनं चापि संपातेश्चैव दर्शनम् ॥२६॥

श्रीरामचन्द्र जी का हनुमान जी को अंगूठी देना, वानरों का (स्वयंप्रभा के) विल में प्रवेश, उपवासादि कर समुद्रतट पर मृत्यु की आकांक्षा करना सम्पाति से भेंट होना, ॥ २६ ॥

पर्वतारोहणं चैव सागरस्य च लङ्घनम् ।

समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्यापि दर्शनम् ॥२७॥

पर्वत पर हनुमान जी का चढ़ना और मागर का नाचना।
समुद्र के कथनानुसार मैनाक पर्वत का समुद्रजल के ऊपर
दिखलाई पड़ना, ॥ २७ ॥

सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनम् ।

रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् ॥२८॥

छायाग्रहण करने वाली सिंहिका राक्षसी का वध, तथा जो
देखना, रात्रि में हनुमान जी का लङ्का में प्रवेश करना, करने
सोचना, ॥ २८ ॥

दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् ।

आपानभूमिगमनमवरोधस्य^१ दर्शनम् ॥२९॥

रावण को देखना, पुष्पक विमान को देखना, जहाँ रावण
शराव पीता था उस घर में हनुमान जी का जाना और पान्त पुत्र
अर्थान् रावण की स्त्रियों के रहने की जगह का व्यवलोकन, ॥२९॥

अशांकवनिकायानं सीतायारचापि दर्शनम् ।

राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटास्वप्नदर्शनम् ॥३०॥

अशोकवाटिका में जाकर सीता जी का दर्शन करना राक्षसियों
का सीता जी को डराना, त्रिजटा राक्षसी का स्वप्न देखना, ॥ ३० ॥

अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चाभिभाषणम् ।

मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च ॥३१॥

हनुमान जी का सीता जी को चिन्तना जी मन्त्रों देना, सीता
जी के साथ हनुमान जी की बातचीत, सीता जी का हनुमान जी
को चूड़ाना देना, हनुमान जी द्वारा अशोकवाटिका में मणि का
नष्ट किया जाना, ॥३१॥

राक्षसीविद्रवं चैव किङ्कराणां निवर्हणम् ।

ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनम् ॥३२॥

राक्षसियो का भागना और रावण के नौकरों का माना जाना, हनुमान जी का पकड़ा जाना तथा हनुमान जी के द्वारा गरज कर, लङ्का का दग्ध किया जाना, ॥३२॥

प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा ।

राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं^१ तथा ॥३३॥

समुद्र को पुनः नाँचना, मधुवन के मधु फलो को खाना, श्री रामचन्द्र जी को धारज बाँधाना तथा उनको चूड़ामणि का दिआ जाना, ॥३३॥

संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च वन्धनम् ।

प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनम् ॥३४॥

श्रीरामचन्द्र जी का समुद्र तट पर पहुँचना और नल नील का समुद्र पर पुल बाँधना, समुद्र के पार होना, रात्रि में लङ्का को घेरना, ॥३४॥

विभीषणेन संसर्गं वधोपायनिवेदनम् ।

कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिवर्हणम् ॥३५॥

रावण के भाई विभीषण का श्रीरामचन्द्र जी से समागम होना, और रावण के वध का उपाय बतलाना, कुम्भकर्ण का मारा जाना और मेघनाद का वध, ॥३५॥

[टिप्पणी—ऊपर के दो लोकों में वर्णित घटनाओं के क्रम में तारतम्य है। यथा—लंका के पूर्व समुद्र के इस पार विभीषण और

राम का समागम हुआ था, किन्तु यहाँ लंका अश्वमेध के परवान् दिग्गम गया है]

रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः^१ पुग ।

विभीषणाभिषेक च पुष्पकस्य निवन्दनम् ॥३६॥

रावण का नाश तथा शत्रुपुरी लङ्का से सीता जी का मिलना, विभीषण का लङ्का की राजगद्दी पर अभिषेक, पुष्पक विमान का विभीषण द्वारा श्रीरामचन्द्र जी को भेट में दिया जाना ॥३६॥

अयोध्यायाश्च गमनं भरतेन समागमम् ।

रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनम् ॥३७॥

श्रीरामचन्द्र जी का अयोध्यागमन, वहाँ भग्न से नमानन, श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक तथा वानरी सेना की विनष्टि ॥३७॥

स्वराष्ट्ररजनं चैव वैदेत्याश्च विमर्जनम् ।

अनागतं च यत्किञ्चिद्रामस्य वसुधातले ।

तच्चकारोत्तरे काव्यं वाल्मीकिर्भगवानृषिः ॥३८॥

एति तृतीयः सर्गः ॥

श्रीराम जी का, राज्य निहान्तनाशिन होने पर पलायन को प्रसन्न करना, वैदेही का त्याग, उनके अनिच्छित श्रीरामचन्द्र जी ने इस भूमण्डल पर श्रीराम जी जो चरित्त्वात्माने विभ, इन सब का वर्णन भी इस काव्य में भगवान् वाल्मीकि जी ने किया है ॥३८॥

बालकाण्ड का तीसरा सर्ग पूरा हुआ ।

१ मरेः पुर इति शौर्यादिभ्योऽङ्गिः उत्तरपञ्चमः (ने०००)

चतुर्थः सर्गः

—:०:—

प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवानृषिः ।

चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमात्मवान् ॥१॥

जब श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या के राज-सिंहासन पर आसीन हो चुके थे, तब महर्षि वाल्मीकि जी ने विचित्र पदों से युक्त इस सम्पूर्ण काव्य की रचना की ॥१॥

[टिप्पणी—इस श्लोक से स्पष्ट है कि, यह इतिहास श्रीरामचंद्र जी का समकालीन इतिहास है ।]

चतुर्विंशत्सहस्राणि श्लोकानामुक्तवानृषिः ।

तथा सर्गशतान्पञ्च पट् काण्डानि तथोत्तरम् ॥२॥

चौबीस हजार श्लोक, पाँच सौ सर्ग, छः काण्ड और साथ ही उत्तरकांड की भी रचना महर्षि ने की ॥२॥

कृत्वापि तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरम् ।

चिन्तयामास को न्वेतत्प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः ॥३॥

इस प्रकार जब वे छः कांड और उत्तरकांड बना चुके, तब वे विचारने लगे कि यह काव्य पढ़ावें किसे ? ॥३॥

तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः ।

अगृहीतां ततः पादौ मुनिवेषौ कुशीलवौ ॥४॥

वे यह सोच ही रहे थे कि, इतने में मुनिवेषधारी कुश और लव ने आकर महर्षि वाल्मीकि जी के दोनों चरण छुए ॥४॥

१ प्रयुञ्जीयात्—वाग्विषयं कुर्यात् इतिचिन्तयामास (गो०)

कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ ।

भ्रातरौ स्वरसंपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ ॥५॥

उन यशस्वी धर्मात्मा दोनों राजपुत्रों (श्रीरामचन्द्र जी के पुत्रों) को महर्षि ने देखा, जिनका कंठस्वर बड़ा मधुर था और जो उन्हींके आश्रम में उन दिनों वास करते थे ॥५॥

स तु मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ ।

वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राह्यत प्रभुः ॥६॥

बुद्धिमान और वेदों में निष्ठा रखने वाले जान कर, वेद के अर्थ को श्लोकों में प्रकट कर, महर्षि ने उन दोनों को यह राज्य पढ़ाया ॥६॥

काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् ।

पौलस्त्यवधमित्येव चकार चरितग्रतः ॥७॥

महर्षि ने सीताराम के सम्पूर्ण चरित और गवनावध के वृत्तान्त सहित, इस काव्य का नाम "पौलस्त्यवध" रखा ॥७॥

[टिप्पणी—रावण का जन्म पुनस्त्य ऋषि के वंश में हुआ था, जो रावण को पौलस्त्य भी कहते हैं। पौलस्त्यवध का मत रावण का वध करने का वर्णन किया गया, वह पौलस्त्यवध मध्य कहलाता है।]

पाठ्यं गेये च मधुरं प्रमाणैर्विभिरान्वितम् ।

जातिभिः सप्तगिवर्द्धं तन्दीनियत्तमन्विदम् ॥८॥

यह चरित पढ़ने तथा गाने में मधुर, तीनों प्रमाणों से युक्त (अर्थान् द्रुत, मध्य, विलंबित नहित), नानों रसों से युक्त और धीणादि रस कर, गाने योग्य है ॥८॥

हास्थशृङ्गारकारुण्यरौद्रवीरभयानकैः ।

वीभत्साद्भुतसंयुक्तं काव्यमेतदगायताम् ॥६॥

शृंगार, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर, वीभत्स, अद्भुत शान्त; इन नवरसों से युक्त काव्य को कुश और लव ने गाया ॥६॥

[नोट—किसी भी उच्चकोटि के काव्य ग्रंथ में इन नवरसों का होना आवश्यक माना जाता है ।]

तौ तु गान्धर्वतत्त्वज्ञौ मूर्च्छनास्थानकोविदौ ।

भ्रातरौ स्वरसंपन्नौ गन्धर्वाविव रूपिणौ ॥१०॥

वे दोनों राजकुमार जान विद्या में निपुण, ताल और स्वर को भली भाँति जानने वाले, स्वरसम्पन्न और गन्धर्वों की तरह सुन्दर थे ॥१०॥

रूपलक्षणसंपन्नौ मधुरस्वरभाषिणौ ।

विम्वादिवाद्धृतौ विम्ब्रौ रामदेहात्तथापरौ ॥११॥

सुस्वरूप और सुलक्षणों से सम्पन्न, मोठे कंठ वाले दोनों राजकुमार ऐसे जान पड़ते थे, मानो श्रीरामचन्द्र की देह के वे दो प्रतिविम्ब हो ॥११॥

तौ राजपुत्रौ कात्स्नर्येन धर्माख्यानमनुत्तमम् ।

वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ॥१२॥

प्रशंसनीय उन दोनों राजकुमारों ने अत्युत्तम धर्म को बतलाने वाले रामायण काव्य को वार वार पढ़ कर, कण्ठग्र कर डाला ॥१२॥

ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे ।

यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतुस्तौ समाहितौ ॥१३॥

१ वाचोविधेय —आवृत्तिबाहुल्येनवाग्बशवर्तिकृत्वा (गो०)

वे ऋषियों, ब्राह्मणों और साधुओं के मानने नामर्चान को
जैसा कि उन्हें बतलाया गया था, बड़ी सावधानी से गाया
करते थे ॥१३॥

महात्मानां महाभागो सर्वलक्षणलक्षितो ।

तो कदाचित्समेतानामृषीणां भावितान्मनाम् ॥१४॥

आसीनानां समीपस्थाविदं काव्यमगायताम् ।

तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे चाप्यपर्याकुलेक्षणाः ॥१५॥

एक बार अर्थात् श्री रामचन्द्र जी के अश्वमेधयज्ञ में, महात्मा
महाभाग तथा सर्वलक्षणयुक्त दोनों भाइयों ने प्रोद्-विचार-मन्त्र
महात्मा ऋषियों की सभा में बैठ कर, यह काव्य गाया, जिनको
सुन कर मुनियों के शरीर रोमाञ्चित हो गए और उनके नेत्रों में
आँसू भर आए ॥१४॥१५॥

साधु साध्विति चाप्यृचुः परं विस्मयमागताः ।

ते प्रान्तमनसः सर्वे मुनयो धर्मवन्मलाः ॥१६॥

आश्चर्य-चकित हो और "साधु साधु" कह कर : उन दोनों
राजकुमारों की प्रशंसा करने हुए वे धर्मवन्मल शक्ति-पुत्र-
नन्दित हुए ॥१६॥

प्रशशंसुः प्रशस्त्वयौ गायन्तो तौ कुशान्तवा ।

अहो गीतस्य साधुर्यं श्लोकानां च विमेषतः ॥१७॥

उन गाने हुए एवं प्रशंसा करने योग्य राजकुमारों की प्रशंसा
कर, वे बोले कि, गान बड़ा ही मधुर है और श्लोकों में साधुर्य
तो बहुत अधिक चढ़ चढ़ कर है ॥१७॥

१ भावितात्मनाम्—निश्चिन्तयित्वा (गो०)

चिरनिर्वृत्तमप्येतत्प्रत्यक्षमिव दर्शितम् ।

प्रविश्य तावुभौ सुष्ठु तथा भावमगायताम् ॥१८॥

क्योंकि बहुत दिनों को बीती घटनाएँ प्रत्यक्ष-सी दिखलाई पड़ती हैं। इस प्रकार ऋषियों द्वारा प्रशंसित दोनों राजकुमार उनके मन के भावानुकूल ॥१८॥

सहितौ मधुरं रक्तं^१ संपन्नं स्वरसंपदा ।

एवं प्रशस्यमानौ तौ तपःश्लाघ्यैर्महात्मभिः ॥१९॥

अति मधुर वाणी से अर्थात् राग से उस काव्य को गाने लगे। उसे सुन ऋषियों ने उन गाने वालों की बड़ी बड़ाई की ॥१९॥

संरक्ततरमत्यर्थं मधुरं तावगायताम् ।

प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां^२ संस्थितः कलश ददौ ॥२०॥

प्रसन्नो बल्कले कश्चिद्ददौ ताभ्यां महातपाः ।

*अन्यः कृष्णाजिनं प्रादान्मौञ्जीमन्यो महामुनिः ॥२१॥

वृसीमन्यः तदा प्रादात्कौपीनमपरो मुनिः ।

ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो मुनिः ॥२२॥

कापायमपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः

जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जुं मुदान्वितः ।

यसभाण्डमृषिः कश्चित्काष्ठभारं तथा परः ॥२३॥

१ रक्तं—रागयुक्तं (गो०)

२ संस्थितः=उत्थितः (गो०)

* २१, २२, २३, २४ और २५ का प्रथम चरण भूषण टीकाकार ने "अधिक पाठ" माना है।

कश्चित्कमण्डलुं प्रादाद्यज्ञमृत्रमथापरः ।

श्रौदुम्बरीं वृसीमन्यो जपमालामथापरः ॥२४॥

आयुष्यमपरे चोचुर्मुदा तत्र महर्षयः ।

आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितम् ॥२५॥

राग सहित मधुर कण्ठ से गाने वाले उन राजकुमारों के मधुर गान पर प्रसन्न हो, सुनने वालों ने से किसी ने उठा कर उनके कलसा, किसी ने बल्कल, किसी ने मृगचर्म, किसी ने मीसों मेखला, किसी ने कमण्डलु, किसी ने यज्ञोपवीत, किसी ने गन्ध का, किसी ने पत्रमाला, किसी ने कोषाणं, किसी ने गुत्ताणं, किसी ने कापाय वस्त्र, किसी ने चौर, किसी ने जटा बाधने का डोरा, किसी ने कोई यज्ञपात्र, और किसी ने माला दी। किसी ने प्रसन्न हो कर स्वस्ति और आयुष्मान् का जप प्रयोगों से सिद्धि दिव्या। इस आश्चर्यप्रद काव्य के प्रलेखों की प्रशंसा करते कहने लगे, ॥२०॥२१॥२२॥२३॥२४॥२५॥

परं कर्त्तव्यामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम् ।

अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतेषु क्रोवितां ॥२६॥

यह काव्य पीछे के कवियों का प्राथम स्वस्वर है और समाप्त समाप्त किन्ना गया है। यह ग्रन्थ जेना प्रदत्त है देना। विशारद इन दोनों राजकुमारों ने उसे गाते भा है।

आयुष्यं पुष्टिजनकं नर्यश्रुतिमनोहरम् ।

प्रशश्यमानो नर्यत्र कर्त्तादिगत्र गायतो ॥२७॥

यह काव्य श्रोताओं की आयु बढ़ाने वाला तथा मनोहर सुनाने करने वाला और सुनने से स्वर्ग गन्त होने वाला है। इस प्रकार मुनियों से प्रशंसित दोनों राजकुमारों ने, ॥२७॥

रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः ।

स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरौ च कुशीलवौ ॥२८॥

राजमार्ग पर जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी ने देखा और वे उन दोनों भाइयों कुश और लव को अपने निवास स्थान पर लिवा ले गए ॥२८॥

पूजयामास पूजार्हो रामः शत्रुनिवर्हणः ।

आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः ॥२९॥

शत्रु का नाश करने वाले श्रीराम जी ने डेरे पर उन सत्कार करने योग्य दोनों कुमारों का भली भाँति आदर सत्कार किया और आप सुवर्ण के दिव्य सिंहासन पर बैठे ॥२९॥

उपोपविष्टः सचिवैर्भ्रातृभिश्च परंतपः ।

दृष्ट्वा तु रूपसंपन्नौ तावुभौ नियतस्तदा ॥३०॥

मंत्रियों व भाइयो सहित बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी उन रूपवान और सुशिक्षित दोनों भाइयो को देख कर ॥३०॥

उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा ।

श्रूयतामिदमाख्यानमनयोर्देववर्चसोः १ ॥३१॥

लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत से कहने लगे कि, इन देव समान तेजस्वी, गायकों के गान किए हुए इतिहास को सुनो ॥३१॥

विचित्रार्थपदं सभ्यग्गायनौ समचोदयत् ।

तौ चापि मधुरं व्यक्तं स्वञ्चितायतनिःस्वनम् ।

तन्त्रीलयवदत्यर्थं विश्रुतार्थमगायताम् ॥३२॥

इसमे नाना प्रकार के विचित्र अर्थ मन्दि पद हैं, जो उन्होंने उन बालकों को अच्छे प्रकार गाने की प्राज्ञा दी। जो उन दोनों ने उस भली भाँति सीखे हुए काव्य जो बालों के साथ मेल मिला कर, ऊँचे स्वर में स्पष्ट गाया ॥३२॥

ह्लादयन्मवगात्राणि मनांमि हृदयानि च ।

श्रोत्राश्रयमुखं गयं तदवभौ जनमंमदि ॥३३॥

उस सभा में बैठे हुए लोगों के मन और हृदय इस गान से सुन कर अत्यन्त आह्लादित हो गए ॥३३॥

इमां मुनी पार्थिवलक्षगान्नितां

कुशीलवां चैव महातपस्विनां ।

समापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते

महानुभावं चरितं निबोधत ॥३४॥

श्रीरामचन्द्र जी भी कहने लगे कि, राजलक्ष्मी से पूछ लें वड़े तपस्वी कुश और लव ने प्रभावोद्धारक की चर्चा क्यों की है मुझे बहुत अच्छे जान पड़ते हैं ॥३४॥

ततस्तु तां रामवचःप्रचोदिता-

वगायतां मार्गत्रिधानमवदा ।

न चापि गमः पणिपद्गतः जनै-

र्बुभूपया नक्तमना बभूव ह ॥३५॥

इति चतुर्थः सर्गः

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी द्वारा प्रोत्साहित हो दोनों ने ही गायन विद्या की रीति जो मन्त्रा कर, वही बालों के साथ मेल मिला

सभा में बैठे श्रीरामचन्द्र उनका गान सुन धीरे धीरे उनके गान पर मोहित हो गए ॥३५॥

चौथा सर्ग पूरा हुआ

—*—

पञ्चमः सर्गः

—*—

सर्वा पूर्व^१ मियं येषामासीत्कृत्स्ना वसुंधरा ।

प्रजापतिमुपादाय^२ नृपाणां जयशालिनाम् ॥१॥

राजा वैवस्वत मनु आदि जयशाली राजाओं के समय से यह सप्तद्वीपात्मिका अखिल पृथ्वी, अपूर्व ही चली आती है, अथवा महात्मा मनु जी से लेकर जयशाली राजाओं के समय से इस सप्तद्वीपात्मिका समस्त पृथिवीमण्डल पर एकछत्र शासन रहा है ॥१॥

येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः ।

पष्टिः पुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन्^३ ॥२॥

जिस वंश में वे सगर नाम के राजा हुए, जिनके पीछे पीछे साठ हजार पुत्र चला करते थे और जिन्होंने समुद्र खोदा था (समुद्र का सागर नाम सगर राजा ही से हुआ है) ॥२॥

इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम् ।

महत्पुत्रसहस्राणां^४ रामायणमिति श्रुतम् ॥३॥

१ अपूर्व—दुलभ (गो०) २ उपादाय—आरभ्य (गो०) ३ पर्यवारयन्—परितोऽगच्छन् (गो०) ४ राममयनि ज पयतीति रामायणम् (तत्त्रदीपिका टीका)

उन महात्मा इक्ष्वाकुवंश वाले राजाओं के वंश में यह महा-
कथा उत्पन्न हुई है, जो रामायण के नाम से जगत् में प्रसिद्ध है
(अर्थात् इसमें उन्हीं सगर राजा के वंश वालों का इतिहास लिखा
गया है) ॥३॥

तदिदं वर्तयिष्यामि? सर्वं निखिलमादिनः ।

धर्मकामार्थसहितं श्रान्तव्यं मनस्यया ॥४॥

उसी रामायण की कथा को हम आद्यन्त (आदि से अन्त तक)
कहेंगे । अतः इसे ईर्ष्या अर्थात् डाढ़ को छोड़ अर्थात् भद्रा मन्त्रिन
सुनना चाहिए ॥४॥

कांसलो नाम मुदितः ४ स्फूर्तो ५ जनपदो महान् ।

निविष्टः सरयुतीरे प्रभूतधनधान्यवान् ॥५॥

सरयू नदी के तट पर सन्तुष्ट जनों में पूर्ण धनधान्य में भरा
पूरा, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त, कामल नामक एक बड़ा देव
था ॥५॥

अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्रुता ।

मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम् ॥६॥

१ वर्तयिष्यामि = प्रवर्तयिष्यामि (गो०) २ श्रान्तव्यं—अन्तर्हितव्यं
नाठेननिरीक्षितव्यं (गो०) ३ मनस्यया—अनुसन्ध्याया अर्थात् मनः (गो०)
४ मुदितः = सन्तुष्टजनः (गो०) ५ स्फूर्तो = सन्तुष्टः (गो०)

* इस श्लोक का भाव यह है कि, यह बड़ा बड़ा का का देवता होने के कारण, मुझे केवल इसके प्रशार करने का अधिकार है । अतः
विचारशीलों को इसे मेरा बनाया हुआ समझ, इस श्लोक में इस न कल्प
स्वाहिए, किन्तु भद्रा भक्ति के साथ इसे सुनना चाहिए ।

इसी देश में मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनु की बसाई हुई, तीनों लोको में विख्यात अयोध्या नामक एक नगरी थी ॥६॥

३आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी ।

श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥७॥

यह महापुरी बारह योजन (४८ कोस यानी ६६ मील) चौड़ी थी । (अर्थात् इस महापुरी का घेरा ६६ मील का था) नगरी में बड़ी सुन्दर लंबी और चौड़ी सड़कें थीं ॥७॥

राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता ।

मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः ॥८॥

वह पुरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़को से सुशोभित थी । सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाये जाते थे ॥८॥

तां तु राजा दशरथो महान्राष्ट्रविवर्धनः ।

पुरीमावासयामास दिव देवपतिर्यथा ॥९॥

इन्द्र की अमरावती पुरी की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था । इस पुरी में राज्य को खूब बढ़ाने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार वास करते थे, जिस प्रकार स्वर्ग में इन्द्र वास करते हैं ॥९॥

कवाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणाम् ।

सर्वशयन्त्रायुधवतीमुपेतां सर्वशिल्पिभिः ॥१०॥

१ आयता = दीर्घा (गो०) मण्डलप्रमाणमिदम् (गो०) २ यंत्राणि = शिलाक्षेपणी प्रभृतीनि । (गो०) ३ आयुधानि:—वाणदयः (गो०)

सामन्त^१राजसंघैश्च बलिकर्मभिरावृताम् ।

नानादेशनिवासैश्च वणिग्भिरुपशोभिताम् ॥१४॥

करद राजाओं और पहलवानों का यहाँ सदा जमाव रहता था । उस पुरी में अनेक देशों के लोग व्यापारादि धंधों के लिए बसते थे ॥१४॥

प्रासादै रत्नविकृतैः पर्वतैरुपशोभिताम् ।

कूटागारैश्च^२ संपूर्णामिन्द्रस्येवामरावतीम् ॥१५॥

रत्न खचित महलों और पर्वतों से वह पुरी शोभायमान हो रही थी । वहाँ पर स्त्रियों के क्रीडागृह भी बने हुए थे, जिनकी सुन्दरता देख यही जान पड़ता था, मानों यह दूसरी इन्द्र की अमरावती पुरी है ॥१५॥

चित्रा^३मष्टा^४पदाकारां वरनारीगणैर्युताम् ।

सर्वरत्नसमाकीर्णा विमानगृहशोभिताम् ॥१६॥

राजभवनों का सुनहला रंग था । नगरी में सुन्दर स्वरूपवती स्त्रियाँ रहती थीं । रत्नों के ढेर वहाँ लगे रहते थे और आकाश-स्पर्शी सतखने मकान (विमान गृह) जहाँ देखो वहाँ दिखलाई पड़ते थे ॥१६॥

गृहगाढामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशिताम् ।

शालितण्डुलसंपूर्णामिक्षुदण्डरसोदकाम् ॥१७॥

उसमें चौरस भूमि पर बड़े मजबूत और सघन मकान थे अर्थात् बड़ी सघन वस्ती थी । नगरी में साठी चाँवलो के ढेर

१ सामन्त=सामन्ता राज्यसन्विस्थाः-वैजयन्ती । २ कूटागारैः=स्त्रीणा-क्रीडागृहैः (गो०) ३ चित्रा—नानाराजगृहवर्ती (ग०) । ४ अष्टापदाकारां—अष्टापदं सुवर्णं तजलेन कृतः आकारः अलङ्कारो यस्या इत्येके (रा०)

लगे हुए थे और कुओं में गन्ने के रस जैसा नीठा जल भरा हुआ था ॥१७॥

दुन्दुभीभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिः ऋणवन्तथा ।

नादितां भृशमत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमाम् ॥१८॥

नगाड़े, मृदङ्ग, वीणा, पणव आदि बाजों की ध्वनि से नगरी सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वीतल पर तो इसकी टक्कर की दूसरी नगरी थी नहीं ॥१८॥

विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि ।

सुनिवेशितः श्वेमान्तां नरोत्तमसमावृताम् ॥१९॥

उस पुरी में, तप द्वारा स्वर्ग में गए हुए निरुद्ध पुण्य के विमानों जैसे सुन्दर घर बने हुए थे, जिनमें उनम कोटि के मनुष्य रहा करते थे ॥१९॥

ये च वाणान् विध्यन्ति विविक्तमपरावृत्तम् ।

शब्दवेध्यं च विततं लघुहस्ता विशाब्दाः ॥२०॥

उममें ऐसे भी वीर थे जो श्रमणाय और युद्ध लेख पर भागने वाले शत्रु का ऊर्ध्व बध नहीं करते थे, वे शब्दवेधी वादक बनते थे, जो वाण चलाने में बड़े कुर्बानि थे तथा जो शब्द-शास्त्र विद्या में पूर्ण निपुण थे ॥२०॥

१ सुनिवेशिताः—सुपुनिमिताः (गो०)

१ विततं—प्रलापितं च (गो०)

● पणव उस टोल को कहते हैं जो लम्बी से बहता जाय है।

† शब्दवेधी वादक वह हैं जो शब्द को शीघ्र से हँका कर और चतुर लक्ष्य को बंधे।

सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नर्दतां वने ।

हन्तारो निशितैर्वाणैर्वलाद्वाहुवलैरपि ॥२१॥

सिंह, व्याघ्र, वराह आदि वन्य पशु जो वनों में दहाड़ते हुए घूमा करते थे, उनको अस्त्रों शस्त्रों से तथा उनके साथ मल्लयुद्ध करके उनको मारने वाले भी वीर इस नगरी में अनेक थे । अर्थात् हस्तलाघवता में तथा शारीरिक बल में यहाँ के वीरगण बहुत चढ़े बढ़े थे ॥२१॥

तादृशानां सहस्रैस्तामभिपूर्णा महारथैः ।

पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा ॥२२॥

ऐसे हजारों महारथी वहाँ रहते थे । महाराज दशरथ ने इस प्रकार से अयोध्यापुरी बसायी थी ॥२२॥

तामग्निमद्भिर्गुणवद्विरावृतां

द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः ।

सहस्रद्वैः सत्यरतैर्महात्मभि-

र्महर्षिकल्पैर्ऋषिभिश्च केवलैः^१ ॥२३॥

इति पञ्चमः सर्गः ॥

अयोध्यापुरी में सहस्रों साग्निक (नित्य अग्निहोत्र करने वाले द्विज) सब प्रकार के गुणी, षडङ्ग वेद का पारायण करने वाले विद्वान् ब्राह्मण, सत्यवादी महात्मा और जप तप में निरत हजारों ऋषि महात्मा ही मुख्यतया वास करते थे ॥२३॥

पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

१ केवलैः—मुख्यैः (वि०) २ दीर्घदर्शी—चिरकालभाविपठार्थद्रष्टु गील-
मस्यास्तीति तथा (गो०)

षष्ठः सर्गः

—:०:—

तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित्सर्वसंग्रहः ।
 दीर्घदर्शीर महातेजाः पौरजानपदप्रियः ॥१॥
 इञ्चाकुणामतिरयो यज्वा धर्मरतां वशी ।
 महर्षिकल्पां राजर्षिन्निष्ठु लोकेषु विश्रुतः ॥२॥
 वलवान्निहतामित्रो मित्रवान्विजितेन्द्रियः ।
 धनैश्च संचयैश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमः ॥३॥
 यथा मनुर्महान्तेजा लोकम्य परिभिता ।
 तथा दशरथो राजा वसुञ्जगदपालयन् ॥४॥

उस अयोध्यापुरी में वेदवेदार्थ जानने वाले, सब वस्तुओं का संग्रह करने वाले (सत्य संग्रहः—धर्म का विचार रखने हुए सब का संग्रह करने वाले) सत्यप्रतिज्ञ, दूरदर्शी, महातेजस्वी, प्रजाप्रिय, इञ्चाकुवंश में महारथी, अनेक यज्ञ करने वाले, धर्म में रत सब को अपने वश में रखने वाले, महर्षियों के समान, राजर्षि, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, वलवान, शत्रुरहित सब के मित्र, इन्द्रियों को वश में रखने वाले, धनादि तथा अन्य वस्तुओं के सङ्ग्रह करने में इन्द्र और कुबेर के समान, महाराज दशरथ ने, अयोध्यापुरी में राज्य करते हुए इसी प्रकार प्रजापालन किया जिन प्रकार महाराज मनु किया करते थे ॥१॥२॥३॥४॥

तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता ।

पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रोखामरावती ॥५॥

सत्यसन्ध तथा त्रिवर्ग प्राप्ति (धर्म, अर्थ और काम) के लिए अनुष्ठानादि करने वाले महाराज दशरथ, अयोध्यापुरी का पालन उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार इन्द्र अपनी अमरावती पुरी का करते हैं ॥५॥

तस्मिन्पुरवरे हृष्टाः^१ धर्मात्मानां बहुश्रुताः ।

नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः ॥६॥

उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी में सुख से बसने वाले, धर्मात्मा बहुश्रुत अर्थात् बहुत सा जमाना देखे भाले हुए, अपने अपने धन से सन्तुष्ट, निर्लोभी तथा सत्यवादी पुरुष रहते थे ॥६॥

नाल्पसन्निचयः कश्चिदासीत्तस्मिन्पुरोत्तमे ।

कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थोऽगवाश्वधनधान्यवान् ॥७॥

उस उत्तम पुरी में गरीब यानी धनहीन तो कोई था ही नहीं, बल्कि कम धन वाला भी कोई न था, वहाँ जितने कुटुम्ब वाले लोग बसते थे, उन सब के पास धन, धान्य, गाय, बैल और घोड़े थे ॥७॥

[टिप्पणी—किन्तु अयोध्याकाण्ड के सर्ग ३२ में त्रिजट नामक एक दरिद्र ब्राह्मण की चर्चा की गई है । लिखा है—

कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः कचित् ।

द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः ॥८॥

अयोध्यापुरी में लम्पट, कायर, नृशंस, मूर्ख और नास्तिक आदमी तो ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलते थे ॥८॥

सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः ।

उदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः ॥६॥

अयोध्यावासी क्या स्त्री और क्या पुरुष सब के सब धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे । वे अपने शुद्ध और निष्कलङ्क आचरणों में निष्पाप महर्षियों से टक्कर लेते थे अर्थात् इन बातों में वहाँ के रहने वाले सब लोग ऋषियों के समान थे ॥६॥

नाकुण्डली नामुकुटी नासर्गी नाल्प^१ भोगवान् ।

नामृष्टो^२ नानुलिप्ताङ्गो नासुगन्धश्च विद्यते ॥१०॥

वहाँ ऐसा एक भी जन नहीं था जो कानों में कुण्डल, सिर पर मुकुट तथा गले में पुष्प माला धारण न करता हो और जो तेल, फुलेल, चन्दन न लगाता हो या जो हर प्रकार से सुखी न हो । ऐसा तो कोई भी न था जिसके (स्वच्छता न रहने के कारण) शरीर से बदबू निकलती हो ॥१०॥

नामृष्ट^२ भोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कथृक् ।

नाहस्ताभरणो वाऽपि दृश्यते नाप्यनात्मवान् ॥११॥

वहाँ ऐसा एक भी जन न था, जो अशुद्ध अन्न खाता हो (या अच्छे पदार्थ न खाता हो) या जो भूखे को अन्न न देता हो या जिसके वाजूबंद और हाथों में सोने के कड़ न हों या जिसने अपने-मन को न जीत रखा हो ॥११॥

१ अल्पभोगवान्—अल्पसुखवान् (गो०) २ नृष्टः—अन्यद्वन्द्वान-
शुद्धः (गो०) २ नानृष्टभोजी—अशुद्धान्नभोजी (शि०)

• बलिवैश्वदेवादि कर्म किए बिना अन्न शुद्ध नहीं होता ।

नानाहिताग्निर्नायज्वा^१ न क्षुद्रो वा न तस्करः ।

कश्चिदासीदयोध्यायां न च निर्वृत्तसंकरः^२ ॥१२॥

अयोध्या में न तो कोई पुरुष ऐसा ही था जिसे अग्निहोत्र बलि-वैश्वदेव करना चाहिए और न करता हो या जो लुब्धचेता यानी नीच स्वभाव का हो या चोर हो या वर्णसङ्कर हो ॥१२॥

स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः ।

दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे ॥१३॥

वहाँ पर तो अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों का नित्य अनुष्ठान करने वाले, जितेन्द्रिय दान और अध्ययनशील तथा दान (प्रतिग्रह) लेने में हिचकने वाले ब्राह्मण ही बसते थे ॥१३॥

न नास्तिको नानृतको न कश्चिद्वहुश्रुतः ।

नासूयको न चाऽशक्तो नाविद्वान्विद्यते क्वचित् ॥१४॥

अयोध्या में न तो कोई नास्तिक ही था, न कोई असत्यवादी था, न कोई अल्प अनुभवी था, न कोई परनिन्दाप्रिय था, न कोई अशक्त था और न कोई अशिक्षित मूर्ख ही था ॥१४॥

नापडङ्ग^३ विद्वान्नास्त्रतो^४ नासहस्रदः^५ ।

न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन ॥१५॥

वहाँ न कोई ऐसा ही द्विज था जो नित्य षडङ्गवेद का स्वाध्याय

१ नायज्वा—सोमयाग रहितश्च (शि०) २ निर्वृत्तसङ्कराः=निर्वृत्तः अनुष्ठितः, सङ्करः परस्त्रेवैवीजावापादिर्येन सः (गो०)

३ एकादश्यादितरहितः (वि०) । ४ नासहस्रदः=अबहुप्रदः (गो०)

५ षडङ्ग-वेद के छः अङ्गः—

१ शिक्षा, २ कल्प, ३ सूत्र, ४ निरुक्त, ५ ज्योतिष और ६ पिंगल ।

न करता हो या जो एकादशी आदि व्रतों को न रखता हो, या जो देने में कोताई करता हो या दीन हो वा पागल हो या व्यथित हो अथवा दुखिया हो ॥१५॥

कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान् ।

द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान् ॥१६॥

अयोध्या में बसने वाले-क्या पुरुष और क्या स्त्रियाँ- कोई भी निर्धन और कुरूप न थीं। उस पुरी में ऐसा भी कोई पुरुष नहीं देख पड़ता था, जो राजभक्त न होकर राजद्रोही हो ॥१६॥

वर्णेष्वग्रयचतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः ।

*कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः ॥१७॥

वहाँ तो चारों वर्ण वाले लोग बसते थे, जो देवता और अतिथियों का पूजन किया करते थे, जो कृतज्ञ, वदान्य, (वचन को पूरा करने वाले, दाननिपुण) शूरवीर और विक्रमशाली थे ॥१७॥

दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः ।

सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे ॥१८॥

सब लोग अयोध्यावासी दीर्घआयु वाले, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे थे ॥१८॥

* किए हुए उपकार को मानने वाले ।

क्षत्रं ब्रह्ममुखं? चासीद्वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः ।

शूद्राः स्वधर्मनिरतास्त्रीन्वर्णानुपचारिणः ॥१६॥

वहाँ के क्षत्रियगण ब्राह्मणों के आज्ञाकारी, वैश्यगण क्षत्रियों के अनुवर्ती (अर्थात् कहने में चलने वाले) और शूद्रगण अपने वर्ण के धर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के लोगों की सेवा करने वाले थे ॥१६॥

सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता ।

यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता ॥२०॥

महाराज दशरथ उसी प्रकार अयोध्यापुरी का पालन किया करते थे, जिस प्रकार उनके पूर्वज बुद्धिमान नरेन्द्र महाराज मनु कर चुके थे ॥२०॥

योधानामग्निकल्पानां पेशलानां? अमर्षिणाम् ।

संपूर्णा कृतविद्यानां गुहा केसरिणामिव ॥२०॥

अग्नि के समान तेजस्वी, सरलचित्त, शत्रु बल को न सहने वाले, अस्त्र शस्त्र परिचालन में निपुण योद्धाओं से अयोध्यापुरी उसी प्रकार भरी पूरी थी, जिस प्रकार पर्वत-कन्दराएँ सिंहों से भरी हुई होती हैं ॥२१॥

काम्बोजविषये जातैर्वाहीकैश्च हयोत्तमैः ।

वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः ॥२२॥

१ ब्रह्ममुखं=ब्राह्मणप्रधानमासीत् (गो०) २ पेशलानाम्—अकुटिलानाम् ।

इन्द्र के घोड़ों के समान कम्बोज, वाहीक, वनायुज और सिन्धु नदी के समीपवर्ती देशों में उत्पन्न हुए घोड़ों की जाति के उत्तमोत्तम घोड़ों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी ॥२२॥

विन्ध्यपर्वतजैर्बृत्तैः पूर्णा हैमवतैरपि ।

मदान्वितैरतिवलैर्मातङ्गैः पर्वतोपमैः ॥२३॥

ऐरावतकुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा ।

अञ्जानादपि निष्पन्नैर्वामनादपि च द्विपैः ॥२४॥

भद्रैर्मन्दैर्मृगैश्चैव भद्रमन्दमृगैस्तथा ।

भद्रमन्दैर्भद्रमृगैर्मृगमन्दैश्च सा पुरी ॥२५॥

नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैरचलसंनिभैः ।

सा योजने च द्वे* भूयः सत्यनामा प्रकाशते ॥२६॥

विन्ध्याचल और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न मद्मस्त, अति बलशाली तथा पहाड़ों की नाई ऊँचे और महापद्म कुल वाले ; भद्र, मन्द्र और मृग जाति वाले और इन तीनों जातियों के मिश्रित लक्षणयुक्त, भद्रमन्द्र, भद्रमृग और मृगमन्द्र—इन दो दो जातियों के मिश्रित लक्षण युक्त, पर्वताकार हाथियों से भरी दो दो योजन वाली, अपने नाम को सार्थक करने वाली अयोध्यापुरी थी । (अयोध्या का अर्थ है—जिससे कोई युद्ध न कर सके अर्थात् अजेया) ॥२३॥२४॥२५॥२६॥

[नोट—* श्लोक ७ सर्ग ५ में—“दशद्वेच योजनानि” कहकर अयोध्या का विस्तार १२ योजन का बतलाया जा चुका है । किन्तु इस श्लोक में वह विस्तार केवल २ योजन ही रह गया है ।]

यस्यां दशरथो राजा वसञ्जगदपालयत् ।
 तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान् ।
 शशास शमितामित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥२७॥

इस प्रकार की अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ रह कर राज्य करते थे । उस पुरी में महाराज दशरथ राज्य करते हुए उसी प्रकार शोभायमान होते थे, जिस प्रकार नक्षत्रों के बीच में चन्द्रमा ॥२७॥

तां सत्यनामां दृढतोरणार्गलां
 गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवाम् ।
 पुरीमयोध्यां नृसहस्रसंकुलां
 शशास वै शक्रसमो महीपतिः ॥२८॥

इति षष्ठः सर्गः ॥

अपने नाम को चरितार्थ करने वाली अयोध्यापुरी में, जो दृढ तोरण अर्गलादि से युक्त थी, जिसमें विचित्र विचित्र घर बने हुए थे और जिसमें हजारों धनी मनुष्य वास करते थे, महाराज दशरथ इन्द्र की तरह राज्य करते थे ॥२८॥

तत्रासीत् पिङ्गलोगार्ग्यस्त्रिजटोनाम वै द्विजः ।
 उच्छृत्ति र्वने नित्यं फालकुटाललाङ्गलः ॥२९॥
 तं वृद्धं तरुणी भार्या वालानादाय दारकान् ।
 अव्रवीद्ब्राह्मणं वाक्यं दारिद्र्येणाभिपीडिता ॥३०॥

(इनके अर्थ के लिए अयोध्याकाण्ड देखो)

इससे विदित होता है कि, यह बात नहीं थी कि अयोध्या में कोई गरीब या निर्धन था ही नहीं ।

बालकाण्ड का छठवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:०:—

सप्तमः सर्गः

—:०:—

तस्यामात्या गुणैरासन्निष्वाकोस्तु महात्मनः ।

मन्त्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः ॥१॥

उन इक्ष्वाकुवंशोद्भव महाराज दशरथ के मंत्रिगण, सर्वगुण सम्पन्न, सत्परामर्श देने में निपुण अपने स्वामी (अर्थात् महाराज दशरथ) के मन की गति को समझाने वाले, अर्थात् इशारों पर काम करने वाले और महाराज की सदा भलाई चाहने वाले थे ॥१॥

अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः ।

शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यगः ॥२॥

महाराज दशरथ के मंत्रिमण्डल में आठ मंत्री थे । वे सब बड़े यशस्वी, ईमानदार और नित्य (सदा) राजकार्य में निरत रहने वाले थे ॥२॥

धृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थो ह्यर्थसाधकः ।

अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽभवत् ॥३॥

आठ मन्त्रियो के नाम ये थे—(१) धृष्टि, (२) जयन्त (३) विजय (४) सिद्धार्थ (५) अर्थसाधक (६) अशोक (७) मन्त्रपाल और (८) सुमन्त्र ॥३॥

ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामृषिसत्तमौ ।

वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे ॥४॥

इनके अतिरिक्त ऋषिवर्य वसिष्ठ और वामदेव* महाराज को यज्ञादि कर्म कराते थे और मन्त्री भी उनके मतानुसार यज्ञादि कर्मों में उनका हाथ बँटाते थे ॥४॥

विद्याविनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः ।

परस्परानुरक्ताश्च नीतिमन्तो बहुश्रुताः ॥५॥

श्रीमन्तश्च महात्मानः^१ शास्त्रज्ञो दृढविक्रमाः ।

कीर्त्तिमन्तः प्रणिहिता^२ यथावचनकारिणः ॥६॥

तेजःक्षमायशःप्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिणः ।

क्रोधात्कामार्थहेतोर्वा न ब्रूयुरनृतं वचः ॥७॥

तेषामविदितं किञ्चित्स्वेषु नास्ति परेषु वा ।

क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम् ॥८॥

कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु^३ परीक्षिताः ।

प्राप्तकालं तु ते दण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि ॥९॥

१ महात्मावः = महाबुद्धयः (गो०)

२ प्रणिहिता = राज्यकृत्येष्वप्रमत्ताः (गो०)

३ सौहृदेषु = विषयेषु (गो०)

* किसी किसी रामायण की पुस्तक में सुयज्ञ, जाबालि, काश्यप, गौतम, मार्कण्डेय और कात्यन महर्षियों को भी कुलपरम्परा से महाराज बृहस्पति के मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित बतलाया है।

ये सब मन्त्री विद्या-विनय-सम्पन्न, सलज्ज, कार्य-कुशल, जितेन्द्रिय, आपस में सद्भाव रखने वाले, नीतिविशारद, बड़े अनुभवी, धन सम्पत्ति से भरे पूरे, बड़े बुद्धिमान, शास्त्र के मर्म को जानने वाले, बड़े पराक्रमी, प्रसिद्ध, (जागरूक) सावधान, राजा के राजकार्य में प्रमाद न करने वाले अथवा अपनी बात के धनी (जो कहें वही करें भी) तेजस्वी, क्षमावान्, यशस्वी और सदा प्रसन्न मुख हो वचन कहने वाले, क्रोध अथवा लोभवश हो कभी भूठ न बोलने वाले थे। अपनी प्रजा तथा दूसरे राज्यों की प्रजा का कोई भी हाल इन मन्त्रियों से छिपा न था, क्योंकि वे चरो द्वारा सब वृत्तान्त जानते रहते थे। वे व्यवहारकुशल, अपने अपने विभागों की पूर्ण जानकारी रखने वाले और अन्याय कार्य करने पर अपने पुत्र को भी न्यायोचित दंड देने वाले थे ॥१॥६॥७॥८॥

कोशसंग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे ? ।

अद्वितं वापि पुरुषं न विहिंस्युरदूपकम् ॥१०॥

वे सब मन्त्री अर्थ और सैन्य समय पर वेतनादि देने की व्यवस्था रख, सेना को अपने पक्ष में रखने वाले और निरपराध शत्रु को भी न सताने वाले थे ॥१०॥

वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रमनुष्ठिताः ।

शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम् ॥११॥

वे वीर और उत्साह को नियमित रखने वाले, राजनीति का व्यवहार करने वाले और राज्य में बसने वाले पवित्रात्माओं की सदा रक्षा करने वाले थे ॥११॥

ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं समवर्धयन् ।

सुतीक्ष्णदण्डाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलावलम् ॥१२॥

वे ब्राह्मणों और क्षत्रियों को बिना सताए ही राजकोष की वृद्धि करने वाले थे और अपराधी का बलावल विचार कर, कठोर दण्ड की व्यवस्था करने वाले थे ॥१२॥

शुचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानताम्^१ ।

नासीत्पुरे वा राष्ट्रे वा मृपावादी नरः क्वचित् ॥१३॥

कश्चिन्न दुष्टस्तत्रासीत्परदाररतो नरः ।

प्रशान्तं सर्वमेवासीद्द्राष्ट्रं पुरवरं च तत् ॥१४॥

मन्त्रियों में राज्यतन्त्र सम्बन्धी कामों में, परस्पर मतैक्य रहता था और (उनका आतङ्क ऐसा था कि) राजधानी और राज्य भर में न तो कोई भूठा और न कोई लम्पट और न दुराचारी मनुष्य रहने पाता था । राज्य भर में अमनचैन विराजता था ॥१३॥१४॥

सुवाससः सुवेषाश्च ते च सर्वे सुशीलिनः ।

हितार्थं च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा^२ ॥१५॥

वे लोग अच्छे वस्त्र पहनते थे और अच्छी वेशभूषा रखते थे तथा बड़े सुशील थे । वे सदा राजा का हित चाहने वाले और नीति पर बड़ा ध्यान देने वाले थे ॥१५॥

१ संप्रजानताम् = राज्यतन्त्रं विचारयतां (गो०)

२ न मचक्षुषा जाग्रतः = सर्वदा नीतिषु दत्तावधानाः (श्लो०)

गुरौ गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे ।

विदेशेष्वपि विख्याताः सर्वतां बुद्धिनिश्चयात् ॥१६॥

वे अच्छे गुणों के ग्राहक और प्रसिद्ध पराक्रमी थे । वे अपने बुद्धिबल से विदेशस्थ पुरुषों के भी गुण दोष ताड़ लेने के लिए विख्यात थे ॥१६॥

संधिविग्रहतत्त्वज्ञाः प्रकृत्या संपदान्विताः ।

मन्त्रसंवरणे युक्ताः श्लक्षणाः सूक्ष्मासु बुद्धिषु ॥१७॥

वे संधि और विग्रह की नीति के मर्मज्ञ, वास्तविक संपत्ति वाले राजकाज सम्बन्धी सलाह को छिपा कर रखने वाले, प्रतिभावान् और सूक्ष्म विचार करने के लिए सदा तत्पर रहते थे ॥१७॥

नीतिशास्त्रविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः ।

ईदृशैस्तैरमात्यैश्च राजा दशरथोऽनघः ॥१८॥

उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशासद्वसुंधराम् ।

अवेक्षमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण रञ्जयन् ॥१९॥

वे नीति शास्त्र के विशेषज्ञ और सदैव प्रियवचन बोलने वाले थे, इस प्रकार के गुणयुक्त मन्त्रिमण्डल से युक्त, महाराज दशरथ भेदिया पुलिस द्वारा राज्य के समाचार जान कर, प्रजा का मनोरंजन करते हुए, पृथ्वी पर राज्य करते थे ॥१८॥१९॥

प्रजानां पालनं कुर्वन्नधर्मं परिवर्जयन् ।

विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः ॥२०॥

वे अधर्म त्याग कर प्रजा का पालन करते थे । वे सत्य बोलने और दानशीलता के लिए तीनों लोको में विख्यात थे ॥२०॥

स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथिवीमिमाम् ।

नाध्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः ॥२१॥

वे पुरुषसिंह महाराज दशरथ इस पृथ्वी का शासन करते हुए, अपने से अधिक व अपने समान शत्रु को कभी न देखते थे ॥२१॥

मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापहतकण्ठकः ।

स शशास जगद्राजा दिवं देवपतिर्यथा ॥२२॥

अपने अधीनस्थ छोटे राजाओं से सम्मानित और मित्रों से युक्त महाराज दशरथ, अपने प्रताप से इन्द्र की तरह राज्य करते थे ॥२२॥

तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रहिते नियुक्तै-

वृत्तोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः ।

स पार्थिवो दीप्तिमवाप युक्त-

स्तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽर्कः ॥२३॥

इति सप्तमः सर्गः ॥

हितकारी, तेजस्वी, समर्थ, और अनुरागी मन्त्रियों सहित, महाराज दशरथ अयोध्या की रक्षा करते हुए, सूर्य की तरह तपते थे ॥२३॥

बालकाण्ड का सातवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:०:—

अष्टमः सर्गः

—:०:—

तस्य त्वेवंप्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः ।

सुतार्थं तप्यमानस्य नासोद्वंशकरः सुतः ॥१॥

ऐसे प्रतापी, धर्मज्ञ महाराज दशरथ के तपस्या करने पर भी उनके वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र न था ॥१॥

चिन्तयानस्य तस्येयं बुद्धिरासीन्महात्मनः ।

सुतार्थी वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम् ॥२॥

तब पुत्रोत्पत्ति का उपाय खोजते हुए महाराज दशरथ ने मन में सोचा कि, मैं पुत्र-प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ क्यों न करूँ ? ॥२॥

स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् ।

मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरेव कृतात्मभिः ॥३॥

इस प्रकार यज्ञ करने का भली भाँति निश्चय करके, परमजानी महाराज ने अपने बुद्धिमान् मन्त्रियों को बुलाया ॥३॥

ततोऽब्रवीदिदं राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम् ।

शीघ्रमानय मे सर्वान्गुरुंस्तान्सपुरोहितान् ॥४॥

सब मन्त्रियों में श्रेष्ठ सुमन्त्र से महाराज दशरथ ने कहा कि, तुम हमारे सब गुरुओं और पुरोहितों को शीघ्र बुला लाओ ॥४॥

ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः ।

समानयत्स तान्सर्वान्गुरुंस्तान्वेदपारगान् ॥५॥

शीघ्रगामी सुमन्त्र अति शीघ्र, उन सब वेदपराग गुरुओं को बुला लाए ॥५॥

सुयज्ञं वामदेवं च जावालिमथ काश्यपम् ।

पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ॥६॥

सुयज्ञ, वामदेव, जावालि, काश्यप और पुरोहित वसिष्ठ के अतिरिक्त अन्य उत्तम ब्राह्मणों को भी सुमन्त्र बुला ले गए ॥६॥

तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा ।

इदं धर्मार्थसहितं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् ॥७॥

उन सब का धर्मात्मा महाराज दशरथ ने सम्मान किआ और धर्म और अर्थ युक्त उनसे यह मधुर वचन कहे ॥७॥

मम लालप्यमानस्य^१ पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम् ।

तदर्थं हयमेधेन यक्षयामीति मतिर्मम ॥८॥

पुत्र के लिए बहुत दुःखी होने पर भी, मुझे पुत्रसुख प्राप्त नहीं हुआ । इसलिए पुत्रप्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की मेरी इच्छा है ॥८॥

तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ।

कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचार्यताम् ॥९॥

किन्तु मैं शास्त्र का विधि के अनुसार यज्ञ करना चाहता हूँ । आप लोग सोच विचार कर, बतलावे कि, हमारी इष्टसिद्धि किस प्रकार हो सकती है ॥९॥

ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् ।

वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम् ॥१०॥

महाराज के यह वचन सुन कर, सब उपस्थित ब्राह्मणों ने महाराज के विचार की प्रशंसा की और वसिष्ठादि बोले कि, आपने बहुत अच्छा कार्य करना विचारा है ॥१०॥

ऊचुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः ।

संभाराः संप्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम् ॥११॥

१ लालप्यमानस्य = भृशं विलपत. (गो०)

वे सब अत्यन्त प्रसन्न हो महाराज से बोले कि, यज्ञ की सामग्री एकत्र करके, घोड़ा छोड़िए ॥१०॥

सरय्वाम्बोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् ।

सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रानभिप्रेतांश्च पार्थिव ॥१२॥

सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञमंडप बनवाइए । हे राजन् !
ऐसा करने से आपका पुत्र-प्राप्ति का मनोरथ अवश्य पूरा
होगा ॥१२॥

यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता ।

ततः प्रीतोऽभवद्राजा श्रुत्वैतद्द्विजभाषितम् ॥१३॥

पुत्र-प्राप्ति के लिए आपने यह धर्माचरण विषयक उपाय बहूत
ही अच्छा विचारा है । उन ब्राह्मणों की ये बातें सुन महाराज
दशरथ प्रसन्न हुए ॥१३॥

अमात्यांश्चात्रवीद्राजा हर्षपर्याकुलेक्षणः ।

सम्भाराः सम्भ्रयन्तां मे गुरुणां वचनादिह ॥१४॥

और प्रसन्न हो मन्त्रियों को आज्ञा दी कि, मेरे गुरुओं के
आज्ञा के अनुसार यज्ञ की तैयारियाँ की जायें ॥१४॥

समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम् ।

सरय्वाम्बोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् ॥१५॥

उपाध्याय के साथ समर्थ रजकों सहित घोड़ा छोड़ा जाय
सरयू के तटपर यज्ञ के लिए स्थान ठीक किया जाय ॥१५॥

शान्तयश्चाभिवर्धन्तां यथाकल्पं यथाविधि ।

शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता ॥१६॥

विघ्ननिवारक क्रियाकलाप यथाक्रम और यथाविधि किए जाँय । क्योंकि, सब राजाओं के लिए अश्वमेध यज्ञ करना सहज काम नहीं है ॥१६॥

नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिन्क्रतुसत्तमे ।

छिद्रं हि मृगयन्तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः १ ॥१७॥

एक बात का ध्यान रखा जाय कि, इस यज्ञ की विधि पूरी करने में न तो कोई अपचार हो और न किसी को कष्ट होने पावे । यदि कहीं ऐसा हुआ तो छिद्रान्वेषी विद्वान् ब्रह्मराक्षस यज्ञ में बड़ा विघ्न खड़ा कर देंगे ॥१७॥

निहतस्य च यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति ।

तद्यथा विधिपूर्व मे क्रतुरेष समाप्यते ॥१८॥

विधिहीन यज्ञ करने से यज्ञकर्ता का नाश होता है । अतएव विधिपूर्वक यज्ञ पूरा होना चाहिए ॥१८॥

तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह ।

तथेति चाब्रुवन्सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् ॥१९॥

आप लोग ऐसा प्रयत्न करें, जिससे यह यज्ञ यथाविधि हो । यह कार्य आप ही लोग करने में समर्थ हैं । महाराज के इन वचनों को सुन सब मंत्री लोगों ने कहा—“जो आज्ञा,” ॥१९॥

पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्तं निशम्य ते ।

तथा द्विजास्ते धर्मज्ञाः वर्धयन्तो नृपोत्तमम् ॥२०॥

अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम् ।

विसर्जयित्वा तान्विप्रान्सचिवानिदमब्रवीत् ॥२१॥

१ ब्रह्मराक्षसः = अकृत प्रायश्चित्ता प्रति ग्राह्य प्रतिग्रहायाजनादि पापैः राक्षसत्वं प्राप्तः ब्राह्मणाः (गो०)

ऋत्विगिभरुपदिष्टोऽयं यथावत्क्रतुराप्यताम् ।

इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान्समुपस्थितान् ॥२२॥

विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविशं महाद्युतिः ।

ततः स गत्वा ताः पत्नीर्नरेन्द्रो हृदयप्रियाः ॥२३॥

ब्राह्मणगण भी महाराज को आशीर्वाद दे और महाराज से विदा माँग अपने अपने घरों को लौट गए । ब्राह्मणों को विदा कर महाराज अपने मंत्रियों से कहने लगे—ऋत्विजो ने जैसी विधि बतलाई है यह यज्ञ उसी विधि के अनुसार निर्विघ्न पूरा हो—इसका भार आप ही लोगों पर है । यह कह कर महाराज ने उपस्थित मंत्रियों को भी विदा किया और आप भी वहाँ से उठ कर रनिवास में चले गए और अपनी प्राणप्यारी रानियों से बोले ॥२०॥२१॥२२॥२३॥

उवाच दीक्षां विशत यक्ष्येऽहं सुतकारणात् ।

तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसाम् ।

मुखपद्मान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये ॥२४॥

इति अष्टमः सर्गः ॥

हम पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे, तुम भी यज्ञदीक्षा के नियमों का पालन करो । महाराज के मुख से यह प्यारे वचन सुन रानियाँ बहुत प्रसन्न हुई । इस सुखदायी संवाद को सुन रानियों के मुखकमल ऐसे सुशोभित हो गए, जैसे वसन्तकाल में खिले कमल के फूल शोभा को प्राप्त होते हैं ॥२४॥

बालकाण्ड का आठवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

नवमः सर्गः

—:०:—

एतच्छ्रुत्वा रहः^१ सूतो राजानमिदमब्रवीत् ।

ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः ॥१॥

यज्ञ की चर्चा सुन, सुमंत्र ने एकान्त में महाराज से कहा कि, मैंने ऋत्विजों से एक पुरानी बात सुनी है ॥१॥

सनत्कुमारो भगवान्पूर्वं कथितवान्कथाम् ।

ऋषीणां सन्निधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति ॥२॥

आपके सन्तान के वारे में, भगवान् सनत्कुमार ने ऋषियों से यह कथा कही थी ॥२॥

कश्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभण्डक इति श्रुतः ।

ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति ॥३॥

कश्यपपुत्र विभण्डक के ऋष्यशृङ्ग नामक एक पुत्र होगा ॥३॥

स वने नित्यसंनृद्धो मुनिर्वनचरः सदा ।

नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रनुवर्तनात् ॥४॥

वें वन ही में रहेंगे और सदा वन में पिता के पास रहने के कारण अन्य किसी पुरुष वा स्त्री को नहीं जान पावेंगे ॥४॥

द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः ।

लोकेषु प्रथितं राजन्विप्रैश्च कथितं सदा ॥५॥

ऋष्यशृङ्ग दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य, जो ब्राह्मणों के लिए
वतलाए गए हैं और लोक में प्रसिद्ध हैं, धारण करेंगे ॥५॥

[नोट—मेखला अजिन धारण करके गुरुकुल में नैष्ठिक ब्रह्मचारी के
रूप में रहना मुख्य ब्रह्मचर्य है और सन्तान कामना से ऋतु में ही पत्नी का
समागम करना गौण ब्रह्मचर्य है। पर है यह ब्रह्मचर्य ही। इन पर योगी
याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि, षोडशर्तुनिशः जीर्णां तस्मिन् युग्मासु संविशेत्।
ब्रह्मचार्यैव प्वारियाद्याश्चतलश्चवर्जयेत् ॥]

तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तते ।

अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम् ॥६॥

अग्नि और अपने यशस्वी पिता की सेवा करते हुए जब ऋष्य-
शृङ्ग को बहुत समय वीत जायगा ॥६॥

एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् ।

अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः ॥७॥

तत्र अङ्गदेश में महाबली और प्रतापी रोमपाद नाम का एक
प्रसिद्ध राजा होगा ॥७॥

तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा ।

अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वभूतभयावहा ॥८॥

कुछ दिनों बाद रोमपाद के अत्याचार से वर्षा बंद होने के
कारण महा विकराल सब प्राणियों को भयदायी दुर्भिक्ष पड़ेगा ॥८॥

अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःख समन्वितः ।

ब्राह्मणाञ्छ्रुतवृद्धांश्च समानीय प्रवक्ष्यति ॥९॥

तत्र वह राजा उस अनावृष्टि से दुःखी हो, सुविज्ञ एवं शास्त्र
ब्राह्मणों को बुलाकर पूछेगा ॥९॥

भवन्तः श्रुतधर्माणो लोकचारित्रवेदिनः ।

समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत् ॥१०॥

आप लोग वैदिकधर्म और लोकाचार के जानने वाले हैं ।
अतः आप हमारे उन दुष्कर्मों का इनके कारण वर्ण नहीं हो
रही है, प्रायश्चित्त बतलाइए ॥१०॥

वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः ।

विभण्डकसुतं राजन्सर्वोपायैरिहानय ॥११॥

राजा के इस प्रश्न को सुन, वेदपारग ब्राह्मण उत्तर देंगे कि,
राजन् ! जैसे बने वैसे विभण्डक मुनि के पुत्र ऋष्यशृङ्ग को यहाँ
ले आइए ॥११॥

आनीय च महीपाल ऋष्यशृङ्गं सुसत्कृतम् ।

प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः ॥१२॥

और उनको यहाँ लाकर उनका सत्कार कीजिए और यथा-
विधि उनके साथ अपनी कन्या शान्ता का विवाह कर
दीजिए ॥१२॥

तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते ।

केनोपायेन वै शक्य इहानेतुं स वीर्यवान् ॥१३॥

उनके इस कथन को सुन, राजा को यह चिन्ता होगी कि, वे
जितेन्द्रिय मुनि ऋष्यशृंग, किस उपाय से यहाँ लाए जा सकते
हैं ॥१३॥

ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान् ।

पुरोहितममात्यांश्च ततः प्रेष्यति सत्कृतान् ॥१४॥

बहुत सोच विचार के बाद राजा अपने पुरोहित और मंत्रियों को मुनि के पास जाने को कहेंगे ॥१४॥

ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः ।

न गच्छेयुर्ऋषेर्भाता अनुनेष्यन्ति तं नृपम् ॥१५॥

किन्तु, वे विनीत लोग मुनि के शाप के डर से भयभीत हो राजा से विनम्र भाव से निवेदन करेंगे कि, हम लोगो को, स्वयं वहाँ जाकर ऋष्यशृङ्ग को यहाँ लाने में ऋषि के शाप का डर लगता है ॥१५॥

वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तत्क्षमान् ।

आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति ॥१६॥

परन्तु हाँ, हम अन्य किसी ऐसे उपाय से उन मुनि को यहाँ ले आवेंगे कि, जिससे हमको दोष न लगेगा ॥१६॥

एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिर्ऋषेः सुतः ।

आनीतोऽवर्षयद्देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते ॥१७॥

राजा वेश्याओं द्वारा ऋषिपुत्र को बुलावेंगे और उनके आने पर वृष्टि होगी और राजा अपनी कन्या शान्ता को ऋषि-शृङ्ग को व्याह देंगे ॥१७॥

ऋष्यशृङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति ।

सनत्कुमारकथितमेतावद्गव्याहृतं मया ॥१८॥

वे ही ऋष्यशृङ्ग आपको पुत्र देंगे—यह बात मुझसे सनत्कुमार जी ने पहले ही कह रखी है और वही मैंने (आज) आपसे कही है ॥१८॥

अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत ।

यथर्ष्यश्रृङ्गस्त्वानीतो विस्तरेण त्वयोच्यताम् ॥१६॥

इति नवमः सर्गः ॥

यह सुन महाराज दशरथ प्रसन्न हुए और सुमन्त्र से बोले कि जिस प्रकार रोमपाद ने ऋष्यशृंग को बुलाया, वह हाल हमसे व्योरे वार कहो ॥१६॥

बालकाण्ड का नवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—❀—

दशमः सर्गः

—:०:—

सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा ।

यथर्ष्यश्रृङ्गस्त्वानीतः शृणु मे मन्त्रिभिः सह ॥१॥

महाराज दशरथ के इस प्रकार पूँछने पर, सुमन्त्र ने विस्तार पूर्वक वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । सुमन्त्र बोले, हे महाराज ! जिस उपाय से (रोमपाद के मन्त्रिवर्ग द्वारा) ऋष्यशृङ्ग लाए गए, सो मैं कहता हूँ । उसे आप मन्त्रियों सहित सुनिए ॥१॥

रोमपादमुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः ।

उपायो निरपायोऽयमस्माभिरभिमन्त्रितः ॥२॥

मन्त्री और पुरोहित रोमपाद से बोले कि, हमने निर्विघ्न कृत-कार्य होने का एक उपाय सोचा है ॥२॥

ऋष्यशृङ्गो वनचरस्तपः स्वाध्यायने रतः ।

अनभिज्ञः स नारीणां विषयाणां सुखस्य च ॥३॥

ऋष्यशृंग वन के रहने वाले और सदा तप और स्वाध्याय में निरत रहते हैं। उनको स्त्रीसुख और अन्य विषयों के सुख का कुछ भी अनुभव नहीं है ॥३॥

इन्द्रियार्थैरभिमतैर्नरचित्तप्रमाथिभिः ।

पुरमानाययिष्यामः क्षिप्रं चाध्यवसीयताम्? ॥४॥

अतः मनुष्यों को मुग्ध करने वाली इन्द्रियों के विषयों द्वारा उनको शीघ्र नगर में ले आवेगें। वस अब इसका शीघ्र निश्चय करना चाहिए ॥४॥

गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृताः ।

प्रलोभ्य विविधोपायैरानेघ्यन्तीह सत्कृताः ॥५॥

रूपवती और आभूषणों से बनी ठनी वेश्याएँ, भेजी जायँ। वे मुनि को तरह तरह के प्रलोभन दिखा सत्कारपूर्वक लीवा लावेगीं ॥५॥

श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम् ।

पुरोहितो मन्त्रिणश्च तथा चक्रुश्च तं तदा ॥६॥

यह सुन राजा ने पुरोहित को और पुरोहित ने मन्त्रियों को तदनुसार करने को कहा ॥६॥

वारमुस्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत् ।

आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन्यत्नं कुर्वन्ति दर्शने ॥७॥

इस प्रकार की बातें सुन वेश्याएँ वन में जहाँ ऋष्यशृंग का आश्रम था गई और आश्रम के निकट पहुँच कर, सदा आश्रम में रहने वाले ऋषिपुत्र से मिलने का प्रयत्न करने लगीं ॥७॥

ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः ।

पितुः स नित्यसन्तुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात् ॥८॥

क्योंकि ऋषिपुत्र और धीर स्वभाव ऋष्यशृङ्ग पिता के लालन पालन से सन्तुष्ट होकर कभी भी आश्रम के बाहिर नहीं निकलते थे ॥८॥

न तेन जन्मप्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना ।

स्त्री वा पुमान्वा यच्चान्यत्सत्त्वं नगरराष्ट्रजम् ॥९॥

तपस्वी ऋष्यशृङ्ग ने आज तक स्त्री, पुरुष, नगर व राज्य के अन्य जीवों को कभी नहीं देखा था ॥९॥

ततः कदाचित्तं देशमाजगाम यहच्छया १ ।

विभण्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद्वरांगनाः ॥१०॥

दैवयोग से एक दिन अपने आप जिस जगह वे वेश्याएँ उस वन में ठहरी हुई थीं, ऋष्यशृङ्ग पहुँचे और उन वेश्याओं को उन्होंने देखा ॥१०॥

ताश्चित्रवेपाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरैः ।

ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वा वचनमब्रुवन् ॥११॥

चित्र विचित्र वेश बनाए मधुर स्वर से गाती हुईं वे सब वेश्याएँ ऋषिपुत्र के पास जाकर बोलीं ॥११॥

कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मज्जातुमिच्छामहे वयम् ।

एकस्त्वं विजने घोरे वने चरसि शंस नः ॥१२॥

हे ब्रह्मदेव ! तुम किस जाति के हो, किसके लड़के हो तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ क्या करते हो ? तथा हम जानना

चाहती हूँ कि, तुम किस लिए इस निर्जन वन में अकेले घूमते फिरते हो ? ॥१२॥

अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः ।

हार्दात्तस्यं? मतिर्जाता ह्याख्यातुं पितरं स्वकम् ॥१३॥

ऋष्यशृङ्ग ने तो (आज के पूर्व) कभी (कमनीय कान्ति वाली) स्त्रियाँ (वन में) देखी ही न थीं—उनकी बुद्धि मोहित हो गई और वे उनके स्नेह में फँस अपने पिता का नाम बतलाने को तैयार हो गए ॥१३॥

पिता विभण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः ।

ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि ॥१४॥

मेरे पिता विभण्डक हूँ और मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा नाम ऋष्यशृङ्ग है। मेरा नाम और मैं जो कर्म यहाँ करता हूँ वह सब को विदित है ॥१४॥

इहाश्रमपदेऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः ।

करिष्ये त्रोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम् ॥१५॥

हे शुभानना! यहाँ से समीप ही मेरा आश्रम है। वहाँ चलिए, मैं विधिपूर्वक आपका सत्कार करूँगा ॥१५॥

ऋपिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरास वै ।

तदाश्रमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वाश्च तेन ताः ॥१६॥

ऋपिपुत्र के यह वचन सुन और उनके आश्रम को देखने की इच्छा से वे वेश्याएँ मुनि के साथ उनके आश्रम में गई ॥१६॥

१ हार्दात् = दर्शनजस्नेहाद् (गो०)

आगतानां ततः पूजामृषिपुत्रश्चकार ह ।

इदमर्घ्यमिदं पाद्यमिदं मूलमिदं फलम् ॥१७॥

उनके आश्रम में पहुँचने पर, ऋषिकुमार ने उनका सत्कार किया और अर्घ्य, पाद्य, फल, मूल उनको दिए ॥१७॥

प्रतिगृह्य तु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः ।

ऋषेर्भीतास्तु शीघ्रं ता गमनाय मतिं दधुः ॥१८॥

अस्माकमपि मुख्यानि फलानीमानि वै द्विज ।

गृहाण प्रति भद्रं ते भक्षयस्व च मा चिरम् ॥१९॥

तदनन्तर, वे वेश्याएँ ऋष्यशृङ्ग के पिता के डर से, वहाँ से शीघ्र लौटने की इच्छा से तरह तरह की सुस्वाद मिठाइयाँ, जो वे अपने साथ ले गई थीं, ऋषिपुत्र को देकर बोलीं—लीजिए, ये हमारे फल हैं, इन्हें आप स्वीकार कीजिए और इनको अभी चखिए ॥१८॥१९॥

ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमन्विताः ।

मोदकान्प्रदद्दुस्तस्मै भक्षयांश्च विविधाञ्शुभान् ॥२०॥

तदन्तर उन सब ने प्रसन्न हो मुनिकुमार को गले लगा, अति स्वादिष्ट तरह तरह के लड्डू तथा खाने की अन्य विविध वस्तुएँ उनको दीं ॥२०॥

तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते ।

अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम् ॥२१॥

उन्हें चखने पर भी ऋषिपुत्र (उन मिठाइयों को) फल ही समझते रहे। क्योंकि आजन्म वन में रहने के कारण, उन्होंने इसके पहले कभी कोई मिठाई तो खाई ही न थी, फिर वे

क्या समझें कि, मिठाई और फल में भी कुछ अन्तर होता है ॥२१॥

आपृच्छद्य च तदा विप्रं व्रतचर्यां निवेद्य च ।

गच्छन्ति स्मापदेशात्ताः भीतास्तस्य पितुः स्त्रियः ॥२२॥

वे वेश्याएँ, विभडक ऋषि के आश्रम में लौट कर आ जाने के भय से भूठमूठ व्रत का वहाना बना, आश्रम से चली आई ॥२२॥

गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः ।

अस्वस्थहृदयश्चासीद्दुःखात्संपरिवर्तते ॥२३॥

उन वेश्याओं के लौट आने पर, कश्यपपुत्र विभडक के सुत ऋष्यशृङ्ग दुःख के मारे उदास हुए ॥२३॥

ततोऽपरेद्युस्तं देशमाजगाम स वीर्यवान् ।

मनोज्ञा यत्र ता दृष्ट्वा वारमुख्याः स्वलंकृताः ॥२४॥

अगले दिन वे स्वयं फिर वहीं पहुँचे जहाँ पहले दिन उनका भेंट उन मन को मोहने वाली बनीठनी वेश्याओं से हुई थी ॥२४॥

दृष्ट्वैव च तदा विप्रमायान्तं हृष्टमानसाः ।

उपसृत्य ततः सर्वास्तास्तमूचुरिदं वचः ॥२५॥

ऋषि-कुमार को आते देख, वेश्याएँ प्रसन्न हुईं और उनके पास जाकर यह कहने लगीं ॥२५॥

एह्याश्रमपदं सौम्य ह्यस्माकमिति चाब्रुवन् ।

तत्राप्येष विधिः श्रीमान्विशेषेण भविष्यति ॥२६॥

वे बोलीं—महाराज ! आइए, हमारा आश्रम भी देखिए ।
अहाँ की अपेक्षा वहाँ आपका सत्कार अधिक होगा ॥२६॥

श्रुत्वा तु वचनं तासां मुनिस्तद्धृदयंगमम् ।

गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तदा स्त्रियः ॥२७॥

यह सुन ऋषि-कुमार के मन में उनके साथ जानें की इच्छा
उत्पन्न हुई और वेश्याएँ उनको अपने साथ ले आई ॥२७॥

तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन्महात्मनि ।

ववर्ष सहसा देवो जगत्प्रह्लादयंस्तदा ॥२८॥

मुनि के नगर में पहुँचते ही इन्द्रदेव ने रोमपाद के राज्य में
जल बर्साया जिससे सब प्राणी प्रसन्न हो गए ॥२८॥

वर्षेणैवागतं विप्रं विषयं स्वं नराधिपः ।

प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रीतः शिरसा च महीं गतः ॥२९॥

अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै नियतः सुसमाहितः ।

वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान्मां मन्युराविशेत् ॥३०॥

वर्षा होते ही रोमपाद ने मुनि को आया जान और मुनि के
पास जा, बड़ी नम्रता से उनको प्रणाम किया और यथाविधि
अर्घ्य पाद्यादि प्रदान कर, उनका पूजन किया और उनसे यह
वर माँगा कि, उनके पिता विभएडक रोमपाद पर कोप न
करें ॥२९॥३०॥

अन्तःपुरं प्रविश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथाविधि ।

शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवाप सः ॥३१॥

फिर रोमपाद, ऋषि-कुमार को रनिवास में लिवा ले गया और शान्ता का उनके साथ विधिपूर्वक विवाह कर, वह बहुत प्रसन्न हुआ ॥३१॥

एवं स न्यवसत्तत्र सर्वकामैः सुपूजितः ।

ऋष्यशृङ्गो महातेजाः शान्तया सह भार्यया ॥३२॥

इति दशमः सर्गः ॥

ऋष्यशृङ्ग भी शान्ता के साथ सब प्रकार से सुखी हो रोमपाद की राजधानी में रहने लगे ॥३२॥

बालकाण्ड का दसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

एकादशः सर्गः

—:०:—

भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम् ।

यथा स देवप्रवरः कथायामेवमब्रवीत् ॥१॥

इतना कह सुमंत्र ने महाराज दशरथ से कहा कि, हे राजन् ! इसके उपरान्त देवप्रवर सनत्कुमार ने जो और हितकर कहा नो भी सुन लीजिए ॥१॥

इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति मुधार्मिकः ।

राजा दशरथो नाम श्रीमान्सत्यप्रतिश्रवः ॥२॥

इक्ष्वाकु महाराज के वंश में बड़े धर्मात्मा और नत्यप्रतिज्ञ श्रीमान् महाराज दशरथ होंगे ॥२॥

अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति ।

पुत्रस्तु सोऽङ्गराजस्य रोमपाद इति श्रुतः ॥३॥

उनकी मैत्री अङ्गदेशाधिपति रोमपाद से होगी ॥३॥

तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः ।

अनपत्योऽस्मि धर्मात्मञ्शान्ताभर्ता मम क्रतुम् ॥४॥

आहरेत त्वयाज्ञप्तः संतानार्थं कुलस्य च ।

श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसापि विमृश्य च ॥५॥

अङ्गराज के पुत्र रोमपाद के पास महायशस्वी महाराज दशरथ जायेंगे और कहेंगे कि, मेरे सन्तान होने के लिए यज्ञ कराने को आप शान्ता के पति ऋष्यशृङ्ग को मेरे यहाँ भेजिए । यह सुन रोमपाद मन में सोच विचार कर, ॥४॥५॥

प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ता भर्तारिमात्मवान् ।

प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः ॥६॥

शान्ता के पति ऋष्यशृङ्ग को पुत्र सहित भेज देंगे । ऋष्यशृङ्ग को पाने से महाराज दशरथ की चिन्ता दूर होगी ॥६॥

आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ।

तं च राजा दशरथो यष्टुकामः कृताञ्जलिः ॥७॥

ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित् ।

यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः ॥८॥

मन में अत्यन्त प्रसन्न हो महाराज दशरथ उन ऋषिप्रवर को साथ लावेंगे और यज्ञ करने की अभिलाषा रखने वाले

दशरथ हाथ जोड़ कर धर्मात्मा ऋष्यशृङ्ग को यज्ञ कराने के लिए वरण करेंगे अर्थात् पुत्र के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए उनको यज्ञ में ऋत्विज बनावें ॥७॥८॥

लभते च स तं कामं द्विजमुख्याद्विशांपतिः ।

पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितविक्रमाः ॥९॥

इस यज्ञ के प्रभाव से अर्थात् फल स्वरूप महाराज दशरथ के अमित पराक्रमी चार पुत्र उत्पन्न होंगे ॥९॥

वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वलोकेषु विश्रुताः ।

एवं स देवप्रवरः पूर्वं कथितवान्कथाम् ॥१०॥

सनत्कुमारो भगवान्पुरा देवयुगं प्रभुः ।

स त्वं पुरुषशार्दूल तमानय सुसत्कृतम् ॥११॥

स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः ।

अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशम्य च ॥१२॥

वे पुत्र वंश बढ़ाने वाले और सारे नंसार में विख्यात होंगे । इस प्रकार सनत्कुमार जी ने यह कथा बहुत पूर्व अर्थात् इन चतुर्युगी के प्रथम सतयुग में कही थी । अतः हे नरशार्दूल ! आप स्वयं फौज और सवारियों सहित जाकर, उन ऋष्यशृङ्ग को आदर पूर्वक लिया लाइए । महाराज दशरथ ने सूत अर्थात् सुमन्त्र की कही यह कथा अपने गुरु वसिष्ठ जी को बुला कर सुनाई ॥१०॥११॥१२॥

वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञातो राजा संपूर्णमानसः ।

सान्तःपुरः सहामात्यः प्रयया यत्र न द्विजः ॥१३॥

जब वसिष्ठ जी ने भी अपनी अनुमति दे दी, तब महाराज दशरथ बड़ी लालसा के साथ, अपनी रानियों और मंत्रियों को अपने साथ ले वहाँ गए, जहाँ ऋष्यशृङ्ग रहते थे ॥१॥

वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः ।

अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुङ्गवः ॥१४॥

अनेक वनों और नदियों को पार कर महाराज धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहाँ वे मुनिप्रवर निवास करते थे ॥१४॥

आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठ रोमपादसमीपगम् ।

ऋषिपुत्रं ददर्शादौ दीप्यमानमिवानलम् ॥१५॥

वहाँ जाकर महाराज दशरथ ने अग्नि के समान तेजस्वी ऋष्यशृङ्ग को रोमपाद के समीप बैठा देखा ॥१५॥

ततो राजा यथान्यायं पूजां चक्रे विशेषतः ।

सखित्वात्तस्य वै राज्ञः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥१६॥

रोमपाद ने मित्रधर्म से प्रेरित हो, अत्यन्त प्रसन्नता के साथ न्यायानुकूल महाराज दशरथ का विशेष रूप से आदर सत्कार किया ॥१६॥

रोमपादेन चाख्यातमृषिपुत्राय धीमते ।

सख्यं संबन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत् ॥१७॥

उन बुद्धिमान् ऋष्यशृङ्ग से रोमपाद ने दशरथ के साथ अपनी मैत्री होने का वृत्तान्त कहा, जिसे सुन ऋष्यशृङ्ग भी प्रसन्न हुए और दशरथ की प्रशंसा की ॥१७॥

एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः ।

सप्ताष्ट दिवसान्राजा राजानमिदमब्रवीत् ॥१८॥

इस प्रकार बड़े सत्कार के साथ महाराज दशरथ वहाँ सात
प्राठ दिनों रह कर, रोमपाद से बोले ॥१८॥

शान्ता तव सुता राजन्सह भर्ता विशांपते ।

मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महदुद्यतम् ॥१९॥

हे राजन् ! यदि आपकी पुत्री शान्ता अपने पति के साथ
मेरी राजधानी में चली, तो बड़ी कृपा हो, क्योंकि एक बड़ा कार्य
आ उपस्थित हुआ है ॥१९॥

तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः ।

उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया ॥२०॥

यह सुन रोमपाद ने “ऐसा ही होगा” महाराज दशरथ से
कह, ऋष्यशृङ्ग से कहा कि, आप अपनी पत्नी सहित महाराज
के साथ जाइए ॥२०॥

ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा ।

स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया ॥२१॥

ऋष्यशृङ्ग जाने को राजा हो गए और राजा रोमपाद की
आज्ञा के अनुसार भार्या सहित महाराज दशरथ के साथ हो
लिए ॥२१॥

तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात्संश्लिष्य चोरसा ।

ननंदतुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान् ॥२२॥

तब वे दोनों राजा परस्पर हाथ जोड़ और बड़े स्नेह से एक
दूसरे को गले लगा, अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥२२॥

ततः सुहृदमापृच्छय प्रस्थितो रघुनंदनः ।

पौरुषेभ्यः प्रेषयामास दूतान्वै शीघ्रगामिनः ॥२३॥

तव महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद् से विदा हो, प्रस्थानित हुए और पहले ही शीघ्रगामी दूत अयोध्या भेजे ॥२३॥

क्रियतां नगरं सर्व क्षिप्रमेव स्वलंकृतम् ।

धूपितं सिक्तसंमृष्टं पताकाभिरलंकृतम् ॥२४॥

और उनको आज्ञा दी कि, तुम वहाँ पहुँच कर, राजधानी की सफाई और अच्छी सजावट करवाओ। सड़कें छिड़काना, सुगंधित द्रव्य (गुग्गुलादि) जलवाना और ध्वजाओं पताकाओं से नगरी को सजवाना ॥२४॥

ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम् ।

तथा प्रचक्रुस्तत्सर्व राज्ञा यत्प्रेषितं तदा ॥२५॥

महाराज दशरथ के लौटने का संवाद पा, अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए और जैसा महाराज ने दूतों द्वारा कहलाया था, तदनुसार नगरी को साफ कर, उन लोगों ने उसे सजाया ॥२५॥

ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेश ह ।

शङ्खान्दुभिनिर्वोषैः पुरस्कृत्य द्विजर्षभम् ॥२६॥

उस सजी सजाई साफ स्वच्छ नगरी में, मुनिवर को आगे कर गाजे बाजे के साथ महाराज ने प्रवेश किया ॥२६॥

ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा तं नागरा द्विजम् ।

प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणोन्द्रकर्मणा ॥२७॥

ऋष्यशृङ्ग का धूमधाम से नगर में इन्द्र समान पराक्रमी महाराज दशरथ द्वारा आगत स्वागत हुआ देख, समस्त पुरवासी बहुत प्रसन्न हुए ॥२७॥

अंतःपुरं प्रवेश्यै न पूजां कृत्वा च शास्त्रतः ।

कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात् ॥२८॥

अन्तःपुर में उनके (ऋष्यशृङ्ग के) जाने पर वहाँ भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किआ गया और महाराज ने मुनि-प्रवर के आगमन से अपने को कृतकृत्य माना ॥२८॥

अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागताम् ।

सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन् ॥२९॥

ऋषिप्रवर के साथ उनकी पत्नी बड़े बड़े नेत्र वाली शान्ता को आई देख, अन्तःपुरवासिनी सब रानियों ने बड़ा आनन्द मनाया ॥२९॥

पूज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः ।

उवास तत्र सुखिता कंचित्कालं सहर्त्विजा ॥३०॥

इति एकादशः सर्गः ॥

रानियों और विशेष कर महाराज दशरथ द्वारा पूजा जाकर, शान्ता, अपने पति ऋष्यशृङ्ग सहित रनवास में कुछ दिनों तक सुख से रही ॥३०॥

बालकाण्ड का ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ

द्वादशः सर्गः

ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित्सुमनोहरे ।

वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोऽभवत् ॥१॥

इस प्रकार कुछ समय बीतने पर जब मनोहर वसन्त ऋतु* आई, तब महाराज की इच्छा यज्ञ करने की हुई ॥१॥

ततः प्रसाद्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनम् ।

यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च ॥२॥

महाराज दशरथ ने शृङ्गीऋषि के पास जा, उनको प्रणाम किया और वंशवृद्धि के लिए होने वाले पुत्रेष्टि यज्ञ में, देवतुल्य ऋषि सार्थ कर्म कराने को वरण किया ॥२॥

तथेति च राजानमुवाच च सुसत्कृतः ।

सम्भाराः सम्भ्रयन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम् ॥३॥

तब ऋष्यशृङ्ग ने दशरथ से कहा कि, हम आपको यज्ञ करावेंगे, आप यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करवाइए और घोड़ा छुड़वाइए ॥३॥

ततो राजाब्रवीद्वाक्यं सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम् ।

सुमन्त्रावाहय क्षिप्रमृत्विजो ब्रह्मवादिनः १ ॥४॥

यह सुन महाराज दशरथ ने मन्त्रिप्रवर सुमन्त से कहा कि, वेदपाठ करने वाले ऋत्विजों को तुरन्त बुलवाइए ॥४॥

१ ब्रह्मवादिनः = वेदपाठव्यान (गो०)

* ऋतु, संस्कृत भाषा का शब्द है। यह पुलिङ्ग वाचक शब्द है। किन्तु कोई कोई हिन्दी भाषा वाले इसे स्त्री वाचक मानते हैं।

सुयज्ञं वामदेवं च जावालिमथ काश्यपम् ।

पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ॥५॥

सुयज्ञ, वामदेव, जावालि, काश्यप, पुरोहित वसिष्ठ तथा अन्य ब्राह्मणश्रेष्ठों को शीघ्र बुलवाइए ॥५॥

ततः सुमन्तस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः ।

समानयत्स तान्विप्रान्समस्तान्वेदपारगान् ॥६॥

फुर्तीले सुमन्त्र तुरन्त गये और वेदपारग उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला लाए ॥६॥

तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा ।

धर्मार्थसहितं युक्तं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् ॥६॥

तब धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन सब की पूजा कर उनसे धर्मार्थ रूप प्रयोजन युक्त मीठे वचन कहे ॥७॥

मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम् ।

तदर्थं ह्यमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥८॥

पुत्र के लिए बहुत तरसते रहने पर भी, मुझे सन्तान का सुख नहीं है । तदर्थ मैं चाहता हूँ कि, अश्वमेध यज्ञ करूँ ॥८॥

तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ।

ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान्प्राप्स्यामि चाप्यहम् ॥९॥

यह यज्ञ, मैं शास्त्र की विधि से करना चाहता हूँ । मुझे विश्वास है कि, ऋष्यशृङ्ग की कृपा से मेरा मनोरथपूर्णा होगा ॥९॥

ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् ।

वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्च्युतम् ॥१०॥

१ धर्मार्थं सहितं = धर्मार्थरूपप्रयोजन युक्तम् (गो०)

यह सुन कर, वसिष्ठप्रमुख ब्राह्मणों ने, महाराज के मुखारविन्द से निकली हुई इस बात की बड़ी प्रशंसा की ॥१०॥

ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च प्रत्यूचुर्नृपतिं तदा ।

सम्भाराः सम्भ्रयन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम् ॥११॥

ऋष्यशृङ्ग आदि ब्राह्मण दशरथ से कहने लगे कि, आप अब यज्ञ करने के लिए सब सामान एकत्र करवाइए और यज्ञ का घोड़ा छुड़वाइए ॥११॥

सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरोऽमितविक्रमान् ।

यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता ॥१२॥

जब आपकी बुद्धि पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसी धर्ममयी हो रही है, तब निश्चय ही आपके अमित पराक्रमी चार पुत्र उत्पन्न होंगे ॥१२॥

ततः प्रीतोऽभवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् ।

अमात्यांश्चाब्रवीद्राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम् ॥१३॥

ब्राह्मणों की कही इस बात को सुन, महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और मन्त्रियों को यह शुभ आज्ञा, हर्षित हो प्रदान की ॥१३॥

सम्भाराः सम्भ्रयन्तां मे गुरुणां वचनादिह ।

समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम् ॥१४॥

जैसी कि, इन गुरुवर्य ने आज्ञा दी है, तदनुसार आप लोग यज्ञ की सब तैयारियाँ करें और चार ऋत्विजो और चार सौ रक्षकों की देखरेख में घोड़ा छोड़ा जाय ॥१४॥

सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् ।

शान्तयश्वापि वर्तन्तां यथाकल्पं यथाविधि ॥१५॥

सरयू के उत्तर तट पर यज्ञशाला बनवाई जाय और विघ्न प्रशमनार्थ शास्त्रानुमोदित यथाक्रम शान्तिकर्म करवाए जायें ॥१५॥

शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता ।

नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिन्क्रतुसत्तमे ॥१६॥

यह यज्ञ कर तो सभी राजा सकते हैं, किन्तु इस उत्कृष्ट यज्ञ कार्य में किसी प्रकार का अपचार या किसी को कष्ट न होना चाहिए ॥१६॥

छिद्रं हि मृगयन्तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः ।

विघ्नितस्य हि यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति ॥१७॥

क्योंकि विद्वान् ब्रह्मराक्षस यज्ञकार्यो में छिद्रान्वेषण किया करते हैं और यज्ञ की विधि में अपचार होने से यज्ञ करने वाला तुरन्त नाश को प्राप्त होता है अर्थात् मर जाता है ॥१७॥

तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते ।

तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेऽपिह ॥१८॥

अतः अपनी शक्ति भर ऐसा उशाय कीजिए, जिससे यह यज्ञ विधि पूर्वक सुसम्पन्न हो ॥१८॥

तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् ।

पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्तमकुर्वत ॥१९॥

महाराज के ये वचन सुन, मन्त्रि लोग बहुत प्रसन्न हुए और उनके आज्ञानुसार कार्य करने में प्रवृत्त हुए ॥१९॥

ततो द्विजास्ते धर्मज्ञमस्तुवन्पार्थिववर्षभम् ।

अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जगुर्यथागतम् ॥२०॥

तदनन्तर वे ब्राह्मण, धर्मात्मा नृपतिश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा कर और विदा हो, वहाँ से अपने अपने घरों को चले गए ।

गतेष्वथ द्विजाश्रयेषु मन्त्रिणस्तान्नराधिपः ।

विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महाद्युतिः ॥२१॥

इति द्वादशः सर्गः ॥

ब्राह्मणों के चले जाने पर, महाद्युतिमान् महाराज ने मन्त्रियों को विदा किन्ना और स्वयं भी अन्तःपुर में चले गए ॥२१॥

बालकाण्ड का बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:०:—

त्रयोदशः सर्गः

—*—

पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरोऽभवत् ।

प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान् ॥१॥

एक वर्ष बाद पुनः वसन्तऋतु के आने पर, पुत्रप्राप्ति के लिए प्रतापी महाराज ने यज्ञ करने की इच्छा की ॥१॥

अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः? प्रतिपूज्य च ।

अब्रवीत्प्रश्रितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम् ॥२॥

वसिष्ठ जी को प्रणाम कर और उनका यथाविधि पूजन कर पुत्रप्राप्ति के लिए उनसे महाराज दशरथ नम्रता पूर्वक बोले ॥२॥

यज्ञो मे प्रीयतां ब्रह्मन्यथोक्तं मुनिपुङ्गव ।

यथा न विघ्नः क्रियते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम् ॥३॥

हे मुनिश्रेष्ठ ! प्रसन्नतापूर्वक और विधिपूर्वक यज्ञ आरम्भ कीजिए, जिससे यज्ञ के किसी भी कर्म में विघ्न न हो ॥३॥

भवान्स्निग्धः सुहृन्मह्यं गुरुश्च परमो महान् ।

बोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः ॥४॥

क्योंकि आपका मेरे ऊपर अविच्छिन्न स्नेह है और आप मेरे केवल हितैषी ही नहीं, प्रत्युत मेरे सब से बड़े गुरु भी हैं। इस उपस्थित यज्ञ का जो बड़ा भारी बोझ है, उसे आप सन्हालिये; अर्थात् इस महान् यज्ञ का सारा भार आपके ही ऊपर है ॥४॥

तथेति च स राजानमब्रवीद्द्विजसत्तमः ।

करिष्ये सर्वमेवैतद्भवता यत्समर्थितम् ॥५॥

यह सुन द्विजपुङ्गव वसिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा—आपके कथनानुसार ही हम सब कार्य करेंगे ॥५॥

ततोऽब्रवीद्द्विजान्बृहन्न्यजकर्मसु निष्ठितान् ।

स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव बृद्धान्परमधार्मिकान् ॥६॥

कर्मान्तिकाञ्छिल्पकरान्वर्धकीन्वनकानपि ।

गणकाञ्छिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान् ॥७॥

तथा शुचीञ्शास्त्रविदः पुरुषान्मुबहुश्रुतान् ।

यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात् ॥८॥

तदुपरान्त वसिष्ठ जी ने वृद्ध और यज्ञकार्य में कुशल ब्राह्मणों को, परम धार्मिक और वृद्ध स्थापत्य विद्या (भवन-निर्माण-कला) में कुशल कारीगरो को, शिल्पियों को, अथवा लेखकों को, नटों और नाचने वालियों को, बहुत जानने वाले और नन्हे

(ईमानदार) शास्त्रवेत्ता ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि, आप लोगों के लिए महाराज की आज्ञा है कि, यज्ञकार्य में मनोयोग पूर्वक आप लग जायँ ॥६॥७॥८॥

इष्टका बहुसाहस्राः शीघ्रमानीयतामिति ।

औपकार्याः क्रियन्तां च राज्ञां बहुगुणान्विताः ॥६॥

बहुत सी ईंटे शीघ्र एकत्र कर, आने वाले महमान राजाओं के ठहरने के लिए तथा अन्य सम्भ्रान्त लोगों के ठहरने के लिए सब तरह के सुवास के (आराम के) अलग अलग घर बना कर तैयार करो ॥६॥

भक्ष्यान्नपानैर्वहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः ॥१०॥

तथा पौरजनस्यापि कर्तव्या बहुविस्तराः ।

इसी प्रकार सैकड़ों सुन्दर मकान अच्छी अच्छी जगहों पर ब्राह्मणों के ठहरने के लिए बनाओ, जिनमें भोजनादि की सब आवश्यक सामग्री रहें ॥१०॥

ब्राह्मणावसथाश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभाः ।

आवासा बहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थिताः ॥११॥

नगर निवासियों के ठहरने के लिए भी बड़े बड़े लंबे चौड़े मकान बनाए जायँ, जिनमें भोजन और सब प्रकार की सामग्रियाँ लाकर यथास्थान सजा दी जायँ ॥११॥

तथा जानपदस्यापि जनस्य बहुशोभनम् ।

दातव्यमन्नं विधिवत्सत्कृत्य न तु लीलया ॥१२॥

देहातियों के लिए भी सब सुविधाओं के मकान बनें । एक बात का ध्यान रखना कि, जिसको अन्नादि भोजन सामग्री दी

जाय, उसे सत्कार पूर्वक दी जाय, देते समय किसी का भी अनादर न किआ जाय ॥१२॥

सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः ।

न चावजा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशाद्दपि ॥१३॥

ऐसा प्रबन्ध हो कि, किसी वर्ण का भी मनुष्य, जो यज्ञ में आवे, उसके वर्ण के अनुरूप उसका यथोचित सत्कार किआ जाय । स्नेह अथवा द्वेष वश या, (खबरदार !) किसी का भी अनादर न किआ जाय ॥१३॥

यज्ञकर्मसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा ।

तेषामपि विगेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम् ॥१४॥

यज्ञशाला के काम में जो कारीगर काम करें उनकी भी विशेष रूप से यथाक्रम खातिरदारी की जाय ॥१४॥

ते च स्युः सगृभृताः सर्वे वसुभिर्भोजनेन च ।

यथा सर्वं सुविहितं न किञ्चित्परिहीयते ॥१५॥

यथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतिस्निग्धेन चेतसा ।

ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन् ॥१६॥

सेवाकार्य में निरत नौकरों को उनकी मजदूरी और भोजन दिआ जाय, जिससे वे मन लगा कर अपना अपना काम करें और अपना काम न छोड़ दें । आप सब लोग मन लगा कर प्रीति पूर्वक उनके साथ वर्तें जिससे सब काम ठीक ठीक हों । यह मुन वे सब वसिष्ठ जी के समीप जा उनसे बोले ॥१५॥१६॥

१ कामक्रोधवशात् = स्नेहद्वेषवशात् (गो०)

२ वसुभिः = धनैश्च (गो०)

यथोक्तं तत्सुविहितं न किञ्चित्परिहीयते ।

ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् ॥१७॥

आपने जैसी आज्ञा दी है, तदनुसार ही हम सब करेंगे, किसी काम में त्रुटि न होने देंगे । तब वसिष्ठ जी ने सुमन्त्र को बुलवाया और उनसे बोले ॥१७॥

निमन्त्रयस्व नृपतीन्पृथिव्यां ये च धार्मिकाः ।

ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वैश्याञ्छूद्रांश्चैव सहस्रशः ॥१८॥

समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् ।

मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यविक्रमम् ॥१९॥

निष्ठितं सर्वशास्त्रेषु तथा वेदेषु निष्ठितम् ।

तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतम् ॥२०॥

इस पृथिवीमण्डल पर जो धार्मिक राजा हैं. उनके पास निमन्त्रण भेज दो । सब देशों के बहुत से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को भी सादर बुला लाओ । सत्यपराक्रमी, शूरशिरोमणि, वेद और सब शास्त्रों में निष्णात महाभाग मिथिलाधिपति को स्वयं जाकर आदर सहित लिवा लाओ ॥१८॥१९॥२०॥

[टिप्पणी—यज्ञ एक धर्मकार्य है—अतः इसमें जो राजा मग्मलित होने को आवें, वे धार्मिक विचार वाले हों । ऐसे कृत्यों में अधार्मिकों की उपस्थिति विघ्न कारक मानी गई है ।]

पूर्वसंवन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते ।

तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनम् ॥२१॥

सदृत्तं देवसंकाशं स्वयमेवानयस्व ह ।

तथा केकयराजानं वृद्धं परमधार्मिकम् ॥२२॥

श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं त्वमिहानय ।

अङ्गेश्वरं महाभागं रोमपादं सुसत्कृतम् ॥२३॥

त्रयस्यं राजसिंहस्य समानय यशस्विनम् ।

प्राचीनान्सिन्धुसौवीरान्सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान् ॥२४॥

दाक्षिणात्यान्नरेन्द्रांश्च समस्तानानयस्व ह ।

सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले ॥२५॥

तानानय ततः क्षिप्रं सानुगान्सहवान्धवान् ।

वसिष्ठवाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितस्तदा ॥२६॥

उनको इस घराने का पुराना ज्योहारी जान उन्हें सब से पहले बुलाने के लिए हम तुमसे कहते हैं । मदैव प्रिय बोलने वाले, सदाचारी, देवतुल्य काशीनरेश को भी सत्कारपूर्वक लिवा लाओ । इसी प्रकार बृद्ध और परम धार्मिक केकयराज, जो महाराज के ससुर हैं, पुत्र सहित यहाँ लिवा लाओ । अङ्गदेशाधिपति यशस्वी महाभाग रोमपाद को, जो महाराज के मित्र हैं, सत्कार पूर्वक लिवा लाओ । इनके अतिरिक्त पूर्व देश के, सिन्धु देश के, सौवीर के, दक्षिण देश के राजाओं तथा पृथ्वीमण्डल के अन्य अच्छे-अच्छे राजाओं को, भाई बंधु, नौकर चाकर, सहित दून भेज कर शीघ्र बुलवालो । तब वसिष्ठ जी के इस कथन को सुन, सुमन्त्र ने तुरन्त ॥२१॥२२॥२३॥२४॥२५॥२६॥

व्यादिशत्पुरुषांस्तत्र राजामानयने शुभान् ।

स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रयया मुनिशासनात् ॥२७॥

देश देश के राजाओं को बुलाने के लिए दूत भेजे और स्वयं भी वसिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार, राजाओं को लाने के लिए रवाना हुए ॥२७॥

सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महीक्षितः ।

ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय च धीमते ॥२८॥

सुमन्त्र वसिष्ठ जी के बतलाए विशिष्ट राजाओं को बुलाने के लिए शीघ्रता से रवाना हो गए । यज्ञ कार्य में लगे हुए मनुष्य बुद्धिमान् महर्षि वसिष्ठ जी से ॥२८॥

सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुयकल्पितम् ।

ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान्सर्वानिदमब्रवीत् ॥२९॥

जो कुछ यज्ञ सम्बन्धा का काम करते वह सब कह दिया करते थे । तब प्रसन्न हो वसिष्ठ जी उन सब से कहते ॥२९॥

अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिल्लीलयापि वा ।

अवज्ञया कृतं हन्याद्दातारं नात्र संशयः ॥३०॥

देखना, किसी को हँसी दिल्लीगी में भी कोई वस्तु का अनादर करके मत देना; क्योंकि अनादर करके देने वाले दाता का निश्चय ही नाश होता है ॥३०॥

ततः कैश्चिद्दहारात्रैरुपयाता महीक्षितः ।

बहूनि रत्नान्यादाय राजा दशरथस्य हि ॥३१॥

इसके कुछ ही दिनों बाद अनेक प्रकार के रत्नों की भेंटें ले लेकर, राजा लोग महाराज दशरथ की यज्ञशाला में आ पहुँचे ॥३१॥

ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमब्रवीत् ।

उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात् ॥३२॥

तब वसिष्ठ जी राजाओं को आए हुए देख, प्रसन्न हो, महाराज दशरथ से बोले—आपके आदेशानुसार सब राजा लोग आ गए हैं ॥३२॥

मया च सत्कृताः सर्वे यथार्हं राजसत्तमाः ।

यज्ञियं च कृतं राजन्पुरुषैः सुसमाहितैः ॥३३॥

हे महाराज ! मैंने भी उनका यथोचित सत्कार कर दिया और यज्ञ की भी सब तैयारियाँ हो चुकी हैं ॥३३॥

निर्यातु च भवान्यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात् ।

सर्वकार्मैरुपहृतैरुपेतं वै समन्ततः ॥३४॥

द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम् ।

तथा वसिष्ठवचनादृष्यशृङ्गस्य चोभयोः ॥३५॥

अब आप भी यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला में पधारिए और यज्ञ की सब सामग्री को देखिए कि, सेवकों ने कैसी उत्तमता और सावधानता से सब सामान सजा कर रखा है । तब वसिष्ठ जी और ऋष्यशृङ्ग दोनों के कहने से ॥३४॥३५॥

शुभे दिवसनक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः ।

ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः ॥३६॥

ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभस्तदा ।

यज्ञवाटगताः सर्वे यथाशास्त्रं यथाविधि ।

श्रीमांश्च सहपत्नीभी राजा दीक्षामुपाविशत् ॥३७॥

इति त्रयोदशः सर्गः ॥

शुभ दिन और नक्षत्र में महाराज दशरथ यज्ञशाला में गए । तब वसिष्ठ प्रमुख सब ब्राह्मणों ने ऋष्यशृङ्ग को आगे कर यज्ञशाला में यज्ञकार्य यथाविधि आरम्भ किया और महाराज ने रानियों सहित यज्ञदीक्षा ली ॥३६॥३७॥

बालकाण्ड का तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

चतुर्दशः सर्गः

—:०:—

अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन्प्राप्ते तुरङ्गमे ।

सरय्वाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत ॥१॥

एक वर्ष बाद जब यज्ञ का घोड़ा चारों ओर घूमकर आ गया, तब महाराज दशरथ का अश्वमेधयज्ञ सरयू के उत्तर तट पर होने लगा ॥१॥

ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य कर्म चक्रुर्द्विजर्षभाः ।

अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ॥२॥

ऋष्यशृङ्ग प्रमुख ब्राह्मणश्रेष्ठों ने महाराज दशरथ से अश्वमेधयज्ञ करवाया ॥२॥

कर्म कुर्वन्ति विधिवद्वाजका वेदपारगाः ।

यथाविधि यथान्यायं^१ परिक्रामन्ति शास्त्रतः ॥३॥

वेद जानने वाले तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण, (ऋत्विज) कल्पसूत्रों में कथित यज्ञ की विधि के अनुसार सब कार्य करवाते थे ॥३॥

प्रवर्ग्यः^२ शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः ।

चक्रुश्च विधिवत्सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः ॥४॥

^१ यथान्याय = यथा मीमांसम् । (गो०)

^२ शास्त्रतः = कल्पसूत्रानुसारेण (गो०)

^३ प्रवर्ग्य = 'देवा वै सन्नमासत' इत्यादि प्रवर्ग्य ब्राह्मणोक्तं कर्म विशेषम् (गो०)

अभिपूज्य ततो हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथाविधि ।

प्रातःसवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवाः ॥५॥

प्रवर्ग्य और उपसद् (यज्ञीयकर्म विशेष) दोनों कर्म शास्त्रानुसार विधिवत् करके, बड़ी प्रसन्नता के साथ तत् तत् कर्मों में पूज्य देवताओं की पूजा ब्राह्मणों ने की और दूसरे दिन श्रेष्ठ मुनियों ने प्रातः सवन (यज्ञीय विधि विशेष) करके, ॥४॥५॥

ऐन्द्रश्च विधिवद्गतो राजा चाभिष्टुतोऽनघः ।

माध्यंदिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम् ॥६॥

विधि पूर्वक इन्द्र का भाग दे और पाप दूर करने वाली सोमलता का रस निकाल, मध्याह्नसवन किआ गया ॥६॥

तृतीयसवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ।

चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा तथा ब्राह्मणपुङ्गवाः ॥७॥

फिर महाराज और ब्राह्मणों ने शास्त्रानुसार यथाविधि तीसरा सायंसवन किआ ॥७॥

न चाहुत्तमभूत्तत्र स्वलितं वापि किञ्चन ।

दृश्यते ब्रह्मवत्सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥८॥

इस यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाई । पूर्ण ज्ञानी यज्ञ करवाने वालों की उपस्थिति के कारण, कोई आहुति भूल से अथवा निष्प्रयोजन नहीं दी गई, जो कर्म किआ गया वह कल्याणकारक हो किआ गया ॥८॥

न तेष्वहःसु श्रान्तो वा क्षुधितो वाऽपि दृश्यते ।

नाविद्वान्ब्राह्मणस्तत्र नाशतानु^१चरस्तथा ॥९॥

१ अशतानुचरः = शतशिष्यरहितः (गो०)

यज्ञकाल में कोई भी ब्राह्मण भूखा प्यासा नहीं रहा । न तो वहाँ कोई ऐसा ही ब्राह्मण देख पड़ता था जो मूर्ख हो और न वहाँ कोई ऐसा ही ब्राह्मण था, जिसके पास सैकड़ों शिष्य न थे ॥६॥

ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते ।

तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाः भुञ्जते तथा ॥१०॥

यही नहीं कि वहाँ केवल ब्राह्मणों ही को भोजन दिखा जाता था, प्रत्युत शूद्र, नौकर, चाकरों को भी भोजन मिलता था । इनके अतिरिक्त तपस्वी, संन्यासी भी भोजन पाते थे ॥१०॥

वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रियो बालास्तथैव च ।

अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते ॥११॥

बूढ़े, रोगी, स्त्रियाँ और बालक वारम्बार भोजन करते थे, तो भी भोजन कराने वाले उकताते न थे ॥११॥

दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च ।

इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः ॥१२॥

महाराज की आज्ञा थी कि दो दो—अतः भण्डारी लोग अन्न और वस्त्रादि का ढान बढ़ी उदारता से जी खोल कर, करते थे ॥१२॥

अन्नकूटाश्च बहवो दृश्यन्ते पर्वतोपमाः ।

दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा ॥१३॥

कच्चे पक्के अन्न के ढेर पहाड़ों जैसे ऊँचे लगे रहते थे जो जैसा माँगता उसे नित्य वैसा ही भोजन दिखा जाता था ॥१३॥

नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा ।

अन्नपानैः सुविहितास्तस्मिन्यज्ञे महात्मनः ॥१४॥

१ श्रमणाः = दिगम्बराः । 'श्रमण वातवचनाः' इतिनिषण्टु अथवा चतुर्थमाश्रमं प्राप्ताः श्रमणा नाम ते स्मृताः ।" इति स्मृतिः । (गो०)

अनेक देशों से आए हुए स्त्री पुरुषों के झुण्ड के झुण्ड नित्य भोजन से तृप्त होते थे ॥१४॥

अन्नं हि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः ।

अहो तृप्ताः स्म भद्रं त इति शुश्राव राघवः ॥१५॥

स्वादिष्ट भोजनो से तृप्त हुए ब्राह्मणों के आशीर्वाद सूचक शब्द महाराज को सर्वत्र सुन पड़ते थे ॥१५॥

स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान्पर्यवेपयन् ।

उपासते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः ॥१६॥

वधों और गहनो से सजे हुए अन्य राजाओं के नौकर चाकर ब्राह्मणों की सब प्रकार सेवा करते और उन लोगों को परिचर्या के लिए मणिकुण्डलधारी अन्य लोग थे ॥१६॥

कर्मन्तरे तदा विप्रा हेतुवादान्वहनपि ।

प्राहुः स्म वाग्मिनो धीराः पृग्स्परजिगीषया ॥१७॥

एक सवन समाप्त होने पर और दूसरा सवन आरम्भ होने के बीच जो समय बचता, उसमें एक दूसरे को पाण्डित्य में हरा देने की इच्छा से विद्वान् ब्राह्मण परस्पर प्रश्नार्थ करतें थे ॥१७॥

दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः ।

सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥१८॥

उस यज्ञ में कुशल ब्राह्मण शास्त्रानुकूल नित्य प्रति यत्नपूर्वक करते कराते थे ॥१८॥

नापडङ्गविद्वान्नीनात्रतां नावहुश्रुतः ।

सदस्यास्तस्य वै रातो नावादकुशला द्विजाः ॥१९॥

इस यज्ञ में ऐसा ब्राह्मण न था, जो वेद और वेदाङ्गवित् न हो, और महाराज का कोई ऐसा सदस्य न था, जो व्रतधारी न हो, अथवा बहुश्रुत न हो अथवा बोलचाल में कुशल न हो ॥१६॥

प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन्पङ्क्तैः खवादिरास्तथा ।

तावन्तो विल्वसहिताः पर्णिनश्च तथाऽपरे ॥२०॥

श्लेष्मातकमयस्त्वेको देवदारुमयस्तथा ।

द्वावेव विहितौ तत्र बाहुव्यस्तपरिग्रहौ ॥२१॥

उस यज्ञ में लकड़ी के अँकवार भर मोटे इक्कीस खंभे गाड़े गए थे । इनमें के ६ बेल के, ६ खैर के, ६ ढाक के, १ लिसोड़े का और २ देवदार के थे ॥२०॥२१॥

कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदैः ।

शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालङ्कृताऽभवन् ॥२२॥

यज्ञकर्म में चतुर शास्त्रियों ने यज्ञशाला की शोभा बढ़ाने के लिए इन खंभों को सोने के पत्रों से मढ़वा दिया था ॥२२॥

एकविंशतियूपास्ते एकविंशत्यरत्नयः ।

वासोभिरेकविंशद्भिरेकैकं समलंकृताः ॥२३॥

इक्कीसों खंभे इक्कीस अरत्तिञ्ज ऊँचे थे और सब कपड़ों से सजाए गए थे ॥२३॥

विन्यस्ता विधिवत्सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढाः ।

अष्टाश्रयः सर्व एव श्लक्ष्णरूपसमन्विताः ॥२४॥

यथाविधि शिल्पियों ने बना, इनको बड़ी मजबूती से पृथिवी में गाड़ा था, जिससे हिले नहीं, और ये खंभे बड़े चिकने और अठपहलू बनाए गए थे ॥२४॥

आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च भूषिताः ।

सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि ॥२५॥

इन खंभों पर वस्त्र लपेटे गए थे और ये पुष्प और चन्दन से सजाए गए थे । उस समय इनकी शोभा आकाश-मण्डल में सप्तर्षियों की तरह देख पड़ती थी ॥२५॥

इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः ।

चितोऽग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शुल्बकर्मणिः ॥२६॥

स चित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलैर्द्विजैः ।

गरुडो रुक्मपद्भो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः ॥२७॥

जितनी बड़ी और जितनी अपेक्षित थीं उतनी ईंटे तैयार होने पर शिल्पनिपुण ब्राह्मणों ने उन ईंटों से अग्निकुण्ड बनाया । राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चतुर ब्राह्मणों ने सुवर्ण की ईंटों से पंख बना अठारह प्रस्तार का एक गरुड़ बनाया ॥२६॥२७॥

नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य दैवतम् ।

उरगाः पक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥२८॥

जैसी शास्त्रों में विधि बतलाई गई है, तदनुसार जिम देवता के लिए जो पशु चाहिए वह बाँधा गया । यथाविधि सर्प और पक्षी भी यज्ञशाला में लाए गए ॥२८॥

शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ।

ऋत्विग्भिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा ॥२६॥

ऋत्विजों ने घोड़े और जलचर जन्तु कच्छप आदि शास्त्ररीति से यथास्थान बाँधे ॥२६॥

पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तथा ।

अश्वरत्नोत्तमं तस्य राज्ञो दशरथस्य च ॥३०॥

उन खंभों में तीन सौ पशु और प्रत्येक दिशा में घूम कर आया हुआ महाराज का अति उत्तम घोड़ा बाँधा गया ॥३०॥

कौसल्या तं ह्यं तत्र परिचर्य समन्ततः ।

कृपाणैर्विशशासैनं त्रिभिः परमया मुदा ॥३१॥

कौसल्या जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह पूजा की और प्रसन्न हो, तीन तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किए ॥३१॥

पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा ।

अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया ॥३२॥

फिर धर्मसिद्धि की कामना से कौसल्या जी उस (मृत) अश्व की रक्षा करने को एक रात, शवस्पर्श की घृणा रहित मन से, उसके पास रहीं ॥३२॥

होताऽध्वर्युस्तथोद्गाता ह्येन समयोजयन् ।

महिष्या परिवृत्या च वावातां च तथा पराम् ॥३३॥

फिर होता, अध्वर्युं और उद्गाताओं ने कौसल्या जी को, परिवृत्तिः को तथा वावातां को अश्व के साथ नियोजित किया ॥३३॥

पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः^१

ऋत्विक्परमसंपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः ॥३४॥

एकाम चित्त हो ऋत्विजों ने उस घोड़े की चर्बी ले, यथाविधि अग्नि पर चढ़ा उसे पकाया ॥३४॥

धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः ।

यथाकालं यथान्यायं निर्णुदन्पापमात्मनः ॥३५॥

महाराज दशरथ होमकाल में चर्बी के पकाने पर निकली हुई गन्धि को शास्त्र की विधि के अनुसार यथाकाल सूँघ सूँघ कर, अपने पापों को नष्ट करने लगे ॥३५॥

हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः ।

अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्समन्त्राः षोडशर्त्विजः ॥३६॥

सोलह ऋत्विज उस घोड़े के अंग काट काट कर विधिवत् अग्नि में हवन करने लगे ॥३६॥

पुक्षशाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः ।

अश्वमेधस्य चैकस्य वैतसो भाग इष्यते ॥३७॥

१ नियतेन्द्रियः=एकामः (गो०) ।

* राजा की शूद्रा स्त्री ; परिवृत्ति वैश्य । † राजा की वैश्यान्तः वावाता कहलाती है ।

अन्य यज्ञों में पाकर की लकड़ी से हवि की आहुति दी जाती है, किन्तु अकेले अश्वमेध ही में यह काम वेत से लिखा जाता है ॥३७॥

त्र्यहोऽश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः ।
चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् ॥३८॥
उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम् ।
कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्रदर्शनात् ॥३९॥

कल्पसूत्र और ब्राह्मण भाग ने अश्वमेध यज्ञ में तीन दिन सवन-क्रिया करने के बतलाए हैं । उनमें प्रथम दिन अग्निष्टोम दिन है, दूसरा उक्थ, तीसरा अतिरात्रि—सो ये भी शास्त्र-विधि के अनुसार तथा अन्य बहुत से विधान किए गए ॥३८॥३९॥

ज्योतिष्टोमायुषी चैवमतिरात्रौ च निर्मितौ ।
अभिजिद्विश्वजिच्चैव मत्तोर्यामो महाक्रतुः ॥४०॥

ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम, अतिरात्रि, अभिजित्, विश्वजित्, आतोर्याम महायज्ञ किए गए ॥४०॥

प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः ।
अध्वर्यवं प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् ॥४१॥
उद्गात्रे च तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता ।
अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभूविहिते पुरा ॥४२॥
ऋतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ।
ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरांतां कुलवर्धनः ॥४३॥

स्वकुल-वृद्धि-कारक महाराज दशरथ ने इस महायज्ञ की यथा-
विधि समाप्ति पर पूर्व दिशा का राज्य होता को, पश्चिम का
अध्वर्यु को, दक्षिण दिशा का ब्रह्मा को और उत्तर दिशा
का उद्गाता को यज्ञ की दक्षिणादि में दिया। स्वायंभुवमनु ने
जिस प्रकार अपने महायज्ञ में, पूर्वकाल में, दक्षिणा दी थी, उसी
प्रकार दशरथजी ने दी। तब यज्ञ को शास्त्रानुसार विधिवन्
समाप्त कर, पुरुषश्रेष्ठ महाराज ने ऋत्विजों को पृथिवी दान कर
दी ॥४१॥४२॥४३॥

ऋत्विजस्त्वब्रुवन्सर्वे राजानं गतकल्मषम् ।

भवानेव महीं कृत्स्नामेको रक्षितुमर्हति ॥४४॥

न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ताः स्म पालने ।

रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप ॥४५॥

निष्कर्यं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति ।

मणिरत्नं सुवर्णं वा गावां यद्वा समुद्यतम् ॥४६॥

तत्प्रयच्छ नरश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम् ।

एवमुक्तो नरपतिर्ब्राह्मणैर्वेदपारगैः ॥४७॥

जब दशरथ ने अपने राज्य की सारी भूमि यज्ञ कराने वाले
ब्राह्मणों को दे दी, तब सब ब्राह्मण निष्पाप महाराज दशरथ ने
बोले कि, हे नरनाथ ! इस भूमि की रक्षा तो आप ही कर सकते
हैं। न तो हमें भूमि की आवश्यकता है और न हम इसका पालन
ही करने में समर्थ हैं। क्योंकि हम लोग वेदपाठ में लगे रहते हैं
अर्थात् हमें जमींदारी या राज्य के कामकाज में पड़ने की फुरसत
कहाँ है। अतएव आप तो हमें इस भूमिदान के बरने नगि,
रत्न, सुवर्ण, गाँएँ—जो चाहें, दे दें। हम भूमि ले कर क्या
करेंगे ? वेदपारग ब्राह्मणों के ये वचन सुनः ॥४१॥४२॥४३॥४४॥

गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः ।

दशकोटीः सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम् ॥४८॥

महाराज ने एक लाख गौएँ, दस करोड़ सोने की मोहरें, चालीस करोड़ चाँदी के रुपये सब ऋत्विजों को दिए ॥४८॥

ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु ।

ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ॥४९॥

उन सब ने दक्षिणा में मिला हुआ सारा धन (वाँटने के लिए) वसिष्ठ जी व ऋष्यशृङ्ग जी के सामने रख दिया ॥४९॥

ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः ।

सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्यूचमुदिता भृशम् ॥५०॥

उन्होंने न्यायानुसार हिस्सा कर, सब को वह धन बाँट दिया। वे अपना अपना हिस्सा पाकर और अत्यन्त प्रसन्न हो बोले, हम बहुत प्रसन्न हैं ॥५०॥

ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु^१ हिरण्यं सुसमाहितः ।

जाम्बूनदं कोटिशतं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा ॥५१॥

फिर महाराज ने उन लोगों में जो यज्ञ देखने आए थे, मोहरें बाँटीं और जाम्बूनद के सोने की कई करोड़ मोहरें अन्य ब्राह्मणों को दीं ॥५१॥

दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम् ।

कस्मैचिद्याचमानाय ददौ राववनन्दनः ॥५२॥

१ प्रसर्पकेभ्यः = यज्ञदर्शनार्थमागतेभ्यः (गो०)

तदनन्तर महाराज दशरथ ने एक निर्धन द्विज को, उसके माँगने पर, अपने हाथ के कड़े उतार कर दे दिए ॥५२॥

ततः प्रीतेषु नृपतिर्द्विजेषु द्विजवत्सलः ।

प्रणाममकरोत्तेषां हर्षपर्याकुलेक्षणः ॥५३॥

ब्राह्मणों को प्रसन्न देख, द्विजवत्सल महाराज ने अतीव प्रसन्न चित्त हो उनको प्रणाम किया ॥५३॥

तस्याशिषोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदीरिताः ।

उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां प्रणतस्य च ॥५४॥

इस पर उदार, वीरवर और पृथिवी पर पन्न कर प्रणाम करते हुए महाराज को, ब्राह्मणों ने विविध आशीर्वाद दिए ॥५४॥

ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् ।

पापापहं स्वर्नयनं दुष्करं पार्थिवर्षभैः ॥५५॥

उदारचित्त महाराज दशरथ, पाप नाशक, स्वर्गप्रद एवं अन्य राजाओं के लिए दुष्कर, इस उत्तम यज्ञ को कर. ॥५५॥

ततोऽब्रवीदृष्यशृङ्गं राजा दशरथस्तदा ।

कुलस्य वर्धनं त्वं तु कर्तुमर्हसि सुव्रत ॥५६॥

ऋष्यशृङ्ग से बोले—“हे सुव्रत ! अब आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए उपाय कीजिए ॥५६॥

तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः ।

भविष्यन्ति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलाढ्याः ॥५७॥

इति चतुर्दशः सर्गः ॥

यह सुन और तथास्तु कह कर द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृङ्ग बोले—
हे राजन् ! आपके वश को बढ़ाने वाले, चार पुत्र होंगे ॥१७॥

बालकाण्ड का चौदहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

पञ्चदशः सर्गः

—:०:—

मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किञ्चिदिदमुत्तरम् ।

लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत् ॥१॥

मेधावी, वेदज्ञ, ऋष्यशृङ्ग जी, कुछ काल तक ध्यानमग्न रह कर, महाराज दशरथ से बोले कि, ॥१॥

इष्टिं तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात् ।

अथर्वशिरसि प्रौक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः ॥२॥

हे राजन् ! मैं तेरे लिए अथर्वणवेद में कही हुई पुत्रेष्टियज्ञ की विधि के अनुसार, सिद्धि देने वाला पुत्रेष्टियज्ञ करूँगा; जिससे तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा ॥२॥

ततः प्रक्रम्य तामिष्टिं पुत्रीयां पुत्रकारणात् ।

जुहाव चाग्नौ तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥३॥

यह कह, पुत्र-प्राप्ति के लिए, उन्होंने पुत्रेष्टियज्ञ प्रारम्भ किया, और विधिवत् मंत्र पढ़ कर, वे आहुति देने लगे ॥३॥

ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः ।

भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथाविधि ॥४॥

तत्र तो देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि, अपना अपना यज्ञ-
भाग लेने को आकर यथाविधि जमा हुए ॥४॥

ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन्सदसि देवताः ।

अब्रुवँल्लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं महत् ॥५॥

इस यज्ञ में यथाक्रम एकत्र हो देवताओं ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा
जी से विनय की ॥५॥

भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः ।

मर्वान्नो वाधते वीर्याच्छासितुं तं न शक्नुमः ॥६॥

हे भगवान् ! आपकी कृपा से रावण नामक राक्षस, अपने
बल से हम सब को बहुत सताता है और हम उसका कुछ भी नहीं
कर सकते ॥६॥

त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवन्पुरा ।

मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे ॥७॥

क्योंकि आपने प्रसन्न हो उसे पहले वरदान दे दिया है,
इस लिए हम सब उस वरदान का आदर करते हुए, उसे क्षमा
करते हैं ॥७॥

उद्वेजयति लोकांस्त्रीनुच्छितान्द्वंष्टि दुर्मतिः ।

शक्रं त्रिदशराजानं प्रथर्षयितुनिच्छति ॥८॥

वह तीनों लोको को नता रहा है और तीनोंपालों ने
शत्रुता बाँध कर, स्वर्ग के राजा इन्द्र को भी नीचा दिखाना
चाहता है ॥८॥

ऋषान्यभान्मगन्धर्वान्पुरान्ब्राह्मणांस्तथा ।

अतिक्रामति दुर्यपो वरदानेन मोहितः ॥९॥

क्या ऋषि, क्या यक्ष, क्या, गन्धर्व, क्या देवता, क्या ब्राह्मण, आपके वरदान के प्रभाव से, वह दुर्धर्ष हो, किसी को कुछ भी तो नहीं समझता ॥६॥

नैनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः ।

चलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते ॥१०॥

उसे न तो सूर्य ही गर्मी पहुँचा सकते और न वायु देव ही उसके समीप वेग से चल सकते हैं। उसे देखते ही समुद्र भी अपना लहराना बंद कर, शान्त हो जाता है ॥१०॥

सुमहन्ना भयं तस्माद्राक्षसाद्द्वयोरदर्शनात् ।

वधार्थं तस्य भगवन्नुपायं कर्तुमर्हसि ॥११॥

उस भयानक राक्षस को देखने ही से हमें बड़ा डर लगता है। अतः हे भगवन् ! उसके वध के लिए कोई उपाय कीजिए ॥११॥

एवमुक्तः सुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततोऽब्रवीत् ।

हन्तायं विहितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः ॥१२॥

उन सब देवताओं के ये वचन सुन, ब्रह्मा जी कुछ सोच कर बोले—मैंने उस दुरात्मा के मारने का उपाय सोच लिया है ॥१२॥

तेन गन्धर्वयक्षाणां देवदानवरक्षसाम् ।

अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया ॥१३॥

रावण के वर माँगने पर हमने उसे गन्धर्व, यक्ष, देवता, दानव और राक्षसों द्वारा अवध्य होने का वरदान तो अवश्य दे दिया है ॥१३॥

नाकीर्तयदवज्ञानात्तद्रक्षो मानुषांस्तदा ।

तस्मात्स मानुषाद्ब्रह्मो मृत्युर्नान्योऽस्य विद्यते ॥१४॥

किन्तु उसने मनुष्यों को कुछ भी न समझ करदान में मनुष्यों का नाम नहीं लिखा था । अतः वह सिवाय मनुष्य के और किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता ॥१४॥

एतच्छ्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम् ।

देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्तेऽभवंस्तदा ॥१५॥

ब्रह्मा जी का यह प्रिय वचन सुन, सब देवता महर्षि आदि बहुत प्रसन्न हुए ॥१५॥

एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातां महाद्युतिः ।

शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥१६॥

इतने ही में शङ्ख चक्र गदा और पीतान्वर धारण किए महा तेजस्वी जगत्पति भगवान् विष्णु वहाँ पर आए ॥१६॥

ब्रह्मणा च समागम्य तत्र तस्थौ समाहितः ।

तमब्रुवन्सुराः सर्वे समभिपद्य संगताः ॥१७॥

जब विष्णु भगवान् ब्रह्मा जी से मिल कर, उनके पान बैठे तब देवताओं ने बड़ी नम्रता के साथ उनकी स्तुति की और कहा ॥१७॥

त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यदा ।

राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतः प्रभोः ॥१८॥

धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षिसमनेत्सतः ।

तस्य भार्यासु तिस्रसु हीर्थाकीर्त्युपमानु च ॥१९॥

वच

॥१७॥

१३॥

देव

वच

विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वाऽऽमानं चतुर्विधम् ।
 तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् ॥२०॥
 अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावणम् ।
 स हि देवान्सगन्धर्वान्सिद्धांश्च मुनिसत्तमान् ॥२१॥
 राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योत्सेकेन बाधते ।
 ऋषयस्तु ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तथाः ॥२२॥

हम लोग आपसे सब की भलाई के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि आप धर्मात्मा, दानी और ऋषिवत् तेजस्वी अयोध्याधिपति महाराज दशरथ की ही श्री और कीर्ति के समान तीव्र रानियों में अपने चार अंशों से पुत्रभाव स्वीकार करें। आप मनुष्य शरीर धारण कर, महा अभिमानी लोककण्टक उस रावण को, जो हम (देवताओं) से भी अवध्य है, युद्ध में परास्त करें। क्योंकि वह मूर्ख राक्षस रावण देवता, गन्धर्व, सिद्ध और मुनियों को अपने बल से बहुत सता रहा है ।१८॥१९॥२०॥२१॥२२॥

क्रीडन्तो नन्दनवने क्रूरेण किल हिंसिताः ।
 वधायं वयमायातास्तस्य वै मुनिभिः सह ॥२३॥

देखिए, उस दुष्ट ने (इन्द्र के) नन्दनवन नामक उद्यान में क्रीड़ा करते हुए गन्धर्वों तथा अप्सराओं को मार डाला। उसीको करवाने के लिए, हम यहाँ मुनियों सहित आए हैं ॥२३॥

सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः ।
 त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः परन्तप ॥२४॥

हम सिद्ध, गन्धर्व और यक्षों सहित आपके शरण में आए हैं। हे देव ! हमारी दौड़ तो आप ही तक है ॥२४॥

वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु ।

एवमुक्तस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदशपुङ्गवः ॥२५॥

अतः आप देवताओं के शत्रु रावण का वध करने के लिए मनुष्यलोक में अवतीर्ण हुए। इस प्रकार देवताओं ने देवताओं में प्रधान भगवान् विष्णु की स्तुति की ॥२५॥

पितामहपुरोगांस्तान्सर्वलोकनमस्कृतः ।

अब्रवीत्त्रिदशान्सर्वान्समेतान्धर्मसंहितान् ॥२६॥

सर्वलोको से नमस्कार किए जाने वाले अर्थान् सर्वपूज्य भगवान् विष्णु ने, शरण आए हुए एकत्रित ब्रह्मादि देवताओं ने कहा ॥२६॥

भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणम् ।

सपुत्रपौत्रं सामात्यं समित्रजातिवान्यवम् ॥२७॥

हत्वा क्रूरं दुरात्मानं देवर्षीणां भयावहम् ।

दश वर्षे सहस्राणि दश वर्षशतानि च ।

वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन्पृथिवीमिमाम् ॥२८॥

हे देवताओं ! तुम्हारा मदल हो ; तुम अब मत टरो। तुम्हारे हित के लिए मैं रावण से लड़ूंगा। मैं पुत्र, पौत्र, मित्र, मित्र-जाति वालों तथा बन्धुवान्यव सहित, उस क्रूर, दुष्ट और देवताओं तथा ऋषियों के लिए भयप्रद रावण को नार और ग्यारह हजार वर्ष तक मर्त्यलोक में रह कर, इस पृथिवी का पालन करूंगा ॥२७॥२८॥

एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान् ।

मानुषे चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ॥२६॥

इस प्रकार भगवान् विष्णु देवताओं को वरदान दे अपने जन्म लेने योग्य मनुष्य लोक में स्थान सोचने लगे ॥२६॥

ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम् ।

पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम् ॥३०॥

कमलनयन भगवान् विष्णु ने अपने चार रूपों से महाराज दशरथ को अपना पिता बनाना, अर्थात् उनके घर में जन्म लेना पसंद किया ॥३०॥

ततो देवर्षिगन्धर्वा सरुद्राः साप्सरोगणाः ।

स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तुष्टुवुर्मधुसूदनम् ॥३१॥

तब देवर्षि, गन्धर्व, रुद्र, अप्सरागण—इन सब ने मधुसूदन भगवान् की स्तुति कर, उनको सन्तुष्ट किया ॥३१॥

तमुद्धतं रावणमुग्रतंजसं

प्रवृद्धदर्पं त्रिदशेश्वरद्विपम् ।

विरावणं साधु तपस्विकण्टकं

तपस्विनामुद्धर तं भयावहम् ॥३२॥

तमेव हत्वा सवलं सवान्धवं

विरावणं रावणमुग्रपौरुषम् ।

स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं

सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम् ॥३३॥

इति पञ्चदशः सर्गः ॥

और कहा, हे प्रभो ! इस उद्दण्ड, बड़े तेजस्वी, अत्यन्त अहङ्कारी देवताओं के शत्रु, लोकों को रुलाने वाले, साधु तपस्वियों को सताने वाले और भयदाता रावण को, नाश कीजिए । लोकों को रुलाने वाले और उग्र पुरुषार्थी उस रावण को बंधु, बान्धव तथा सेना सहित मार कर और नसार के दुःख को दूर कर, इन्द्रपालित तथा पाप एवं दोषशून्य स्वर्ग में पधारिए ॥३२॥३३॥

बालकाण्ड का पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

षोडशः सर्गः

ततो नारायणो^१ देवां नियुक्तः^२ गुरसत्तमैः ।

जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् ॥१॥

देवताओं की प्रार्थना सुन, सब जानने वाले नाजान् परब्रह्म नारायण, देवताओं के सम्मानार्थ, यह मधुर वचन बोले ॥१॥

उपायः कां वधे तस्य राक्षसाधिपतैः सुराः ।

यमहं तं समास्थाय निहन्यामृषिकण्ठकम् ॥२॥

हे देवताओं ! यह तो बतलाओ कि, उस राज्ञों के राजा और मुनियों के कटक को हम किस उपाय से मारें ॥२॥

एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्यूचुर्विष्णुमव्ययम् ।

मानुषीं तनुमास्थाय रावणं जहि संयुगे ॥३॥

यह सुन देवताओं ने अव्यय विष्णु से कहा—ननुष्य रूप में अवतीर्ण हो, रावण को युद्ध में मारिए ॥३॥

१ नारायणः=नारमयन वासस्थानं यस्यासी नारायणः (गो०)

२ नियुक्तः=प्रदर्शितः (गो०)

स हि तेषे तपस्तीव्रं दीर्घकालमरिन्दम ।

येन तुष्टोऽभवद्ब्रह्मा लोककृल्लोकपूजितः ॥४॥

हे अरिन्दम ! उसने बहुत दिनों तक कठोर तप कर, लोककर्ता और लोकपूजित ब्रह्मा को प्रसन्न किया ॥४॥

सन्तुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः ।

नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुपात् ॥५॥

तब उन्होंने प्रसन्न हो, उस राक्षस को यह वर दिया कि, मनुष्य के सिवाय हमारी सृष्टि के किसी भी जीव के मारे तुम न मरोगे ॥५॥

अवज्ञाताः पुरा तेन वरदानेन मानवाः ।

एवं पितामहात्तस्माद्द्वरं प्राप्य स दर्पितः ॥६॥

वह मनुष्य को तुच्छ समझता था । अतः उसने मनुष्यों से अभय रहना न माँगा और ब्रह्मा जी के वर से वह गर्वित हो गया ॥६॥

उत्सादयति लोकांस्त्रीन्स्त्रयश्चाप्यपकर्षति ।

तस्मात्तस्य वधां दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप ॥७॥

इस समय वह तीनों लोकों को उजाड़ता है और स्त्रियों को पकड़ कर ले जाता है, अतएव वह मनुष्य के हाथ ही से मर सकता है ॥७॥

इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् ।

पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम् ॥८॥

देवताओं की इन बातों को सुन, भगवान् विष्णु ने महाराज दशरथ को अपना पिता बनाना पसंद किया ॥८॥

वालकाण्ड



महागज दशगथ के पुत्रेण्डि वन मे छप्रि मे गए तेउ ज
प्रकट होकर महागज को पायल देना



स चाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन्काले महाद्युतिः ।

अयजत्पुत्रियामिष्टिं पुत्रेषुररिसूदनः ॥६॥

उसी समय पुत्रहीन, महाद्युतिमान्, शत्रुहन्ता महाराज दशरथ ने पुत्रप्राप्ति के लिए पुत्रेष्टियज्ञ करना आरम्भ किया ॥६॥

स कृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्र्य च पितामहम् ।

अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः ॥१०॥

इस प्रकार महाराज दशरथ के घर में जन्म लेने का निश्चय कर, ब्रह्मा जी से बातचीत कर, और देवताओं तथा महर्षियों से पूजित हो भगवान् विष्णु वहाँ से अन्तर्धान हो गए ॥१०॥

ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभम् ।

प्रादूर्भूतं महद्भूतं^१ महावीर्यं महाबलम् ॥११॥

कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्ताक्षं दुन्दुभिस्वनम् ।

स्निग्धहर्यक्षतनुजशमश्रुप्रवरसूर्ध्वजम् ॥१२॥

शुभलक्षणसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम् ।

शैलभृङ्गसमुत्सेधं^२ दत्तशार्दूलविक्रमम् ॥१३॥

दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमम् ।

तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छ्रदाम् ॥१४॥

दिव्यपायससंपूर्णां पार्त्रीं पत्नीमिव प्रियाम् ।

प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव^३ ॥१५॥

उधर महाराज दशरथ के अत्रिकुण्ड के पति ने जानकी, अतुल प्रभा वाला, काले रंग का, लाल वस्त्र धारण किए हुए,

१ महद्भूत = पुरुष विशेषः (गो०) २ समुत्सेधः = उन्मत्तः (गो०)

३ मायामयीमिव = असम्भावितत्वेनाश्चर्यवशात्स्वयं (गो०)

लाल रंग के मुँह वाला, नगाड़े जैसा शब्द करता हुआ, सिंह के रोम जैसे रोम और मूँछों वाला, शुभ लक्षणों से युक्त, सुन्दर आभूषणों को धारण किए हुए, पर्वत के शिखर के समान लंबे सिंह जैसी चाल वाला, सूर्य के समान तेजस्वी और प्रज्वलित अग्नि शिखा की तरह रूप वाला, दोनों हाथों में सोने के थाल में, जो चाँदी के ढकने से ढका हुआ था, पत्नी की तरह प्रिय और दिव्य खीर लिए हुए, मुसक्याता हुआ और आश्चर्य में डालता हुआ एक पुरुष निकला ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥

समवेक्ष्याव्रवीद्वाक्यमिदं दशरथं नृपम् ।

प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप ॥१६॥

यह महाराज दशरथ की ओर देख कर यह बोला—
“महाराज ! मैं प्रजापति के पास से आया हूँ ॥ १६ ॥

ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः ।

भगवन्स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते ॥१७॥

यह सुन, महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ कर कहा—भगवन् !
आपका मैं स्वागत करता हूँ कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है ॥१७॥

अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्या नरोऽब्रवीत् ।

राजन्नर्चयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया ॥१८॥

इस पर प्रजापति के भेजे उस मनुष्य ने फिर कहा—देवताओं
का पूजन करने से आज तुमको यह पदार्थ मिला है ॥ १८ ॥

इदं तु नरशार्दूल पायसं देवनिर्मितम् ।

प्राजाकरं गृहाण त्वं धन्यःमारोग्यवर्धनम् ॥१९॥

हे नरशार्दूल ! यह देवताओं की बनाई हुई खीर है, जो सन्तान की देने वाली तथा धन और ऐश्वर्य की बढ़ाने वाली है । इसे आप लीजिए ॥ १६ ॥

भार्याणामनुरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ वै ।

तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान्यदर्थं यजसे नृप ॥२०॥

और इसको अपने अनुरूप रानियों को दिखलाइए । इसके प्रभाव से आपकी रानियों के पुत्र उत्पन्न होंगे, जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया है ॥ २० ॥

तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्य ताम् ।

पार्त्रां देवान्नसंपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम् ॥२१॥

इस बात को सुन, महाराज ने प्रसन्न हो, उस देवताओं की बनाई हुई और भेजी हुई खीर से भरे सुवर्णपात्र को ले अपने माथे चढ़ाया ॥ २१ ॥

अभिवाच्य च तद्भूतमद्भुतं प्रियदर्शनम् ।

मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम् ॥२२॥

तदनन्तर उस अद्भुत एवं प्रियदर्शन पुरुष को महाराज ने प्रणाम किया और परम प्रसन्न हो उसका परिक्रमा की ॥ २२ ॥

ततो दग्धरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितम् ।

वभूव परमप्रीतः प्राप्य चित्तमिवाधनः ॥२३॥

उस देवनिर्मित खीर को पा कर, महाराज दशान्ध उन्नी तगर परम प्रसन्न हुए, जिस तरह कोई निर्धन मनुष्य धन पा कर पन्न प्रसन्न होता है ॥ २३ ॥

ततस्तदद्भुतप्रख्यं भूतं परमभास्वरम् ।

संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत ॥२४॥

वह महातेजस्वी अद्भुत पुरुष महाराज दशरथ को पायसपात्र दे कर वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ २४ ॥

हर्षरश्मिभिरुद्व्योतं तस्यान्तः पुरसावभौ ।

शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोःशुभिः ॥२५॥

महाराज की रानियाँ भी यह सुख-संवाद सुन, शरदकालीन चन्द्रमा की किरणों से आकाश की भाँति (प्रसन्नता से) खिल उठी ; अर्थात् शोभायमान हुई ॥ २५ ॥

सोन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत् ।

पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः ॥२६॥

महाराज दशरथ रनवास में गए और महारानी कौसल्या जी से यह बोले—“लो यह खीर है, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी ॥ २६ ॥

कौसल्यायै नरपतिः पायसार्थं ददौ तदा ।

अर्धादर्थं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः ॥२७॥

तदनन्तर महाराज दशरथ ने उम खीर में से आधी तो कौसल्या जी को और बची हुई आधी में से आधी सुमित्रा को दी ॥ २७ ॥

कैकेय्यै चावशिष्टार्थं ददौ पुत्रार्थकारणात् ।

प्रददौ चावशिष्टार्थं पायसस्यामृतोपमम् ॥२८॥

अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महीपतिः ।

एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक् ॥२९॥

कुल खीर का आठवाँ हिस्सा कैकेयी को दिया और उन
अमृतोपम खीर का बचा हुआ आठवाँ भाग, कुछ नोचकर फिर
सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार महाराज ने अपनी रानियों को
अलग अलग हिस्से कर खीर बाँटी ॥ २८ ॥ २६ ॥

तास्त्वन्तत्पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमाः स्त्रियः ।

सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ॥३०॥

उस खीर को खा कर, महाराज की कौसल्यादि सुन्दरी
रानियाँ बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने को अत्यन्त भाग्यवती
माना ॥ ३० ॥

ततस्तु ताः प्राप्य तदुत्तमस्त्रियो

महीपतेरुत्तमपायसं पृथक् ।

हुताशनादित्यसमानतेजस-

ध्विरेण गर्भान्प्रतिपेदिरे तदा ॥३१॥

तदनन्तर उन उत्तम रानियों ने, महाराज की पृथक् पृथक् दी
हुई खीर खा कर, अग्नि और सूर्य के समान तेजवान गर्भ गाय
धारण किए ॥ ३१ ॥

ततस्तु राजा प्रसर्माक्ष्य ताः स्त्रियः

प्रसूढगर्भाः प्रतिलब्धमानसः ।

बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरिः

सुरेन्द्रसिद्ध पिङ्गणाभिपूजितः ॥३२॥

इति षोडशः सर्गः ॥

महाराज दशरथ भी अपनी रानियों को गर्भवती कर जनना
मनोरथ पूर्ण होता देख, उसी प्रकार प्रसन्न हुए, जिन प्रसन्न

भगवान् विष्णु देवताओं और सिद्धों से पूजित हो, स्वर्ग में प्रसन्न होते हैं ॥ ३२ ॥

बालकाण्ड का सोलहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

सप्तदशः सर्गः

—:०:—

पुत्रत्वं तु गतं विष्णो राज्ञस्तस्य महात्मनः ।

उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभूर्भगवानिदम् ॥१॥

महात्मा महाराज दशरथ के घर में भगवान् विष्णु को पुत्र रूप से अवतीर्ण होते देख, ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा ॥१॥

सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः ।

विष्णोः सहायान्वलिनः सृजध्वं कामरूपिणः ॥२॥

मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमाज्ज्व ।

नयज्ञान्बुद्धिसम्पन्नान्विष्णुतुल्यपराक्रमान् ॥३॥

असंहार्यानुपायज्ञान्सिंहसंहननान्वितान् ।

सर्वास्त्रगुणसम्पन्नानमृतप्राशनान्वि ॥४॥

अप्सरःसु च मुख्यासु गन्धर्वाणां तनूषु च ।

किंनरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च ॥५॥

यक्षपन्नगकन्यासु ऋभिविद्याधरीषु च ।

सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान् ॥६॥

सत्यसन्ध, वीर, और सब का हित चाहने वाले भगवान् विष्णु की सहायता के लिए तुम लोग भी बलवान, कामरूपी

* गोविन्दराजीय संस्करण में ये दो पद अप्राप्त हैं ।

(जैसा चाहै वैसा रूप बनाने वाले) माया को जानने वाले. वेग में पवन तुल्य, नीतिज्ञ, बुद्धिमान्, पराक्रम में विष्णु के ही समान, जिनको कोई मार न सकै. उग्रमी, दिव्य शरीर वाले, अन्ध विद्या में निपुण और देवताओं के सदृश वानरों को : अप्सराओं. गन्धर्व की स्त्रियों और यक्षों एवं नागों की कन्याओं. ऋत्विजों. विद्याधरियों, किन्नरियों और वानरियों से उन्मत्त करे ॥ २ ॥ २ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥

पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवानृक्षपुङ्गवः ।

जम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत ॥७॥

मैंने भी पहले भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान नामक रौद्र को पैदा किया था. वह जमुहाई लेते समय मेरे मुख से सपना निष्कल पड़ा था ॥ ७ ॥

ते तयोक्ता भगवता तत्पतिश्रुत्य शासनम् ।

जनयामासुरेवं ते पुत्रान्वाररूपिणः ॥८॥

ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरारणाः ।

चारणाश्च सुतान्वीरान्समृजुर्वनचारिणः ॥९॥

ब्रह्मा जी के इस आज्ञानुसार. ऋत्विजों, सिद्धों, चारणों. विद्याधरों और नागों ने वानर रूपी पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ ९ ॥

वानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्रां वालिनमूर्जितम् ।

सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः ॥१०॥

वृहस्पतिस्त्वजनयत्तारं नाम महाहरिम् ।

सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तमनुत्तमम् ॥११॥

धनदस्य सुतः श्रीमान्वानरो गन्धमादनः ।

विश्वकर्मा त्वजनयन्नलं नाम महाहरिम् ॥१२॥

पावकस्य सुतः श्रीमान्नीलोऽग्निसदृशप्रभः ।
 तेजसा यशसा वीर्यादत्यरिच्यत वानरान् ॥१३॥
 रूपद्रविणसम्पन्नावशिवनौ रूपसम्मताौ ।
 मैन्दं च द्विविदं चैव जनयामासतुः स्वयम् ॥१४॥
 वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम् ।
 शरभं जनयामास पजन्यस्तु^१ महाबलम् ॥१५॥
 मारुतस्यात्मजः श्रीमान्हनुमान्नाम वानरः ।
 वज्रसंहननोपेतो वैनतेयसप्तो जवे ॥१६॥

[नोट—कुछ लोग हनुमान जी को शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ समझते हैं । किन्तु उनके कथन का खण्डन १६ वे श्लोक से हो जाता है । हनुमान जी पवन तनय थे ।]

इन्द्र ने महेन्द्राचल की तरह वालि सूर्य, ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तार, जो गव वानरों में मुख्य और अति चतुर था, कुबेर ने गन्ध-मादन, विश्वकर्मा ने नल, अग्नि ने नील, जो अग्नि के समान ही तेजस्वी था तथा यश और पराक्रम में अपने पिता से भी बढ़ कर था ; अश्विनी-कुमारों ने मैन्द और द्विविद, वरुण ने सुषेण, वर्षा के अधिष्ठान देवता ने शरभ और पवन ने हनुमान नामक वानर उत्पन्न किया । इनकी देह वज्र के समान दृढ़ थी और यह वेग में गरुड़ के समान थे ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥

सर्ववानरमुख्येषु शुद्धिमान्वलवानपि ।

ने सृष्टा बहुमाहस्ता दशग्रीववधे रताः ॥१७॥

१ पजन्यो = वर्षामिमानी देवता । (गो०)

हनुमान जी बुद्धि और पराक्रम में अन्य सब वानरों से बढ़ कर थे । इनके अतिरिक्त हज़ारों और भी बन्दर, रावण के बध के लिए उत्पन्न किए गए ॥ १७ ॥

अप्रमेयवला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः ।

ते गजाचलसङ्काशा वपुष्मन्तो महाबलाः ॥१८॥

जितने वानर उत्पन्न हुए वे सब के सब अत्यन्त बलवान, स्वेच्छाचारी, गज और भूधराकार शरीर वाले हुए ॥ १८ ॥

ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे ।

यस्य देवस्य यद्रूपं वेपो यश्च पराक्रमः ॥१९॥

अजायत समस्तेन तस्य तस्य सुतः पृथक् ।

गोलाङ्गुलीषु चोत्पन्नाः केचित्संमतविक्रमाः ॥२०॥

रीछ, बंदर, लंगूर सब ऐसे ही थे । जिन देवता का जैना रूप, वेप व पराक्रम था, उनके अलग अलग वैसे वैसे ही पुत्र भी हुए—बल्कि इन थोनियों में विशेष पराक्रमा हुए ॥ १९ ॥ २० ॥

ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च ।

देवा महर्षिगन्धर्वास्तार्क्ष्या यक्षा यशस्विनः ॥२१॥

नागाः किम्पुरुषारचैव सिद्धविद्याधरोरगाः ।

वहवो जनयामासुर्हृष्टास्तत्र सहस्रतः ॥२२॥

इनमें से कोई तो लंगूरिनों से कोई किन्नरियों से और कोई किन्नरियों से उत्पन्न हुआ । यशस्वी देवता, महर्षि, गन्धर्व, वानर, वासुकीआदि, यज्ञ नाग, सिद्ध, विद्याधर आदि ने हजारों पुत्र-पुष्ट पुत्र उत्पन्न किए ॥ २१ ॥ २२ ॥

★ १ नागा = दिग्गजाः (गो०) = उरगाः बह्व्यस्यः (गो०)

वानरान्सुमहाकायान्सर्वान्वै वनचारिणः ।

सिंहशार्दूलसदृशा दर्पेण च बलेन च ॥२३॥

ये सब वानर बड़े भारी डील डौल के थे और दर्प तथा बल में सिंह और शार्दूल के समान थे ॥ २३ ॥

शिलाप्रहरणाः सर्वे सर्वे पादपयोधिनः ।

नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे सर्वे सर्वास्रकोविदाः ॥२४॥

सब के सब शिलाओं, वृक्षों के प्रहार से युद्ध करने वाले नखों और दाँतों के आयुधों वाले तथा सब अस्त्रों के चलाने में परिदत्त थे ॥ २४ ॥

विचालयेयुः शैलेन्द्रान्भेदयेयुः स्थिरान्द्रुमान् ।

भ्रांभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितांपतिम् ॥२५॥

ये लोग बड़े बड़े पर्वतों को हिला देने वाले, बड़े बड़े जमे हुए पेड़ों को उखाड़ देने वाले और अपने वेग से समुद्र को भी लुब्ध करने वाले थे ॥ २५ ॥

दारयेयुः क्षितिं पद्भ्यामाप्लवेयुर्महार्णवम् ।

नभस्थलं विलेयुश्च गृह्णीयुरपि तोयदान् ॥२६॥

ये अपने पैरों के प्रहार से पृथिवी को फोड़ने वाले, समुद्र के पार जाने वाले, आकाश में उड़ने वाले और वादलों को भी पकड़ने वाले थे ॥ २६ ॥

गृह्णीयुरपि मातङ्गान्मत्तान्प्रव्रजतो वने ।

नर्दमानाश्च नादेन पातयेयुर्विहङ्गमान् ॥२७॥

ये वानर, जंगलों में घूमने वाले और मदमस्त हाथियों को पकड़ने वाले, और किलकारी मार कर, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को गिराने की सामर्थ्य रखने वाले थे ॥ २७ ॥

ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणाम् ।

शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम् ॥२८॥

इस प्रकार कामरूपी वानरों की उत्पत्ति हुई । वे ऐसे महाबली
लाखों वानरों के यूथों के यूथपति हुए ॥ २८ ॥

ते प्रधानेषु गृथेषु हरीणां हरियूथपाः ।

बभूवुर्युथपश्रेष्ठा वीरांश्चाजनयन्हरीन् ॥२९॥

इन प्रधान यूथपां से अनेक वीर यूथपश्रेष्ठ वानर उत्पन्न
हुए ॥ २९ ॥

अन्ये ऋभवतः प्रस्थानुपतस्थुः सहस्रशः ।

अन्ये नानाविधाञ्छैलान्भेजिरे काननानि च ॥३०॥

इनमें से हजारों अक्षवान् पर्वत के शिखरों पर और गेय
वानर जगह जगह पर्वतों और वनों में बसने लगे ॥ ३० ॥

सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनम् ।

भ्रातरानुपतस्थुस्तं सर्व एव हरीश्वराः ॥३१॥

सूर्यपुत्र सुग्रीव और इन्द्रपुत्र वालि, इन दोनों भाइयों के पान
ये सब वानर रहने लगे ॥ ३१ ॥

नलं नीलं हनूमन्तमन्यांश्च हरियूथपान् ।

ते तार्क्ष्यवलसंपन्नाः सर्वे युद्धविशाढाः ॥३२॥

और बहुतों ने नल, नील, हनुमान तथा अन्य यूथपतियों
का सहारा लिया । वे सब गरुड़ के समान बलवान और युद्ध में
कुशल थे ॥ ३२ ॥

विचरन्तोऽर्जयन् दर्पात्सिंहव्याघ्रमहोरगान् ।

तांश्च सर्वान्महाबाहुर्वालो विपुलविक्रमः ॥३३॥

ले
में

हुए
भी

सुर के
तो भी

यों को
इते हुए

जुगोप भुजवीर्येण ऋक्षगोपुच्छवानरान् ।

तैरियं पृथिवी शूरैः सपर्वतवनाणवा ।

कार्णा विविधसंस्थानैर्नानाव्यञ्जनलक्षणैः ॥३४॥

वे सब वानर घूमते हुए सिंह व्याघ्र और साँपों को भी मर्दन करने लगे । महावली और महाबाहु वाली अपने विपुल विक्रम और अपनी भुजाओं के बल से वंदरो, रीछो और लंगूरों का पालन करने लगा । उन शूरवीर कपियों से, जिनके विविध प्रकार के रूप रंग थे, पर्वत, वन, समुद्र और पृथिवी के अनेक स्थान परिपूर्ण हो गए ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

तैर्मघवृन्दाचलकूटकल्पै-

महावलैर्वानरयूथपालैः ।

वभूव भूर्भीमशरीररूपैः

समावृता रामसहायहेतोः ॥३५॥

इति सप्तदशः सर्गः ॥

मेघों और पर्वतों के समान भीम शरीर वाले महावली जो यूथप वंदर श्रीरामचन्द्र जी की सहायता के लिए उत्पन्न हुए थे, उनसे सारी पृथिवी भर गई ॥ ३५ ॥

बालकाण्ड का सत्रहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

अष्टादशः सर्गः

—:०:—

निर्वृत्ते तु क्रतौ तस्मिन्हयमेधे महात्मनः ।

प्रतिगृह्य सुरा यागान्प्रतिजग्मुर्यथागतम् ॥१॥

महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर देवता अपना अपना भाग लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए ॥ १ ॥

समाप्तदीक्षानियमः पत्नीगणसमन्वितः ।

प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्यवलवाहनः ॥२॥

महाराज भी यज्ञदीक्षा के नियमों को समाप्त कर, रानियों, सेवकों, सेना और वाहनों सहित राजधानी में चले गए ॥ २ ॥

यथाहं पूजितास्तेन राज्ञा वै पृथिवीश्वराः ।

मुदिताः प्रययुर्देशान्प्रणम्य मुनिपुङ्गवम् ॥३॥

वाहिर से न्योते में आए हुए राजा भी यथाचित रीत्या सत्कारित हो और वसिष्ठ जी को प्रणाम कर सहर्ष अपने अपने देशों को लौट गए ॥ ३ ॥

श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वपुराणि पुरात्ततः ।

वलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरं ॥४॥

वहाँ से अपने नगरों को राजाओं के जाने पर उन राजाओं की सेनाएँ नाना प्रकार के भूषणवस्त्रादि पाकर और प्रसन्न हो अयोध्या से अपने अपने पुरों को विदा हुईं ॥४॥

गतेषु पृथिवीगेषु राजा दशरथस्तदा ।

प्रविवेश पुरीं श्रीमान्पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान् ॥५॥

सब राजाओं के विदा हो जाने के बाद महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आने कर, पुरी में प्रवेश किया ॥५॥

शान्त्या प्रययौ सार्धमृष्यभृद्गः नुपूजितः ।

अन्वीयमानो राज्ञाऽथ तानुयात्रेण धीमता ॥६॥

ऋष्यशृङ्ग भी अपनी पत्नी शान्ता सहित महाराज से विदा हो, अपने स्थान को चल दिए। महाराज उनको पहुँचाने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ गए ॥६॥

एवं विसृज्य तान्सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः ।

उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन् ॥७॥

इस प्रकार उन सब को विदा कर, महाराज दशरथ सफल मनोरथ हो, सन्तानोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए रहने लगे ॥७॥

ततो यज्ञे समाप्तं तु ऋतूनां षट् समत्ययुः ।

ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ ॥८॥

यज्ञ होने के दिन से जब छः ऋतुएँ बीत चुकीं और वारहवाँ महीना लगा, तब चैत्र मास की नवमी तिथि को ॥८॥

नक्षत्रेऽदितिदैवत्ये स्वाञ्चसंस्थेषु पञ्चसु ।

ग्रहेषु कर्कटे लगने वाक्यताविन्दुना सह ॥९॥

पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मङ्गल, शनि, बृहस्पति और शुक्र के उच्चस्थानों में प्राप्त होने पर, अर्थात् क्रमशः मेष, नकर, तुला, कर्क और मीन राशियों में आने पर और जब चन्द्रमा बृहस्पति के साथ हो गए, तब कर्क लग्न के उदय होते ही ॥९॥

प्राद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतम् ।

कौसल्याऽजनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतम् ॥१०॥

सर्वबन्ध, जगत् के स्वामी और दिव्य लक्षणों से युक्त श्रीरामचन्द्र जी का जन्म कौसल्या जी के गर्भ से हुआ ॥१०॥

विष्णोरर्थ महाभागं पुत्रमैश्वराकवर्धनम् ।

कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा ॥११॥

यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना ।

भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः ॥१२॥

इक्ष्वाकुवंश को बढ़ाने वाले विष्णु भगवान् का आधा भाग कौसल्या के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । इस अमित तेजस्वी पुत्र के उत्पन्न होने पर कौसल्या जी की बंसी ही शोभा हुई, जैसी कि, देवताओं के वरदान से इन्द्र द्वारा अदिति की हुई थी । सत्य-पराक्रमी भरत कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए ॥११॥१२॥

साक्षाद्विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः ।

अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नां सुमित्राजनयत्सुतां ॥१३॥

[नोट—लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वाँ भाई थे]

भरत जी विष्णु भगवान् के चतुर्थांश थे और नव गुणों से युक्त थे । सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए ॥१३॥

सर्वास्त्रकुशलां वीरौ विष्णोरर्धसमन्वितौ ।

पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः ॥१४॥

वे दोनों विष्णु के अष्टमांश थे और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में कुशल शूरवीर थे । पुष्य नक्षत्र और मीन राश में, सदा प्रसन्न रहने वाले भरत जी का जन्म हुआ ॥१४॥

सार्पे जातौ च सौमित्री कुलीरेऽभ्युद्गिते रवां ।

राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक् ॥१५॥

श्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में सूर्योदय के समय लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ । महाराज के चारों पुत्र पृथक् पृथक् गुणों वाले पैदा हुए ॥१५॥

गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः ।

जगुः कलं च गन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥१६॥

देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खाच्च्युता ।

उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलाः ॥१७॥

चारों पुत्र गुणवान् और पूर्वा व उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों के तुल्य कान्ति युक्त थे । इनके जन्म के समग्र गन्धर्वों ने मधुर गान किआ, अप्सराएँ नाचीं, देवताओं ने बाजे बजाए और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई । इस प्रकार अयोध्या में बड़ी धूमधाम से उत्सव हुआ और लोगों की बड़ी भीड़ हुई ॥१६॥१७॥

रथ्याश्च जनसम्वाधा नटनर्तकसङ्कुलाः ।

गायनेश्च विराविण्यां वादकैश्च तथाऽपरैः ॥१८॥

अयोध्या में घर घर आनन्द की बधाई बजने लगीं । गली कूचों में जिधर देखो उधर ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी और वेश्या, नट नटी आदि गा बजा रही थीं ॥१८॥

प्रदेयांश्च ददौ राजा सूतमागधवन्दिनाम् ।

ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः ॥१९॥

इस उत्सव में महाराज दशरथ ने सूत, मागध और वन्दीगण को पारितोषिक यानी “किरोपा” और ब्राह्मणों को धन और बहुत सी गौएँ दीं ॥१९॥

अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथाऽकरोत् ।

ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकयीसुतम् ॥२०॥

बारहवें दिन चारों शिशुओं का नाम-करण संस्कार किया गया। सब से बड़े अर्थात् कौसल्यानन्द-वर्द्धन का नाम श्रीराम-चन्द्र और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया ॥२०॥

सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरं तथा ।

वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कृतवांस्तदा ॥२१॥

सुमित्रा जी के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। यह नाम-करण-संस्कार बड़े हर्ष के साथ वसिष्ठ जी ने किया ॥२१॥

ब्राह्मणान्भोजयामास पौरजानपदानपि ।

अद्दद्ब्राह्मणानां च रत्नौघममितं बहु ॥२२॥

इस दिन पुरवासियों को और चाहिर से आए हुए ब्राह्मणों को महाराज ने भोजन कराए और ब्राह्मणों को बहुत से रत्न बाँटे ॥२२॥

तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् ।

तेषां केतुरिवः ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः ॥२३॥

इन सब बालकों के जातकर्म, अन्नप्राशनादि संस्कार महाराज ने यथासमय करवाए। इन चारों में कुल की पताका के नमान श्रीरामचन्द्र अपने पिता दशरथ को अत्यन्त प्यारे थे ॥२३॥

बभूव भूयोभूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः ।

सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहितं रताः ॥२४॥

यही नहीं, बल्कि वे ब्रह्मा जी की तरह सब लोगों के प्रेमानन्द थे। चारों राजकुमार वेद के जानने वाले, शूर और सब लोगों के हितैषी थे ॥२४॥

सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ।

तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥२५॥

यद्यपि सब राजकुमार परम ज्ञानी और सर्वगुण सम्पन्न थे ;
तथापि उनमें महातेजस्वी और सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी ॥२५॥

इष्टः सर्वस्य लोकस्य गशाङ्क इव निर्मलः ।

गजस्कन्धेऽश्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः ॥२६॥

निर्मल चन्द्रमा की तरह सब के प्यारे थे । उनको हाथी के
कन्धे पर और घोड़े की पीठ पर तथा रथ पर बैठना बहुत पसंद
था । अर्थात् हाथी, घोड़ा और रथ स्वयं हाँकने का शौक था ॥२६॥

धनुर्वेदे च निरतः पितृशुश्रूषणे रतः ।

वाल्यात्प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः ॥२७॥

रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः ।

सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः ॥२८॥

वे धनुर्विद्या में निपुण थे और सदा पिता की सेवा में लगे
रहते थे । शोभा के बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी लड़कपन ही से
अपने लोकहितैषी अथवा लोकाभिराम ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामचन्द्रजी
की आज्ञा में सदा रहते थे और श्रीरामचन्द्र जी को अपने शरीर
से बढ़कर चाहते थे ॥२७॥२८॥

लक्ष्मणो लक्ष्मिसम्पन्नो बहिः प्राण इवापरः ।

न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः ॥२९॥

मृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति न हि तं विना ।

यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः ॥३०॥

कान्ति सम्पन्न लक्ष्मण जी को श्रीरामचन्द्र जी अपना दूसरा प्राण ही मानते थे और इतना चाहते थे कि, बिना उनके न तो सोते और न कोई मिठाई ही खाते थे । जब श्रीरामचन्द्रजी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जाते ॥२६॥३०॥

तदैनं पृष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन् ।

भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः ॥३१॥

प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रियः ।

स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैर्दशरथः प्रियैः ॥३२॥

तब लक्ष्मण जी धनुष हाथ में ले उनके पीछे पीछे हो लिया करते थे । भरत जी को भी शत्रुघ्न उसी प्रकार प्राणों के समान प्रिय थे, जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी को लक्ष्मण । इन चारों महाभाग्यशाली प्यारे पुत्रों से महाराज दशरथ ॥३१॥३२॥

बभूव परमप्रीतो *वेदैरिव पितामहः ।

ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ॥३३॥

वैसे ही प्रसन्न रहते थे जैसे चारों वेदों से ब्रह्माजी । उन चारों ज्ञानी, सब गुणों से युक्त ॥३३॥

हीमन्तः कीर्त्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः ।

तेषामेवंप्रभावानां सर्वेषां दीप्ततेजसाम् ॥३४॥

लज्जालु, कीर्त्तिमान्, सर्वज्ञ और दूरदर्शी पुत्रों का प्रभाव व तेज देख, ॥३४॥

पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा ।

ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः ॥३५॥

उनके पिता महाराज दशरथ वैसे ही प्रसन्न होते थे, जैसे ब्रह्मा जी लोकपालों से अथवा दिक्पालों से। वे चारों पुरुषसिंह राजकुमार वेदाध्ययन में निरत रहते थे ॥३५॥

पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः ।

अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति ॥३६॥

चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सवान्धवः ।

तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः ॥३७॥

अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ।

स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी द्वाराध्यक्षानुवाच ह ॥३८॥

वे पिता की सेवा किया करते थे और धनुर्विद्या में निष्ठा रखते थे। उनके विवाह के लिए महाराज दशरथ उपाध्यायों और कुटुम्बियों तथा मंत्रियों से सलाह कर रहे थे कि, इसी बीच में महामुनि महातेजस्वी विश्वामित्र पधारे। वे महाराज से मिलने की अभिलाषा से ड्योढीदार से बोले ॥३६॥३७॥३८॥

शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतम् ।

तच्छ्रुत्वा वचनं त्रासाद्राज्ञो वेश्म प्रदुद्रुवुः ॥३९॥

तुरन्त जाकर महाराज को सूचना दो कि, गाधि के पुत्र कौशिक आए हैं। यह सुन और भयभीत हो, द्वारपाल राजगृह की ओर दौड़े ॥३९॥

सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ।

ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा ॥४०॥

प्राप्तमावेदयामासुर्नृपायैक्ष्वाकवे तदा ।

तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥४१॥

विश्वामित्र जी के कहने पर उन्होंने बड़े आदर के साथ राज-भवन में जाकर विश्वामित्र जी के आने का संवाद महाराज दशरथ से निवेदन किया। आगमन सुन, महाराज प्रसन्न हो और वसिष्ठजी को साथ ले ॥४०॥४१॥

प्रत्युज्जगाम तं हृष्टां ब्रह्माणमिव वासवः ।

स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतम् ॥४२॥

विश्वामित्र जी से मिलने उसी प्रकार गए, जिस प्रकार ब्रह्मा जी से मिलने इन्द्र जाते हैं। देव से वेदीप्यमान, महातेजस्वी, अति कड़े नियमों का पालन करने वाले और प्रसन्नमुख विश्वामित्रजी को खड़ा देख ॥४२॥

प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽर्घ्यं समुपाहरत् ।

स राज्ञः प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥४३॥

महाराज ने प्रसन्न हो शास्त्र-विधि के अनुसार उनको अर्घ्य प्रदान किया। महाराज से अर्घ्य ले ॥४३॥

कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपम् ।

पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च ॥४४॥

विश्वामित्र जी ने महाराज से पुर, कोश, राज्य, कुटुम्ब और इष्टमित्रों की कुशल पूछी ॥४४॥

कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत्सुधार्मिकः ।

अपि ते सन्नता सर्वे सामन्ता रिपवो जिताः ॥४५॥

विश्वामित्र ने कुशल पूछते हुए अत्यन्त धार्मिक महाराज से पूछा—आपके समस्त सामन्त आपके अधीन रहते हैं? आपने अपने शत्रुओं को तो जीत कर अपने वश में कर रखा है? ॥४५॥

दैवं च मानुषं चापि कर्म ते साध्वनुष्ठितम् ।

वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ॥४६॥

यज्ञादि देवकर्म, तथा अतिथियों का सत्कार आदि कर्म, भली भाँति होते हैं ? फिर विश्वामित्र जी ने मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ जी से कुशल पूछी ॥४६॥

ऋषींश्चान्यान्यथान्यायं महाभागानुवाच ह ।

ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम् ॥४७॥

इसके बाद विश्वामित्र जी ने यथाक्रम अन्य ऋषियों (जाबालादि) से कुशल मङ्गल पूछा । तब वे सब प्रसन्नमन महाराज के समा-भवन में गए ॥४७॥

विविशुः पूजितास्तत्र निषेदुश्च यथार्हतः ।

अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् ॥४८॥

वहाँ वे लोग यथोचित सम्मान पा कर, यथोचित आसनों पर बैठ गए । तब महाराज दशरथ प्रसन्न हो, महामुनि विश्वामित्र जी से ॥४८॥

उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन् ।

यथाऽमृतस्य सम्प्राप्तिर्यथा वर्षमनूदके ॥४९॥

यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्माप्रजस्य च ।

प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदये ॥५०॥

तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने ।

कं च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः ॥५१॥

परमोदार महाराज दशरथ आदर पूर्वक बोले—हे महर्षे ! आपके आगमन से मुझे वैसा ही हर्ष हुआ है, जैसा कि, अमृत

के मिलने से, सुखती हुई खेती को वर्षा होने से, अपुत्रक को पुत्र के जन्म से और टोटा उठाने वाले (वैश्य) को लाभ होने से सुख प्राप्त होता है। हे महामुने ! मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ ; कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है ॥४६॥५०॥५१॥

पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन्दिष्ट्या प्राप्तोऽसि धार्मिक ।

अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम् ॥५२॥

आपकी कृपादृष्टि मेरे ऊपर पड़ने से मैं सुपात्र और धार्मिक बन गया। आज मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा जीवन सुजीवन होगया ॥५२॥

पूर्वं राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ।

ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया ॥५३॥

आप प्रथम जब राजर्षि थे, तभी आप बड़े तेजस्वी थे, फिर अब तो आप ब्रह्मर्षि पदवी को प्राप्त होने से सब प्रकार से मेरे लिए अत्यन्त पूज्य हैं ॥५३॥

तद्द्भुतमिदं ब्रह्मन्पवित्रं परमं मम ।

शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव सन्दर्शनात्प्रभो ॥५४॥

आपका आगमन अति पवित्र और अद्भुत होने से आपके शुभदर्शन कर मेरा शरीर भी पवित्र हो गया, अथवा यह स्थान पवित्र हो गया ॥५४॥

ब्रूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति ।

इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थपरिवृद्धये ॥५५॥

आप जिस काम के लिए पधारे हों, वह बतलाइए। मैं चाहता हूँ कि, आपकी सेवा कर, मैं अनुगृहीत होऊँ ॥५५॥

कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि कौशिक ।

कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान्मम ॥५६॥

हे कौशिक ! आप किसी बात के लिए सङ्कोच न करें ; मैं आपके सब कार्य करूँगा । क्योंकि आप तो मेरे देवता (पूज्य) हैं ॥५६॥

मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विज ।

तवागमनजः कृत्स्नो धर्मश्चानुत्तमो मम ॥५७॥

हे ब्रह्मर्षि ! आपके पधारने से मेरा मानों भाग्य जागा और बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ ॥५७॥

इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं

श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तम् ।

प्रथितगुणयशा गुणैर्विशिष्टः

परमऋषिः परमं जगाम हर्षन् ॥५८॥

इति अष्टादशः सर्गः ॥

महाराज दशरथ के मन को प्रसन्न करने वाले, शास्त्रानु-
मोदित और विनम्र वचनों को सुन कर, बड़े यशस्वी और
सर्वगुण-सम्पन्न महर्षि विश्वामित्र जी, परम प्रसन्न हुए ॥५८॥

बालकाण्ड का अठारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

एकविंशः सर्गः

—:०:—

तच्छ्रुत्वावचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरम् ।

समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम् ।

महाराज दशरथ के पुत्रस्नेह से सने वचनों को सुन, मुनिप्रवर विश्वामित्र जी क्रुद्ध हुए और कहने लगे ॥१॥

पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि ।

राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः ॥२॥

हे राजन् ! आप महाराज रघु के वंश में उत्पन्न होकर, बात कह कर सुकरते हैं । यह तो आपकी वंशपरम्परा से उल्टी बात है और ठीक भी नहीं है ॥२॥

यदीदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथागतम् ।

मिथ्याप्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सवान्धवः ॥३॥

अच्छा, यदि आपकी यही इच्छा है तो, लो मैं यह चला । आप अपनी प्रतिज्ञा मेंट कर भाई वंदों सहित प्रसन्न रहिए ॥३॥

तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः ।

चचाल वसुधा कृत्स्ना विवेश च भयं सुरान् ॥४॥

इस प्रकार बुद्धिमान् विश्वामित्र के लुपित होने पर, समस्त पृथिवी हिल उठी और देवता लोग डर गए ॥४॥

त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सर्वं महानृपिः ।

नृपतिं सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् ॥५॥

जब बहुत दिनों तक किआ हुआ यज्ञ पूरा होने को होता है, तब वे राक्षस आकर यज्ञवेदी पर माँस और रुधिर बरसाते हैं ॥५॥

अवधूते तथाभूते तस्मिन्नियमनिश्चये ।

कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माद्देशादपाक्रमे ॥६॥

इससे मेरा नियम भ्रष्ट हो जाता है और मैं निरुत्साहित होकर वहाँ से हट जाता हूँ ॥६॥

न च मे क्रोधमुत्स्रष्टुं बुद्धिर्भवति पार्थिव ।

तथाभूता हि सा चर्या न शापस्तत्र मुच्यते ॥७॥

हे राजन् ! इस चर्या में क्रोध करना वर्जित होने के कारण मैं उनको शाप भी नहीं दे सकता ॥७॥

स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमम् ।

काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि ॥८॥

अतएव हे राजशार्दूल ! सत्यपराक्रमी और सीस पर जुल्फें रखाए हुए और शूर अपने ज्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र को मुझे दीजिए ॥८॥

शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन? स्वेन तेजसा ।

राक्षसा ये विकर्तारस्तेषामपि विनाशने ॥९॥

मुझसे रक्षित हो वे अपने ज्ञान तेज से मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे और विघ्नकारी राक्षसों को भी नष्ट करेंगे ॥९॥

श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः ।

त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति ॥१०॥

१ दिव्यतेजो वैष्णवम् तेन (गो०)

२ विकर्तारः = विघ्नकर्तारः (गो०)

मैं इनके कल्याण के लिए ऐसी ऐसी अनेक विधियाँ और क्रियाएँ इन्हें बतलाऊँगा ; जिससे इनकी ख्याति तीनों लोकों में होगी ॥१०॥

न च तौ राममासाद्य गक्तौ स्यातुं कथञ्चन ।

न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान् ॥११॥

श्रीराम जी के सामने वे कभी टिक न सकेंगे और अन्य मनुष्य को वे कुछ भी न गिनेंगे । अर्थात् श्रीरामचन्द्र जी को छोड़ और कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं मार सकता ॥११॥

वीर्योत्सिक्तौ हि तौ पापौ कालपाशवशं गतौ ।

रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तौ महात्मनः ॥१२॥

क्योंकि वे दोनों गर्वीले पापी बड़े बलवान् हैं ; किन्तु अब उनके मरने का समय आ गया है । हे राजशार्दूल ! वे श्रीरामचन्द्र की बराबरी नहीं कर सकते ॥१२॥

न च पुत्रकृतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव ।

अहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ ॥१३॥

हे राजन् ! इस समय आप पुत्रस्नेह के बशवर्ती न हों । मैं आपसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि, आप उन राक्षसों को मरा हुआ ही समझिए ॥१३॥

अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् ॥

वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः ॥१४॥

मैं, महातेजस्वी वसिष्ठ तथा ये वामदेवादि तपस्वी, सत्य-पराक्रमी श्रीरामचन्द्र को जानते हैं ॥१४॥

यदि ते धर्मलाभं च यशश्च परमं भुवि ।

*स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि ॥१५॥

यदि आप इस संसार में अपने लिए सबसे बढ़ कर पुण्य और यश को स्थायी बनाना चाहते हों, तो हे राजेन्द्र ! श्रीराम जी को मेरे साथ भेज दीजिए ॥१५॥

यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददते तव मन्त्रिणः १

वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसर्जय ॥१६॥

आप वसिष्ठ आदि अपने मंत्रियों के साथ परामर्श कर लें और यदि वे लोग आपको अनुकूल परामर्श दें, तो आप श्रीराम को मेरे साथ भेज दीजिए ॥१६॥

अभिप्रेतमसंसक्तमात्मजं^१ दातुमर्हसि ।

दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम् ॥१७॥

मेरा यज्ञ पूरा कराने के लिए दस दिन को राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी को मुझे तुरन्त दे दीजिए ॥१७॥

नात्येति कालो यज्ञस्य यथाज्यं मम राघव ।

तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथाः ॥१८॥

ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय न निकलने पावे । आपका कल्याण हो । आप मन में दुखी न हों ॥१८॥

इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः ।

विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥१९॥

धर्मात्मा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी धर्मार्थयुक्त इन वचनों को कह कर, चुप हो गए ॥१९॥

१ असंसक्तं = अविलम्बितमिति (गो०)

* पाठान्तरे—“स्थितमिच्छसि”

स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभम् ।

शोकमभ्यागमत्तीव्रं व्यषीदत भयान्वितः ॥२०॥

विश्वामित्र की इन शुभ बातों को सुन कर, महाराज दशरथ बहुत डरे और अत्यन्त दुखी हो उदास हो गए ॥२०॥

इति हृदयमनोविदारणं

मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान् ।

नरपतिरगमद्भयं महद्-

व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात् ॥२१॥

इति एकोनविंशः सर्गः

महाराज दशरथ हृदय और मन को विदीर्ण करने वाले वचन सुन और अत्यन्त भयभीत और विकल हो तथा, मूर्च्छित हो सिंहासन से गिर पड़े ॥२१॥

बालकाण्ड का उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

विंशः सर्गः

—:०:—

तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् ।

मुहूर्तमिव निःसंज्ञः संजावानिदमब्रवीत् ॥१॥

विश्वामित्र जी का कथन सुन, महाराज दशरथ एक मुहूर्त तक अचेत रहे । तदनन्तर सचेत हो कर यह बोले ॥१॥

ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः ।

न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः ॥२॥

[नोट—श्रीराम जी के लिए, राजीवलोचन का विशेषण आदि कवि ने विशेष कारण से दिश्रा है। राजीव-कमल को कहते हैं। कमल सूर्यास्त होते ही सिमिट कर बन्द हो जाता है। अतः श्रीरामचन्द्र जी सूर्यास्त के बाद सो जायेंगे और राक्षस रात में प्रबल होते हैं—अतः श्रीराम जी आपकी सहायता कुछ भी न कर सकेंगे। यह भाव दिखाने को राजीव-लोचन का प्रयोग किश्रा गया है]

मेरे राजीवलोचन श्रीराम अभी केवल पन्द्रह वर्ष ही की उम्र के तो हैं। मैं उन्हें किसी भी तरह राक्षसों के साथ लड़ने योग्य नहीं समझता ॥२॥

इयमक्षौहिणी पूर्णा यस्याहं पतिरीश्वरः ।

अनया संवृतो गत्वा योद्धाऽहं तैर्निशाचरैः ॥३॥

मेरे पास जो बड़ी सेना है, उसको साथ ले कर मैं उन राक्षसों से लड़ूँगा ॥३॥

इमे शूराश्च विक्रान्ता भृत्या मेऽस्त्रविशारदाः ।

योग्या रक्षोगणैर्योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि ॥४॥

ये मेरे शूर, पराक्रमी और युद्धविद्या में दक्ष, वेतनभोगी योद्धा राक्षसों से युद्ध करने योग्य हैं। आप राम को न ले जाइए ॥४॥

अहमेव धनुष्पाणिर्गोप्ता समरमूर्धनि ।

यावत्प्राणान्धरिष्यामि तावद्योत्स्ये निशाचरैः ॥५॥

मैं स्वयं धनुष बाण लिए हुए रणक्षेत्र में खड़ा और आपके यज्ञ की रक्षा करता हुआ जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, राक्षसों से लड़ता रहूँगा ॥५॥

निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता ।

अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि ॥६॥

आपकी व्रतचर्या निर्विघ्न समाप्त होगी । मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा
आप श्रीराम जी को न ले जाइए ॥६॥

वालो ह्यकृतविद्यश्च न च वेत्ति बलावलम् ।
न चास्त्रवलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥७॥

क्योंकि श्रीराम अग्नी निरे बालक है, वे न तो अनुभवी हैं,
न शत्रु के बलावल को समझ सकते हैं और न युद्धविद्या में
कुशल ही हैं ॥७॥

न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि ते ध्रुवम् ।
विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे ॥८॥

आप जानते हैं राक्षस युद्ध करते समय झल कपट करने में
कैसे कुशल होते हैं । श्रीरामचन्द्र उनका सामना करने योग्य नहीं ।
मैं श्रीराम का उनके साथ युद्ध करना कभी सहन नहीं कर
सकता ॥८॥

जीवितुं मुनिशार्दूल न रामं नेतुमर्हसि ।
यदि वा राघवं ब्रह्मन्नेतुमिच्छसि सुव्रत ॥९॥

चतुरङ्गसमायुक्तं मया च सह तं नय ।
षष्टिर्वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक ॥१०॥

दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि ।
चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ॥११॥

श्रीराम के वियोग में मैं क्षण भर भी नहीं जीवित रह सकता ।
अतः हे मुनिवर ! आप उनको न ले जाइए और यदि उनको
वा० रा०—११

ले ही जाना हो तो मुझे और मेरी चतुरङ्गिणी सेना को भी उनके साथ ही लेते चलिए। हे विश्वामित्र ! देखिए, साठ हजार वर्षों के वय में, बड़े क्लेश से मैंने इनका पाया है। अतः इनका न ले जाइए। चारों राजकुमारों में मेरा परम स्नेह श्रीरामचन्द्र ही के ऊपर है ॥६॥१०॥११॥

ज्येष्ठं धर्मप्रधानं च न रामं नेतुमर्हसि ।

किंवार्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते ॥१२॥

वह धर्मप्रधान और ज्येष्ठ हैं। अतः राजकुमार श्रीरामचन्द्र को आप न ले जाइए। अच्छा, यह तो बतलाइए उन राजसों में बल कितना है और वे किनके वेटे हैं ? ॥१२॥

कथंप्रमाणाः के चैतानुरक्षन्ति मुनिपुंगव ।

कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम् ॥१३॥

वे कितने बड़े हैं और उनके सहायक कौन कौन हैं और उन्हें श्रीराम किस तरह मार सकेंगे ? ॥१३॥

मामकैर्वा वलैर्ब्रह्मन्मया वा कूटयोधिनाम् ।

सर्वं मे शंस भगवन्कथं तेषां मया रणे ॥१४॥

स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसा ।

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१५॥

हे भगवान् ! यह सब भी बतलाइए कि, हमारी सेना और मैं उन मायावियों और दुष्ट भाव वाले बड़े पराक्रमी राजसों के साथ युद्ध में क्यों कर ठहर सकूंगा ? महाराज के वचन सुन-
विश्वामित्र जी बोले ॥१४॥१५॥

पुलस्त्यवंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः ।

स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैलोक्यं बाधते भृशम् ॥१६॥

हे राजन् ! महर्षि पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न रावण नाम का राक्षस, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, तीनों लोकों को बहुत सताता है ॥ १६ ॥

महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्वहुभिर्दृतः ।

श्रूयते हि महावीर्यो रावणो राक्षसाधिपः ॥१७॥

वह स्वयं बड़ा बलवान् तथा बड़ा पराक्रमी है और उसके अनेक राक्षस अनुयायी हैं। सुनते हैं कि, वह महावीर रावण राक्षसों का राजा है ॥१७॥

साक्षाद्विश्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः ।

यदा स्वयं न यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः ॥१८॥

वह साक्षात् कुबेर का भाई और विश्रवा मुनि का पुत्र है। वह महाबली छोटे यज्ञों में स्वयं तो विघ्न नहीं करता, किन्तु ॥१८॥

तेन संचोदितौ द्वौ तु राक्षसौ सुमहाबलौ ।

मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः ॥१९॥

उसकी प्रेरणा से बड़े बलवान् दो राक्षस जिनके नाम मारीच और सुबाहु हैं, ऐसे यज्ञों में विघ्न डालते हैं ॥१९॥

इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा ।

न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्यातुं तस्य दुरात्मनः ॥२०॥

विश्वामित्र के इन वचनों को सुन, महाराज दशरथ उनसे कहने लगे कि मैं तो उस दुरात्मा का सामना नहीं कर सकता ॥२०॥

स त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके ।

मम चैवाल्यभाग्यस्य दैवतं हि भवान्गुरुः ॥२१॥

हे धर्मज्ञ ! आप मेरे वच्चे पर और मुझ पर कृपा करें, क्योंकि आप तो मुझ अल्पभाग्य वाले के केवल देवता की तरह पूज्य ही नहीं, किन्तु गुरु भी हैं ॥२१॥

देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पतंगपन्नगाः ।

न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवा युधि ॥२२॥

जब देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, पक्षी और साँप भी रावण को युद्ध में नहीं जीत सकते, तब फिर बेचारे मनुष्य किस गिनती में हैं ॥२२॥

स हि वीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि राक्षसः ।

तेन चाहं न शक्नोमि संयोद्धुं तस्य वा वलैः ॥२३॥

रावण युद्ध में बलवानों के बल को क्षय कर देता है, अतएव मैं उसके अथवा उसकी फौज के साथ युद्ध कर पार नहीं पा सकता ॥२३॥

सवलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजैः ।

कथमप्यमरप्रख्यं संग्रामाणामकोविदम् ॥२४॥

बालं मे तनयं ब्रह्मन्नेव दास्यामि पुत्रकम् ।

अथ कालोपमौ युद्धे सुतो सुन्दोपसुन्दयोः ॥२५॥

यज्ञविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम् ।
 मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ ।
 तयोरन्यतरेणाहं योद्धा स्यां ससुहृद्गणः ॥२६॥

फिर मैं उन लोगो के साथ लड़ने के लिए, अपने पुत्र को, जो देवताओं के समान रूप वाला है, युद्धविद्या में अदक्ष है, कैसे भेज सकता हूँ ? हे ब्रह्मन् ! मैं अपने नन्हे से पुत्र को न दूंगा। सुन्द उपसुन्द के पुत्र मारीच और सुबाहु जो युद्ध में काल के समान हैं, बड़े बलवान् हैं और युद्ध करने में पूर्ण दक्ष हैं और यज्ञ में विघ्न करने वाले हैं, उनके साथ लड़ने के लिए मैं अपने पुत्र को न भेजूंगा। उनको छोड़, आप और जिससे कहें उसके साथ अपने मित्र तथा बंधवो सहित, मैं लड़ने को तैयार हूँ ॥२४॥२५॥२६॥

इति नरपतिजल्पनाद्द्विजेन्द्रं

कुशिकसुतं सुमहान्विवेश मन्युः ।

सुहुत इव मखेऽग्निराज्यसिक्तः

समभवदुज्ज्वलितो महर्षिवद्विः ॥२७॥

इति विंशः सर्गः ॥

महाराज दशरथ के इन असङ्गत वचनों को सुन, विश्वामित्र जी अत्यन्त कुपित हुए। जिस प्रकार भली भाँति धी की आहुति पढ़ने से आग धधकती है, उसी प्रकार उनका क्रोधाग्नि (दशरथ के वचन रूपी घृत की आहुति से) धधकने लगा ॥२७॥

बालकाण्ड का तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

एकोनविंशः सर्गः

—:०:—

तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम् ।

हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१॥

राजसिंह महाराज दशरथ के अद्भुत और विस्तृत वचन सुन
महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो कहने लगे ॥१॥

सदृशं राजाशार्दूल तवैतद्भुवि नान्यथा ।

महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः ॥२॥

हे राजशार्दूल ! ऐसे वचन आप जैसे इक्ष्वाकुवंशी और
वसिष्ठ जी के यजमान को छोड़ और कौन कहेगा ॥२॥

यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम् ।

कुरुष्व राजाशार्दूल भव सत्यप्रतिश्रवः ॥३॥

हे राजशार्दूल ! अब मैं अपने मन की बात कहता हूँ । उसके
अनुसार कार्य करके, आप अपनी प्रतिज्ञा को मत्य कीजिए ॥३॥

अहं नियममातिष्ठे सिद्धयर्थं पुरुषर्षभ ।

तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ ॥४॥

हे नरश्रेष्ठ ! मैं जब फल प्राप्ति के लिए यज्ञदीक्षा ग्रहण करना
हूँ तब दो कामरूपी राक्षस आकर उसमें विघ्न किआ करते हैं ॥४॥

व्रते मे बहुशस्त्रीणो समाप्त्यां राक्षसाविमौ ।

तौ सांस्रुधिरौघेण वेदिं तामभ्यवर्षताम् ॥५॥

१ सिद्धयर्थं=फलार्थम् (गो०)

तव सारे संसार को त्रस्त देख, श्रेष्ठव्रतपरायण एवं धैर्यवान्
महर्षि वसिष्ठ जी, महाराज दशरथ से बोले ॥५॥

इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धर्म इवापरः ।

धृतिमान्सुव्रतः श्रीमान्न धर्मं हातुमर्हसि ॥६॥

आप महाराज इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न मानों साक्षात् धर्म
की दूसरी मूर्ति हैं । आप श्रीमान्, धृतिवान् और सुव्रतधारी हो
कर, धर्म का त्याग न करें ॥६॥

त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघव ।

स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व नाधर्मं वोढुमर्हसि ॥७॥

तीनों लोकों में आप धर्मात्मा कह कर प्रसिद्ध हैं । अतएव
आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अधर्म न की कीजिए ॥७॥

संश्रुत्यैवं करिष्यामीत्यकुर्वाणस्य राघव ।

इष्टापूर्तवधो भूयात्तस्माद्रामं विसर्जय ॥८॥

हे राजन् ! जो कोई प्रतिज्ञा करके उसे पूरी नहीं करता है,
उसे इष्टा ऋपूर्त के नाश करने का पाप लगता है । अतः आप
श्रीरामचन्द्र जी को भेज दीजिए ॥८॥

कृतास्त्रमकृतास्त्रं वा नैनं शक्यन्ति राक्षसाः ।

गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा ॥९॥

* इष्टं—इष्ट अश्वमेधान्तोयागः । पूर्त—वाप्यादि निर्माण । प्रयात्
अश्वमेधादि यज्ञ इष्ट कहलाते हैं और कुशिक, नावही, तालाव आदि
वनवाना “पूर्त” कहलाता है ।

श्रीरामचन्द्र चाहे अन्नविद्या मे कुशल हों या न हों, राजस उनका कुछ भी नहीं कर सकते। फिर जब विश्वामित्र उनके चक्र है, तब श्रीरामचन्द्र का कोई क्या कर सकता है। अरे अमृत की रक्षा जब अग्निचक्र से होती है* तब क्या अमृत को कोई पा सकता है ॥६॥

एष विघ्नश्चान्धर्म एष वीर्यवनां वरः ।

एष बुद्ध्याधिकां लोके तपसश्च परायणम् ॥१०॥

यह विश्वामित्र शरीर धारण किए हुए धर्म हैं, यह बड़े बलवान हैं, इनके बटुकर बुद्धिमान और तपःपरायण इस संसार में तो दूसरा कोई है नहीं ॥१०॥

एषोऽन्नान्विविधान्येत्ति त्रैलोक्ये सचराचरं ।

नैनमन्यः पुमान्येत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन ॥११॥

अनेक अन्नो के चलाने की विधियों को जानने वाले तीनों लोकों में तथा चर अचर में वह अकेले ही हैं। इनके स्वरूप का ज्ञान नर जिनका को नहीं है और न हो सकता है ॥११॥

न देवा नरयः केचिन्नामुरा न च गक्षन्नाः ।

गन्धर्वयक्षनयनाः नकिन्नरसहोरगाः ॥१२॥

इनकी नादिका को देवता, अग्नि, अमृत, राजस, गन्धर्व यक्ष, किन्नर और नगेरु—कोई भी नहीं जानता ॥१२॥

मर्यादाणि कृशाश्चम्य पुत्राः परमधार्मिकाः ।

कांगिक्राय पृग दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ॥१३॥

* अमृत की रक्षा के लिए उसके चारों ओर अग्नि बना देता है।

कृशाश्व प्रजापति के परम धार्मिक पुत्रों ने विश्वामित्र को, जब वे पहले राज्य करते थे, सब अस्त्र दिए थे ॥१३॥

तेऽपि पुत्रा कृशाश्वस्य प्रजापतिसुतासुताः ।

नैकरूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो जयावहाः ॥१४॥

वे कृशाश्व के पुत्र प्रजापति की कन्याओं के पुत्र हैं. वे एक रूप के नहीं हैं, वे बड़े बलवान्, दीप्तिमान् और सबको जीतने में समर्थ हैं ॥१४॥

जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्ये सुमध्यमे ।

ते सुवातेऽश्वशस्त्राणि शतं परमभास्वरम् ॥१५॥

दक्षप्रजापति की दो कन्याओं जया और सुप्रभा ने सैकड़ों अति चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्र उत्पन्न किए ॥१५॥

पञ्चाशतं सुताँल्लेभे जया नाम परान्पुरा ।

वधायासुरसैन्यानाममेयान्कामरूपिणः ॥१६॥

जया ने ५०० अस्त्र रूपी पुत्र उत्पन्न किए अर्थात् ५०० प्रकार के अस्त्रों का आविष्कार किया जो कि, अभित तेज वाले थे और मायावी असुरसेना का संहार करने में समर्थ हुए ॥१६॥

सुप्रभाऽजनयत्त्रापि पुत्रान्दशशतं पुनः ।

संहारान्नाम दुर्धर्षान्दुराक्रामान्बर्लायसः ॥१७॥

फिर सुप्रभा के भी ५०० शस्त्ररूपी पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात् शत्रु का संहार करने के लिए सुप्रभा ने भी ५०० प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार किया । उनका नाम नहार पड़ा. इनका प्रकार कोई भी शत्रु सह नहीं सकता । ये कभी निष्फल नहीं जाते. क्योंकि ये बड़े बलवान् हैं ॥१७॥

तानि चान्वाणि वैज्येव यथावत्कुशिकात्मजः ।

अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च यमविन् ॥१८॥

इत सब अछ शक्तों को यथावत् विरवामित्र जानने हैं । यही नहीं, बल्कि इनके अतिरिक्त और नए नए अछ शक्त बनाने बनाने की सामर्थ्य भी इन वर्मात्मा में है ॥१८॥

नेतास्य मुनिमुज्यस्य सर्वज्ञस्य महात्मनः ।

न किञ्चिदप्यविदितं भूतं भव्यं च राघव ॥१९॥

हे राघव ! इन मुनिप्रवर सर्वज्ञ महात्मा विरवामित्र के कोई भी बात, जो जो कुछ है या होने वाली है, अविदित नहीं है । अर्थात् इनको त्रिकाल ज्ञान प्राप्त है ॥१९॥

पर्वर्षीर्षो महादेजा विश्वामित्रो महातपाः ।

न रामगमने राजन् संशयं गन्तुमर्हसि ॥२०॥

इन महादेवर्षी, महातपस्वी और पराक्रमी विश्वामित्र जी के साथ श्रीरामचन्द्र के भेजने में डग भी न डरिए या किसी प्रकार का सन्देह ही कर्तव्य ॥२०॥

तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः ।

तत्र पुत्रहितायैव त्वाप्तुपेत्याभियाचने ॥२१॥

इन विश्वामित्र जी में इनकी सामर्थ्य है कि, ये उन राक्षसों को स्वयं नष्ट कर सकते हैं । यह तो आरसे पुत्र की भलाई के लिए ही उन्हें आरसे माँगने आए हैं ॥२१॥

इति मुनिवचनात्प्रमुदचित्तो

रघुवृषभश्च मुनोद भास्वराज्ञः ।

गमनमभिरुरोच राघवस्य

प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्ध्या ॥२२॥

इति एकविंशः सर्गः

गुरु वसिष्ठ जी के इस प्रकार समझाने पर महाराज दशरथ, श्रीरामचन्द्र जी को विश्वविख्यात विश्वामित्र के साथ भेजने को राजी हो गए ॥२२॥

बालकाण्ड का इक्कीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

द्वाविंशः सर्गः

—:०:—

तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः सुतम् ।

प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव सलक्ष्मणम् ॥१॥

इस प्रकार वसिष्ठ जी के समझाने पर महाराज ने श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण जी को बुलवाया ॥१॥

कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च ।

पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलैरभिमन्त्रितम् ॥२॥

और उनको भेजते समय कौसल्या, महाराज दशरथ तथा कुलपुरोहित वसिष्ठ जी ने स्वस्तिवाचन और मङ्गलान्तर किए ॥२॥

स पुत्रं मूर्धन्युपाग्राय राजा दशरथः प्रियम् ।

ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥३॥

महाराज दशरथ ने प्रमत्त हो कर और पुत्रों के साथे मृदु कर, उन्हें विश्वामित्र जी को सौंपा ॥३॥

ततो वायुः मुखस्पर्शो विरजस्को वर्षा तदा ।
विश्वामित्रगतं दृष्ट्वा रामं राजीवलोचनम् ॥४॥

पुष्पवृष्टिर्ष्वस्त्यामीदृशेन्द्रुभिनिःस्त्रजः ।
शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषः प्रयानं तु महात्मनि ॥५॥

विश्वामित्र जी के साथ कमललोचन श्रीगमचन्द्र और लक्ष्मण जी के जाने के समय शीतल, मन्द और सुगन्धि युक्त पवन चलने लगा, आकाश से पृष्णों की वर्षा हुई और देवताओं ने नगाड़े बजाए । अयोध्या में भी जगह जगह राजकुमारों के जाने के समय शंखध्वनि की गई और नगाड़े बजाए गए ॥४॥५॥

विश्वामित्रां यथावग्रे ततो रामो महायज्ञाः ।
काकपक्षयरां धन्वी तं च सौमित्रिगन्धगान् ॥६॥

सब से आगे विश्वामित्र थे, उनके पीछे नगायशर्वा श्रीगमचन्द्र और उनके पीछे हाथ में धनुष लिए और फिर पर जुल्फे रखाए सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मण जी चले जाते थे ॥६॥

कलापिनो धनुष्यार्या गोभयानो दिशो दश ।
विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षाशिव पन्नगौ ।
अनुजगमतुरक्षुद्रौ पितामहमिवाश्विनौ ॥७॥

बड़े रूपवान और बलवान दोनों भाई, पीठों पर तरकस और हाथों में धनुष लिए तथा दशों दिशाओं को सुशोभित करते हुए

मुनि के पीछे ऐसे चले जाते थे, मानों तीन सिर के सर्प चले जाते हों अथवा मानो ब्रह्मा जी के पीछे अश्विनीकुमार चले जाते हों ॥७॥

तदा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणी स्वलंकृतौ ।
 वद्धगोधाङ्गुलित्राणौ खड्गवन्तौ महाद्युती ॥८॥
 कुमारौ चारुवपुषौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ।
 अनुयातौ श्रिया जुष्टौ शोभयेतामनिन्दितौ ॥९॥
 स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी ।
 अध्यर्धयोजनं गत्वा सरय्या दक्षिणे तटे ॥१०॥

उस समय धनुष धारण किए हुए, अच्छे अच्छे गहने पहिने हुए, गोह के चमड़े के बने हुए दस्तान हाथा में पहने हुए, तलवार लिए हुए, महाद्युतिमान् दोनो सुन्दर भाई श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण से मुनि उसी प्रकार सुशोभित हुए, जिस प्रकार शिव जी स्कन्ध और विशाख से शोभित होते हैं। जब अयाध्या से दक्षिण दूर सरयू के दक्षिणतट पर पहुँचे ॥८॥९॥१०॥

रामेति मधुरां वारणीं विश्वामित्राऽभ्यभाषत ।
 गृहाण वत्स सलिलं मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥११॥

तब वहाँ विश्वामित्र जी, श्रीरामचन्द्र से मधुर वारणी में बोले कि, हे वत्स ! जल से शरीर शुद्ध कर डालो, अथवा आचमन करो अब विलंब मत करो ॥११॥

मन्त्रग्रामं गृहाण त्वं बलामतिवलां तथा ।
 न श्रमो न ज्वरो वा ते न रूपस्य विपर्ययः ॥१२॥

शरीर शुद्ध हो जाने पर हम तुम्हें बला और अतिबला विद्याएँ पढ़ावेंगे। इनके प्रभाव से न तो तुम्हें थकावट व्यापेगी न कभी शरीर ज्वराक्रान्त होगा और न तुम्हारे रूप की हानि होगी (यानी सूरत न बिगड़ेगी ॥१२॥

न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैर्ऋताः ।

न बाह्वोः सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन ॥१३॥

सोते हुए भी अशुद्ध दशा में राक्षस लोग तुम्हारा कुछ भी न कर सकेंगे। संसार भर में कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता न कर पावेगा ॥१३॥

त्रिषु लोकेषु वै राम न भवेत्सदृशस्तव ।

न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये ॥१४॥

सौभाग्य, दाक्षिण्य, ज्ञान और चतुराई में तुम्हें तीनों लोकों में कोई भी न पावेगा ॥१४॥

नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ ।

एतद्विद्याद्वये लब्धे भविता नास्ति ते समः ॥१५॥

हे राम! इन विद्याओं के सीख लेने पर तुम्हारे बराबर किसी बात का उत्तर देने में भी, तुम्हारी समानता कोई न कर सकेगा ॥१५॥

बला चातिबला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ ।

क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम ॥१६॥

पुरुषोत्तम राम! सब विद्याओं की माताएँ इन बला अतिबला नाम्नी विद्याओं में प्रभाव से तुमको भूख और प्यास भी कभी न सतावेगी ॥१६॥

बलामतिवलां चैव पठतस्तव राघव ।

विद्याद्वयमधीयाने यशश्चाप्यतुलं त्वयि ॥१७॥

हे राघव ! इन दोनों विद्याओं—बला और अतिवला के पढ़ लेने से तुम्हारा अतुल यश सर्वत्र फैल जायगा ॥१७॥

पितामहसुते ह्येते विद्ये तेजःसमन्विते ।

प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि धार्मिक ॥१८॥

ये दोनों तेजस्विनी विद्याएँ पितामह ब्रह्मा की पुत्री हैं। हे काकुत्स्थ ! हम तुम्हें ये विद्याएँ पढ़ावेंगे, क्योंकि तुम्हीं इनके लिए योग्य पात्र भी हो ॥१८॥

कामं बहुगुणाः सर्वे त्वय्येते नात्र संशयः ।

तपसा सम्भृते चैते बहुरूपे भविष्यतः ॥१९॥

यद्यपि जो वाते इन विद्याओं के पढ़ने से उत्पन्न होती हैं, उनमें से अनेक निस्सन्देह अब भी तुममें मौजूद हैं, तो भी तुम्हारे द्वारा, तपस्या द्वारा प्राप्त इन विद्याओं के ग्रहण किए जाने पर, इनको उन्नति होगी अर्थात् आपके उपदेश से इनका प्रचार होगा ॥१९॥

ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचिः ।

प्रतिजग्राह तं विद्ये महर्षेर्भावितात्मनः ॥२०॥

यह सुन श्रीरामचन्द्र जी जल से आचमन कर पवित्र हुए और प्रसन्न चित्त हो कर विश्वामित्र से उन विद्याओं को सीखा ॥२०॥

विद्यासमुदितो रामः शुशुभे भूरिविक्रमः ।

सहस्ररश्मिर्भगवाञ्शरदीव दिवाकरः ॥२१॥

उन विद्याओं के सीखने पर बड़े प्रक्रामी श्रीरामचन्द्र जी की
वैसी ही शोभा हुई जैसी शरत्काल के सूर्य की होती है ॥२१॥

गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे ।

ऊष्टुस्तां रजनीं तीरे सरय्वाः सुसुखं त्रयः ॥२२॥

इसके अनन्तर दोनों भाइयों ने गुरु के समान विश्वामित्र की
चरणसेवा आदि कर सरयू के तीर पर वह रात मुनि के साथ
आनन्द पूर्वक वितार्ई ॥२२॥

दशरथनृपसूनुसत्तमाभ्यां

तृणशयनेऽनुचिते सहोषिताभ्याम् ।

कुशिकसुतवचोनुलालिताभ्यां

सुखमिव सा विवभौ विभावरी च ॥२३॥

इति द्वाविंशः सर्गः ॥

राजकुमार होने के कारण चटार्ई पर भूमि में सोना उनके
लिए अनुचित होने पर भी, दशरथनन्दन दोनों बलवान् राज-
कुमारो ने विश्वामित्र जी के मधुर वचन सुनते हुए, सुखपूर्वक
(तृणों की शय्या पर) वह रात वितार्ई ॥२३॥

वालकाण्ड का बाइसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

त्रयोविंशः सर्गः

—:०:—

प्रभातायां तु शर्वर्यां विश्वामित्रो महामुनिः ।

अभ्यभाषत काकुत्स्थौ शयानौ पर्णसंस्तरे ॥१॥

सूखे पत्तों के बिछौनों पर लेटे हुए राजकुमारों से सवेरे चार बड़ी तड़के विश्वामित्र जी बोले ॥१॥

कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते ।

उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥२॥

हे कौसल्यानन्दन ! (कौसल्या को सुपुत्रवती बनाने वाले) हे राम ! सवेरा होने को है । अब उठ बैठो और प्रातः कृत्य कर डाली ॥२॥

तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नृपात्मजौ ।

स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम् १ ॥३॥

राजकुमार उन परमोदार ऋषि के ये वचन सुन उठ बैठे । फिर स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया अथवा देव और ऋषि तर्पण किया । तदुपरान्त वे परम मंत्र गायत्री का जप करने लगे ॥३॥

कृताह्निकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम् ।

अभिवाद्याभिसंहृष्टौ गमनायोपतस्थतुः ॥४॥

इन दोनों महाबली राजकुमारों ने आह्निक कृत्य पूरा कर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्वी विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे चलने को तैयार हुए ॥४॥

तौ प्रयातौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीम् ।

दृष्ट्वाते ततस्तत्र सरय्वाः संगमे शुभे ॥५॥

उनको साथ लिए हुए विश्वामित्र उस स्थल पर पहुँचे, जहाँ गीगङ्गा जी और श्रीसरयू जी का शुभ सङ्गम है और जिसे वहाँ न्होंने देखा ॥५॥

१ परमं जपम् = गायत्रीमितियावत्, तस्या एव परमत्वात् “ न त्रिभ्याः परं जप्यम् ” इति वचनात् (गो०)

तत्राश्रमपदं पुण्यमृषीणामुग्रतेजसाम् ।

बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः ॥६॥

वहाँ पर उन्होंने उन अनेक उग्रतपा ऋषियों के परमपवित्र आश्रम देखे, जो वहाँ सहस्रों वर्षों से कठोर तप कर रहे थे ॥६॥

तं दृष्ट्वा परमप्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम् ।

अचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः ॥७॥

उस परम पवित्र आश्रम को देख श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मण जी परम प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र से यह बोले ॥७॥

कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्वस्मिन् वसते पुमान् ।

भगवञ्श्रोतुमिच्छावः परं कौतूहलं हि नौ ॥८॥

हे भगवान् ! यह परम पवित्र आश्रम किसका है और यहाँ अत्र कौन पुरुष रहता है । हम दोनों को इसका वृत्तान्त सुनने की बड़ी श्रद्धा है ॥८॥

तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहरय मुनिपुङ्गवः ।

अब्रवीच्छ्रूयतां राम यस्यायं पूर्वं आश्रमः ॥९॥

राजकुमारो का यह बात सुन विश्वामित्र (प्रश्न के माधुर्य से प्रसन्न हुए और) हँस पड़े और कहने लगे हे राम ! सुनिए, मैं वतलाता हूँ कि, यह पहिले किसका आश्रम था ॥९॥

कन्दर्पो मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधैः ।

तपस्यन्तमिह स्थाणुं^१ नियमेन समाहितम् ॥१०॥

कन्दर्प, जिसको परिडल लोग कामदेव कहते हैं, पहिले शरीर-धारी था । इस स्थान पर नियम से (निरन्तर) ध्यानावस्थित हो निव जी तप करते थे ॥१०॥

कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणाम् ।

धर्षयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना ॥११॥

जब विवाह कर महादेव जी देवताओं सहित चले आते थे, तब कामदेव ने उनके मन में विकार उत्पन्न करना चाहा—उस समय शिव जी ने हुंकारी की ॥११॥

दग्धस्य तस्य रौद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन ।

व्यशीर्यन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मतेः ॥१२॥

फिर क्रुद्ध हो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कर, उसको देखा । देखते ही उस दुष्ट के शरीर के सब अंग प्रत्यङ्ग अलग अलग हो कर बिखर गए ॥३॥

तस्य गात्रं हतं तत्र निर्दग्धस्य महात्मना ।

अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद्देवेश्वरेण ह ॥१३॥

जब से उसका समस्त शरीर महादेव के क्रोध से भस्म हुआ है, तब से वह बिना शरीर का हो गया है ॥१३॥

अनङ्ग इति विख्यातस्तदाप्रभृति राघव ।

स चाङ्गविषयः श्रीमान्यत्राङ्गं स मुमोच ह ॥१४॥

हे राम । तभी से उसका नाम अनङ्ग (बिना अंगों वाला) पड़ा है । कामदेव के भागने पर उसके अंग जिस देश में गिरे थे, वह देश, अंगदेश के नाम से प्रख्यात हो गया है ॥१४॥

तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे मुनयः पुरा ।

शिष्या धर्मपरा नित्यं तेषां पापं न विच्यते ॥१५॥

[टिप्पणी—सरयू और गङ्गा के बीच का देश अङ्गदेश अर्थात् नागलपुर जिला ।]

तत्राश्रमपदं पुण्यमृषीणामुग्रतेजसाम् ।

बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः ॥६॥

वहाँ पर उन्होंने उन अनेक उग्रतपा ऋषियों के परमपवित्र आश्रम देखे, जो वहाँ सहस्रों वर्षों से कठोर तप कर रहे थे ॥६॥

तं दृष्ट्वा परमप्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम् ।

ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः ॥७॥

उस परम पवित्र आश्रम को देख श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मण जी परम प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र से यह बोले ॥७॥

कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्वस्मिन् वसते पुमान् ।

भगवञ्श्रोतुमिच्छावः परं कौतूहलं हि नौ ॥८॥

हे भगवान् ! यह परम पवित्र आश्रम किसका है और यहाँ अब कौन पुरुष रहता है । हम दोनों को इसका वृत्तान्त सुनने की बड़ी श्रद्धा है ॥८॥

तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः ।

अब्रवीच्छ्रूयतां राम यस्यायं पूर्वं आश्रमः ॥९॥

राजकुमारो का यह बात सुन विश्वामित्र (प्रश्न के माधुर्य से प्रसन्न हुए और) हँस पड़े और कहने लगे हे राम ! सुनिए, मैं बतलाता हूँ कि, यह पहिले किसका आश्रम था ॥९॥

कन्दर्पो मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधैः ।

तपस्यन्तमिह स्थाणुं^१ नियमेन समाहितम् ॥१०॥

कन्दर्प, जिसको एण्डन लोग कामदेव कहते हैं, पहिले शरीर-धारी था । इस स्थान पर नियम से (निरन्तर) ध्यानावस्थित हो शिव जी तप करते थे ॥१०॥

कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणाम् ।

धर्षयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना ॥११॥

जब विवाह कर महादेव जी देवताओं सहित चले आते थे, तब कामदेव ने उनके मन में विकार उत्पन्न करना चाहा—उस समय शिव जी ने हुंकारी की ॥११॥

दग्धस्य तस्य रौद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन ।

व्यशीर्यन्ति शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मतेः ॥१२॥

फिर क्रुद्ध हो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कर, उसको देखा । देखते ही उस दुष्ट के शरीर के सब अंग प्रत्यङ्ग अलग अलग हो कर बिखर गए ॥१२॥

तस्य गात्रं हतं तत्र निर्दग्धस्य महात्मना ।

अशरीरः कृतः कामः क्रोधादेवैश्वरेण ह ॥१३॥

जब से उसका समस्त शरीर महादेव के क्रोध से भस्म हुआ है, तब से वह बिना शरीर का हो गया है ॥१३॥

अनङ्ग इति विख्यातस्तदाप्रभृति राघव ।

स चाङ्गविषयः श्रीमान्यत्राङ्गं स मुमोच ह ॥१४॥

हे राम । तभी से उसका नाम अनङ्ग (बिना अंगों वाला) पड़ा है । कामदेव के भागने पर उसके अंग जिस देश में गिरे थे, वह देश, अंगदेश के नाम से प्रख्यात हो गया है ॥१४॥

तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे मुनयः पुरा ।

शिष्या धर्मपरा नित्यं तेषां पापं न विद्यते ॥१५॥

[टिप्पणी—सरयू और गङ्गा के बीच का देश अङ्गदेश अर्थात् भागलपुर जिला ।]

यह आश्रम महादेव जी का है और इस आश्रम के वासी समस्त मुनि, परम्परा से शिव जी के भक्त हैं। अतः उस परम्परा को प्रचलित रखने के कारण ये बड़े धर्मात्मा हैं और निष्पाप हैं ॥१५॥

इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शन ।

पुण्ययोः सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम् ॥१६॥

हे शुभदर्शन श्रीराम ! आज की रात हम यहीं ठहरेंगे और कल इन पुण्यतोया नदियों को पार कर, हम लोग आगे चलेंगे ॥१६॥

अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् ।

स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम ॥१७॥

हे राम ! प्रथम स्नान कर, पवित्र हो कर तथा जप, होम कर के, हम सब इस पवित्र आश्रम में प्रवेश करेंगे ॥१७॥

तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्घेण चक्षुषा ।

विज्ञाय परमर्षाता मुनयो हर्षमागमन् ॥१८॥

ये लोग तो यहाँ यह बातचीत कर रहे थे और उधर तपः प्रभाव से उस आश्रम के वासी दूरदर्शी तपस्वी मुनि, इन लोगों का आगमन जान, बहुत प्रसन्न हुए ॥१८॥

अर्ध्र्यं पाद्यं तथाऽऽतिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे ।

रामलक्ष्मणयोः पश्चादकुर्वन्नतिथिक्रियाम् ॥१९॥

उन ऋषियों ने विश्वामित्र जी को अर्ध्र्यं पाद्य अर्पण किया और आतिथ्य किया और पीछे श्रीरामचन्द्र और श्रीलक्ष्मण जी का अतिथि सत्कार किया ॥१९॥

सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिरञ्जयन् ।

यथार्हमजपसन्ध्यामृषयस्ते समाहिताः ॥२०॥

इस प्रकार उन आश्रमवासी मुनियों से सत्कार प्राप्त कर और नाना कथावार्ता सुन कर, उन सब ने सन्ध्यापासन तथा गायत्री जप आदि आवश्यक कर्म किए। तदुपरान्त आश्रमवासी सब ऋषिगण विश्वामित्र जी के पास एकत्र हुए ॥२०॥

तत्र वासिभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह ।

न्यवसन्सुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा ॥२१॥

कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ नृपात्मजौ ।

रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुङ्गवः ॥२२॥

इति त्रयोविंशः सर्गः ॥

और अच्छे व्रत धारण करने वाले मुनि, इन्हें अपने आश्रम में लिवा ले गए। उस कामाश्रम में श्रीराम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी ने सुखपूर्वक वास किया और राजकुमारों को तरह तरह की मनोरंजक कथा कहानियाँ सुना, उनका मनोरंजन किया ॥२१॥२२॥

बालकाण्ड का तेइसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—*—

चतुर्विंशः सर्गः

—:०:—

ततः प्रभाते विमले कृताऽऽह्निकमरिन्दमौ ।

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ ॥१॥

प्रातःकाल होते ही प्रातःकृत्य कर, दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी को आगे कर नदी के तट पर पहुँचे ॥१॥

ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संशितव्रताः ।

उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथाब्रुवन् ॥२॥

उस आश्रम में रहने वाले व्रतधारी ऋषिगण भी उनके साथ (विश्वामित्र तथा राजकुमारों के साथ) नदी तट तक गए और एक सुन्दर नाव का प्रवन्ध कर, विश्वामित्र जी से बोले ॥२॥

आरोहतु भवान्नावं राजपुत्रपुरस्कृतः ।

अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥३॥

अब आप विलम्ब न कर, राजपुत्रों को लेकर नाव पर सवार हों । जिससे रास्ते में (सूर्यातापादि से) किसी प्रकार का कष्ट न हो ॥३॥

विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तानृषीन्भिपूज्य च ।

ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरङ्गमाम् ॥४॥

यह सुन, विश्वामित्र जी ने उन ऋषियों की पूजा की और सागरगामिनी उस नदी के उस पार पहुँचे ॥४॥

ततः शुश्राव तं शब्दमतिसंरम्भवर्धनम् ।

मध्यमागम्य तोयस्य सह रामः कनीयसा ॥५॥

जब नाव बीच धार में पहुँची, तब वहाँ जल की तरङ्गों के परस्पर टकराने का शब्द श्रीरामचन्द्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी ने सुना ॥५॥

अथ रामः सरिन्मद्ये पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् ।

वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनिः ॥६॥

तव, नाव पर सवार श्रीरामचन्द्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि—‘महाराज ! यह जो तुमुल शब्द हो रहा है, मो क्या जल के टकराने का है ? (अथवा इस शब्द का कुछ और कारण है ?) ॥६॥

राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितः ।

कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम् ॥७॥

कौतूहलपूर्ण श्रीरामचन्द्र जी का यह प्रश्न सुन, विश्वामित्र जी ने उस शब्द होने का कारण इस प्रकार बतलाया ॥७॥

कैलासपर्वते राम मनसा निर्भितं सरः ।

ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेदं मानसं सरः ॥८॥

हे राम ! कैलास पर्वत पर ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सरोवर बनाया । हे नरशार्दूल ! मन से बनाने के कारण उसका नाम “मानसरोवर” पड़ा ॥८॥

तस्मात्सुस्राव सरसः साऽयोध्यामुपगृहते ।

सरःप्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता ॥९॥

ब्रह्मा जी के उसी मानसरोवर से निकली हुई पवित्र सरयू नदी जो अयोध्या होती हुई बहती है ॥९॥

तस्यायमतुलः शब्दो जाह्नवीमभिवर्तते ।

वारिसंक्षोभजो राम प्रणामं नियतः^१ कुरु ॥१०॥

यहाँ गंगा जी से मिलती है। इन दोनों सरिताओं के जलों के परस्पर टकराने से यह शब्द होता है। तुम, इनको मन से (दिखाने के लिए नहीं) प्रणाम करो ॥१०॥

ताभ्यां तु तावुभौ कृत्वा प्रणाममतिधार्मिकौ ।

*तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्लघुविक्रमौ ॥११॥

दोनों राजकुमारों ने उन नदियों को प्रणाम किया। इतने में उनकी नाव भी दक्षिण तट पर ताटका वन में सहज में जा लगी। वहाँ नाव से उतर कर वे दोनों आगे चले ॥११॥

स वनं घोरसंकाशं दृष्ट्वा नृपवरात्मजः ।

अविप्रहतमैक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् ॥१२॥

दोनों राजकुमारों ने चलते हुए एक बड़ा भयानक निर्जन वन देखा। उस निर्जन वन को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा ॥१२॥

अहो वनमिदं दुर्गं भ्रिल्लिकागणनादितम् ।

भैरवैः श्वापदैः कीर्णं शकुन्तैर्दारुणारुतैः ॥१३॥

ओहो! ऋषिवर, यह वन तो बड़ा ही भयानक देख पड़ता है। इसमें भौं गुर भंकार कर रहे हैं और बड़े बड़े भयंकर जीवों के नाद से यह परिपूर्ण है। बाज पत्ती भी बड़ी दारुण बोली बोल रहे हैं ॥१३॥

नानाप्रकारैः शकुनैर्वाश्रयद्भिर्भैरवैःस्वनैः ।

सिंहव्याघ्रवराहैश्च वारणैश्चोपशोभितम् ॥१४॥

* गङ्गादक्षिणतीरे ताटकावनमिति सेयम् । (गो)

१ शकुन्तैः = भासैः (गो)

-वाज पत्नी अनेक प्रकार की भयावह बोलियाँ बोल रहे हैं । इस वन में देखिये सिंह, व्याघ्र, वराह और हाथी भी बहुत देख पड़ते हैं ॥१४॥

धवाश्वकर्णककुभैर्विल्वतिन्दुकपाटलैः ।

सङ्कीर्णं बदरीभिश्च किं न्वेतद्दारुणं वनम् ॥१५॥

धवा, असंगध, अर्जुन, बेल, तेंदुआ, पाडरी और बेरियो के वृक्षों से यह वन कैसा सघन और भयङ्कर हो गया है ॥१५॥

तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ।

श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्यैतद्दारुणं वनम् ॥१६॥

यह सुन, महातेजस्वी विश्वामित्र ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा—हे बेटा श्रीरामचन्द्र ! सुनो, मैं बतलाता हूँ कि, यह विकट वन किसका है ॥१६॥

एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम ।

मलदाश्च करुशाश्च देवनिर्माणनिर्मितौ ॥१७॥

पहले यहाँ पर देवलोक के समान और धनधान्य से भरे पुरे मलद और करुष नाम के दो देश बसे हुए थे ॥१७॥

पुरा वृत्रवधे राम मलेन समभिप्लुतम् ।

क्षुधा चैव सहस्राक्षं ब्रह्महत्या समाविशत् ॥१८॥

हे राम ! वृत्रासुर को मार कर जब इन्द्र अपवित्र अवस्था में भूखे प्यासे थे, तब उनके शरीर में ब्रह्महत्या ने प्रवेश किया ॥१८॥

तमिन्द्रं स्नापयन्देवा ऋषयश्च तपोधनाः ।

कलशैः स्नापयामासुर्मलं चास्य प्रमोचयन् ॥१९॥

तव इन्द्र को उनकी अपवित्रता दूर करने के लिए देवताओं और तपस्वी ऋषियों ने प्रथम गंगाजल से, फिर घड़ों में भरे मंत्रपूत जल से स्नान करवाए ॥१६॥

इह भूम्यां मलं दत्त्वा दत्त्वा कारुशमेव च ।

शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षं प्रपेदिरे ॥२०॥

इससे इन्द्र की लुधा और उनका श्रम यानी अपवित्रता और ब्रह्महत्या यहाँ छूटी, तव इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥२०॥

निर्मलां निष्करुशश्च शुचिरिन्द्रो यदाऽभवत् ।

ददौ देशस्य सुप्रीतो वरं प्रभुरनुत्तमम् ॥२१॥

जब इन्द्र निर्मल, निष्पाप और पवित्र हो गए तब उन्होंने प्रसन्न हो इस देश को यह उत्तम वरदान दिया ॥२१॥

इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिं लोके गमिष्यतः ।

मलदाश्च करुशाश्च ममाङ्गमलधारिणौ ॥२२॥

मेरे शरीर के मल को धारण करने वाले मलद और करुष नामों से विख्यात और धनधान्य से भरे पुरे दो देश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे ॥२२॥

साधु साध्विति तं देवाः पाकशासनमब्रुवन् ।

देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां शक्रेण धीमता ॥२३॥

इन्द्र का यह वरदान सुन और उन देशों की इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठा देख सब देवता “साधु” “साधु”—बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ—कह कर इन्द्र की प्रशंसा करने लगे ॥२३॥

एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्घकालमरिन्दम ।

मलदाश्च करुशाश्च मुदितौ धनधान्यतः ॥२४॥

हे अरिन्दम ! ये दोनों मलद और करुष देश, बहुत दिनों तक धन धान्य से भरे पुरे बने रहे ॥२४॥

कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षी वै कामरूपिणी ।

वलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत् ॥२५॥

कुछ दिनों बाद यहाँ एक स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी पैदा हुई । उसके शरीर में हजार हाथियों का बल है ॥२५॥

ताटका नाम भद्रं ते भार्या सुन्दस्य धीमतः ।

मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः ॥२६॥

उसका नाम ताटका है और वह सुन्द की स्त्री है । उसके मारीच नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो इन्द्र के समान पराक्रमी है ॥२६॥

वृत्तबाहुर्महावीर्यो विपुलास्यतनुर्महान् ।

राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः ॥२७॥

वह बड़ी बड़ी बाहुएँ, बड़ा सिर और बड़े मुँह वाला तथा अति भयानक शरीर वाला राक्षस यानी मारीच, नित्य ही प्रजा को सताया करता है ॥२७॥

इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव ।

मलदांश्च करुषांश्च ताटका दुष्टचारिणी ॥२८॥

हे राघव ! वह दुष्टा ताटका या ताड़का इन दोनों भरे पुरे मलद और करुष देशों को नित्य ही उजाड़ा करती है ॥२८॥

सेयं पन्थानमावृत्य वसत्यध्यर्धयोजने ।

अतएव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः ॥२९॥

वह यक्षिणी इस मार्ग को रोके हुए यहाँ से आघे योजन अर्थात् दो कोस पर रहती है । अतः अब ताड़का के वन में चलना चाहिए और ॥२६॥

स्वबाहुवलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीम् ।

मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः ॥३०॥

मेरे कहने से तुम अपने बाहुवल से उस दुष्टा यक्षिणी का बध कर, इस स्थान को पुनः निष्कण्टक बना दो ॥३०॥

न हि कश्चिदिमं देशं शक्रोत्यागन्तुमीदृशम् ।

यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसहया ॥३१॥

हे राम ! इस दुष्टा के डर के मारे, आने की आवश्यकता होते हुए भी, कोई यहाँ नहीं आता । ऐसा कीजिए जिससे यह भयङ्कर यक्षिणी इस पवित्र देश को अब न उजाड़ पावे ॥३१॥

एतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतद्दारुणं वनम् ।

यक्षया चोत्सादितं सर्वमद्यापि न निवर्तते ॥३२॥

इति चतुर्विंश सर्गः ॥

जिस प्रकार यह स्थान निर्जन वन बना है तथा जिस प्रकार अब इस स्थान की रक्षा की जा सकती है, सो मैंने तुम्हें बतला दिया, वह दुष्टा यक्षिणी अब भी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आती ॥३२॥

बालकाण्ड का चौबीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

पञ्चविंशः सर्गः

—:०:—

अथ तस्याप्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमम् ।

श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम् ॥१॥

अमित प्रभावशाली ऋषिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के ये उत्तम वचन सुन, पुरुषशार्दूल श्रीरामचन्द्र यह शुभ वचन बोले ॥१॥

अल्पवीर्या यदा यक्षाः श्रूयन्ते मुनिपुङ्गव ।

कथं नागसहस्रस्य धारयत्यवला वलम् ॥२॥

हे मुनिपुङ्गव ! सुनते हैं, यक्ष जाति तो अल्प बल वाली होती है । तब इस अबला (अर्थात् यक्षस्त्री) के शरीर में हजार हाथियों का बल क्यों कर आ गया ? ॥२॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः ।

विश्वामित्रोऽब्रवीद्वाक्यं शृणु येन वलोत्तरा ॥३॥

श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रश्न को सुन, महात्मा विश्वामित्र बोले—हे राघव ! सुनिए, मैं कहता हूँ, जिस प्रकार यह यक्षिणी इतनी बलवती हुई है ॥३॥

वरदानकृतं वीर्यं धारयत्यवला वलम् ।

पूर्वमासीन्महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान् ॥४॥

यह अबला वरदान के प्रभाव ने इतनी बलवती हो गई है ।

सुकेतु नाम का एक बड़ा बलवान यक्ष था ॥४॥

अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः ।

पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा ॥५॥

हे राम ! सदाचारी होने पर भी उसके कोई सन्तान न था ।
अतएव उसने बड़ा तप किया । तब प्रसन्न हो, उस यक्षपति को
ब्रह्मा जी ने ॥५॥

कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः ।

बलं नागसहस्रस्य ददौ चास्याः पितामहः ॥६॥

ताटका नाम की एक उत्तम कन्या प्रदान की । ब्रह्मा जी ने
उसके शरीर में हजार हाथियों का बल भी दिया ॥६॥

न त्वेव पुत्र यक्षाय ददौ ब्रह्मा महायशाः ।

तां तु जातां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीम् ॥७॥

किन्तु, महायशस्वी ब्रह्मा जी ने उस यक्ष को ऐसा बली पुत्र
नहीं दिया । जब वह लड़की बढ़ती बढ़ती रूप और यौवनशालिनी
स्त्री हुई ॥७॥

जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्या यशस्विनीम् ।

कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत ॥८॥

तब उसके पिता ने उसका विवाह जम्भ के पुत्र सुन्द के साथ
कर दिया । थोड़े दिनों बाद (इस) यक्षिणी के एक पुत्र उत्पन्न
हुआ ॥८॥

मारीचं नाम दुर्धर्ष यः शापाद्ब्राह्मसोऽभवत् ।

सुन्दे तु निहते राम सागस्त्यं* मुनिपुङ्गवम् ॥९॥

उसका नाम मारीच है और वह बड़ा बलवान है। वह चक्कर होने पर भी शापवश राक्षस हुआ है। हे राम ! जब अगस्त्य जी ने सुन्द को शाप दे कर, मार डाला ॥६॥

ताटका सह पुत्रेण प्रधर्षयितुमिच्छति ।

भक्षार्थं जातसंरम्भा गर्जन्ती साऽभ्यधावत ॥१०॥

तब ताटका अपने पुत्र सहित अगस्त्य जी को खाने के लिए गरजती हुई दौड़ी ॥१०॥

आपतन्तीं तु तां दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवानृषिः ।

राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः ॥११॥

उस यज्ञिणी को अपनी ओर आती हुई देख, भगवान् अगस्त्य ऋषि ने उसके पुत्र मारीच को यह शाप दिया कि, 'तू राक्षस हो जा' ॥११॥

अगस्त्यः परमक्रुद्धस्ताटकामपि शप्तवान् ।

पुरुषादी महायक्षी विरूपा विकृतानना ॥१२॥

फिर अगस्त्य जी ने अत्यन्त क्रुपित हो, ताटका को भी शाप दिया कि, तू मनुष्यभक्षिणी हो जा और तेरी शकल बुरी और भयानक हो जाय ॥१२॥

इदं रूपं विहायाथ दारुणं रूपमस्तु ते ।

सैषा शापकृतामर्षा ताटका क्रोधनूर्ध्विना ॥१३॥

तेरा यह रूप न रहे। नू विकराल रूप वाली हो जा। यह शाप सुन ताटका अत्यन्त क्रुपित हुई ॥१३॥

देशमुत्सादयत्येनमगस्त्यांचरितं शुभम् ।
 एनां राघव दुर्वृत्तां यक्षीं परमदारुणाम् ॥१४॥
 गोब्राह्मणहितार्थाय जहि दुष्टपराक्रमाम् ।
 नह्येनां शापसंस्पृष्टां कश्चिदुत्सहते पुमान् ॥१५॥

सो वह शाप को प्राप्त ताटका इस पवित्र देश को उजाड़े देती है । क्योंकि अगस्त्य जी इसी देश में तपस्या करते थे । अतएव हे राम ! आप इस दुष्टा, परम दारुण और दुष्ट पराक्रम वाली ताटका को मार कर, गो ब्राह्मण का हित साधन कीजिए । क्योंकि और कोई मनुष्य इस शापयुक्ता को नहीं मार सकता ॥१४॥१५॥

निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन ।
 न हि ते स्त्रीवधकृते घृणा कार्या नरोत्तम ॥१६॥

हे नरोत्तम ! तीनों लोकों में तुमको छोड़ ऐसा और कोई नहीं है, जो इसे मार सके । ऐसी स्त्री का वध करने में तुम्हारे मन में घृणा उत्पन्न न होनी चाहिए ॥१६॥

चातुर्वर्ण्यहितार्थाय कर्तव्यं राजसूनुना ।
 नृशंसमनृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात् ॥१७॥

चारों वर्णों का हितसाधन करना राजकुमार अर्थात् क्षत्रिय का कर्तव्य है । प्रजा को रक्षा के लिए चाहे अच्छे काम करने पड़े, चाहें बुरे ॥१७॥

पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा ।
 राज्यभारनियुक्तानामेष धर्मः सनातनः ॥१८॥

प्रजारक्षण के कार्यों के करने में भले ही दोष या पाप ही क्यों न लगे, किन्तु राज्य की रक्षा का भार उठाए हुए क्षत्रियों के लिए सब प्रकार प्रजा की रक्षा करना ही, उनका सनातन धर्म है ॥१५॥

अधर्म्यां जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्यां न विद्यते ।

श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचनसुतां नृप ॥१६॥

पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्थरामभ्यसूदयत् ।

विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी दृढव्रता ।

अनिन्द्रं लोकमिच्छन्तीं काव्यमाता निषूदिता ॥२०॥

हे राम ! इस अधर्मिणी ताटका को मारिए, इस ताटका में तो तिल भर भी धर्म नहीं है। सुना जाता है कि, पहिले विरोचन राजा की लड़की मन्थरा को, जो पृथिवी का नाश करना चाहती थी, इन्द्र ने जान से मार डाला था। इसी प्रकार हे राम ! भगवान विष्णु ने भी भृगु की पतिव्रता पत्नी और शुक्र की माता को, जो इन्द्र का नाश करना चाहती थी, मार डाला था ॥१६॥२०॥

एतैरन्यैश्च बहुभी राजपुत्र महात्मभिः ।

अधर्मनिरता नार्यो हताः पुरुषसत्तमैः ॥२१॥

[तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा

जहि मच्छासनानृप ॥२२॥]

इति पञ्चविंशः सर्गः ॥

इस प्रकार अनेक पुरुषोत्तम राजपुत्रों ने समय समय पर अनेक अधर्माचरण वाली स्त्रियों का वध किया है। अतए

तुमको भी मेरी आज्ञा से इस दुष्टा यक्षिणी को मारने में किसी प्रकार का विचार न करना चाहिए ॥२१॥२२॥

—:❀:—

षड्विंशः सर्गः

—:❀:—

मुनेर्वचनमह्नीवं श्रुत्वा नरवरात्मजः ।

राघवः प्राञ्जलिभूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः ॥१॥

दृढव्रत दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने ऋषिप्रवर विश्वामित्र जी के अक्लीव अर्थात् उत्साहवर्द्धक वचन सुन हाथ जोड़ कर यह उत्तर दिया ॥१॥

पितुर्वचननिर्देशात्पितुर्वचनगौरवात् ।

वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कया ॥२॥

अपने पिता की आज्ञा से और उनकी बात रखने के लिए आपके कथनानुसार निःशङ्क हो कर, कार्य करना, मेरा कर्तव्य है ॥२॥

अनुशिष्टोऽस्न्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना ।

पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्वचः ॥३॥

क्योंकि महाराज ने गुरु वसिष्ठ जी के सामने अयोध्या से प्रस्थान करते समय, मुझे यह आज्ञा दी है। अतः मैं उस आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता ॥३॥

सोऽहं पितुर्वचः श्रुत्वा शांसनाद्ब्रह्मवादिनः ।
करिष्यामि न सन्देहस्ताटकावधमुत्तमम् ॥४॥

अतः पिता के आज्ञानुसार आपके कहने से ताटका का वध निस्सन्देह ही करूँगा ॥४॥

गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्यास्य सुखाय च ।
तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः ॥५॥

मैं आपके कथनानुसार ताटका को मार कर गो ब्राह्मण का हित साधन करने तथा इस देश के वासियों को सुखा करने को तैयार हूँ ॥५॥

एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः ।
ज्याघोषमकरांतीव्रं दिशः शब्देन नादयन् ॥६॥

यह कह और धनुष हाथ में ले, श्रीरामचन्द्र जी ने दशों दिशाओं को प्रतिध्वानित करने वाली, प्रत्यञ्चों (धनुष की डोरी) को टकार कर, घोर शब्द किया ॥६॥

तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटकावनवासिनः ।
ताटका च सुसंकुद्धा तेन शब्देन मोहिता ॥७॥

उस शब्द को सुन ताटका के वन में रहने वाले जीवधारी बहुत डरे। ताटका उस शब्द को सुन बहुत कुपित हुई किन्तु उस समय अपना कर्त्तव्य निश्चित न कर सकी ॥७॥

तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसा क्रोधभूर्द्धिता ।
श्रुत्वा चाभ्यद्रवहेगाद्यतः शब्दो विनिःसृतः ॥८॥

वह अत्यन्त क्रुपित राक्षसी उसी ओर जिस ओर शब्द हुआ था वड़े वेग से मपटी ॥५॥

तां दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननाम् ।

प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणां सोऽभ्यभाषत ॥६॥

उस बड़ी लंबी चौड़ी, घोर विकराल रूप वाली, जलमुही, क्रुपित राक्षसी को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा ॥६॥

पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः ।

भिद्येरन्दर्शनादस्या भीरुणां हृदयानि च ॥१०॥

देखो लक्ष्मण ! इस यक्षिणी का शरीर कैसा भयङ्कर और विकट है । इसे देखते ही डरपोंकों के हृदय तो काँप उठते होंगे ॥१०॥

एनां पश्य दुराधर्षां मायावलसमन्विताम् ।

विनिवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम् ॥११॥

देखो, इस विकट मायाविनी और दुर्जेया के कान और नाक काट कर, मैं अभी इसे भगाए देता हूँ ॥११॥

न ह्येनामुत्सहे हन्तुं स्त्रीस्वभावेन रक्षिताम् ।

वीर्यं चास्या गतिं चापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥१२॥

क्योंकि स्त्री की जान लेना ठीक नहीं, स्त्री की तो रक्षा करनी चाहिए । किन्तु मैं इसके हाथ पैर तोड़ कर, इसे अब आगे दुष्ट क्रम करने योग्य न रहने दूँगा ॥१२॥

एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूर्च्छिता ।

उद्यम्य वाहू गर्जन्ती राममेवाभ्यधावत ॥१३॥

श्रीराम जी ऐसा कह ही रहे थे कि, अत्यन्त कुपित ताटका हाथ उठाए और गरजती हुई श्रीरामचन्द्र जी की ओर झपटी ॥१३॥

विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर्हुङ्कारेणाभिमत्स्य ताम् ।

स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत ॥१४॥

यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने “हुँ” कह कर, उसे डपटा और श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण को आशीर्वाद दे कर कहा कि, तुम्हारी जय हो ॥१४॥

उद्धुन्वाना रजो घोरं ताटका राघवावुभौ ।

रजोमोहेन महता मुहूर्तं सा व्यमोहयत् ॥१५॥

इतने पर भी ताटका ने इतनी धूल उड़ाई कि, कुछ देर तक राम और लक्ष्मण को कुछ भी न देख पड़ा ॥१५॥

ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ ।

अवाक्रिरत्सुमहता ततश्चुक्रोध राघवः ॥१६॥

ताटका ने ऐसी माया रची कि, वह छिपे छिपे श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी पर पत्थरों की वर्षा करती रही। यह देख श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥१६॥

शिलावर्षं महत्तस्याः शरवर्षेण राघवः ।

प्रतिहत्योपधावन्त्याः करौ चिच्छेद् पत्रिभिः ॥१७॥

और श्रीरामचन्द्र जी ने इस महती शिलावृष्टि को बाणों द्वारा बंद कर दिया और बाणों ही से उसके दोनों हाथों को भी काट डाला ॥१७॥

ततश्छिन्नभुजां श्रान्तामभ्याशे परिगर्जतीम् ।

सौमित्रिकरोत्क्रोधाद्बृत्कणाग्रनासिकाम् ॥१८॥

भुजाओं के कट जाने से श्रान्त, किन्तु तिस परं भी उसे गरजते हुए अपने समीप आते देख और क्रुद्ध हो, लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट डाले ॥१८॥

कामरूपधरा सद्यः कृत्वा रूपाण्यनेकशः ।

अन्तर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती च मायया ॥१९॥

वह कामरूपिणी तुरन्त अनेक प्रकार के रूप धारण करने लगी और राजकुमारों को धोखा देने के लिए कभी कभी छिप भी जाने लगी ॥१९॥

अश्मवर्षं विमुञ्चन्ती भैरवं विचचार ह ।

ततस्तावश्मवर्षेण कीर्यमाणौ समन्ततः ॥२०॥

और छिपे छिपे वह विकट यक्षिणी घूम घूम कर पत्थर बरसाने लगी । चारों ओर से राजकुमारों पर पत्थर बरसते ॥२०॥

दृष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् ।

अलं ते घृणया राम पापैपा दुष्टचारिणी ॥२१॥

देख, श्रीमान् विश्वामित्र जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा— हे राम ! बस, बहुत हुआ । अब इस पापिनी दुष्टा पर अधिक दया दिखलाने की आवश्यकता नहीं है ॥२१॥

यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया ।

वध्यतां तावदेवैपा पुरा सन्ध्या प्रवर्तते ॥२२॥

यदि इसको छोड़ दोगे, तो यह यज्ञ में विघ्न डालने वाली
माया द्वारा फिर प्रबल पड़ जायगी। सन्ध्या होने के पहिले ही तुम
इसे ऋटपट मार डालो ॥२२॥

रक्षांसि सन्ध्याकालेषु दुर्धर्पाणि भवन्ति हि ।

इत्युक्तस्तु तदा यक्षीमश्मवृष्ट्याभिवर्षतीम् ॥२३॥

दर्षयञ्शब्दवेधित्वं तां रुरोध स सायकैः ।

सा रुद्धा शरजालेन मायावलसमन्विता ॥२४॥

अभिदुद्राव कांकुत्स्यं लक्ष्मणं च विनेदुपी ।

तमापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव ॥२५॥

क्योंकि सन्ध्या बेला में राक्षसों का बल बढ़ जाता है। यह
कह विश्वामित्र ने पत्थर बरसाने वाली यक्षी को श्रीरामचन्द्र को
दिखा दिआ। श्रीरामचन्द्र जी ने शब्दवेधी बाणों से उसे चारों
ओर से घेर लिआ। वह मायाविनी और बलवती यक्षिणी
शरजाल में धिरी हुई दोनों राजकुमारों पर गर्जती हुई ऋपटी।
उसे विजली की तरह बड़े वेग से अपनी ओर आता हुई
देख ॥२३॥२४॥२५॥

शरेणोरसि विव्याथ सा पपात ममार च ।

तां हतां भीमसंकाशां दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा ॥२६॥

श्रीरामचन्द्र जी ने उसकी छाती में एक बाण ऐसा मारा कि,
वह पृथिवी पर गिर पड़ी और मर गई। उस विकराल रूप वाली
यक्षिणी को मरी हुई देख, इन्द्र ॥२६॥

साधु साध्विति काकुत्स्यं सुराश्च समपूजयन् ।

उवाच, परमप्रीतः सहस्राक्षः पुरन्दरः ॥२७॥

आदि देवता श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति करने लगे और इन्द्र परम प्रसन्न हुए ॥२७॥

सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथाब्रुवन् ।

मुने कौशिक भद्रं ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः ॥२८॥

सब देवतागण प्रसन्न हो विश्वामित्र जी से बोले—“हे कौशिक मुनि ! आपका कल्याण हो, इन्द्र सहित हम सब देवता ॥२८॥

तोपिताः कर्मणा तेन स्नेहं दर्शय राघवे ।

प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान्सत्यपराक्रमान् ॥२९॥

श्रीरामचन्द्र जी के इस कार्य से परम सन्तुष्ट हुए हैं । अब तुम श्रीरामचन्द्र जी पर विशेष स्नेह प्रदर्शित कर, कृशाश्व प्रजापति के सत्यपराक्रगी अस्त्र शस्त्र रूपी जो पुत्र हैं, ॥२९॥

तपोवलभृतान् ब्रह्मन् राघवाय निवेदय ।

पात्रभूतश्च ते ब्रह्मंस्तवानुगमने धृतः ॥३०॥

वे सब तपस्वी एवं बलवान श्रीरामचन्द्र जी को दे दो । क्योंकि ये इनके योग्यपात्र हैं और आपकी इच्छानुसार काम करने वाले हैं अथवा आपकी सेवा शुश्रूषा मन लगा कर करने वाले हैं ॥३०॥

कर्तव्यं च महत्कर्म सुराणां राजसूनुना ।

एवमुक्त्वा सुराः सर्वे जग्मुर्हृष्टा यथागतम् ॥३१॥

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य ततः सन्ध्या प्रवर्तते ।

ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोषितः ।

मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत् ॥३२॥

और ये राजकुमार देवताओं के बड़े बड़े काम करेंगे। यह कह और विश्वामित्र जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर, सब देवता जहाँ से आए थे वहाँ प्रसन्नता पूर्वक लौट कर चले गए। इतने में सन्ध्या हो गई। तब मुनिवर विश्वामित्र ताटका के वध से प्रसन्न हो और श्रीरामचन्द्र जी का माथा सूँघ कर, यह बोले ॥३१॥३२॥

इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शन ।

श्वःप्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम ॥३३॥

हे शुभदर्शन राम ! आज का रात यहीं विश्राम कर, प्रातःकाल होते ही हम अपने आश्रम को चलेंगे ॥३३॥

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः ।

उवाच रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम् ॥३४॥

विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुन, श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हुए। रात भर सुखपूर्वक ताटका के वन ही में विश्राम किया ॥३४॥

मुक्तशार्पं वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि ।

रमणीयं विवभ्राज तथा चैत्ररथं वनम् ॥३५॥

ताटका जिस दिन मारी गई उसी दिन से ताटका के वन का शाप छूट गया और वह चैत्ररथ वन की तरह अत्यन्त रमणीक हो गया ॥३५॥

निहत्य तां यक्षसुतां स रामः

प्रशस्यमानः सुरसिद्धसंघैः ।

उवाच तस्मिन्मुनिना सहैव

प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः ॥३६॥

इति षड्विंशः सर्गः ॥

श्रीरामचन्द्र जी ने ताटका को मार कर और सुरों तथा सिद्धों से बड़ी प्रशंसा प्राप्त की अर्थात् बड़ाई पाई और विश्वामित्र के साथ वहाँ रात भर विश्राम कर, सबेरा होने पर जागे ॥३६॥

बालकाण्ड का छवीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—❀—

सप्तविंशः सर्गः

—:०:—

अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रा महायशाः ।

प्रहस्य राघवं वावयमुवाच मधुराक्षरम् ॥१॥

उस रात में वहाँ निवास कर, महायशस्वी विश्वामित्र ने मुसकुरा कर मधुरवाणी से श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥१॥

पण्डितोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र सहायशः ।

प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः ॥२॥

हे महायशस्वी राजकुमार ! मैं तुमसे बहुत मन्तुष्ट हूँ और तुमको प्रसन्नता पूर्वक सब अस्त्र देता हूँ ॥२॥

देवासुरगणान् वापि सगन्धर्वैरगानपि ।

यैरमित्रान्प्रसह्याजौ वशीकृत्यं जयिष्यसि ॥३॥

इन अस्त्रों से तुम सुर, असुर, गन्धर्व और नाग आदि अपने शत्रुओं को अपने वश में कर जीत लोगे ॥३॥

तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः ।

दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव ॥४॥

हे राम ! तुम्हें मैं इन सब अस्त्रों को देता हूँ । लो यह महा दिव्य दण्डचक्र है ॥४॥

धर्मचक्रं तता वीर कालचक्रं तथैव च ।

विष्णुचक्रं तथाऽत्युग्रमैन्द्रमस्त्रं तथैव च ॥५॥

हे वीर ! यह लो धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, बड़ा पैना ऐन्द्रास्त्र ॥५॥

वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा ।

अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव ऐषीकमपि राघव ॥६॥

हे नरश्रेष्ठ ! यह लो वज्रास्त्र, महादेवास्त्र । हे राघव ! यह है ब्रह्मशिर और ऐषीक ॥६॥

ददामि ते महाबाहो ब्राह्ममस्त्रमनुत्तमम् ।

गदे द्वे चैव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी उभे ॥७॥

हे राम ! मैं तुमको सब अस्त्रों से बढ़ कर यह ब्रह्मास्त्र देता हूँ और यह लो मोदकी और शिखरी नाम की दो गदाएँ ॥७॥

प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज ।

धर्मपाशमहं राम कालपाशं तथैव च ॥८॥

हे रामकुमार राम ! मैं तुमको अत्यन्त उग्र धर्मपाश और कालपाश नामक अस्त्र देता हूँ ॥८॥

पाशं वारुणमस्त्रं च ददाम्यहमनुत्तमम् ।

अशनी द्वे प्रयच्छामि शुष्कार्द्रे रघुनन्दन ॥९॥

यह लो वारुणपाश, शुष्क और अशनी नामक दो वज्र ॥९॥

ददामि चास्त्रं पैनाकमस्त्रं नारायणं तथा ।

आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामतः ॥१०॥

यह लो पैनाकास्त्र, नारायणास्त्र और आग्न्योख-जिसका नाम शिखर है ॥१०॥

वायव्यं प्रथनं नाम ददामि च तवानघ ।

अस्त्रं ह्यशिरो नाम क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च ॥११॥

शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तत्र राघव ।

कङ्कालं मुसलं घोरं कपालमथ कङ्कणम् ॥१२॥

हे राम ! यह लो प्रथन नामक वायव्यास्त्र, ह्यशिरास्त्र और क्रौञ्चास्त्र । मैं दो शक्तियाँ भी तुम्हें देता हूँ । मैं तुम्हें अब भयङ्कर कङ्काल नामक मुसल, कापाल और कङ्कण देता हूँ ॥११॥१२॥

धारयन्त्यसुरा यानि ददाम्येतानि सर्वशः ।

वैद्याधरं महास्त्रं न नन्दनं नाम नामतः ॥१३॥

मैं तुम्हें वे सब अस्त्र देता हूँ जो राक्षसों के वध के लिए उपयोगी हैं । यह विद्याधरास्त्र है और यह नन्दन नामक ॥१३॥

असिरत्नं महाबाहो ददामि नृवरात्मज ।

गान्धर्वमस्त्रं दयिते मानवं नाम नामतः ॥१४॥

उत्तम तलार, हे राजकुमार ! मैं तुम्हें देता हूँ । यह लो गान्धर्वास्त्र, और प्यारा मानवास्त्र ॥१४॥

प्रस्थापनप्रशमने दद्वि सौरं च राघव ।

दर्पणं शोषणं चैव सन्तपन्नविलापने ॥१५॥

ये हैं प्रस्वापन और प्रशमन, सौर, दर्पण, शोषण, सन्तापन
और विलापन ॥१५॥

मदनं चैव दुर्धर्षं कन्दर्पदयितं तथा ।

पैशाचमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः ॥१६॥

(ये हैं) कन्दर्प देवता का प्यारा दुर्धर्ष मदनास्त्र और यह है
पैशाचास्त्र और प्यारा मोहनास्त्र ॥१६॥

प्रतोच्छ नरशार्दूल राजपुत्र महायशः ।

तामसं नरशार्दूल सौमनं च महाबल ॥१७॥

हे महायशस्वी राजकुमार ! यह लो तामस और महाबली
सौमन ॥१७॥

संवर्तं चैव दुर्धर्षं मौसलं च नृपात्मज ।

सत्यमस्त्रं महाबाहो तथा मायाधरं परम् ॥१८॥

हे राजकुमार ! हे महाबाहो ! ये हैं संवर्त, दुर्धर्ष, मौसल,
सत्यास्त्र और परमास्त्र मायाधर ॥१८॥

घोरं तेजःप्रभं नाम परतेजोपकर्षणम् ।

सौम्यास्त्रं शिगिरं नाम त्वाष्ट्रमस्त्रं सुदामनम् ॥१९॥

ये हैं तेजप्रभ नामक अस्त्र, जिससे शत्रु का तेज खींचा जाता
है । (और ये हैं) शिशर नामक सोमास्त्र, त्वाष्ट्रास्त्र ॥१९॥

दारुणं च भगस्यापि शीतेषुमथ मानवम् ।

एतान्नाम महाबाहो कामरूपान्महाबलान् ॥२०॥

(ये हैं) दारुण भगास्त्र, शीतेषु और मानव (नाम के अस्त्र) !
हे महाबाहो राम ! तुम इन महाबली, कामरूपी ॥२०॥

गृहाण परमोदारक्षिप्रमेव नृपात्मज ।

स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा ॥२१॥

तथा परमोदार अस्त्रों को हे राजकुमार ! शीघ्र ग्रहण करो । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने पूर्व की ओर मुख कर, पवित्र हो ॥२१॥

ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममनुत्तमम् ।

सर्वसंग्रहणं येषां दैवतैरपि दुर्लभम् ॥२२॥

और प्रसन्न हो, उन सम्पूर्ण अस्त्रों के मंत्र (अर्थात् चलाने और रोकने की विधि) बतलाए, जिन सब अस्त्रों का प्राप्त होना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ॥२२॥

तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत् ।

जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः ॥२३॥

उपतस्थुर्महार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम् ।

ऊचुश्च मुदिताः सर्वे रामं प्राञ्जलयस्तदा ॥२४॥

वे सब अस्त्र विश्वामित्र जी ने श्रीरामचन्द्र जी को दे दिए । (ज्योंही) श्रीमान् विश्वामित्र जी उन मन्त्रास्त्रों का उच्चारण करने लगे (त्योही) वे मंत्र अपना साक्षान् रूप धारण कर, श्रीरामचन्द्र जी के सामने हाथ जोड़ कर आ खड़े हुए और मुदित हो कहने लगे ॥२३॥२४॥

इमे स्म परमोदाराः किङ्करास्तव राघव

प्रतिगृह्य च काकुत्स्थ समालभ्य च पाणिना ।

मानसा मे भविष्यध्वमिति तानभ्यचोदयत् ॥२५॥

हे परमोदार राघव ! हम सब आपके दास हैं । जो काम आप हमसे लेना चाहेंगे वही हम करेंगे । तब श्रीरामचन्द्र जी ने उनको अपने हाथ से छुआ और बोले—मैं जब तुम्हारा स्मरण करूँ तब तुम आकर मेरा काम कर जाना ॥२५॥

ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम् ।

अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥२६॥

इति सप्तविंशः सर्गः ॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने मुनिप्रवर एवं महातेजस्वी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि, पधारिए (अर्थात् आगे बलिये) ॥२६॥

बालकाण्ड का सत्ताइसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

अष्टाविंशः सर्गः

—:०:—

प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहृष्टवदनः शुचिः ।

गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रमथाब्रवीत् ॥१॥

उन सब अस्त्रों को पवित्रतापूर्वक ग्रहण कर (अर्थात् उन अस्त्रों को ले और उनके चलाने की विधि जान कर) मार्ग में चलते चलते श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हो, विश्वामित्र जी से बोले ॥१॥

गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन्दुरार्षर्षः सुरानुरः ।

अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारं मुनिपुङ्गव ॥२॥

हे भगवन् ! आपके अनुग्रह से मुझे वे अस्त्र जो सुरों और असुरों को भी दुष्प्राप्य हैं, मिल गए, (और उनके चलाने की विधि भी मालूम हो गई, किन्तु अब) मुझे आप इनके संहार (अर्थात् अस्त्र चला कर उसे वापस लेने की विधि) भी बतला दीजिए ॥२॥

एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महामतिः ।

संहारं व्याजहाराथ धृतिमान्सुव्रतः शुचिः ॥३॥

श्रीरामचन्द्र जी के यह कहने पर महाबुद्धिमान्, धैर्यवान्, सुव्रत और पवित्र विश्वामित्र जी ने, उन सब मंत्रास्त्रों का संहार भी बतला दिया ॥३॥

सत्यवन्तं सत्यकीर्त्तिं धृष्टं रभसमेव च ।

प्रतिहारतरं नाम पराङ्मुखमवाङ्मुखम् ॥४॥

फिर और भी मंत्रास्त्र बतलाए जो प्रथम बतलाने से रह गए थे) उनके नाम ये हैं—सत्यवन्त, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस प्रतिहारतर, पराङ्मुख, अवाङ्मुख ॥४॥

लक्षाक्षविपमौ चैव दृढनाभसुनाभकौ ।

दशाक्षशतवक्रो च दशशीर्षशतोदरौ ॥५॥

लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढनाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्र, दशशीर्ष, शतोदर ॥५॥

पद्मनाभमहानाभौ दुन्दुनाभसुनाभकौ ।

ज्योतिषं कृशानं चैव नैराश्यविमलावुभौ ॥६॥

पद्मनाभ, महानाभ, दुन्दुनाभ, सुनाभ, ज्योतिष, कृशान, नैराश्य, विमल ॥६॥

योगन्धरहरिद्रौ च दैत्यप्रमथनं तथा ।

शुचिर्वाहुर्महाबाहुर्निष्कुलिर्विरुचिस्तथा ॥७॥

योगन्धर, हरिद्र, दैत्यप्रमथन, शुचिर्वाहु, महाबाहु, निष्कुलि और विरुचि ॥७॥

सार्चिर्मालो धृतिर्माली वृत्तिमात्रुचिरस्तदा ।

पित्र्यं सौमनसं चैव विधूतमकरःवुभौ ॥८॥

सार्चिर्माली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्र्य, सौमनस, विधूत, मकर ॥८॥

करवीरकरं चैव धनधान्याौ च राघव ।

कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा ॥९॥

करवीरकर, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह और आवरण ॥९॥

जृम्भकं सर्वनाभं च सन्तानवरणौ तथा ।

कृशाश्वतनयान् राम भास्वरान् कामरूपिणः ॥१०॥

जृम्भक, सर्वनाभ, सन्तान और वरुण । विश्वामित्र जी कहने लगे) हे राम ! ये सब कृशाश्व के पुत्र बड़े तेजस्वी और कामरूपी हैं ॥१०॥

प्रतीच्छ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव ।

बाढमित्येव काकुत्स्थ प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥११॥

इनको तुम ग्रहण करो । तुन्हारा कल्याण हों । क्योंकि हे राघव ! तुम इनके ग्रहण करने के योग्य हो । यह सुन श्रीरामचन्द्र जी ने प्रसन्न हो कहा “बहुत अच्छा” ॥११॥

दिव्यभास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः ।

केचिदङ्गारसदृशाः केचिद्धूमोपमास्तथा ॥१२॥

तत्र दिव्यरूप, देदीप्यमान, मूर्त्तिमान् और सुखप्रद (ये अस्त्र श्रीरामचन्द्र जी के सामने उपस्थित हुए) उनमें कोई तो दहकते हुए अंगार (शोले) के समान, कोई धुएँ के रंग वाले, ॥१२॥

चन्द्रार्कसदृशाः केचित्प्रह्वञ्जलिपुटास्तथा ।

रामं प्राञ्जलयो भूत्वान्रुवन्मधुरभाषिणः ॥१३॥

कोई चन्द्र और सूर्य के समान थे और कोई हाथ जोड़े हुए थे । वे श्रीरामचन्द्र जी से बड़ी नम्रता के साथ बोले ॥१३॥

इमे स्म नरशार्दूलं शाधि किं करवाम ते ।

मानसाः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ ॥१४॥

हे नरशार्दूल ! हम उपस्थित हैं, क्या आज्ञा है ? (इस पर श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे कहा) तुम मेरे मन में वास करो और काम पड़ने पर मेरी सहायता करना ॥१४॥

गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः ।

अथ ते राममामन्थ कृत्वा चापि प्रदक्षिणाम् ॥१५॥

अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो । श्रीरामचन्द्र जी के यह वचन सुन तथा उनकी आज्ञा ले एवं प्रदक्षिणा कर, ॥१५॥

एवमस्त्विति काकुत्स्थमुक्त्वा जग्मुर्यथागतम् ।

स च तान्राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिम् ॥१६॥

और "बहुत अच्छा" कह कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए । इस प्रकार इन अस्त्रों को पाकर, श्रीरामचन्द्र जी ने ऋषि-प्रवर विश्वामित्र जी से ॥१६॥

गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् ।

किन्वेतन्मेघसंकाशं पर्वतस्याविदूरतः ॥१७॥

चलते चलते पूछा—महाराज ! पहाड़ के समीप जो काले मेघ जैसा देख पड़ता है वह क्या है ॥१७॥

वृक्षपण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे ।

दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरमतीव च ॥१८॥

वह तो वृक्षों का समूह जैसा जान पड़ता है ; उसे देखने से मुझे बड़ा कुतूहल हो रहा है । वह अनेक वनपशुओं से युक्त, देखने योग्य एवं अत्यन्त मनोहर सा जान पड़ता है ॥१८॥

नानाप्रकारैः शकुनैर्बल्युनादैरलङ्कृतम् ।

निःसृताः स्य मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रोमहर्षणात् ॥१९॥

वहाँ तो मीठी बोली बोलने वाले पक्षी बोल रहे हैं । जान पड़ता है, अब हम लोग भयङ्कर रोमाञ्चकारी वन के पार हो गए ॥१९॥

अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया ।

सर्वं मे शंस भगवन्कस्याश्रमपदं त्विदम् ॥२०॥

वहाँ चल कर सुखी होने की मेरी इच्छा है । भगवन् ! कृपया वतलाइए कि, यह किसका आश्रम है ? ॥२०॥

संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः ।

तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने ॥२१॥

हे महामुने ! क्या हम लोग आपके उस आश्रम में पहुँच गए, जहाँ दुराचारी ब्रह्महत्यारे राजस आकर यज्ञ में विघ्न किया करते हैं ? ॥२१॥

भगवंस्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी ।
रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन्मया वध्याश्च राक्षसाः ।
एतत्सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥२२॥

इति अष्टाविंशः सर्गः ॥

हे भगवन् ! बतलाइए, आपका वह स्थान, जहाँ आप यज्ञ करते हैं, कहाँ है ? हे ब्रह्मन् ! मैं राक्षसों को मार कर आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा । हे मुनिप्रवर ! हे प्रभो ! ये सब बातें मैं जानना चाहता हूँ ॥२२॥

बालकाण्ड का अष्टादशवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

एकोनत्रिंशः सर्गः

—:०:—

अथ तस्याप्रमेयस्य तद्वनं परिपृच्छतः ।

विश्वामित्रा महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे ॥१॥

अचिन्त्य वैभव वाले श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार उस वन के विषय में पूछने पर, महातेजस्वी विश्वामित्र जी कहने लगे ॥१॥

इह राम महाबाहो विष्णुर्देववरः प्रभुः ।

वर्षाणि सुबहून्येव तथा युगशतानि च ॥२॥

हे राम ! यह वह स्थान है, जहाँ देवताओं में श्रेष्ठ भगवान् विष्णु ने बहुत बहुत वर्षों और सैकड़ों युगों तक ॥२॥

तपश्चरणयोगार्थमुवास सुमहातपाः ।

एष पूर्वाश्रमां राम वासनस्य महात्मनः ॥३॥

तपस्या करने के लिए वास किया था। यह आश्रम पहले महात्मा वामन जी का था ॥३॥

सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र महातपाः ।

एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनिर्वलिः ॥४॥

[नोट—आजकल सिद्धाश्रम को बक्सर कहते हैं ।]

यहाँ पर उन महातपा का तप सिद्ध हुआ था, इसीसे यह सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय राजा विरोचन के पुत्र बलि ने ॥४॥

निर्जित्य देवतगणान्सेन्द्रांश्च मरुद्गणान् ।

कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥५॥

इन्द्र और मरुद्गण सहित सब देवताओं को जीत कर, जगद्विख्यात तीनों लोकों का राज्य किया था ॥५॥

बलेस्तु यजमानस्य देशः साग्निपुरोगमाः ।

समागम्य स्वयं चैव विष्णुमृचुरिहाश्रमे ॥६॥

बलि ने जब यज्ञ करना आरम्भ किया, तब सब देवता अग्नि को आगे कर, विष्णु के पास इसी आश्रम में आकर बोले ॥६॥

बलिवैरोचनिर्विण्णां यजते यज्ञमुत्तमम् ।

असमाप्ते क्रतौ तस्मिन् स्वकार्यमभिपद्यताम् ॥७॥

विरोचनपुत्र राजा बलि एक उत्तम यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ की समाप्ति होने के पूर्व देवताओं के हितार्थ जो कुछ करना हो कीजिए ॥७॥

ये चैनमभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः ।

यच्च यत्र यथावच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति ॥८॥

उसके यज्ञ में अनेक देशों के आए हुए, याचक जो कुछ माँगतें हैं, वह उन्हें वही देता है ॥८॥

स त्वं सुरहितार्थाय मायायोगमुपाश्रितः ।

वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम् ॥९॥

अतः आप देवताओं के हित के लिए अपनी माया के योग से अथवा बल से, वामनावतार धारण कर, हम लोगों का कल्याण कीजिए ॥९॥

एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपोऽग्निमुप्रभः ।

अदित्या सहितो राम दोष्यमान इवौजसा ॥१०॥

हे राम ! इसी बीच में अग्नि के समान प्रभा वाले कश्यप जी अपनी स्त्री अदिति सहित तपःप्रभाव से देदीप्यमान थे ॥१०॥

देवीसहायो भगवान्दिव्यं वर्षसहस्रकम् ।

व्रतं समाप्य वरदं तुष्टाव नधुसूदनम् ॥११॥

देवी के सहित कश्यप जी, सहस्र वर्षों की तपस्या का व्रत समाप्त कर, वरदानी भगवान् मधुसूदन की स्तुति करने लगे ॥११॥

तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं^१ तपात्मकम्^२ ।

तपसा त्वां मुत्तमेन पश्यामि पुरुषोत्तमम् ॥१२॥

हे पुरुषोत्तम ! आप तपद्वारा आराध्य हैं, तप का फल देने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और तपस्त्वभाव हैं । इसलिए मैं अपने तपः प्रभाव से आपको देखता हूँ ॥१२॥

शरीरे तव पश्यामि जगत्सर्वमिदं प्रभो ।

त्वमनादिरनिर्देश्यस्त्वामहं शरणां गतः ॥१३॥

१ तपोमूर्तिं = सात स्वरूपं (गो०)

२ तपात्मकम् = तपः स्वभावम् (गो०)

हे प्रभो ! मैं आपके शरीर में यह चेतन अचेतनात्मक सारा जगत् देख रहा हूँ । आप अनादि हैं अर्थान् उत्पत्ति रहित हैं, अनिर्देश्य हैं, (अर्थात् आपकी महिमा का वर्णन कोई कर नहीं सकता अथवा आप अकथनीय हैं) मैं आपके शरण में आया हूँ ॥१३॥

तमुवाच हरिः प्रीतः कश्यपं धृतकल्मषम् ।

वरं वरय भद्रं ते वरार्होऽसि मतो मम ॥१४॥

(इस स्तुति से प्रसन्न हो कर) यह सुन, भगवान् विष्णु पाप रहित कश्यप जी से बोले—कश्यप ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर माँगो, मैं तुम्हें वरदान देने योग्य समझता हूँ ॥१४॥

तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपोऽब्रवीत् ।

अदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचतः ॥१५॥

यह सुन मरीच के पुत्र कश्यप जी ने कहा—मेरी, मेरी स्त्री अदिति की तथा देवताओं की प्रार्थना है कि, ॥१५॥

वरं वरद सुप्रीतो दातुमर्हसि सुव्रत ।

पुत्रत्वं गच्छ भगवन्नदित्या मम चानय ॥१६॥

हे वरद ! आप प्रसन्न हो कर मुझे यह वर दें कि, आप मेरी निष्पापा स्त्री अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म ले ॥१६॥

भ्राता भव यदीयांस्त्वं शक्रस्यासुरसूदन ।

शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमर्हसि ॥१७॥

हे अरिसूदन ! इन्द्र के छोटे भाई बन कर, आप शोकार्त देवताओं की सहायता कीजिए ॥१७॥

अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति ।

सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः ॥१८॥

यह आश्रम आपकी कृपा से सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध होगा । हे देवेश ! जब काम सिद्ध हो जाय तब आप यहाँ से उठिए ॥१८॥

अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत ।

वामनं रूपमास्थाय वैरोचनिमुपागमत् ॥१९॥

यह सुन महातेजस्वी भगवान् विष्णु अदिति के गर्भ से वामनरूप धारण कर, राजा वलि के पास गए ॥१९॥

त्रीन् क्रमानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मानदः ।

आक्रम्य लोकाँल्लोकात्मा सर्वलोकहिते रतः ॥२०॥

और उनसे तीन पग भूमि की याचना की और तीन पग भूमि पा कर, सब लोगों के हितार्थ, तीन पग से तीनों लोक नाप डाले ॥२०॥

महेन्द्राय पुनः प्रादान्नियम्य वलिमोजसा ।

त्रैलोक्यं स महातेजाश्चक्रे शक्रवशं पुनः ॥२१॥

फिर इन्द्र को तीनों लोकों का राज्य दे, वलि को अपने बल प्रभाव से बाँध लिआ (और पाताल को भेजा) इस प्रकार उन महा तेजस्वी ने तीनों लोकों को पुनः इन्द्र के अधीन कर दिआ ॥२१॥

तेनैष पूर्वामाक्रान्त आश्रमः श्रमनाशनः ।

मयापि भक्त्या तस्यैष वामनस्योपभुज्यते ॥२२॥

श्रमनाशक यह आश्रम उन्हीं का है । मैं भी उन्हीं वामन भगवान् की भक्ति कर, इस आश्रम का उपभोग करता हूँ ॥२२॥

एतमाश्रममायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः ।

अत्रैव पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः ।

अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तम् ॥२३॥

इसी आश्रम में आ कर राक्षस उपद्रव मचाया करते हैं । हे पुरुषसिंह ! यहीं उन दुराचारियों का वध करना होगा । हे राम ! आज (उसी) उत्तम सिद्धाश्रम को हम लोग चलते हैं ॥२३॥

तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यथा मम ।

प्रविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महामुनिः ॥२४॥

हे बत्स ! वह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा भी है, यह कह श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण को साथ लिए हुए, विश्वामित्र ने अपने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया ॥२४॥

शशीत्र गतनीहारः पुनर्वसुसमन्वितः ।

तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिनः ॥२५॥

उस समय ऐसी शोभा जान पड़ी, मानों पुनर्वसु के माघ शरदकालीन चन्द्रमा शोभा दे रहा हो । विश्वामित्र जी को देख सब सिद्धाश्रम वासियों ने ॥२५॥

उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन् ।

यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते ॥२६॥

उठ उठ कर और परम प्रसन्न हो विश्वामित्र जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया । जिस प्रकार धीमान् विश्वामित्र क सम्मान किया गया, ॥२६॥

तथैव राजपुत्राभ्यामकुर्वन्नतिथिक्रियाम् ।

मुहूर्तमिव विश्रान्तौ राजपुत्रावरिन्दमां ॥२७॥

उसी प्रकार राजकुमारों का भी सम्मानपूर्वक, अतिथि, सत्कार किआ गया। कुछ देर विश्राम कर, शत्रुहन्ता दोनों राजकुमारों ने ॥२७॥

प्राञ्जली मुनिशार्दूलसूचतू रघुनन्दनौ ।

अत्रैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुङ्गव ॥२८॥

हाथ जोड़ कर, विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनिप्रवर ! आप आज ही से अपना यज्ञ आरम्भ कीजिए, आपका मङ्गल होगा ॥२८॥

सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्सत्यमस्तु वचस्तव ।

एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥२९॥

यह सिद्धाश्रम है। अतः आपका कार्य सिद्ध हो और आपका वचन सत्य हो। यह सुन, महातेजस्वी ऋषिप्रवर विश्वामित्र जी ने ॥२९॥

प्रविवेश ततो दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः ।

कुमारावपि तां रात्रिमुषित्वा सुसमाहितौ ॥३०॥

नियम पूर्वक, जितेन्द्रिय हो कर, यज्ञ करना आरम्भ किआ और दोनों राजकुमार भी उस रात में सावधानता पूर्वक वहीं रहे ॥३०॥

प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वां सन्ध्यामुपास्य च ।

स्पृष्टोदकौ शुची जप्यं समाप्य नियमेन च ।

हुताग्निहांत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम् ॥३१॥

इति एकोनत्रिंशः सर्गः ॥

और प्रातःकाल होते ही दोनों राजकुमारों ने उठ कर सन्ध्या की। तदनन्तर नियमानुसार आचमन पूर्वक पवित्र हो, गायत्री

मंत्र का) जप किया । फिर अग्निहोत्र करके, आसन पर विराज-
मान विश्वामित्र जी को उन्होंने प्रणाम किया ॥३१॥

बालकाण्ड का उन्तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

त्रिंशः सर्गः

—:०:—

अथ तौ देशकालज्ञौ राजपुत्रावरिन्दमौ ।

देशे काले च वाक्यज्ञावब्रूतां कौशिकं वचः ॥१॥

देश और काल के जानने वाले और शत्रु के मारने वाले
दोनों राजकुमार-देश काल का विचार कर, विश्वामित्र जी से
बोले ॥१॥

भगवञ्श्रोतुमिच्छावो यस्मिन्काले निशाचरौ ।

संरक्षणीयौ तौ ब्रह्मन्नातिवर्तेत तत्क्षणम् ॥२॥

हे भगवन् ! हम जानना चाहते हैं कि, वे दोनों राजसराज
विध्वंस करने किस समय आते हैं, जिससे वे हमारी अनजान में
आक्रमण न कर पावे ॥२॥

एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया ।

सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंसन्मुत्रपात्मजौ ॥३॥

जब सिद्धाश्रमवासी मुनियों ने राजकुमारों की यह बात सुनी
और उनको राजसों से तुरन्त लड़ने के लिए तत्पर देखा, तब वे
सब राजकुमारों की प्रशंसा कर कहने लगे ॥३॥

अद्य प्रभृति षड्रात्रं रक्षतं राघवौ युवाम् ।

दीक्षां गतो ह्येष मुनिमौ नित्यं च गमिष्यति ॥४॥

ग
त्री

हे राजकुमारों ! आज से आप लोग ६ दिनों तक यज्ञ की रक्षा करें। विश्वामित्र जी यज्ञदीक्षा ले चुके हैं, अतः अब वे छः दिनों तक न बोलेंगे अर्थात् मौन रहेंगे ॥४॥

तौ च तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ !

अनिद्रौ पडहोरात्रं तपोवनमरक्षताम् ॥५॥

मुनियों के वचन सुन वे दोनों यशस्वी राजकुमार, छः दिनों और रातों दिन को बिना शयन किए निरन्तर उस तपोवन की रक्षा करते रहे ॥५॥

उपासांचक्रंतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ ।

ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्रमरिन्दमौ ॥६॥

दोनों वीर राजकुमार धनुष बाण धारण किए विश्वामित्र और उनके यज्ञ की रक्षा दृढ़तापूर्वक अर्थात् अत्यन्त सावधानता के साथ करते रहे ॥६॥

अथ काले गते तस्मिन्षष्ठेऽहनि समागते ।

सौमित्रिमव्रवीद्रामो यत्तौ भव समाहितः ॥७॥

पाँच दिन तो निर्विघ्न बीत गए। छठवें दिन श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा—सावधान रहो अर्थात्, खबरदार हो ॥७॥

रामस्यैवंब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया ।

प्रजज्वाल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोहिता ॥८॥

सदर्भचमसत्सुक्ता ससमित्कुसुमोचया ।

विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्जज्वाल सर्त्विजा ॥९॥

जब युद्ध करने की इच्छा से श्रीरामचन्द्र जी ने ऐसा कहा, तब अकस्मात् यज्ञवेदी भक से जल उठी और उपाध्याय, पुरोहित

त
53

त

त

त



ऋत्त्विक तथां विश्वामित्र जी के देखते देखते कुश, चमस, सुवा, पुष्प आदि यज्ञीय पदार्थों के सहित वेदी भभक उठी ॥८॥६॥

मन्त्रवच्च यथान्यायं यज्ञोऽसौ सम्प्रवर्तते ।

आकाशे च महाञ्जशब्दः प्रादुरासीद्भयानकः ॥१०॥

यद्यपि विश्वामित्र जी का यज्ञ विधि विधान ही से हो रहा था (अतः कोई विघ्न नहीं होना चाहिए था) : तथापि इतने में आकाश में बड़ा भयानक शब्द हुआ ॥१०॥

आवार्य गगनं मेघो यथा प्रावृषि निर्गतः ।

तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसावभ्यधावताम् ॥११॥

जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघ आकाश को ढक लेते हैं, उसी प्रकार राक्षसगण राक्षसी माया करते हुए (आकाश में) दौड़ने लगे ॥११॥

मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचराश्च ये ।

आगम्य भीमसङ्काशा रुधिरौघमवासृजन् ॥१२॥

मारीच, सुबाहु और उनके साथी अन्य भयङ्कर राक्षसों ने आ कर वेदी पर रुधिर की वर्षा की ॥१२॥

सा तेन रुधिरौघेण वेदिं तामभ्यवर्षताम् ।

दृष्ट्वा वेदिं तथाभूतां सानुजः क्रोधसंयुतः ॥१३॥

सहसाऽभिद्रुतो रामस्तानपश्यत्ततो दिवि ।

तावापतन्तो सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः ॥१४॥

वेदी को रुधिर में डूबी हुई देख और क्रुद्ध हो, लज्जन सहित जब सहसा श्रीरामचन्द्र जी दौड़े, तब उन्हें आकाश में मारीचादि

राक्षस देख पड़े। उनको अपनी ओर दौड़ कर आते हुए देख राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी ने ॥१३॥१४॥

लक्ष्मणं त्वथ संप्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत् ।

पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तात्राक्षसान्पिशिताशनान् १ ॥१५॥

लक्ष्मण को देख उनसे कहा—भाई ! जरा इन माँसाहारी तथा दुराचारी राक्षसों को तो देखो ॥१५॥

मानवास्त्रसमाधूताननिलेन यथा वनान् ।

मानवं परमोदारमस्त्रं परमभास्वरम् ॥१६॥

चिक्षेप परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघवः ।

स तेन पर्यास्त्रेण मानवेन समाहतः ॥१७॥

मैं इनको मानवास्त्र से वैसे ही उड़ाए देता हूँ, जैसे पवन बादल को उड़ा देता है। (यह कह कर) परमोदार श्रीरामचन्द्र जी ने अत्यन्त क्रुद्ध हो, चमचमाता मानवास्त्र मारीच की छाती में मारा। मारीच उस परमास्त्र मानवास्त्र के लगने से घायल हो ॥१६॥१७॥

सम्पूर्णं योजनशतं क्षिप्तः सागरसम्प्लवं ।

विचेतनं विघूर्णन्तं शीतेपुत्रलपीडितम् ॥१८॥

मारीच वहाँ से १०० योजन की दूरी पर समुद्र में जा गिरा। उस मानवास्त्र से पीड़ित मूर्च्छित और चक्कर खाते हुए ॥१८॥

निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणमब्रवीत् ।

पश्य लक्ष्मणशीतेपुं मानवं मनुसंहितम् ॥१९॥

मारीच को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा—
लक्ष्मण ! शीतेषु नामक मनुनिमित्त अस्त्र का प्रभाव तो
देखो ॥१६॥

मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुज्यते ।

इमानपि वधिष्यामि निर्घृणान्दुष्टचारिणः ॥२०॥

राक्षसान्पापकर्मस्थान्यज्ञघ्नान्पिशिताशनान् ।

संगृह्यास्त्रं ततां रामो दिव्यमाग्नेयमद्भुतम् ॥२१॥

इसने मारीच को मूर्च्छित कर दूर तो कर दिया, पर उनका
वध नहीं किया । अत्र मैं इन दुष्ट, निर्दयी, पापी, यज्ञ में विघ्न
ढालने वाले और रुधिर के पीने वाले राक्षसों को भी मारता हूँ ।
यह कह कर, श्रीरामचन्द्र जी ने आग्नेयास्त्र निकाला ॥२०॥२१॥

सुवाहूरसि चिक्षेप स विद्धः प्रापतद्भुवि ।

शेषान्वायव्यमादाय निजघ्नान् महायशाः ॥२२॥

और सुवाहु की छाती में मारा । सुवाहु उसके लगते ही
पृथिवी पर धड़ाम से गिर पड़ा और मर गया । तब अन्य बचे हुए
राक्षसों को श्रीरामचन्द्र जी ने वायव्यान्त्र चला कर नष्ट
किया ॥२२॥

रायवः परमोदारो मुनीनां मुद्रमावहन् ।

स हत्वा रक्षसान्तर्धान्यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः ॥२३॥

इस प्रकार परमोदार श्रीरामचन्द्र जी ने मुनियों को प्रसन्न
किया । उन यज्ञ-विघ्नकारी समस्त राक्षसों को मारने के पश्चात्
श्रीरामचन्द्र जी की ॥२३॥

ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ।

अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः ।

निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदमब्रवीत् ॥२४॥

उन मुनियों ने इन्द्र की तरह पूजा की । यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र जी, दसों दिशाओं को उपद्रव रहित देख, श्रीरामचन्द्र जी से यह बोले ॥२४॥

कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया ।

सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं राम महायशः ॥२५॥

इति त्रिंशः सर्गः ॥

हे महाबाहो ! मैं आज कृतार्थ हुआ । तुमने गुरु की आज्ञा का खूब पालन किया । हे महायशस्वी राम ! तुमने इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम चरितार्थ कर दिया ॥२५॥

बालकाण्ड का तीसरा सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

एकत्रिंशः सर्गः

—:०:—

अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलक्ष्मणौ ।

ऊषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥१॥

वीरवर और मुदित श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण ने, विश्वामित्र का काम पूरा कर और प्रसन्न हो, रात भर उसी आश्रम में शयन किया ॥१॥

प्रभातायां तु शर्वर्यां कृतपौर्वाहिकक्रियौ ।

विश्वामित्रमृषींश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः ॥२॥

सवेरा होने पर शौचादि कर्मों से निश्चिन्त हो, दोनों भाई विश्वामित्र तथा अन्य ऋषियों को प्रणाम करने गए ॥२॥

अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठ ज्वलन्तमिव पावकम् ।

ऊचतुर्मधुरोदारं वाक्यं मधुरभाषिणौ ॥३॥

अग्नि के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम कर
वे दोनों मधुरभाषी मधुर एवं उदार वाणी से उनसे बोले ॥३॥

इमौ स्म मुनिशार्दूल किङ्करौ समुपागतौ ।

आज्ञापय यथेष्टं वै शासनं करवाव किम् ॥४॥

हे मुनिशार्दूल ! हम दोनों आपके दास उपस्थित हैं । यथेष्ट
आज्ञा दीजिए कि, हम लोग अब आपकी क्या सेवा करें ॥४॥

एवमुक्तास्ततस्ताभ्यां सर्व एव महर्षयः ।

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन् ॥५॥

उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार बोलते सुन, विश्वामित्र
जी को अगुआ बना, सब महर्षियों ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥५॥

मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति ।

यज्ञः परमधर्मिष्ठस्तस्य यास्यामहे वयम् ॥६॥

हे नरश्रेष्ठ ! परम धर्मिष्ठ मिथिलाधीश महाराज जनक के यहाँ
यज्ञ होने वाला है । हम लोग सब वहाँ जा रहे हैं ॥६॥

त्वं चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि ।

अद्भुतं च धनूरक्षं तत्रैकं द्रष्टुमर्हसि ॥७॥

हे नरशार्दूल ! तुम भी हमारे साथ चलना । वहाँ तुम एक
अद्भुत एवं श्रेष्ठ धनुष भी देख सकोगे ॥७॥

तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः ।

अप्रमेयबलं घोरं मखे परमभास्वरम् ॥८॥

पूर्वकाल में देवताओं ने वह धनुष जनक को दिखाया । वह धनुष बड़ा भारी और बहुत ही चमकदार है ॥५॥

नास्य देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः ।

कर्तुमारोपणं शक्ता न कथञ्चन मानुषाः ॥६॥

किसी मनुष्यों की तो विसाँत ही क्या है, उस धनुष पर रोदा चढ़ाने के लिए पर्याप्त बल न तो गन्धर्वों में है, न असुरों में और न राक्षसों में ॥६॥

धनुषस्तस्य वीर्यं तु जिज्ञासन्तो महीक्षितः ।

न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः ॥१०॥

उस धनुष का बल आजमाने के लिए अनेक बड़े बड़े बलवान राजा आए ; किन्तु कोई भी उस पर रोदा न चढ़ सका ॥१०॥

तद्धनुर्नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः ।

तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञं चाद्भुतदर्शनम् ॥११॥

हे नरशार्दूल ! वहाँ चल कर महात्मा मिथिलाधीश के उस धनुष को और उनके अद्भुत यज्ञ को देखना ॥११॥

तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः ।

याचितं नरशार्दूल मुनाभं सर्वदेवतैः ॥१२॥

हे रामचन्द्र ! एक समय महाराज जनक ने यज्ञ किआ और उस यज्ञ का फल स्वरूप मुनाभ नामक उत्तम धनुष उन्होंने सब देवताओं से माँग लिआ ॥१२॥

आयागभूतं नृपतेस्तस्य वेश्मनि राघव ।

अर्चितं विविधैर्गन्धैर्धूपैश्चागरुगन्धिभिः १ ॥१३॥

१ पाठान्तरे—विविधैर्गन्धैर्माल्यैश्चागरुगन्धिभिः ।

वह धनुष मिथिलाधीश के घर में पूजा के स्थान पर रखा रहता है और धूम दीपादि से नित्य उसका पूजन किया जाता है ॥२३॥

एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा ।

सर्षिसङ्घः सक्राकुत्स्थ आमन्त्र्य वनदेवतः ॥१४॥

स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम् ।

उत्तरे जाद्ववीतीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम् ॥१५॥

यह कह कर मुनिप्रवर विश्वामित्र ने वहाँ से प्रस्थान किया । उनके साथ दोनों राजकुमार तथा ऋषिगण भी गए । चलते समय विश्वामित्र जी ने वनदेवताओं को बुला कर उनसे कहा—तुम्हारा कल्याण हो, मेरी यज्ञक्रिया सुसम्पन्न हुई । अब मैं सिद्धाश्रम से श्रीगङ्गा जी के उत्तर तट पर और हिमालय पर्वत की तराई में होकर (जनकपुर) जाऊँगा ॥१४॥१५॥

प्रदक्षिणं ततः कृत्वा सिद्धाश्रममनुत्तमम् ।

उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥१६॥

तदनन्तर उस उत्तम सिद्धाश्रम की परिक्रमा कर, वे उत्तर की ओर रवाना हुए ॥१६॥

तं प्रयान्तं मुनिवरमन्वयादनुसारिणम् ।

शकटीशतमात्रं च प्रयाते ब्रह्मवादिनाम् ॥१७॥

विश्वामित्र जी के चलते ही ब्रह्मवादी ऋषि भी चले और उनके सैकड़ों छकड़े भी चले ॥१७॥

मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः ।

अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं मद्यामुनिम् ॥१८॥

उस सिद्धाश्रम के रहने वाले हिरन और पत्नी भी महर्षि महात्मा विश्वामित्र जी के पीछे हो लिए ॥१७॥

निवर्तयामास ततः पक्षिसङ्घान्मृगानपि ।

ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे ॥१६॥

परन्तु विश्वामित्र जी ने उन सब पशु पक्षियों को लौटा दिया । जब वे लोग बहुत दूर निकल गए और सूर्य अस्ताचलगामी होने लगे ॥१६॥

वासं चक्रुर्मुनिगणाः शोणकूले समागताः ।

तेऽस्तं गतं दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः ॥२०॥

[टिप्पणी—शोण—खोन नदी का नाम है, जो गोंडवाने से निकल पटना के पास गङ्गा में गिरती है ।]

तब सब लोगों ने शोण नदी के तट पर डेरा डाले । सूर्य के अस्त होने पर उन लोगों ने स्नान कर सन्ध्योपासन और अग्नि-होत्र किया ॥२०॥

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निपेदुरमितौजसः ।

रामो हि सहस्रौमित्रिर्मुनींस्तानभिपूज्य च ॥२१॥

तदनन्तर सब मुनि, विश्वामित्र को आगे कर बैठे । श्रीराम-चन्द्र और लक्ष्मण ने सब मुनियों का पूजन किया और ॥२१॥

अग्रतो निपसादाय विश्वामित्रस्य धीमतः ।

अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं महामुनिम् ॥२२॥

बुद्धिमान् विश्वामित्र जी के सामने जा बैठे । महातेजस्वी श्री-रामचन्द्र ने महर्षि विश्वामित्र से ॥२२॥

पप्रच्छ नरशार्दूलः काँतूहलसमन्वितः ।

भगवन्कोन्वयं देशः* समृद्धवनशोभितः ।

श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः ॥२३॥

कौतूहल पूर्वक पूँछा कि हे भगवन् ! यह हरे भरे वन वाला देश कौनसा है ? मैं यह जानना चाहता हूँ । कृपया मुझे इसका ठीक-ठीक वृत्तान्त बतलाइए ॥२३॥

चांदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः ।

तस्य देशस्य निखिलमृषिमध्ये महातपाः ॥२४॥

इति एकत्रिंशः सर्गः ॥

श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार पूँछने पर, महातेजस्वी और सुव्रत विश्वामित्र जी ने प्रसन्न हो, उन सब ऋषियों के बीच बैठ कर, उस देश का सारा हाल बतलाया ॥२४॥

बालकाण्ड का इक्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:०:—

द्वात्रिंशः सर्गः

—:०:—

ब्रह्मयोनिर्महानासीत्कुशो नाम महातपाः ।

अक्लिष्टव्रतधर्मज्ञः सज्जनप्रतिपूजकः ॥१॥

हे राम ! ब्रह्मा जी के पुत्र, बड़े तपस्वी, अखण्डित व्रतधारी, धर्मज्ञ और सज्जनों का सत्कार करने वाले कुश नाम के एक राजा थे ॥१॥

स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुगुणोल्बणान् ।

वैदभ्यां जनयामास चतुरः सदृशान् सुतान् ॥२॥

* पाठान्तरे—'भगवन् कस्य देशोऽयं ।'

उन्होंने उत्तम कुल में उत्पन्न अपने अनुरूप वैदर्भी नामक रानी के गर्भ से अपने समान चार पुत्र उत्पन्न किए ॥२॥

कुशाम्बं कुशनाभं च आधूर्तरजसं वसुम् ।

दीप्तियुक्तान्महोत्साहान् १ क्षत्रधर्मचिकीर्षया ॥३॥

उनके नाम कुशाम्ब, कुशनाभ, आधूर्तरजस और वसु थे । ये चारों राजकुमार बड़े तेजस्वी और उत्साही थे । तदनन्तर प्रजापालन धर्म की प्रेरणा से ॥३॥

तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः ।

क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्राप्स्यथ पुष्कलम् ॥४॥

धर्मिष्ठ और सत्यवादी पुत्रों से राजा कुश ने कहा, हे पुत्रो ! प्रजा का पालन करो, इससे बड़ा पुण्य प्राप्त होगा ॥४॥

कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसम्मताः ।

निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणां नृवरास्तदा ॥५॥

पिता का यह वचन सुन चारो श्रेष्ठ राजकुमारों ने अपने अपने नाम के चार नगर बसाए ॥५॥

कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीमकरोत्पुरीम् ।

कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम् ॥६॥

महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी नाम का पुरी बसाई । धर्मात्मा कुशनाभ ने "महोदय" नामक नगर बसाया ॥६॥

आधूर्तरजसो राम धर्मारण्यं महीपतिः ।

चक्रे पुरवरं राजा वसुश्चक्रे गिरिव्रजम् ॥७॥

हे राम !-राजा आधूर्तरजस ने धर्मारण्य और राजा वसु ने गिरिव्रज नामक नगर बसाया ॥६॥

एषा वसुमती राम वसोस्तस्य महात्मनः ।

एते शैलवराः१ पञ्च प्रकाशन्त समन्ततः ॥८॥

हे राम ! गिरिव्रज का दूसरा नाम वसुमती हुआ । इसके चारों ओर प्रकाशमान पाँच बड़े बड़े पर्वत हैं ॥८॥

सुमागधी नदी पुण्या मगधान्विश्रुता ययौ ।

पञ्चानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते ॥९॥

मगध देश में बहने वाली यह मागधी नदी, जिसे शोण (सोन) भी कहते हैं, पाँचों पर्वतों के बीच (पर्वतों की) माला की तरह शोभायमान है ॥९॥

[नोट—मगध देश—बिहार प्रान्त है । रामायण काल में इसकी पश्चिमी सीमा सोन नद था ।]

सैषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः ।

पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी ॥१०॥

हे राम ! वसु की वही मागधी नदी (सोन) पूर्व दिशा की ओर बहती है और इसके दोनों तटों पर अनाज के अच्छे अच्छे खेत हैं ॥१०॥

कुशनाभस्तु राजर्षिः कन्याशतमनुत्तमम् ।

जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन ॥११॥

हे रघुनन्दन ! घृताची नाम की अप्सरा से धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ के सौ सुन्दरी कन्याएँ उत्पन्न हुईं ॥११॥

तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलङ्कृताः ।

उद्यानभूमिमागम्य प्रावृषीव शतहृदाः ॥१२॥

वे जवानी में पहुँचने पर बड़ी रूपवती हुई और (एक दिन) सजधज कर फुलवाड़ी में जा वैसे ही शोभायुक्त हुई, जैसे वर्षा-काल में विजली शोभायमान होती है ॥१२॥

गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यश्च सर्वशः ।

आमोदं परमं जग्मुर्वराभरणभूषिताः ॥१३॥

वे गहने कपड़ों से सुसज्जित उस वाटिका में चारों ओर गाती नाचती और दाजे बजाती हुई, बड़ा आनन्द मनाने लगीं ॥१३॥

अथ ताश्चारुसर्वाङ्ग्यो रूपेणाप्रतिमा भुवि ।

उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे ॥१४॥

उनके सब अंग सुन्दर थे, वे पृथिवीतल पर सौन्दर्य की मूर्तियाँ थीं । वे उस वाग में वैसे ही सुशोभित हो रही थीं जैसे आकाश में तारागण सुशोभित होते हैं ॥१४॥

ताः सर्वगुणसम्पन्ना रूपयौवनसंयुताः ।

दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनमब्रवीत् ॥१५॥

उन सब गुणवतियों और रूपवतियों को देख, सब जगह रहने वाले वायुदेव ने उन सबसे कहा ॥१५॥

अहं वः कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ ।

मानुपस्त्यज्यतां भावो दीर्घमायुरवाप्स्यथ ॥१६॥

मैं तुमको चाहता हूँ, तुम सब मेरी पत्नी बनो । तुम मनुष्यों का अनुराग त्यागो ; जिससे तुम दीर्घजीविनी हो सको ॥१६॥

चलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः ।

अक्षयं यौवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ ॥१७॥

क्योंकि यौवन तो कभी किसी का रहता नहीं—फिर विशेष कर मनुष्य जाति का यौवन तो शीघ्र ही चलायमान अर्थात् नष्ट होता है । अतः (यदि तू मेरी पत्नी बनोगी तो) तुम्हारा यौवन अक्षय्य (कभी क्षय न होने वाला) हो जायगा और तू अमर भी हो जाओगी ॥१७॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः ।

अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतमथाब्रवीत् ॥१८॥

अप्रतिहत कर्म करने वाले वायुदेव की इन बातों को सुन, वे सौ राजकन्याएँ वायुदेव का उपहास करती हुई बोलीं ॥१८॥

अन्तश्चरसि भूतानां सर्वेषां त्वं सुरोत्तम ।

प्रभावज्ञाश्च ते सर्वाः किमस्मानवमन्यसे ॥१९॥

हे देव ! तू तो सब के अन्तःकरण की बात जानते ही हो और हम भी आपके प्रभाव को अच्छी तरह जानती हैं । ऐसी दशा में (ऐसा अनुचित प्रस्ताव कर) आप हमारा अपमान क्यों करते हैं ॥१९॥

कुशनाभसुताः सर्वाः समर्थास्त्वां सुरोत्तम ।

स्थानाच्छ्यायितुं देवं रक्षामस्तु तपो वयम् ॥२०॥

हे देवताओं में उत्तम वायुदेव ! हम सब महाराज कुशनाभ की कन्याएँ हैं । हम अपने तपोबल से तुम्हें तुम्हारे लोक से नांचे गिरा सकती हैं ; पर ऐसा इसलिए नहीं करती कि, ऐसा करने से हमारा तपोबल घट जायगा और तप घटाना हमको अभीष्ट नहीं है ॥२०॥

इसी प्रकार क्षमा ही यश है, क्षमा ही धर्म है और क्षमा ही संसार का आधार है। हे राम! इस प्रकार राजकुमारियों को समझा कर और उनको विद्या कर, देवसमान पराक्रमी राजा कुशनाभ ने ॥६॥

मन्त्रज्ञां मन्त्रयामास प्रदानं सह मन्त्रिभिः ।

देशे काले प्रदानस्य सदृशे प्रतिपादनम् ॥१०॥

अपने सब मंत्रियों को बुला कर, उनसे यह सलाह की कि, उन राजकन्याओं का विवाह अच्छे देशकाल व घर में किया जाय ॥१०॥

एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महामुनिः ।

अर्ध्वरेताः शुभाचारं ब्राह्मं तप उपागमत् ॥११॥

कुशनाभ के राज्यत्व काल ही में चूली नाम के एक बड़े तेजस्वी, अर्ध्वरेता एवं सदाचारी महर्षि ने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तप किया ॥११॥

तप्यन्तं तमृषिं तत्र गन्धर्वीं पर्युपासते ।

सोमदा नाम भद्रं ते ऊर्मिलातनया तदा ॥१२॥

उस समय वहाँ तपस्या करते हुए उन मुनि की सेवा, ऊर्मिला नाम की गन्धर्वी की कन्या जिसका नाम सोमदा था, करने लगी ॥१२॥

सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषणपरायणा ।

उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टोऽभवद्गुरुः ॥१३॥

जब सोमदा ने बहुत दिनों तक उन महर्षि की बड़ी श्रद्धाभक्ति के साथ सेवा शुश्रूषा की ; तब वे महर्षि उस पर प्रसन्न हुए ॥१३॥

स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन ।

परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते किं करोमि तव प्रियम् ॥१४॥

हे राम ! समय पा कर, महर्षि ने उससे कहा—मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो काम तू कहै, सो मैं तेरे लिए करूँ ॥१४॥

परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गन्धर्वी मधुरस्वरा ।

उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदम् ॥१५॥

मुनि को अपने ऊपर प्रसन्न जान बातचीत करने में परम प्रवीण (वह) गन्धर्वी मधुर स्वर में बड़ी प्रसन्नता के साथ, वाक्यकोविद चूली ऋषि से बोली ॥१५॥

लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्म्या ब्रह्मभृतां महातपाः ।

ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम् ॥१६॥

हे महाराज ! ब्रह्मतेज से युक्त, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला और धार्मिकश्रेष्ठ एक पुत्र मैं चाहती हूँ ॥१६॥

अपतिश्चास्मि भद्रं ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ।

ब्राह्मेणोऽपगतायाश्च दातुमर्हसि मे सुतम् ॥१७॥

पर न तो मेरा कोई पति है और न मैं किसी की स्त्री होना चाहती हूँ । क्योंकि मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, इससे मुझे अपने तपोबल से ऐसा मानस पुत्र दीजिए जो धार्मिक हो ॥१७॥

[नोट—जैसे सनक, सनन्दन आदि ब्रह्मा के मानसपुत्र थे, वैसा हा एक मानसपुत्र]

तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षिर्ददौ पुत्रं तथाविधम् ।

ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम् ॥१८॥

यह सुन ब्रह्मर्षि चूली ने प्रसन्न हो ब्रह्मदत्त नामक एक मानस-पुत्र उसको दिया ॥१८॥

स राजा सौमदेयस्तु पुरीमध्यवसत्तदा ।

काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम् ॥१९॥

वह ब्रह्मदत्त काम्पिला का राजा हुआ । और वहाँ की राज-लक्ष्मी से ऐसा विभूषित हुआ, जैसे इन्द्र सुरपुर में विभूषित होते हैं ॥१९॥

[नोट—कम्पिला किसी समय दक्षिण पाञ्चाल की राजधानी था । आज भी यह कम्पिला के नाम से प्रसिद्ध है । यह फर्रुखाबाद जिले का एक कस्बा है । द्रौपदी का जन्म यहीं हुआ था । वहाँ द्रौपदी कुरुए हैं ।]

स धुद्धिं कृतवान् राजा कुशनाभः सुधार्मिकः ।

ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्याशतं तदा ॥२०॥

कुशनाभ ने इन्हीं ब्रह्मदत्त को अपनी सौ राजकुमारियों को देने का विचार किया ॥२०॥

तमाहूय महातंजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः ।

ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥२१॥

राजा कुशनाभ ने राजा ब्रह्मदत्त को बुला कर, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी सौ राजकुमारियाँ दे दीं ॥२१॥

यथाक्रमं ततः पार्ष्णिजग्राह रघुनन्दन ।

ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतिर्यथा ॥२२॥

हे राम ! वैभव में इन्द्र के समान राजा ब्रह्मदत्त ने यथाक्रम उन १०० राजकुमारियों का पाणिग्रहण किया । (विवाह के समय जो वर होता है वह उस कन्या का, जिसके साथ उसका विवाह होता है, हाथ पकड़ता है) ॥२२॥

स्पृष्टमात्रे ततः पाणौ विकुब्जा विगतज्वराः ।

युक्ताः परमया लक्ष्म्या वभ्रुः कन्याः शतं तदा ॥२३॥

ब्रह्मदत्त के द्वारा पाणिग्रहण होते ही उन सब का कुवड़ापन जाता रहा और वे परम सुन्दरी हो गईं ॥२३॥

स दृष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपतिः ।

वभूव परमप्रीतोः हर्षं लोभे पुनः पुनः ॥२४॥

राजा कुशनाभ अपना मनचीता कार्य हुआ देख अर्थात् राजकुमारियों के शरीर से वायु का विकार दूर हुआ देख, अत्यन्त असन्न हुए ॥२४॥

कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिः ।

सदारं प्रेपयामास सोपाध्यायगणं तदा ॥२५॥

इस प्रकार ब्रह्मदत्त के साथ उनका विवाह कर, कुशनाभ ने राजकुमारियों को विदा कर, उनके साथ अपने उपाध्यायों को भी भेजा ॥२५॥

सोमदाऽपि सुसंहृष्टा पुत्रस्य सदृशीं क्रियाम् ।

यथान्यार्यं च गन्धर्वी स्नुपास्ताः प्रत्यनन्दत ।

दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च ताः कन्याः कुशनाभं प्रशस्य च ॥२६॥

इति त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥

सोमदा जिस प्रकार अपने पुत्र की पदमर्यादा के अनुरूप सम्बन्ध हुआ देख प्रसन्न हुई, उसी प्रकार सुन्दर बहुओं को देख कर भी वह आनन्दित हुई और उनका सत्कार किया और उन राजकुमारियों को देख और वर्त कर, उसने राजा कुशनाभ की सराहना की ॥२६॥

वालकाण्ड का तैंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

चतुस्त्रिंशः सर्गः

—:०:—

कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव ।

अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिमकल्पयत् ॥१॥

हे राम ! ब्रह्मदत्त के व्याह कर के चले जाने के पश्चात्, कुशनाभ पुत्रवान् न होने के कारण, पुत्रप्राप्ति के लिए पुत्रेष्टियज्ञ करने लगे ॥१॥

इष्ट्यां तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिम् ।

उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा ॥२॥

जब यज्ञ होने लगा, तब ब्रह्मा जी के पुत्र और परमोदार राजा कुशनाभ के पिता, राजा कुश अपने पुत्र से बोले ॥२॥

पुत्र ते सदृशः पुत्रो भविष्यति सुधार्मिकः ।

गार्धिं प्राप्स्यासि तेन त्वं कीर्त्तिं लोके च शाश्वतीम् ॥३॥

हे बत्स ! तेरे, तेरे ही समान धर्मात्मा पुत्र होगा । उसका

नाम गाधि होगा और उसके होने से संसार में तेरी कीर्ति अमर होगी ॥३॥

एवमुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिम् ।

जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम् ॥४॥

हे राम ! कुश अपने पुत्र राजा कुशनाभ से यह कह कर, आकाश मार्ग से सनातन ब्रह्मलोक को चले गए ॥४॥

[टिप्पणी—रामायण काल में भी मृतपुरुषों की आत्मा अदृश्य लोकों से मर्त्यलोक में आती थी यह बात इस आख्यान से सिद्ध है । आत्माओं या रूहों को बुलाकर वार्तालाप करना आधुनिक विज्ञान नहीं । किन्तु इस देश का प्राचीन कालीन विज्ञान है ।]

कस्यचित्त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः ।

जज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः ॥५॥

कुछ समय बीतने पर बुद्धिमान् कुशनाभ के परम धर्मिष्ठ गाधि नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥५॥

स पिता मम काकुत्स्थ गाधिः परमधार्मिकः ।

कुशवंशप्रसूतोऽस्मि कौशिको रघुनन्दन ॥६॥

हे राम ! वे ही परम धर्मिष्ठ मेरे पिता हैं । कुशवंशोद्भव होने के कारण मैं कौशिक (भी) कहलाता हूँ ॥६॥

पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता ।

नाम्ना सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता ॥७॥

हे राघव ! मेरी बड़ी बहिन का नाम सत्यवती था, जो पतिव्रता थी । उसका विवाह ऋचीक के साथ हुआ था ॥७॥

सशरीरा गता स्वर्गं भर्तारमनुवर्तिनी ।

कौशिकी परमोदारा सा प्रवृत्ता महानदी ॥८॥

पति के मरने के बाद, वह सत्यवती पति के साथ सशरीर स्वर्ग को गई। फिर वही परम उदार कौशिकी नदी हो वहने लगी ॥८॥

दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्त शुश्रिता ।

लोकस्य हितकामार्थं प्रवृत्ता भगिनी मम ॥९॥

इसका श्लाघ्य और अति पवित्र जल है और यह बड़ी रमणीक है। यह हिमालय से निकल कर वहती है। लोगों के हित के लिए मेरी वहिन ने नदी का रूप धारण किया है ॥९॥

ततोऽहं हिमवत्पाश्र्वे वसामि निरतः सुखम् ।

भगिन्यां स्नेहसंयुक्तः कौशिवयां रघुनन्दन ॥१०॥

हे राम ! अपनी वहिन के स्नेहवश मैं हिमालय के समीप कौशिकी के तट पर ही रहता था ॥१०॥

सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता ।

पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा ॥११॥

सत्यधर्म में स्थित, बड़ी पतिव्रता वही सत्यवती, नदियों में श्रेष्ठ, महाभागा कौशिकी नदी है ॥११॥

अहं हि नियमाद्राम हित्वा तां समुपागतः ।

सिद्धाश्रममनुप्राप्य सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥१२॥

हे राम ! यह यज्ञ पूरा करने के लिए मैं उसको छोड़ सिद्धाश्रम में चला आया था। वहाँ तुम्हारे प्रताप से मेरा काम सिद्ध हुआ ॥१२॥

एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता ।

देशस्य च महावाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥१३॥

हे राम ! हे महावाहो ! मैंने तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में इस देश का तथा अपनी उत्पत्ति और अपने वंश का वृत्तान्त कह सुनाया ॥१३॥

गतोऽर्धरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथयतां मम ।

निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा भूद्विघ्नोऽध्वनीह नः ॥१४॥

हे राम ! यह वृत्तान्त सुनाते सुनाते आधी रात बीत चुकी। तुम्हारा मङ्गल हो, अब जा कर शयन करो, जिससे कल चलने में विघ्न न हो ॥१४॥

निष्पन्दास्तरवः सर्वे निलीना मृगपक्षिणः ।

नैशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन ॥१५॥

हे रघुनन्दन ! अब किसी वृत्त का पत्ता तक नहीं हिलता, पशु पक्षी तक चुपचाप हैं। निशा का घोर अन्धकार सब दिशाओं में छाया हुआ है ॥१५॥

शनैर्वियुज्यते सन्ध्या नभो नेत्रैरिवावृतम् ।

नक्षत्रतारागहनं ज्योतिर्भिरवभासते ॥१६॥

धीरे धीरे सन्ध्या का समय बीत गया। आकाश तारों से देदीप्यमान हो, शोभित हो रहा है। ऐसा जान पड़ता है, मानों आकाश सहस्रों नेत्रों से देख रहा हो ॥१६॥

उत्तिष्ठति च शीतांशुः शशी लोकतमोनुदः ।

ह्लादयन्प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया विभो ॥१७॥

समस्त संसार के अन्धकार को नष्ट करने वाला और शीतल किरणों वाला चन्द्रमा, प्राणियों के मन को हर्षित करता हुआ ऊपर को उठता चला आता है ॥१७॥

नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः ।

यक्षराक्षससंवाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः ॥१८॥

रात में घूमने वाले और मांसभक्षी भयङ्कर यक्षों और राक्षसों के दल, इधर उधर घूम फिर रहे हैं ॥१८॥

एवमुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनिः ।

साधु साध्विति तं सर्वे मुनयो ह्यभ्यपूजयन् ॥१९॥

इतना कह कर महातेजस्वी विश्वामित्र जी चुप हो गए । तब मुनियों ने वाह वाह कह कर विश्वामित्र की प्रशंसा की ॥१९॥

कुशिकानामयं वंशो महान् धर्मपरः सदा ।

ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमाः ॥२०॥

(और कहा) यह कुश का वंश सदा से धर्म में तत्पर रहा है और इस वंश के सब राजा लोग ब्रह्मर्षि तुल्य होते चले आते हैं ॥२०॥

विशेषेण भवानेव विश्वामित्रो महायशाः ।

कौशिकी च सरिच्छ्रेष्ठा कुलोद्द्योतकरी तव ॥२१॥

हे विश्वामित्र जी ! विशेष कर आप तो इस वंश में महायशस्वी हैं तथा नदियों में श्रेष्ठ कौशिकी नदी ने तो इस वंश को उजागर कर दिखा है ॥२१॥

इति तैर्मुनिशार्दूलैः प्रशस्तः कुशिकात्मजः ।

निद्रामुपागमच्छ्रीमानस्तं गत इवांशुमान् ॥२२॥

उन मुनिश्रेष्ठों ने इस प्रकार से विश्वामित्र की प्रशंसा की ।
सदनन्तर श्रीमान् विश्वामित्र जी सो गए, मानों सूर्य
अस्ताचलगामी हो गए हों ॥२२॥

रामोऽपि सहसौमित्रिः क्रिञ्चिदागतविस्मयः ।

प्रशस्य मुनिशार्दूलं निद्रां समुपसेवते ॥२३॥

इति चतुर्विंशः सर्गः ॥

श्रीरामचन्द्र जी भी लक्ष्मण जी सहित कुछ कुछ विस्मित हो
और विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए सो गए ॥२३॥

बालकाण्ड का चौतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥

—:❀:—

पञ्चत्रिंशः सर्गः

—:०:—

उपास्य रात्रिशेषं तु शोणकूले मदर्षिभिः ।

निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१॥

विश्वामित्र जी ने उन सब ऋषियों सहित शेष रात्रि सोन
नदी के तट पर बिताई । जब प्रातःकाल हुआ, तब विश्वामित्र जी
रामचन्द्र जी से बोले ॥१॥

सुप्रभाता निशा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते ।

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय ॥२॥

हे राम ! उठिए, प्रातःकाल हो चुका । तुम्हारा मङ्गल हो, अब सन्ध्योपासन कर चलने की तैयारी कीजिए ॥२॥

तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा पौर्वाह्निकीं क्रियाम् ।
गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाच ह ॥३॥

श्रीरामचन्द्र जी, मुनिवर के यह वचन सुन प्रातःक्रिया से निवृत्त हुए और चलने को तैयार हो बोले ॥३॥

अयं शोणः शुभजलोगाधः पुलिनमण्डितः ।
कतरेण पथा ब्रह्मन् सन्तरिष्यामहे वयम् ॥४॥

हे ब्रह्मन् ! इस शोण नद में जल तो कम है, बालू विशेष है । सो बतलाइए किस रास्ते से हम लोग उस पार चलें ॥४॥

एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोऽब्रवीदिदम् ।
एष पन्था मयोद्दिष्टो येन यान्ति महर्षयः ॥५॥

यह सुन विश्वामित्र जी बोले जिस रास्ते से सब महर्षि जाते हैं वही रास्ता मैं बतलाता हूँ । वह यह है ॥५॥

एवमुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता ।
पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च ॥६॥

बुद्धिमान् महर्षि विश्वामित्र जी के यह कहने पर वे रास्ते में विविध वनों को देखते हुए चलने लगे ॥६॥

ते गत्वा दूरमध्वानं गतेऽर्धऽदिवसे तदा ।
जाह्नवी सरितां श्रेष्ठां ददृशुर्मुनिसेविताम् ॥७॥

वे जब बहुत दूर निकल गए तब दोपहर को उनकी मुनियों द्वारा सेवित श्रीगङ्गा जी देख पड़ीं ॥७॥

तां दृष्ट्वा पुण्यसलिलां हंससारससेविताम् ।

वभ्रुवुर्मुनयः सर्वे मुदिताः सहरायवाः ॥८॥

श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी सहित सब मुनि, हंस सारसों से सुशोभित, पुण्यसलिला जाह्नवी के दर्शन कर, बहुत हर्षित हुए ॥८॥

तस्यास्तीरे ततश्चक्रुस्त आवासपरिग्रहम् ।

ततः स्नात्वा यथान्यार्यं सन्तर्प्य पितृदेवताः ॥९॥

वे सब श्रीगङ्गा जी के तट पर ठहर गए और यथाविधि स्नान कर, पितृदेवतर्पणादि कर्म सम्पन्न किए ॥९॥

हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्य चानुत्तमं हविः ।

विविशुर्जाह्नवीतीरे शुचौ मुदितमानसाः ॥१०॥

फिर अग्निहोत्र कर और वचे हुए पवित्र हविष्यान्न को खाने के पश्चात्, वे लोग प्रसन्नचित्त हो और आसनों पर गङ्गा जी के पवित्र तट पर बैठे ॥१०॥

विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः ।

*सम्प्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमयाब्रवीत् ॥११॥

सब मुनियों के बीच में विश्वामित्र जी (और उनके सामने दोनों राजकुमार) बैठे । उस समय प्रसन्नचित्त श्रीराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा ॥११॥

भगवञ्श्रोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीम् ।

त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम् ॥१२॥

हे भगवान् ! मैं त्रिपथगा गङ्गा जी का वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ । वे किस प्रकार तीनों लोकों को नाँघ कर समुद्र से जा मिली ? ॥१२॥

चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः ।

वृद्धिं जन्म च गङ्गाया वक्तुमेवोपचक्रमे ॥१३॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के पूँछने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने श्रीगङ्गा जी की वृद्धि व जन्म की कथा कहना आरम्भ की ॥१३॥

शैलेन्द्रो हिमवान्नाम धातूनामाकरो महान् ।

तस्य कन्याद्वयं जातं रूपेणाप्रतिमं भुवि ॥१४॥

धातुओं की खान हिमालय नामक पर्वत के दो कन्याएँ हुई, जो पृथिवी पर सौन्दर्य में बेजोड़ थीं; अर्थात् अत्यन्त सुन्दरी थीं ॥१४॥

या मेरुद्वहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा ।

नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया ॥१५॥

इन कन्याओं की माता का नाम मेना है जो मेरु पर्वत की सुन्दरी लड़की और हिमाचल की पत्नी है ॥१५॥

तस्यां गङ्गेयमभवज्ज्येष्ठा हिमवतः सुता ।

उमा नाम द्वितीयाभूत्कन्या तस्यैव राघव ॥१६॥

हिमाचल की बड़ी बेटी का नाम गङ्गा और छोटी का उमा
पद्मा ॥१६॥

अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे देवतार्थचिकीर्षया ।

शैलेन्द्रं वरयामासुर्गङ्गां त्रिपथगां नदीम् ॥१७॥

हिमाचल की बड़ी बेटी त्रिपथगानदी गङ्गा को सब देवता
मिल कर निज कार्यसिद्धि के लिए माँग कर ले गये ॥१७॥

ददौ धर्मेण हिमवांस्तनयां लोकपावनीम् ।

स्वच्छन्दपथगां गङ्गां त्रैलोक्यहितकाम्यया ॥१८॥

हिमाचल ने भी तीनों लोकों को पवित्र करने वाली, मनमाने
मार्ग से जाने वाली, गङ्गा को, तीनों लोकों की भलाई के लिए,
माँगने वाले को देना चाहिए, अपना यह धर्म समझ, देवताओं
को दे दिया ॥१८॥

प्रतिगृह्य ततो देवास्त्रिलोकहितकारिणः ।

गङ्गामादाय तेऽगच्छन् कृतार्थेनान्तरात्मना ॥१९॥

तीनों लोकों का हित चाहने वाले, देवतागण गङ्गा को ले कर
और कृतार्थ हो चले गए ॥१९॥

या चान्या शैलदुहिता कन्याऽऽसीद्रघुनन्दन ।

उग्रं सा व्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना ॥२०॥

हे रघुनन्दन ! हिमाचल की जो दूसरी बेटी उमा थी, उसका
तप ही धन था । अतः उसने अति उग्र तप किया ॥२०॥

उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरः सुताम् ।

रुद्रायाप्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम् ॥२१॥

कठोर तप करने वाली तथा लोकवन्दिता अपनी बेटी उमा, शैलवर हिमाचल ने, महादेव को, उसके (उमा) लिए उपयुक्तवर समझ, उन्हें व्याह दी ॥२१॥

एते ते शैलराजस्य सुते लोकनमस्कृते ।

गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव ॥२२॥

हे राम ! ये दोनों लोकनमस्कृता गङ्गा नदी और उमादेवी प्रसिद्ध हिमाचल की बेटियाँ हैं ॥२२॥

एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी ।

खं गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां वर ॥२३॥

हे तात ! हे चलने वालों में श्रेष्ठ ! मैंने तुमसे त्रिपथगा श्रीगङ्गा जी के प्रथम स्वर्ग जाने का वृत्तान्त-कहा ॥२३॥

सैषा सुरनदी रम्या शैलेन्द्रस्य सुता तदा ।

सुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी ॥२४॥

इति पञ्चत्रिंशः सर्गः

हिमाचल की बेटी, रमणीक और पाप नाश करने वाले जल से बहने वाली और सुरलोक को जाने वाली यही सुरनदी गङ्गा नदी है ॥२४॥

बालकाण्ड का पैंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

षट्त्रिंशः सर्गः

—:०:—

उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्नुभौ राघवलक्ष्मणौ ।

अभिनन्द्य कथां वीरावूचतुर्मुनिपुङ्गवम् ॥१॥

मुनि विश्वामित्र जी के इस प्रकार कहने पर, दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी (की जानकारी और स्मरणशक्ति और कथा कहने की रीति) की वड़ाई करते हुए बोले ॥१॥

धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया ।

दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठाया वक्तुमर्हसि ॥२॥

हे ब्रह्मर्षि ! आपने पुण्य देने वाली उत्तम कथा कही, अब हिमालय की जेठी बेटी गङ्गा जी की कथा मुझसे कहिए ॥२॥

विस्तरं विस्तरज्ञांसि दिव्यमानुपसम्भवम् ।

त्रीन्पथो हेतुना केन प्लावयेल्लोकपावनी ॥३॥

आप सब जानते हैं, सो अब आप विस्तार पूर्वक चह कहिये कि, लोकपावनी गङ्गा स्वर्ग से मनुष्यलोक में क्यों आई और तीनों लोकों में क्यों कर बहीं ? ॥३॥

कथं गङ्गा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा ।

त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः कैः समन्विता ॥४॥

हे धर्मज्ञ ! नदियों में उत्तम गङ्गा का नाम तीनों लोकों में त्रिपथगा किन किन कर्मों के कारण हुआ ॥४॥

तथा ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः ।

निखिलेन कथां सर्वामृषिमध्ये न्यवेदयन् ॥५॥

श्रीरामचन्द्र के पूँछने पर तपोधन विश्वामित्र जी ने सारा वृत्तान्त ऋषियों के बीच बैठ कर (इस प्रकार) कहा ॥५॥

पुरा राम कृतोद्वाहो नीलकण्ठो महातपाः ।

दृष्ट्वा च स्पृहया देवीं मैथुनायोपचक्रमे ॥६॥

हे राम ! पूर्वकाल में महातपस्वी महादेव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ और वे उनको देख, कामवशवर्ती हो, उनके साथ विहार करने लगे ॥६॥

शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम् ।

तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः ॥७॥

देवताओं के मान से सौ वर्ष तक धीमान् नीलकण्ठ महादेव जी के देवी के साथ विहार करने पर भी ॥७॥

न चापि तनयो राम तस्यामासीत्परन्तप ।

ततो देवाः समुद्विग्नाः पितामहपुरोगमाः ॥८॥

हे राम ! कोई सन्तान न हुआ । तब सब देवता व्याकुल हो ब्रह्मा जी सहित विचारने लगे ॥८॥

यदिहोत्पद्यते भूतं कस्तत्प्रतिसहिष्यते ।

अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिपत्येदमब्रुवन् ॥९॥

कि इन दोनों के सम्भोग से जो जीव उत्पन्न होगा, उसका भार कौन सम्हाल सकेगा । तब सब देवता महादेव जी के शरण में जा कर और उनको प्रणाम कर बोले ॥९॥

देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत ।

सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥१०॥

हे देवदेव महादेव ! देवताओं के प्रणाम से प्रसन्न हूजिए और इस लोक की रक्षा कीजिए ॥१०॥

न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम ।

ब्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥११॥

हे सुरोत्तम ! आपका तेज कोई भी लोक धारण नहीं कर सकेगा। अतः आप देवीसहित वैदिक विधि से तप कीजिए ॥११॥

त्रैलोक्यहितकार्थं तेजस्तेजसि धारय ।

रक्ष सर्वानिमांल्लोकानालोकं कर्तुमर्हसि ॥१२॥

तीनों लोकों के हित के लिए अपना तेज अपने शरीर ही में रखिए, जिससे तीनों लोकों की रक्षा हो, उनका नाश न कीजिए ॥१२॥

देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकमहेश्वरः ।

वाढमित्यब्रवीत्सर्वान्पुनश्चेदमुवाच ह ॥१३॥

सर्वलोकों के परम नियन्ता महादेव जी, देवताओं के वचन सुन बोले, बहुत अच्छा। तदनन्तर कहने लगे ॥१३॥

धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजस्येव सहोमया ।

त्रिदशाः पृथिवी चैव निर्वाणमधिगच्छतु ॥१४॥

हे देवतागण ! मैं उमा के साथ अपना तेज शरीर ही में धारण किए रहूँगा। देवतागण एवं पृथिव्यादि समस्त लोक सुख से रहें ॥१४॥

यदिदं क्षुभितं स्थानान् मम तेजो ह्यनुत्तमम् ।

धारयिष्याति कस्तन् मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः ॥१५॥

परन्तु हे देवताओं ! यह तो बतलाओ कि, जो मेरा तेज
(वीर्य) स्थानच्युत हो गया है, उसे कौन धारण करेगा ? ॥१५॥

एवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्यूचुर्वृषभध्वजम् ।

यत्तेजः क्षुभितं ह्येतत्तद्धरा धारयिष्यति ॥१६॥

इस पर देवताओं ने महादेव जी को यह उत्तर दिया कि
आपका जो तेज स्थानच्युत हुआ अर्थात् गिरा, तो उसे पृथिवी
धारण करेगी ॥१६॥

एवमुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महीतले ।

तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता स-गिरिकानना ॥१७॥

यह सुन महादेव जी ने अपना तेज पृथिवी पर छोड़ा, जिससे
वन पर्वत सहित पृथिवी पूर्ण हो गई ॥१७॥

ततो देवाः पुनरिदमूचुश्चाथ हुताशनम् ।

प्रविश त्वं महातेजो रौद्रं वायुसमन्वितः ॥१८॥

(जब देवताओं को यह मालूम हुआ कि, उस तेज को धारण
करने में पृथिवी असमर्थ है तब) वे अग्नि से बोले कि, तुम वायु
के साथ इस रुद्र के तेज में प्रवेश करो ॥१८॥

तदग्निना पुनर्व्याप्तं सञ्जातः श्वेतपर्वतः ।

दिव्यं शरवणं चैव पावकादित्यसन्निभम् ॥१९॥

तब अग्नि के इसमें प्रवेश करने से वह तेज एक स्थान पर (समिट कर) श्वेत पर्वताकार हो गया। फिर अग्नि और सूर्य की तरह चमकीला अति दिव्य सरपत का बन हो गया ॥१६॥

यत्र जाता महातेजाः कार्तिकेयोऽग्निसम्भवः ।

अथोमां च शिवं चैव देवाः सर्षिगणास्तदा ॥२०॥

उसी से स्वामिकार्तिक अग्नि के समान तेजस्वी उत्पन्न हुए। तदनन्तर सब देवताओं और ऋषियों ने उमा और शिव की पूजा की ॥२०॥

पूजयामासुरत्यर्थं सुप्रीतमनसस्ततः ।

अथ शैलसुता राम त्रिदशानिदमब्रवीत् ॥२१॥

हे राम! जब प्रसन्न मन से देवताओं ने पूजन किया, तब उमा (क्रुद्ध होकर) देवताओं से यह बोली ॥२१॥

अप्रियस्य कृतस्याद्य फलं प्राप्स्यथ मे सुराः ।

इत्युक्त्वा सलिलं गृह्य पार्वती भास्करप्रभा ॥२२॥

अरे देवताओं, तुमने जो मेरे लिए अप्रिय कार्य किया है उसका फल तुम पावोगे। सूर्य के समान दीप्रिमान् उमा ने यह कह कर हाथ में जल लिया और ॥२२॥

समन्युरशपत्सर्वान्क्रोधसंरक्तलोचना ।

यस्माच्चिवारिता चैव सङ्गतिः पुत्रकाम्बवा ॥२३॥

क्रोध के मारे लाल नेत्र कर उन सब देवताओं को यह कह कर, तुमने मेरे पुत्र उत्पन्न होने में बाधा डाली है ॥२३॥

अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हथ ।

अद्यप्रभृति शुष्माकमप्रजाः सन्तु पत्नयः ॥२४॥

सो कोई भी देवता अपनी स्त्री से पुत्र उत्पन्न न कर सके ; आज से तुम्हारी स्त्रियाँ सन्तानरहित होंगी ॥२४॥

एवमुक्त्वा सुरानसर्वाञ्छशाप पृथिवीमपि ।

अवने नैकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि ॥२५॥

देवताओं को इस प्रकार शाप दे कर, (शान्त ने हुई) उमने पृथिवी को भी शाप दिया कि, हे पृथिवी ! तू एक सी नहीं रहैगी और तेरे अनेक पति होंगे । अर्थात् समस्त भूमण्डल का एक राजा न होगा—अनेक राजा होंगे ॥२५॥

न च पुत्रकृतां प्रीतिं मत्क्रोधकलुपीकृता ।

प्राप्स्यसि त्वं सुदुर्मेधे मम पुत्रमनिच्छती ॥२६॥

हे सुदुर्मेधे ! मेरे क्रोध से तुम्हें पुत्रसुख न होगा, क्योंकि तूने मेरे पुत्र को नहीं चाहा ॥२६॥

तान् सर्वान् व्रीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा ।

गमनायोषचक्राम दिशं वरुणपालिताम् ॥२७॥

महादेव जी ने इन्द्र तथा सब देवताओं को लज्जित देख, वरुण दिशा की ओर जाने की इच्छा की ॥२७॥

स गत्वा तप आतिष्ठत्पार्श्वे तस्योत्तरे गिरेः ।

हिमवत्प्रभवं शृङ्गे सह देव्या महेश्वरः ॥२८॥

वहाँ जा कर हिमालय के उत्तर भाग में हिमवत्प्रभव नामक पर्वतशृङ्ग पर उमा सहित वे तप करने लगे ॥२८॥

एष ते विस्तरौ राम शैलपुञ्ज्या निवेदितः ।

गङ्गायाः प्रभवं चैव शृणु मे सहलक्ष्मणः ॥२९॥

इति षट्त्रिंशः सर्गः ॥

हे राम ! हिमालय की एक बेट्टी की यह कथा मैंने विस्तार पूर्वक कही । अब हिमालय की दूसरी बेट्टी गङ्गा की (विस्तृत) कथा लक्ष्मण सहित तुम सुनो ॥२९॥

बालकाण्ड का छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥

—❀—

सप्तत्रिंशः सर्गः

—❀:—

तप्यमाने तपो देवे देवाः सर्षिगणाः पुरा ।

सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन् ॥१॥

जब महादेव तप करने लगे, तब इन्द्रादि देवता अग्नि को आगे कर, सेनापति (अपनी देवसेना के लिए एक सेनापति) प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए ॥१॥

ततोऽब्रुवन् सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम् ।

प्रणिपत्य शुभं वाक्यं सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ॥२॥

और भणाम कर. इन्द्र और अग्नि को आगे कर ब्रह्मा जी से अब देवता प्रणाम पूर्वक बोले ॥२॥

यो नः सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा ।

तपः परममास्थाय तप्यते स्म सहोमया ॥३॥

हे भगवान् ! आदि काल में जिन (रुद्र) को आपने हमारा सेनापति बनाया था. वे तो उमा के साथ हिमालय पर जा कर तप कर रहे हैं ॥३॥

टिप्पणी—किसी किसी पार्थ में “यौन” की जगह “येन” भी पाठ मिलता है । जहाँ पर “येन” पाठ है वहाँ उक्त श्लोक का अर्थ यह होगा, कि, जिन महादेव जी ने हम लोगों से पहले कहा था कि, हम तुम्हें एक सेनापति देंगे, वे महादेव उमा सहित हिमालय पर तप कर रहे हैं ।

यदत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया ।

संविधत्स्व विधानज्ञ त्वं हि नः परमा गतिः ॥४॥

अतएव इसके बाद लोकों के हितार्थ जो करना उचित जान पड़े, वह कीजिए, क्योंकि हमारी दौड़ तो आप ही तक है ॥४॥

देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः ।

सान्त्वयन् मधुरैर्वाक्यैस्त्रिदशानिदसब्रवीत् ॥५॥

देवताओं के इन वचनों को सुन, ब्रह्मा जी मधुर वचनों से देवताओं को सान्त्वना प्रदान कर, अर्थात् डाँढस बँधा कर, यह बोले ॥५॥

शैलपुत्र्या यदुक्तं तन्न प्रजाः सन्तु पत्रिषु ।

तस्या वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः ॥६॥

हे देवगण ! उमा देवी ने तुम लोगों को जो शाप दिया है कि, तुम्हारी बियों के सन्तान न होगा, वह तो अन्यथा होगा नहीं ॥६॥

इयमाकाशगा गङ्गा यस्यां पुत्रं हुताशनः ।
जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम् ॥७॥

हां, अग्निदेव इस आकाशगङ्गा से जिस पुत्र को उत्पन्न करेंगे वह देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाला होगा ॥७॥

ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं सुतम् ।
उमायास्तद्वहुमतं भविष्यति न संशयः ॥८॥

हिमाचल की ज्येष्ठा पुत्री गङ्गा, अपनी छोटी बहिन का पुत्र होने के कारण, उसे निज पुत्रवत् समझेगी और उमा तो उसे निश्चय ही बहुत ही मानेगी अर्थात् उसे बहुत प्यार करेगी ॥८॥

तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनन्दन ।
प्रणपत्य सुराः सर्वे पितामहमपूजयन् ॥९॥

हे राम ! ब्रह्मा के ये वचन सुन, देवताओं ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रणामादि कर ब्रह्मा जी का पूजन किया ॥९॥

ते गत्वा पर्वतं राम कैलासं धातुमण्डितम् ।
अग्निं नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः ॥१०॥

तदनन्तर सब देवता अनेक धातुओं से परिपूर्ण कैलास पर्वत पर गए और पुत्रोत्पत्ति के लिए अग्नि को प्रेरणा करने लगे ॥१०॥

देवकार्यमिदं देव संविधत्स्व हुताशन ।
शैलपुत्र्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्सृज ॥११॥

(देवतागण, अग्नि से कहने लगे) यह देवताओं का कार्य है । इसे करो । हे महातेजस्वी अग्निदेव ! आप अपना (वीर्य) गङ्गा में छोड़ो ॥११॥

देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः ।

गर्भं धारय वै देवि देवतानामिदं प्रियम् ॥१२॥

अग्निदेव ने देवताओं से (यह कार्य करने की) प्रतिज्ञा की, और गङ्गा जी से कहा—हे देवि ! तुम हमसे गर्भ धारण करो । क्योंकि यह कार्य देवताओं को अभिलषित अर्थान् उनको पसन्द है ॥१२॥

अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत् ।

दृष्ट्वा तन्महिमानं स समन्तादवकीर्यत ॥१३॥

अग्निदेव का यह वचन सुन गङ्गा देवी ने दिव्य स्त्री का रूप धारण किया । अग्नि ने गङ्गा जी का सौन्दर्य देख, अपने सब अंगों से वीर्य छोड़ा ॥१३॥

समन्ततस्तदा देवीमभ्यपिञ्चत पावकः ।

सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन ॥१४॥

हे राम ! गङ्गा की प्रत्येक नाड़ी अग्नि के तेज (वीर्य) से परिपूर्ण हो गई—कोई अंग खाली न रहा ॥१४॥

तमुवाच ततो गङ्गा सर्वदेवपुरोगमम् ।

अशक्ता धारणे देव तव तेजः समुद्धतम् १ ॥१५॥

तब गङ्गा ने अग्नि से कहा कि, हे देव ! मैं तुम्हारे बढ़ते हुए तेज को धारण नहीं कर सकती ॥१५॥

दह्यमानाऽग्निना तेन संप्रव्यथितचेतना ।

अथाब्रवीदिदं गङ्गां सर्वदेवहुताशनः ॥१६॥

क्योंकि तुम्हारे तेज से मैं जली जाती हूँ और मैं बहुत दुःखी हूँ । यह सुन अग्नि ने गङ्गा से कहा ॥१६॥

इह हैमव्रते पादे गर्भोऽयं सन्निवेश्यताम् ।

श्रुत्वा त्वग्निवचो गङ्गा तं गर्भमतिभास्वरम् ॥१७॥

इस हिमालय के पास इस गर्भ को रख दो । यह सुन गङ्गा जी ने वह परम तेजस्वी गर्भ ॥१७॥

उत्ससर्ज महातेजाः स्रोतोभ्यो हि तदाऽनघ ।

यदस्या निर्गतं तस्मात्तप्तजाम्बूनदप्रभम् ॥१८॥

अपने अंगों से निकाल दिआ । जब वह गर्भ भूमि पर गिरा तब वह अत्यन्त चमकदार जाम्बूनद सुवर्ण हो गया ॥१८॥

काञ्चनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यममलं शुभम् ।

ताम्रं कार्ष्णायिसं चैव तैक्ष्ण्यदेवाभ्यजायत ॥१९॥

वही विशुद्ध और सुन्दर सव सोना है, जो पृथिवी पर है । उसके पास वहाँ जितने पदार्थ थे, वे चाँदी हो गए । जहाँ जहाँ उसकी तीक्ष्णता पहुँची, वहाँ ताँबा और लोहा हो गया ॥१९॥

मलं तस्याभवत्तत्र त्रपु सीसकमेव च ।

तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुर्वर्धत ॥२०॥

और उसके मैल का जस्ता और सीसा हो गया । इस प्रकार वह तेज भूमि पर अनेक धातुओं के रूप में फैल गया ॥२०॥

निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितम् ।

सर्वं पर्वतसन्नद्धं सौवर्णमभवद्वनम् ॥२१॥

गर्भ के छोड़ते ही सम्पूर्ण पर्वत और वहाँ का वन तेज से परिपूर्ण हो सुवर्ण रूप हो गया ॥२१॥

जातरूपश्रमिति ख्यातं तदाप्रभृति राघव ।

सुवर्णं पुरुषव्याघ्र हुताशनसमप्रभम् ॥२२॥

हे राम ! तव से यह सोना प्रसिद्ध हुआ और हे पुरुषव्याघ्र सुवर्ण की, अग्नि जैसी कान्ति हो गई ॥२२॥

वृणवृक्षलतागुल्मं सर्वं भवति काञ्चनम् ।

तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सहमरुद्गमणाः ॥२३॥

और वहाँ जो वृण, गुल्म, लताएँ थीं, वे भी सुवर्ण हो गईं । तदनन्तर उस तेज से कुमार का जन्म हुआ । तब इन्द्रादि देवताओं ने ॥२३॥

क्षीरसम्भावनाथाय कृत्तिकाः समयोजयन् ।

ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम् ॥२४॥

उस बालक को दूध पिलाने के लिए कृत्तिकाओं को नियुक्त किया । निज पुत्र कहलाने की प्रतिज्ञा करा । कर सब ने दूध पिलाया ॥२४॥

ददुः पुत्रांश्वयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः ।

तवस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन् ॥२५॥

तब सब देवताओं ने कहा कि, यह बालक तुम्हारा पुत्र भी कहलावेगा और उसका कार्तिकेय नाम रख कर कहा ॥२५॥

पुत्रस्त्रैलोक्यविख्यातो भविष्यति न संशयः ।
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे ॥२६॥

यह बालक निस्सन्देह - तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा । वह सुन कृत्तिकाओं ने गिरे हुए गर्भ से उत्पन्न उस कुमार को ॥२६॥

स्नापयन्परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथाऽनलम् ।
स्कन्द इत्यब्रुवन्देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्रवात् ॥२७॥

अच्छी तरह से स्नान कराए, जिससे उस बालक का शरीर अग्नि के समान दमकने लगा । यह बालक गर्भश्राव से उत्पन्न था, अतः देवताओं ने उसका स्कन्द भी नाम रखा ॥२७॥

कार्तिकेयं महाभागं काकुत्स्थ ज्वलनोपमम् ।
प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमम् ॥२८॥

हे रामचन्द्र ! अग्नि के सदृश महाभाग कार्तिकेय के लिए कृत्तिकाओं के दूध उत्पन्न हो गया ॥२८॥

षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजं पयः ।
गृहीत्वा क्षीरमेकाहा सुकुमारवपुस्तदा ॥२९॥

वह बालक छः मुखों से छःओ कृत्तिकाओं के स्तनों का दूध पान करने लगा और एक ही दिन दूध पी कर, उस सुकुमार शरीर वाले बालक ने ॥२९॥

अजयत्स्वेन वीर्येण दैत्यसैन्यगणान्विभुः ।

सुरसेनागणपतिं ततस्तममलद्युतिम् ॥३०॥

अपने पराक्रम से दैत्यों की सेना को जीता । तब उस विमल द्युति वाले कुमार को, देवताओं की सेना के सेनापति पद पर ॥३०॥

अभ्यपिञ्चन्मुरगणाः संमेत्याग्निपुरोगमाः ।

एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया ।

कुमारसम्भवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैव च ॥३१॥

अग्नि आदि देवताओं ने अभिपिक्त किया । हे राम ! यह गङ्गा जी का तथा कार्तिकेय के जन्म का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक मैंने कहा । यह कथा बहुत अच्छी और पुण्यदायिनी है ॥३१॥

भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुत्स्थ भुवि मानवः ।

आयुष्मान् पुत्रपौत्रैश्च स्कन्दसालोक्यतां व्रजेत् ॥३२॥

इति मत्तन्त्रिंशः सर्गः ॥

हे राम ! इस पृथिवीतल पर जो लोग इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, वे आयुष्मान् और पुत्र पौत्र वाले हो कर, अन्त में स्कन्दलोक में जाकर वास करते हैं ॥३२॥

बालकाण्ड का सैंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

अष्टात्रिंशः सर्गः

—:ॐ:—

तां कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम्* ।

पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थमिदमब्रवीत् ॥१॥

मधुरवाणी से उपरोक्त कथा श्रीरामचन्द्र जी को सुना कर,
फिर विश्वामित्र जी श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥१॥

अयोध्याधिपतिः शूरः पूर्वमासीन्नराधिपः ।

सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजाः ॥२॥

हे वीर ! पहले अयोध्यापुरी में एक सागर नाम के राजा थे ।
उनके पुत्र नहीं थों, अतः उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी ॥२॥

वैदर्भदुहिता राम केशिनी नाम नामतः ।

ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी ॥३॥

सगर की पटरानी का नाम केशिनी था । वह विदर्भ देश के
राजा की बेटी और बड़ी धर्मिष्ठा और सत्यवादिनी थी ॥३॥

अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिभा भुवि ।

द्वितीया सगरस्यासीत्पत्नी सुमतिसंज्ञिता ॥४॥

इनकी दूसरी रानी का नाम सुमति था और वह अरिष्टनेमि
की बेटी थी और अत्यन्त रूपवती अर्थात् सुन्दरी थी ॥४॥

ताभ्यां सह तदा राजा पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः ।

हिमवन्तं समासाद्य भृगुप्रसवणे गिरौ ॥५॥

* पाठान्तरे—कुशिकात्मजः ।

उन दोनों रानियों सहित महाराज सगर हिमालय के भृगुप्रसन्न-
वण नामक प्रदेश में जा कर तप करने लगे ॥५॥

टिप्पणी—भृगुप्रसन्नवण उस प्रदेश का नाम इसलिए पड़ा था कि,
वहाँ भृगु जी महाराज स्वयं तप करते थे ।]

अथ वर्षशते पूर्णे तपसाऽऽराधितो मुनिः ।

सगराय वरं प्रादाद्भृगुः सत्यवतां वरः ॥६॥

तपस्या करते करते महाराज सगर को, जब सौ वर्ष पूरे हो
गए तब सत्यवादी महर्षि भृगु ने सगर की तपस्या से प्रसन्न हो,
उन्हें यह वर दिया ॥६॥

अपत्यलाभः सुमहान् भविष्यति तवानघ ।

कीर्त्तिं चाप्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ ॥७॥

हे पुरुषश्रेष्ठ ! हे अनघ ! तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी
और अतुल कीर्त्ति भी मिलेगी ॥७॥

एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव ।

षष्टिं पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति ॥८॥

(इन दो रानियों में से) एक के तो वंश बढ़ाने वाला केवल
एक ही पुत्र होगा और दूसरी के साठ हजार पुत्र पैदा होंगे ॥८॥

भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यौ प्रसाद्य तम् ।

ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा ॥९॥

जब मुनि ने ऐसा कहा, तब दोनों रानियों ने हाथ जोड़ कर
कहा ॥९॥

एकः कस्याः सुतो ब्रह्मन्का बहून्जनयिष्यति ।

श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तव ॥१०॥

हे ब्रह्मन् ! आपका वरदान सत्य हो, किन्तु यह तो बतलाइए कि, एक किसके और साठ हजार पुत्र किसके होंगे, ॥१०॥

तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परमधार्मिकः ।

उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम् ॥११॥

उन रानियों के इस प्रश्न के उत्तर में भृगु जी महाराज ने कहा—यह तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर है। अर्थान् जो जैसा चाहेगी उसके वैसा होगा ॥११॥

एको वंशकरो वाऽस्तु बहवो वा महाबलाः ।

कीर्त्तिमन्तां महोत्साहाः का वा कं वरमिच्छति ॥१२॥

तुम दोनों अलग अलग बतलाओ कि, तुमसे से कौन वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र और कौन बड़े बलवान कीर्त्तिशाली और अमित उत्साही साठ हजार पुत्रप्राप्ति का वर चाहती है ? ॥१२॥

मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन ।

पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसन्निधौ ॥१३॥

हे रघुनन्दन ! भृगु जी के इस प्रश्न को सुन केशिनी ने वंश-कर एक पुत्रप्राप्ति का वर प्राप्त किया ॥१३॥

पष्टिं पुत्रसहस्राणि सुपर्णभगिनी तदा ।

महोत्साहान्कीर्त्तिमतो जग्राह मुनिः मुतान् ॥१४॥

और गरुड़ की बाहेन सुमति को बलवान कीर्त्तिमान साठ हजार पुत्र होने का वरदान मिला ॥१४॥

प्रदक्षिणमृषिं कृत्वा शिरसाऽभिप्रणम्य च ।

जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनन्दन ॥१५॥

हे राम ! महर्षि भृगु की परिक्रमा कर और उनको शीश नवा प्रणाम कर रानियों सहित महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट गए ॥१२॥

अथ काले गते तस्मिज्ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत ।

असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम् ॥१६॥

कुछ समय बीतने पर सगर की पटरानी केशिनी के गर्भ से असमञ्जस नाम का एक राजकुमार उत्पन्न हुआ ॥१६॥

सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुम्बं व्यजायत ।

पष्टिः पुत्राः सहस्राणि तुम्बभेदाद्विनिस्सृताः ॥१७॥

हे पुरुषश्रेष्ठ ! रानी सुमति के गर्भ से एक तूँवा निकला । उस तूँवे को फोड़ने पर उसमें से साठ हजार बालक निकले ॥१७॥

घृतपूर्णेषु कुम्भेषु धात्र्यस्तान् समवर्धयन् ।

कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे ॥१८॥

उन सब को दाइयों ने घा से भरे हुए घड़ों में रख, पाला पोसा और इस प्रकार बहुत समय बीतने पर वे सब जवान हुए ॥१८॥

अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः ।

पष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा ॥१९॥

बहुत दिनों में सगर के ये साठ हजार पुत्र जवान हुए ॥१६॥

स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठः सगरस्यात्मसम्भवः ।

वालान् गृहीत्वा तु जले सरय्या रघुनन्दन ॥२०॥

हे राम ! सगर का ज्येष्ठ राजकुमार असमञ्जस अयोध्यावासियों के बालकों को पकड़ कर सरयू नदी में फेंक दिआ करता ॥२०॥

• प्रक्षिप्य प्रहसन्नित्यं मञ्जतस्तान्निरीक्ष्य वै ।

• एवं पापसमाचारः सज्जनप्रतिवाधकः ॥२१॥

और जब वे डूबने लगते, तब वह उन्हें डूबते हुए देख प्रसन्न होता था। वह बड़ा दुराचारी हो गया और वह सज्जनों को संताने लगा अर्थात् उसके आचरण सज्जनों के आचरणों से बहुत दूर थे ॥२१॥

पौराणामहिते युक्तः पुत्रो निर्वासितः पुरात् ।

तस्य पुत्रांशुमानाम असमञ्जस्य वीर्यवान् ॥२२॥

मुख महाराज सगर ने, पुरवासियों को संताने वाले असमञ्जस को देशनिकाले का दण्ड दिआ। असमञ्जन के अंशुमान नामक एक पराक्रमी पुत्र था ॥२२॥

सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियंवदः ।

ततः कालेन महता मतिः समभिजायत ।

सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता ॥२३॥

जो सब की सम्मति से चलता था, तब से प्रिय वचन बोलता था। बहुत दिनों बाद महाराज सगर की इच्छा हुई कि, एक यज्ञ करे ॥२३॥

स कृत्वा निश्चयं राम मोपाध्यायगणस्तदा ।

यज्ञकर्मणि वेदज्ञो यष्टुं समुपचक्रमे ॥२४॥

इति ऋष्यत्रिंशः सर्गः ॥

हे राम ! ऐसा निश्चय कर, वे ऋत्विजों को बुला कर, यज्ञ करने लगे ॥२४॥

वालकाण्ड का अठतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:ॐ:—

एकानचत्वारिंशः सर्गः

—:०:—

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः ।

उवाच परमप्रीतो मुनिं दीप्तमिद्वानलम् ॥१॥

उक्त कथा नन्मात्र होने पर, श्रीरामचन्द्र जी परम प्रीति के साथ अभिबन्ध देदीप्यमान विश्वामित्र मुनि से बोले ॥१॥

श्रान्तुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम् ।

पूर्वकां मे कथं ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहरत् ॥२॥

हे ब्रह्मन् ! आपका मङ्गल हो ; मैं विस्तार पूर्वक यह सुनना चाहता हूँ कि, मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया ॥२॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितः ।

विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थपुत्राच्च प्रहसन्निव १ ॥३॥

१ प्रहसन्निव = प्रसन्नवदन इत्यर्थः (गो०)

यह सुन विश्वामित्र जी हर्षित हो, श्रीरामचन्द्र जी से कहने लगे ॥३॥

श्रूयतां विस्तरौ राम सगरस्य महारमनः ।

शङ्करश्वशुरो नाम हिमवानचलोत्तमः ॥४॥

हे राम ! महाराज सगर का चरित विस्तार पूर्वक सुनिए । शङ्कर के ससुर पर्वतोत्तम हिमाचल ॥४॥

विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम् ।

तयोर्मध्ये प्रवृत्तोऽभूद्यज्ञः स पुरुषोत्तम ॥५॥

और विन्ध्याचल एक दूसरे को देखते हैं, (अर्थात् हिमालय और विन्ध्याचल पर्वत के बीच मैदान है,) हे पुरुषोत्तम ! इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच की भूमि पर महाराज सगर का यज्ञ हुआ था ॥५॥

स हि दंशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि ।

तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथः ॥६॥

हे नरव्याघ्र ! हिमालय और विन्ध्य पर्वत के बीच की भूमि यज्ञकर्म के लिए उत्तम है । हे काकुत्स्थ ! उस यज्ञ में छोड़े हुए बोड़े की रक्षा के लिए दृढ़ धनुषधारी, महारथी ॥६॥

अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः ।

तस्य पर्वणि संयुक्तं यजमानस्य त्रांसवः ॥७॥

अंशुमान महाराज सगर के आदेश से नियुक्त हुए । अनन्तर उस यजमान के पर्व दिन इन्द्र ॥७॥

राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञीयाश्वमपाहरत् ।
हियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः ॥८॥

राक्षस का रूप धर कर यज्ञीय अश्व हर ले गए । जब यज्ञीय अश्व ले कर इन्द्र चले, तब हे राम ! ॥८॥

उपाध्यायगणाः सर्वे यजमानमथान्ब्रुवन् ।
अयं पर्वणि वेगेन यज्ञीयाश्वोऽपनीयते ॥९॥

सब ऋत्विग्गण ने राजा से कहा कि, यज्ञ का घोड़ा कोई बड़ी तेज़ी से चुरा कर लिए जाता है ॥९॥

हर्तारं जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम् ।
उपाध्यायवचः श्रुत्वा तस्मिन्सदसि पार्थिवः ॥१०॥

अतः हे काकुत्स्थ ! घोड़ा चुरा कर भागने वाले को मार कर घोड़ा लाइए । उस यज्ञ में ऋत्विजों के ये वचन सुन कर, राजा ॥१०॥

पष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाच ह ।
गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुपर्पभाः ॥११॥

अपने साठ हजार पुत्रों से यह बोले कि, हे पुत्रो ! यज्ञीय अश्व के हरने वाले दुष्ट राक्षस नहीं दिखलाई पड़ते कि, वे किस माग से घोड़ा चुरा कर ले गए ॥११॥

मन्त्रपूर्तैर्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः ।
तद्गच्छत विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः ॥१२॥

यज्ञ बड़े बड़े मंत्रवेत्ता महात्माओं द्वारा कराया जाता है, जिससे किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो। अब तुम लोगों को चाहिए कि, तुरन्त जा कर घोड़े का पता लगाओ, तुम्हारा मङ्गल हो ॥१२॥

समुद्रमालिनीं सर्वां पृथिवीमनुगच्छत ।

एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत ॥१३॥

समुद्र से घिरी हुई जितनी पृथिवी है, सब ढूँढ़ना। एक एक योजन ढूँढ़ कर आगे बढ़ना ॥१३॥

यावत्तुरगसन्दर्शस्तावत्खनत मेदिनीम् ।

तं चैव ह्यहर्तारं मार्गमाणा समाज्ञया ॥१४॥

मेरी आज्ञा से अश्वहर्ता को ढूँढ़ते हुए तब तक पृथिवी खोदते जाना जब तक घोड़ा न दिखाई दे ॥१४॥

दीक्षितः पौत्रसहितः सोपाध्यायगणो ह्यहम् ।

इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत्तुरमदर्शनम् ॥१५॥

मैं तो यज्ञीय दीक्षा लिए हुए हूँ। सो जब तक मैं घोड़े को देख न लूँ, तब तक अंशुमान और उपाध्यायों सहित, यहीं रहूँगा। जाओ, तुम्हारा मङ्गल हो ॥१५॥

इत्युक्त्वा हृष्टमनसो राजपुत्रा महावलाः ।

जग्मुर्महीतलं राम पितुर्वचनयन्त्रिताः ॥१६॥

हे राम ! वे महावली राजकुमार प्रसन्न हो और पिता की आज्ञा पा कर, (घोड़े और घोड़े के चुराने वाले को) पृथ्वी भर में ढूँढ़ने लगे ॥१६॥

योजनायामविस्तारमेकैको धरणीतलम् ।

विभिदुः पुरुषव्याघ्र वज्रस्पर्शसमैर्नखैः ॥१७॥

हे नरशार्दूल ! सारी पृथिवी खोज चुकने के पीछे, अपने वज्र के समान नखों से प्रत्येक राजकुमार एक एक योजन पृथिवी खोदने लगे ॥१७॥

शूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः ।

भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनन्दन ॥१८॥

हे रघुनन्दन ! उस समय बड़े-बड़े त्रिशूलों और मज्जबूत हलों से पृथिवी खोदते समय पृथिवी पर हाहाकार मच गया ॥१८॥

नागानां वध्यमानानामसुराणां च रावव ।

राक्षसानां च दुर्धर्यः सत्त्वानां निनदोऽभवत् ॥१९॥

पृथिवी खोदने में अनेक नाग, दैत्य और बड़े बड़े दुर्धर्य राक्षस मारे गए और अनेक घायल हुए ॥१९॥

योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनन्दन ।

विभिदुर्धरणीं वीरा रसातलमनुत्तमम् ॥२०॥

हे रघुनन्दन ! उन वीर राजकुमारों ने साठ हजार योजन भूमि खोद डाली और खोदते खोदते वे पाताल तक पहुँच गए ॥२०॥

एवं पर्वतसंवाधं जम्बूद्वीपं नृपात्मजाः ।

खनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः ॥२१॥

हे नृपशार्दूल ! इस प्रकार वे राजकुमार पर्वतों सहित इस जम्बूद्वीप को खोदते और चारों ओर ढूँढ़ते फिरते थे ॥२१॥

ततो देवाः सगन्धर्वाः सासुराः सहपन्नगाः ।

सम्भ्रान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन् ॥२२॥

तब तो सब देवता, गन्धर्व, असुर और पन्नग विकल हो ब्रह्मा जी के पास गए ॥२२॥

ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा ।

ऊचुः परमसंत्रस्ताः पितामहमिदं वचः ॥२३॥

ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर, वे उदास मन अत्यन्त भयभीत हो, ब्रह्मा जी से यह बोले ॥२३॥

भगवन् पृथिवी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः ।

बहवश्च महात्मानो हन्यन्ते जलवासिनः ॥२४॥

हे भगवन् ! महाराज सगर के पुत्र सारी पृथिवी खोदे डालते हैं और उन लोगों ने अनेक सिद्धों तथा जलवासियों को मार डाला है ॥२४॥

अयं यद्गहरोऽस्माकमनेनाश्वोऽपनीयते ।

इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः ॥२५॥

इति एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥

सगर के पुत्रों के सामने जो पड़ जाता है, उसे वे यह कह कर मार डालते हैं कि, हमारे यज्ञीय अश्व का चोर यही है, यही हमारा घोड़ा चुरा ले गया है ॥२५॥

बालकाण्ड का उनतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

चत्वारिंशः सर्गः

—:❀:—

देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः ।

प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान् कृतान्तवलमोहितान् ॥१॥

देवताओं के इन वचनों को सुन, ब्रह्मा जी सगर के पुत्रों से, जिनके सिर पर काल खेल रहा था तथा भयग्रस्त देवताओं से बोले ॥१॥

यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः ।

कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम् ॥२॥

हे देवगण ! यह समस्त भूमि जिन धीमान् भगवान् वासुदेव की है, वे हो कपिल के रूप में निरन्तर इस पृथिवी को धारण करते हैं ॥२॥

तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाः ।

पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः ॥३॥

वे समस्त राजकुमार उन्हीं कपिल के क्रोधानल से दग्ध हो जाँयेंगे । यह पृथिवी तो सनातन है । निश्चय ही इसका नाश नहीं हो सकता ॥३॥

सगरस्य च पुत्राणां विनाशोऽदीर्घजीविनाम् ।

पितामहवचः श्रुत्वा त्रयस्त्रिंशदरिन्दम् ॥४॥

शीघ्र नाशवान् सगर के पुत्रों का नाश ही होगा; अतः तुम चिन्ता मत करो । ब्रह्मा जी के ये वचन सुन तेतीसो ॥४॥

❀आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और दो अश्विनीकुमार ।

देवाः परमसंहृष्टाः पुनर्जग्मुर्यथागतम् ।

सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन् महात्मनाम् ॥५॥

पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्घातंसमनिःस्वनः ।

ततो भित्त्वा महीं कृत्स्नां कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम् ॥६॥

देवता परम प्रसन्न हो जहाँ से आए थे वहीं लौट कर चले गए। इधर पृथ्वी खोदने वाले सगर के पुत्रों का पृथिवी खोदने का कोलाहल वज्रपाद के समान हुआ। वे सारी पृथिवी को खोद और उसकी परिक्रमा कर, ॥५॥६॥

सहिताः सागराः सर्वे पितरं वाक्यमब्रुवन् ।

परिक्रान्ता मही सर्वा सत्त्ववन्तश्च सूदिताः ॥७॥

देवदानवरक्षांसि पिशाचौरगकिन्नराः ।

न च पश्यामहेऽश्वं तमश्वहर्तारमेव च ॥८॥

अपने पिता से जा कर बोले कि, हमने ससागरा समस्त पृथिवी ढूँढ़ डाली और देव, राक्षस, पिशाच, उरग और पन्नग जो हमें मिले उन्हें हमने मार डाला; किन्तु हमें न तो यज्ञीय अश्व का और न उसके चुराने वाले का पता चला ॥७॥८॥

किं करिष्याम भद्रं ते शुद्धिरत्र विचार्यताम् ।

तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः ॥९॥

आपका मङ्गल हो, आपही सोच कर बतलाइए कि, अब हम क्या करें। राजकुमारों की यह बात सुन नृपश्रेष्ठ ॥९॥

समन्युरब्रवीद्वाक्यं सगरो रघुन्दन ।

भूयः खनत भद्रं वो निर्भिद्य वसुधातलम् ॥१०॥

सगर, हे राम ! कुपित हो, उनसे बोले—जाओ और पुनः पृथिवी खोदो ॥१०॥

अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तय ।

पितुर्वचनमास्थाय सगरस्य महात्मनः ॥११॥

और घोड़ा चुराने वाले को पकड़ और सफल हो कर ही लौटो । महाराज सगर की इस आज्ञा के अनुसार ॥११॥

पट्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन् ।

खन्यमाने ततस्तस्मिन्दृश्युः पर्वतोपमम् ॥१२॥

दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम् ।

सपर्वतवनां कृत्स्नां पृथिवीं रघुनन्दन ॥१३॥

वे साठ हजार राजकुमार रसातल की ओर दौड़े और खोदते खोदते उन्होंने उस पर्वताकार विरूपाक्ष दिग्गज को देखा, जो पृथिवी-मण्डल को धारण किए हुए है। हे रघुनन्दन ! पर्वत संहित उस दिशा की समस्त पृथिवी को ॥१२॥१३॥

शिरसा धारयामास विरूपाक्षो महागजः ।

यदा पर्वणि काकुत्स्थ विश्रामार्थं महागजः ॥१४॥

महागज विरूपाक्ष अपने सिर पर धारण किए रहता है । जब कभी वह महागज थक जाने पर दम लेने के लिए ॥१४॥

खेदाच्चालयते शीर्षं भूमिकम्पस्तदा भवेत् ।

तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजम् ॥१५॥

अपना सिर हिलाता है, तभी पृथिवी डोलती और भूडोल होता है । राजकुमार दिग्पाल गजेन्द्र की परिक्रमा कर, ॥१५॥

[टिप्पणी—प्राचीन धारणा, भूकम्प होने की यह है ।]

मानयन्तो हि ते राम जग्मुर्भित्वा रसातलम् ।

ततः पूर्वां दिशं भित्वा दक्षिणां विभिदुः पुनः ॥१६॥

तथा पूजन करके हे राम ! वे रसातल खोदते हुए आगे बढ़े और पूर्व दिशा को खोद कर, वे दक्षिण दिशा को पुनः खोदने लगे ॥१६॥

दक्षिणस्यामपि दिशि ददृशुस्ते महागजम् ।

महापद्मं महात्मानं सुमहत्पर्वतोपमम् ॥१७॥

दक्षिण दिशा में भी उन्होंने बड़े विशाल पर्वतोपम डीलडौल के दिग्गज महापद्म को देखा ॥१७॥

शिरसा धारयन्तं ते विस्मयं जग्मुरुत्तमम् ।

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः ॥१८॥

उसे अपने सिर पर उस दिशा की पृथिवी रखे हुए देख, वे लोग अत्यन्त विस्मित हुए । महाराज सगर के पुत्रों ने उसकी भी परिक्रमा की ॥१८॥

षष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां विभिदुर्दिशम् ।

पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमम् ॥१९॥

और साठो हजार (उस दिशा को छोड़) पश्चिम दिशा की भूमि खोदने लगे । पश्चिम दिशा में भी एक बड़े पहाड़ के समान ॥१६॥

दिशागजं सौमनसं ददृशुस्ते महावलाः ।

तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा पृथ्वा चापि निरामयम् ॥२०॥

सौमनस नामक दिग्गज को उन महावली राजकुमारों ने देखा । उन लोगों ने उसकी भी प्रदक्षिणा की और उससे भी कुशल प्रश्न पूछा ॥२०॥

खनन्तः समुपक्रान्ता दिशं हैमवतीं ततः ।

उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददृशुर्हिमपाण्डुरम् ॥२१॥

हे रघुनन्दन ! तदनन्तर उन लोगों ने उत्तर दिशा की भूमि खोदने पर बर्फ के समान सफेद रंग का ॥२१॥

भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमाम् ।

समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् ॥२२॥

भद्र नामक बड़े डीलडौल का दिग्गज देखा, जो उस दिशा की भूमि को धारण किए हुए था । उसकी भी प्रदक्षिणा कर ॥२२॥

पट्टिः पुत्रसहस्राणि विभिदुर्वसुधातलम् ।

ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशम् ॥२३॥

साठो हजार राजकुमार पृथिवी खोदते हुए आगे बड़े और प्रसिद्ध दिशा ईशान में जा ॥२३॥

रोषादभ्यखनन् सर्वे पृथिवीं सगरात्मजाः ।

ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महावलाः ॥२४॥

बड़े क्रोध से पृथिवी खोदने लगे । उन सब भीमवेग वाले महात्मा और महावली सगर पुत्रों ने ॥२४॥

ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम् ।

हयं च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः ॥२५॥

सनातन वासुदेव कपिलदेव को देखा और उनके समीप ही चरते हुए अपने यज्ञीय अश्व को भी देखा ॥२५॥

प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन ।

ते तं हयहरं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणाः ॥२६॥

हे राम ! वे सब घोड़े को देख अत्यन्त प्रमुदित हुए और कपिल देव को उस घोड़े का चुराने वाला समझ और अत्यन्त क्रुद्ध हो ॥२६॥

खनित्रलाङ्गलधरा नानावृक्षशिलाधराः ।

अभ्यधावन्त संक्रुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चान्नुवन् ॥२७॥

उन्हें मारने के लिए हल, कुदाल, वृक्ष और पत्थर लेकर उनकी ओर दौड़े और क्रुद्ध हो कहने लगे, ठहर ठहर (अर्थात् ठहरो हम तुम्हें घोड़ा चुराने का फल चखाते हैं) ॥२७॥

अस्माकं त्वं हि तुरगं यज्ञीयं हृतवानसि ।

दुर्मधस्त्वं हि सम्प्राप्तान् विद्धि नः सगरात्मजान् ॥२८॥

तूने ही हमारे यज्ञ का धोड़ा चुराया है। तू बड़ा दुर्बुद्धि है।
देख हम सब महाराज सगर के पुत्र आ पहुँचे ॥२८॥

श्रुत्वा तु वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन ।

रोषेण महताविष्टो हुंकारमकरोत्तदा ॥२९॥

हे रघुनन्दन ! सगर के पुत्रों की ये बातें सुन, कपिल देव
अत्यन्त क्रुद्ध हुए और “हुंकार” शब्द किआ ॥२९॥

ततस्तेनाप्रमेयेण कपिलेन महात्मना ।

भस्मराशीकृताः सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजाः ॥३०॥

इति चत्वारिंशः सर्गः ॥

हे राम ! अप्रमेय बलशाली महात्मा कपिल ने सगर के सब
पुत्रों को भस्म कर, भस्म का एक ढेर लगा दिआ ॥३०॥

बालकाण्ड का चालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥

—:६:—

एकचत्वारिंशः सर्गः

—:०:—

पुत्रांश्चिरगताञ्ज्जात्वा सगरो रघुनन्दन ।

नक्षारमब्रवीद्राजा दीप्यमानं स्वतेजसा ॥१॥

हे रामचन्द्र ! जब महाराज सगर ने देखा कि, उन राजकुमारों
को गए बहुत दिन हो चुके (और वे न लौटे) तब अपने तेजस्वी
दीप्तमान पौत्र अंशुमान से कहा ॥१॥

शूरश्च कृतिविद्यश्च पूर्वैस्तुल्योऽसि तेजसा ।

पितृणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वोऽपहारितः ॥२॥

हे बत्स ! तुम शूरवीर हों, विद्वान् हो और अपने पूर्वजों के समान तेजस्वी भी हो । जाकर अपने पितृव्यों (चाचाओं) का प्रौर घोड़ा चुराने वाले का पता लगाओ ॥२॥

अन्तर्भौमानि सत्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च ।

तेषां त्वं प्रतिघातार्थं सासिं गृहीष्व कार्मुकम् ॥३॥

इस पृथिवी के भीतर विलों में बड़े बड़े पराक्रमी जीवधारी हैं । मतः उनको हराने के लिए खड्ग व धनुष बाण लिए रहो ॥३॥

अभिवाद्याभिवाद्यास्त्वं हत्वा विघ्नकरानपि ।

सिद्धार्थः सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः ॥४॥

जो बन्दना करने योग्य पुरुष मिलें, उनको प्रणाम करना और तो विघ्नकारक हों उनका वध करना । (इस प्रकार कार्यसिद्ध कर लौटना, जिससे (अधूरा) यज्ञ पूरा हो ॥४॥

एवमुक्तोशुमान् सम्यक्सगरेण महात्मना ।

धनुरादाय खड्गं च जगाम लघुविक्रमः ॥५॥

अपने बाबा के इस प्रकार समझाने पर और धनुष बाण एवं तलवार ले, अंशुमान तुरन्त चल दिआ ॥५॥

स खातं पितृभिर्मार्गमन्तर्भौमं महात्मभिः ।

प्रापद्यत नरश्रेष्ठस्तेन राज्ञाभिचोदितः ॥६॥

महाराज की आद्वा के अनुसार वह उस मार्ग पर जा पहुँचा जिसे उसके पितृव्यों ने खोद कर बनाया था और उस मार्ग से पाताल में पहुँच गया ॥६॥

दैत्यदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरगैः ।

पूज्यमानं महातेजा दिशागजमपश्यत् ॥७॥

देव, दानव, यक्ष, राक्षस, पिशाच और नाग—मार्ग में जो जो मिलता वही इसका आदर सत्कार करता । जाते जाते महातेजस्वी अंशुमान ने एक दिग्गज को देखा ॥७॥

स तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ठा चैव निरामयम् ।

पितृन् स परिपप्रच्छ वाजिहर्तारमेव च ॥८॥

उस दिग्गज की परिक्रमा कर तथा उससे शिष्टाचार की बातें कर, अर्थात् कुशल प्रश्नादि कर, अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का और घोड़े के हरने वाले का पता पूँछा ॥८॥

दिशागजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रत्याहांशुमतो वचः ।

आसमञ्ज कृतार्थस्त्वं सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि ॥९॥

दिग्गज ने उत्तर में कहा कि, हे असमञ्जस के पुत्र अंशुमान, तुम अपना कार्य सिद्ध कर घोड़ा ले कर शीघ्र लौटोगे ॥९॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशागजान् ।

यथाक्रमं यथान्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥१०॥

उस दिग्गज के यह वचन सुन, अंशुमान आगे बढ़ा और यथाक्रम शेष दिग्गजों से भी वही पूँछा ॥१०॥

तैश्च सर्वैर्दिशापालैर्वाक्यज्ञैर्वाक्यकोविदैः ।

पूजितः सहयश्चैव गन्तासीत्यभिचोदितः ॥११॥

उन सब दिग्गजों ने बात करने में चतुर अंशुमान द्वारा पूजित होकर, वही बात कही अर्थात् आगे बढ़े चले जाओ ॥११॥

तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघुविक्रमः ।

भस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः ॥१२॥

उनके इस प्रकार के वचन सुन, अंशुमान शीघ्र वहाँ पहुँच गया, जहाँ सगर के पुत्रों और उसके चाचाओं के भस्म किए हुए शरीर की राख का ढेर पड़ा था ॥१२॥

स दुःखवशमापन्नस्त्वसमञ्जसुतस्तदा ।

चुक्रोश परमार्तस्तु वधात्तेषां सुदुःखितः ॥१३॥

अंशुमान उसे देख बहुत दुःखी हुआ और उनकी मृत्यु पर शोकान्वित हो रोने लगा ॥१३॥

यज्ञीयं च हयं तत्र चरन्तमविदूरतः ।

ददर्श पुरुषव्याघ्रो दुःखशोकसमन्वितः ॥१४॥

दुःख शोकातुर अंशुमान ने समीप ही यज्ञीय अश्व को भी चरते हुए देखा ॥१४॥

स तेषां राजपुत्राणां कर्तुकामो जलक्रियाम् ।

सलिलार्थी महातेजा न चापश्यज्जलाशयम् ॥१५॥

अंशुमान ने मरे हुए राजकुमारों का तर्पण करना चाहा,
किन्तु तलाश करने पर भी उसे वहाँ कोई जलाशय न मिला ॥१५॥

१विसार्य निपुणां दृष्टि ततोऽपश्यत् खंगाधिपम् ।
पितृणां मातुलं राम सुपर्णमनिलोपमम् ॥१६॥

दृष्टि फैलाकर चारों ओर देखने पर उसे अपने चाचाओं के
आमा वायु के समान वेग वाले गरुड़ जी देख पड़े ॥१६॥

स चैनमब्रवीद्वाक्यं वैनतेयो महाबलः ।

मा शुचः पुरुषव्याघ्र वधोऽयं लोकसम्मतः ॥१७॥

गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा, हे पुरुषसिंह ! तुम दुखी मत
हो । क्योंकि इन सब का वध लोकसम्मत ही हुआ है ॥१७॥

कपिलेनाप्रमेयेन दग्धा हीमे महाबलाः ।

सलिलं नार्हसि प्राज्ञ दातुमेषां हि लौकिकम् ॥१८॥

ये सब अचिन्त्य प्रभाव वाले महात्मा कपिल द्वारा भस्म
किए गए हैं । हे प्राज्ञ ! इनको लौकिक (साधारण) जलदान मत
करो । अर्थात् क्रूप तड़ाग के साधारण जल से इनका तर्पण मत
करो ॥१८॥*

१ विसार्य = समन्तात् प्रसार्य (गो)

* स्मृति में लिखा है :—

चण्डालादुदकात्सर्वात् वैद्युताद्ब्राह्मणादपि ।

दंष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मणाम् ॥

उदकं पिण्डदानं च एतेभ्यो यद्विधीयते ।

नोपतिष्ठति तत्सर्वं अन्तरिक्षे विनश्यति ॥

गङ्गा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभ ।

तस्यां कुरु महाबाहो पितॄणां तु जलक्रियाम् ॥१६॥

हे पुरुषर्षभ ! हिमालय की ज्येष्ठा पुत्री गङ्गा नदी के जल से तुम अपने पितरों का तर्पण करो ॥१६॥

भस्मराशीकृतानेतान्प्लावयेल्लोकपावनी ।

तया क्लिन्नमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया ॥२०॥

जब लोकपावनी गङ्गा जी के जल से इनकी भस्म तर होगी (अर्थात् केवल तर्पण से ही काम न चलेगा) ॥२०॥

षष्टि पुत्रसहस्राणि स्वर्गलोकं नयिष्यति ।

गच्छ चाश्वं महाभाग संगृह्य पुरुषर्षभ ॥२१॥

तब साठ हजार राजकुमार स्वर्गवासी होंगे । हे महाभाग ! हे पुरुषोत्तम ! तुम घोड़ा ले कर लौट जाओ ॥२१॥

यज्ञं पैतामहं वीर संवर्तयितुमर्हसि ।

सुपर्णवचनं श्रुत्वा सौशुमानतिवीर्यवान् ॥२२॥

और अपने बाबा का यज्ञ पूरा करवाओ । अति पराक्रमी एवं यशस्वी अंशुमान गरुड़ जी की ये बातें सुन ॥२२॥

त्वरितं हयमादाय पुनरायान्महायशाः ।

ततो राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनन्दन ॥२३॥

तुरन्त घोड़ा लेकर लौट आया । यज्ञदीक्षा से दीक्षित महाराज सगर के पास जा कर ॥२३॥

न्यवेदयद्यथावृत्तं सुपर्णवचनं तथा ।

तच्छ्रुत्वा घोरसङ्काशं वाक्यमंशुमतो नृपः ॥२४॥

उनको गरुड़ जी की कहीं सब बातें सुनाई । अंशुमान की उन दारुण बातों को सुन, महाराज सगर बहुत दुखी हुए ॥२४॥

यज्ञं निर्वर्तयामास यथाकल्पं यथाविधि ।

स्वपुरं चागमच्छ्रीमानिष्टयज्ञो महीपतिः ।

गङ्गायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत् ॥२५॥

तदनन्तर उन्होंने यथाविधि यज्ञ पूरा किया और अपनी राजधानी को लौट गए और बहुत सोचने पर भी महाराज सगर को गङ्गा जी के लाने का कोई उपाय न सूझ पड़ा ॥२५॥

अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान् ।

त्रिंशद्वर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः ॥२६॥

इति एकचत्वारिंशः सर्गः ॥

बहुत काल तक सोचने पर भी उस सम्बन्ध में महाराज सगर कुछ भी निश्चय न कर सके, अन्त में तेतीस हजार वर्षों तक राज्य कर वे स्वर्गवासी हुए ॥२६॥

वालकाण्ड का इकतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

द्विचत्वारिंशः सर्गः

—:४:—

कालधर्मं गते राम सगरे प्रकृतीजनाः ।

राजानं रोचयामासुरंशुमन्तं सुधार्मिकम् ॥१॥

महाराज सगर के स्वर्गवासी होने पर, मंत्रियों ने बड़े धर्मात्मा

महाराज अंशुमान को राजसिंहासन पर बैठाया ॥१॥

स राजा सुमहानासीदंशुमान् रघुनन्दन ।

तस्य पुत्रो महानासीद्विलीप इति विश्रुतः ॥२॥

हे रघुनन्दन ! महाराज अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए ।
उनके पुत्र जगतप्रसिद्ध महाराज दिलीप हुए ॥२॥

तस्मिन्नाज्यं समावेश्य दिलीपे रघुनन्दन ।

हिमवच्छिखरे पुण्ये तपस्तेपे सुदारुणम् ॥३॥

महाराज अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राजसिंहासन पर
बिठा कर, स्वयं हिमालय के शिखर पर जा कठोर तप किया ॥३॥

द्वात्रिंशच्च सहस्राणि वर्षाणि सुमहायशाः ।

तपोवनं गतो राम स्वर्गं लेभे महायशाः ॥४॥

अन्त में बत्तीस हजार वर्ष तप करने के बाद वे महायशस्वी
महाराज अंशुमान भी स्वर्गवासी हुए (किन्तु गङ्गा नहीं
आई) ॥४॥

दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं वधम् ।

दुःखोपहतया घुद्ध्या निश्चयं नाधिगच्छति ॥५॥

महाराज दिलीप अपने पितामहों के वध का वृत्तान्त जान कर मर्माहत हुए, किन्तु (श्रीगङ्गा जी के लाने का) कोई उपाय वे भी निश्चय न कर सके ॥५॥

कथं गङ्गावतरणं कथं तेषां जलक्रिया ।

तारयेयं कथं चैनानिति चिन्तापरोऽभवत् ॥६॥

वे नित्य ही सोचा करते कि, श्रीगङ्गा जी किस प्रकार आवें, पितामहों की (उनके जल से) जलक्रिया कैसे की जाय और हम उनको किस प्रकार तारें ॥६॥

तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः ।

पुत्रो भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्मिकः ॥७॥

धर्मात्मा सुभ्रसिद्ध महाराज दिलीप नित्य ऐसा सोचा करते कि, इतने में उनके परमधार्मिक भगीरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ ॥७॥

दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर्वहुभिरिष्टवान् ।

त्रिंशद्रर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत् ॥८॥

महाराज दिलीप ने बहुत यज्ञ किए और तीस हजार वर्ष राज्य भी किया ॥८॥

अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति ।

व्याधिना नरशार्दूल कालधर्ममुपेयिवान् ॥९॥

महाराज (भी) पितरो के उद्धार के लिए चिन्तित थे कि, इतने में नरशार्दूल दिलीप बीमार हुए और मर गए ॥९॥

इन्द्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा ।

राज्ये भगीरथं पुत्रमभिविच्य नरर्षभः ॥१०॥

अपने पुण्यकर्मों के फल से दिलीप स्वर्ग गए और अपने सामने ही नरश्रेष्ठ महाराज अपने पुत्र भगीरथ को राजसिंहासन पर बिठा गए ॥१०॥

भगीरथस्तु राजर्षिर्धार्मिको रघुनन्दन ।

अनपत्यो महातेजाः प्रजाकामः स चाप्रजः ॥११॥

हे रघुनन्दन ! महाराज भगीरथ परमधार्मिक राजर्षि थे और निस्सन्तान होने से वे सन्तान होने की इच्छा करते थे ॥११॥

मन्त्रिष्वाधाय तद्राज्यं गङ्गावतरणे रतः ।

स तपो दीर्घमातिष्ठद् गोकर्णं रघुनन्दन ॥१२॥

हे रघुनन्दन ! जब उनके पुत्र न हुआ, तब राज्यभार अपने मंत्रियों को सौंप, वे स्वयं गोकर्ण नामक तीर्थ पर जा, गङ्गावतरण के लिये बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे ॥१२॥

[टिप्पणी—गोकर्ण एक तीर्थ है जो गोआ से ३० मील उत्तरी कनारा में है । सीतापुर प्रान्त में गोला गोकर्णनाथ नामक एक स्थान है ।]

ऊर्ध्वबाहुः पञ्चतपा मांसाहारो जितेन्द्रियः ।

तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः ॥१३॥

वे ऊपर की हाथ उटाए रखते, पञ्चान्न तापते, महीनों बाद किसी एक दिन भोजन करते और इन्द्रियों को बश में रखते । इस प्रकार एक हजार वर्ष तक वे कठोर तप करते रहे ॥१३॥

अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनः ।

सुप्रीतो भगवान् ब्रह्मा प्रजानां पतिरीश्वरः ॥१४॥

हे महाबाहो ! एक हजार वर्ष वीतने पर लोकों के स्वामी और प्रभु ब्रह्मा जी भगीरथ पर सुप्रसन्न हुए ॥१४॥

ततः सुरगणैः सार्धमुपागम्य पितामहः ।

भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथाब्रवीत् ॥१५॥

और देवताओं को साथ ले, वे तपस्या में लगे हुए, महात्मा भगीरथ के पास जा कर, बोले ॥१५॥

भगीरथ महाभाग प्रीतस्तोऽहं जनेश्वर ।

तपसा च सुतप्तेन वरं वरय सुव्रत ॥१६॥

हे महाराज भगीरथ ! तुमने बड़ी कठिन तपस्या की, अतः हम तुम पर प्रसन्न हैं, हे सुव्रत ! वर माँगो ॥१६॥

तमुवाच महातेजाः सर्वलांकपितामहम् ।

भगीरथो महाभागः कृताञ्जलिरुपस्थितः ॥१७॥

यह सुन, महातेजस्वी भगीरथ ने हाथ जोड़ कर, ब्रह्मा जी से कहा ॥१७॥

यदि मे भगवन् प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम् ।

सगरस्यात्मजाः सर्वे मत्तः सलिलमाप्नुयुः ॥१८॥

हे भगवन् ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे तप का फल देना चाहते हैं, तो यह वर दीजिए कि सगर के पुत्रों को मेरे द्वारा गङ्गाजल प्राप्त हो ॥१८॥

गङ्गायाः सलिलक्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मनाम् ।

स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे मे प्रपितामहाः ॥१९॥

क्योंकि हमारे महात्मा परदादे तभी स्वर्गवासी होंगे, जब उनकी राख गङ्गा जल से भीगेगी अर्थात् उनकी राख गङ्गा जी में चड़ेगी ॥१६॥

देया च सन्ततिर्देव नावसीदित् कुलं च नः ।

इक्ष्वाकूणां कुले देव एष मेऽस्तु वरः परः ॥२०॥

हे देव ! दूसरा वर मैं यह माँगता हूँ कि, मेरा इक्ष्वाकुवंश नष्ट न हो । इसलिए मुझे सन्तान भी दीजिए । यह मैं दूसरा वर चाहता हूँ । ॥२०॥

उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोकपितामहः ।

प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरां मधुराक्षराम् ॥२१॥

महाराज भगीरथ के ये वाक्य सुन, सर्वलोकपितामह ब्रह्मा यह मधुर एवं शुभ वाणी बोले ॥२१॥

मनोरथो महानेप भगीरथ महारथ ।

एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकुकुलवर्धन ॥२२॥

हे महारथी भगीरथ ! तेरा मनोरथ है तो बड़ा, किन्तु वह पूर्ण होगा अर्थात् तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी । हे इक्ष्वाकुकुलवर्धन ! तेरा मङ्गल हो ॥२२॥

इयं हैमवती गङ्गा ज्येष्ठा हिमवतः सुता ।

गङ्गायाः पतनं राजन् पृथिवी न सहिष्यति ।

तां वै धारयितुं वीर नान्यं पश्यामि शूलिनः ॥२३॥

हिमालय की ज्येष्ठा पुत्री यह गङ्गा जो जब (चड़े वेग से) पृथिवी पर गिरेगी, नव इनका वेग पृथिवी न सन्हाल सकेगी ।

उनके वेग को सम्हाल सकने की सामर्थ्य शिव जी को छोड़ और किसी में नहीं है ॥२३॥

तमेवमुक्त्वा राजानं गङ्गां चाभाष्य लोककृत् ।

जगाम त्रिदिवं देवः सह देवैर्मरुद्गणैः ॥२४॥

इति द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥

इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज भगीरथ और गङ्गा जी से कह कर, देवताओं सहित स्वर्गलोक को गए ॥२४॥

बालकाण्ड का ब्यालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:ॐ:—

त्रिचत्वारिंशः सर्गः

—:०:—

देवदेवे गते तस्मिन् सोऽङ्गुष्ठाग्रनिपीडिताम् ।

कृत्वा वसुमतीं राम संवत्सरमुपासत ॥१॥

ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद, महाराज भगीरथ ने पैर के एक अंगूठे के सहारे खड़े हो कर, एक वर्ष तक शिव जी की उपासना की ॥१॥

[ऊर्ध्ववाहुर्निरालम्बो वायुभक्षो निराश्रयः ।

अचलः स्थाणुवत्स्थित्वा रात्रिदिवमरिन्दम ॥२॥]

हे अरिन्दम ! भगीरथ जी ऊपर को वाहु किए निरालम्ब, वायु पी कर, बिना आश्रय, खंभे की तरह अचल हो, रात दिन खड़े रहे ॥२॥

अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोकनमस्कृतः ।

उमापतिः पशुपती राजानमिदमब्रवीत् ॥३॥

जब एक वर्ष पूरा हुआ तब सर्व-लोक-नमस्कृत उमापति महादेव जी ने भगीरथ से यह कहा ॥३॥

प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम् ।

शिरसा धारयिष्यामि शैलराजसुतामहम् ॥४॥

हे नरश्रेष्ठ ! हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं और जो तू चाहेगा सो हम तेरे लिये करेंगे । हम श्रीगङ्गा जी को अपने सिर पर धारण करेंगे ॥४॥

[टिप्पणी—ब्रह्मा जी जब एक हजार वर्ष तक तप करने से भगीरथ पर प्रसन्न होते हैं, तब शिव जी महाराज केवल एक वर्ष की तपस्या से प्रसन्न हो वर देने को उद्यत है । यह क्यों ? क्योंकि शिव जी आशुतोष भी तो हैं !]

ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोकनमस्कृता ।

तदा सरिन् महद्रूपं कृत्वा वेगं च दुःसहम् ॥५॥

तब सब लोको के नमस्कार करने योग्य गङ्गा जी, महद्रूप धारण कर और दुःसह वेग के साथ ॥५॥

आकाशादपतद्राम शिवे शिवशिरस्युत ।

अचिन्तयच्च सा देवी गङ्गा परमदुर्धरा ॥६॥

आकाश से शिव जी के मस्तक पर गिरीं । (और गिरते समय) परम दुर्धरा गङ्गा देवी ने सोचा कि. ॥६॥

विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा गृह्य शङ्करम् ।

तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान् हरः ॥७॥

मैं अपनी धार के साथ महादेव जी को बहा कर पाताल में जाऊँगी । गङ्गा देवी के इस अभिमान भरे विचार को जान कर, भगवान् श्रीमहादेव जी अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥७॥

तिरोभावयितुं बुद्धिं चक्रे त्रिणयनस्तदा ।
 सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि ॥८॥
 हिमवत्प्रतिमे राम जटामण्डलगह्वरे ।
 सा कथञ्चिन्महीं गन्तुं नाशक्रोद्यन्मास्थिता ॥९॥

और उनको अपने जटाजूट ही में छिपा रखना चाहा ।
 हिमालय के समान और जटामण्डल रूपी गुफा वाले शिव जी
 के पवित्र मस्तक पर, श्रीगङ्गा जी गिरीं और अनेक उपाय करने
 पर भी जटाजूट से निकल, पृथिवी पर न जा सकीं ॥८॥९॥

नैव निर्गमनं लेभे जटामण्डलमोहिता ।
 तत्रैवावंभ्रमद्देवी संवत्सरगणान्वहून् ॥१०॥

वे शिव जी के जटाजूटों में कितने ही वर्षों तक घूमा कीं
 और बाहिर न निकल सकीं ॥१०॥

तामपश्यन् पुनस्तत्र तपः परममास्थितः ।
 अनेन तांपितश्चाभूदत्यर्थं रघुनन्दन ॥११॥

हे रघुनन्दन ! गङ्गा जी को न देख, महाराज भगीरथ ने फिर
 कठोर तप किया और तप द्वारा भगवान् शिव को (फिर) प्रसन्न
 किया ॥११॥

विससर्ज ततो गङ्गां हरो विन्दुसरः प्रति ।
 तस्यां विसृज्यमानायां सप्त स्रोतांसि जज्ञिरे ॥१२॥

तब शिव जी ने श्रीगङ्गा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित
 विन्दुसर में छोड़ा । छोड़ते ही गङ्गा जी की सात धाराएँ हो
 गईं ॥१२॥

ह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथाऽपरा ।

तिस्रः प्रार्चीं दिशं जग्मुर्गङ्गाः शिवजलाः शुभाः ॥१३॥

ह्लादिनी-पावनी और नलिनी गङ्गा जी की ये तीन कल्याण-कारिणी धाराएँ उस सर से पूर्व की ओर वहीं ॥१३॥

सुचक्षुश्चैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी ।

तिस्रस्त्वेता दिशं जग्मुः प्रतीचीं तु शुभोदकाः ॥१४॥

श्रीगङ्गा जी के शुभ जल की सुचक्षु, सीता और सिन्धु नाम की तीन धाराएँ पश्चिम की ओर वहीं ॥१४॥

सप्तमी चान्वगात्तासां भगीरथमथो नृपम् ।

भगीरथोऽपि राजर्षिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः ॥१५॥

सातवीं धार महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली ।
राजर्षि भगीरथ एक सुन्दर रथ में बैठे हुए ॥१५॥

प्रायादग्रे महातेजा गङ्गा तं चाप्यनुव्रजत् ।

गगनाच्छङ्करशिरस्ततो धरणिमागता ॥१६॥

आगे आगे चले जाते थे और उनके पीछे पीछे श्रीगङ्गा जी
चली जाती थीं । आकाश से श्रीमहादेव जी के मस्तक पर और
उनके मस्तक से श्रीगङ्गा जी धरणीतल पर आई ॥१६॥

व्यसर्पत जलं तत्र तीव्रशब्दपुरस्कृतम् ।

मत्स्यकच्छपसंधैश्च शिशुमारगणैस्तथा ॥१७॥

पतद्भिः पतितैश्चान्यैर्व्यरोचत वसुन्धरा ।

ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्षाः मिद्धगणान् तथा ॥१८॥

उनके पृथिवी पर गिरते ही बड़ा शब्द हुआ और मछलियाँ, कछुए, सूँस आदि जलजन्तुओं के मुँड के मुँड गङ्गा जी की धार के साथ गिरते पड़ते चले जाते थे। जिधर श्रीगङ्गा जी जाती थीं उधर की भूमि सुशोभित हो जाती थी। देव, ऋषि, गन्धर्व, यक्ष और सिद्धगण ॥१७॥१८॥

व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्गंगां मतां तदा ।

विमानैर्नगराकारैर्हयैर्गजवरैस्तदा ॥१९॥

आकाश से पृथिवी पर आई हुई श्रीगङ्गा जी को देखने के लिए उत्तम नगराकार विमानों, हाथियों और घोड़ों पर सवार हो कर आए हुए थे ॥१९॥

पारिप्लवगतैश्चापि देवतास्तत्र विष्टिताः ।

तद्द्रुततमं लोके गङ्गापतनमुत्तमम् ॥२०॥

श्रीगङ्गा जी के पृथिवीतल पर अत्यन्त अद्भुत अवतरण को देखने के लिए देवता लोग परिस्रव नामक विमानों पर बैठे हुए थे ॥२०॥

दिदृक्षवो देवगणाः समीयुरमितौजसः ।

सम्पतद्भिः सुरगणैस्तेषां चाभरणौजसा ॥२१॥

देखने के लिए आए हुए प्रधान देवता जिस समय आकाश से उतरते थे, उस समय उनके आभूषणों की प्रभा से ॥२१॥

शतादित्यमिवाभाति गगनं गततोयदम् ।

शिंशुमारोरगणैर्मिनैरपि च चञ्चलैः ॥२२॥

निर्मल मेघशून्य आकाश ऐसा सुशोभित जान पड़ता था मानों आकाश में सैकड़ों सूर्य निकल रहे हों । बीच बीच में सूखों और चञ्चल मछलियों के मुँड, जो ॥२२॥

विद्युद्भिरिव विक्षिप्तमाकाशमभवत्तदा ।

पाण्डुरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमाणैः सहस्रथा ॥२३॥

(जो जल के वेग से ऊपर को) उछाले जाते थे, वे ऐसे जान पड़ते थे, मानों आकाश में विजली चमकती हो और जल में उठे हुए सफेद सफेद फेन जो इधर उधर जगह जगह छितरा गए थे ॥२३॥

शारदाभ्रैरिवाकीर्णं गगनं हंससंप्रवैः ।

क्वचिद्द्रुततरं याति कुटिलं क्वचिदायतम् ॥२४॥

ऐसी शोभा दे रहे थे मानों हंसों के मुँडों से युक्त और इधर उधर बिखरे हुए शरत्कालीन मेघ, आकाश को सुशोभित कर रहे हों ॥२४॥

विनतं क्वचिदुद्धृतं क्वचिद्याति शनैः शनैः ।

सलिलेनैव सलिलं क्वचिदभ्याहतं पुनः ॥२५॥

मुहुरुर्ध्वपथं गत्वा पपात वसुधातलम् ।

व्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषम् ॥२६॥

श्रीगङ्गा जी की धार का जल कहीं ऊँचा, कहीं टेढ़ा, कहीं फेंका हुआ और कहीं ठोकर खाकर उछलता हुआ धीरे धीरे बरता था और कहीं कहीं तो जल, जल ही से टकरा कर बार बार ऊपर को उछलता और फिर जमीन पर गिर पड़ता था । इन प्रकार वह निर्मल और पापहारी जल सुशोभित हो रहा था ॥२५॥२६॥

तत्र देवर्षिगन्धर्वा वसुधातलवासिनः ।

भवाङ्गपतितं तोयं पवित्रमिति पस्पृशुः ॥२७॥

वहाँ पर देव ऋषि, गन्धर्व और वसुधातलवासी लोगों ने उस शिव जी की जटा से गिरे हुए पवित्र जल को छुआ ॥२७॥

शापात्प्रपतिता ये च गगनाद्वसुधातलम् ।

कृत्वा तत्राभिषेकं ते वभ्रुवुर्गतकल्मषाः ॥२८॥

जो लोग शापवश ऊपर के लोकों से भूलोक में आए हुए थे, वे इस जल में स्नान कर पापों से छूट गए ॥२८॥

धूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ सुभास्वता ।

पुनराकाशमाविश्य स्वाँल्लोकान् प्रतिपेदिरे ॥२९॥

और पापों से छूट और तेज युक्त हो आकाशमार्ग से पुनः अपने अपने लोकों को चले गए ॥२९॥

मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता ।

कृताभिषेको गङ्गायां वभ्रुव विगतक्लमः ॥३०॥

जहाँ गङ्गा जी जाती वहाँ वहाँ के मनुष्य श्रीगङ्गा जी के जल में स्नान कर के निष्पाप हो जाते थे ॥३०॥

भगीरथोऽपि राजर्षिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः ।

प्रायादग्रे महातेजास्तं गङ्गा पृष्ठतोऽन्वगात् ॥३१॥

राजर्षि भगीरथ भी एक दिव्य रथ में बैठे हुए आगे आगे चले जाते थे और श्रीगङ्गा जी उनके पीछे पीछे वही चली जाती थी ॥३१॥

देवाः सर्पिगणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षसाः ।

गन्धर्वयक्षप्रचराः सकिन्नरमहोरगाः ॥३२॥

सर्वाश्चाप्सरसो राम भगीरथरथानुगाम् ।

गङ्गामन्वगमन्प्रीताः सर्वे जलचराश्च ये ॥३३॥

हे राम ! सब देवता, ऋषिगण, दैत्य, दानव, राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, वड़े वड़े सर्प तथा अप्सराएँ महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे जा रही थीं और समस्त जलचर जीव प्रसन्न हो श्रीगङ्गा जी के पीछे चले जाते थे ॥३२॥३३॥

यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यशस्विनी ।

जगाम सरितां श्रेष्ठा सर्वपापविनाशिनी ॥३४॥

जिधर महाराज भगीरथ जाते थे उधर ही यशस्विनी, नव पाप नाश करने वाली तथा नदियों में श्रेष्ठ श्रीगङ्गा जी भी जा रही थीं ॥३४॥

ततो हि यजमानस्य जद्वोरद्भुतकर्मणः ।

गङ्गा संप्लावयामास यज्ञघाटं महात्मनः ॥३५॥

चलते चलते श्रीगङ्गा जी वहाँ पहुँचीं, जहाँ अद्भुत कर्म करने वाले जदु नामक महर्षि यज्ञ कर रहे थे । वहाँ श्रीगङ्गा जी ने सब सामान सहित उनकी यज्ञशाला बहा दी ॥३५॥

तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो जदुश्च राघव ।

अपिवच्च जलं सर्वं गङ्गायाः परमाद्भुतम् ॥३६॥

हे राम ! तब तो श्रीगङ्गा जी का ऐसा गर्व देख, जह्नु ऋषि कुपित हुए और ऐसा चमत्कार दिखलाया कि, वे गङ्गा के समस्त जल को पी गए ॥३६॥

ततो देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च सुविस्मिताः ।

पूजयन्ति महात्मानं जह्नुं पुरुषसत्तमम् ॥३७॥

महात्मा जह्नु का यह प्रभाव देख देवता, गन्धर्व, ऋषि गण आदि बड़े विस्मित हुए और पुरुषों में श्रेष्ठ महात्मा जह्नु की स्तुति करने लगे ॥३७॥

गङ्गा चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ।

ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोत्राभ्यामसृजत्पुनः ॥३८॥

और बोले, आज से श्रीगङ्गा आपकी बेटी कहलाएगी । (आप उसे छोड़ दीजिए) इस पर प्रसन्न हो महातेजस्वी जह्नु ने दोनों कानों की राह से जल को निकाल दिया ॥३८॥

तस्माज्जह्नुसुता गङ्गा प्रोच्यते जाह्नवीति च ।

जगाम च पुनर्गङ्गा भगीरथरथानुगा ॥३९॥

तब से ही जह्नुसुता श्रीगङ्गा जाह्नवी कहलाती हैं । उसी प्रकार श्रीगङ्गा फिर भगीरथ के रथ के पीछे हो लीं ॥३९॥

सागरं चापि संप्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा ।

रसातलमुपागच्छत्सिद्धयर्थं तस्य कर्मणः ॥४०॥

और चलते चलते नदियों में श्रेष्ठ श्रीगङ्गा समुद्र में जा पहुँचीं और फिर वे भगीरथ की कार्यसिद्धि के लिए रसातल गयीं ॥४०॥

भगीरथोऽपि राजर्षिर्गङ्गामादाय यत्नतः ।

पितामहान् भस्मकृतानपश्यद्दीनचेतनः ॥४१॥

राजर्षि भगीरथ बड़े यज्ञ के साथ श्रीगङ्गा जी को साथ ले गए और दुःखी मन से अपने पुरखों के भस्म हुए शरीरों की राख का ढेर देखा ॥४१॥

अथ तद्भस्मनां राशिं गङ्गासलिलमुत्तमम् ।

प्लावयद्धूतपाप्मानः स्वर्गं प्राप्ता रघूत्तम ॥४२॥

इति त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥

रघुनन्दन ! श्रीगङ्गा जी का पवित्र जल ज्योंही भगीरथ के पुरुषों की भस्म के ढेर पर पड़ा, त्योंही वे संत्र निष्पाप हो, स्वर्ग में पहुँच गए ॥४२॥

बालकाण्ड का तेतालिसवों सर्ग पूरा हुआ ।

—:ॐ:—

चतुश्चत्वारिंशः सर्गः

—:०:—

[टिप्पणी—तेतालीसवें सर्ग में सगर के पुत्रों की सद्गति का वृत्तान्त संक्षेप में कहा था, इस सर्ग में उसका विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है ।]

स गत्वा सागरं राजा गङ्गयाऽनुगतस्तदा ।

प्रविवेश तलं भूमेर्यत्र ते भस्मसात्कृताः ॥१॥

महाराज श्रीगङ्गा जी के साथ समुद्रतट पर पहुँचे और वहाँ से वे पाताल में वहाँ गए, जहाँ पर (महाराज सगर के पुत्र) भस्म किए गए थे ॥१॥

भस्मन्यथाप्लुते राम गङ्गायाः सलिलेन वै ।

सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्मा राजानमिदमब्रवीत् ॥२॥

हे राम ! उस भस्म पर गङ्गाजल के पड़ने से सब लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने भगीरथ से यह कहा ॥२॥

तारिता नरशार्दूल दिवं याताश्च देववत् ।

पार्ष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्य महात्मनः ॥३॥

हे नरशार्दूल ! महात्मा सगर के साठ हजार पुत्रों को आपने तार दिखा । वे देववत् स्वर्ग को गए ॥३॥

सागरस्य जलं लोके यावत् स्थास्यति पार्थिव ।

सगरस्यात्मजास्तावत्स्वर्गे स्थास्यन्ति देववत् ॥४॥

हे राजन् ! जब तक सागर में एक बूँद भी जल रहैगा, तब तक महाराज सगर के पुत्र देवताओं की तरह स्वर्ग में वास करेंगे ॥४॥

इयं हि दुहिता ज्येष्ठा तव गङ्गा भविष्यति ।

त्वत्कृतेन च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता ॥५॥

यह श्रीगङ्गा तुम्हारी ज्येष्ठा कन्या होगी और तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध हो कर भूलोक में रहैगी ॥५॥

गङ्गा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च ।

पितामहानां सर्वेषां त्वमेव मनुजाधिप ॥६॥

कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञामपवर्जय ।

पूर्वकेण हि ते राजंस्तेनातियशसाः तदा ॥७॥

धर्मिणां प्रवरेणापि नैव प्राप्तो मनोरथः ।
तथैवांशुमता तप्त लोकेऽप्रतिमतेजसा ॥८॥

गङ्गां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञा नापवर्जिता ।
राजर्षिणा गुणवता महर्षिसमतेजसा ॥९॥

इसके तीन नाम होंगे; श्रीगङ्गा, त्रिपथगा और भागीरथी ।
तीन पथ पर चलने वाली होने के कारण यह त्रिपथगा कहलाई
है । हे राजन् ! अब तुम अपने सब पितरों का तर्पण करो और
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो । अत्यन्त यशस्वी महाराज सगर ने यह
मनोरथ पूरा न कर पाया और अमित तेज वाले अंशुमान
ने भी श्रीगङ्गा के लाने की प्रार्थना की, पर उनकी प्रतिज्ञा
भी पूरी न हो सकी । राजर्षियों में गुणवान् और महर्षियों के
समान ॥६॥७॥८॥९॥

मत्तुल्यतपसा चैव क्षत्रधर्मे स्थितेन च ।

दिलीपेन महाभाग तव पित्रातितेजसा ॥१०॥

तपस्या में हमारे तुल्य और क्षत्रीधर्म प्रतिपालक अति तेजस्वी
तुम्हारे पिता महाभाग दिलीप ने ॥१०॥

पुनर्न शङ्किता नेतुं गङ्गां प्रार्थयताऽनघ ।

सा त्वया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ ॥११॥

श्रीगङ्गा की प्रार्थना की, पर वे भी ला न सके; किन्तु हे पुरुषो-
त्तम ! तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की ॥११॥

प्राप्तोऽसि परमं लोके यशः परमसम्मतम् ।

यच्च गङ्गावतरणं त्वया कृतमरिन्दम ॥१२॥

हे शत्रुहन्ता ! तुम्हें बड़ा यश मिला, क्योंकि तुम श्रीगङ्गा जी को लाए ॥१२॥

अनेन च भवान् प्राप्तो धर्मस्यायतनं महत् ।

प्लावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तमं सदोचितेः ॥१३॥

इस कार्य से आप धर्म के परमस्थान में पहुँच गए । हे नरोत्तम ! अब तुम भी सदा स्नान करने योग्य, इन श्रीगङ्गा जी में स्नान करो ॥१३॥

सलिले पुरुषव्याघ्र शुचिः पुण्यफलो भव ।

पितामहानां सर्वेषां कुरुष्व सलिलक्रियाम् ॥१४॥

और हे पुरुषसिंह ! पवित्र हो कर, पुण्यफल प्राप्त करो । तथः अपने समस्त पुरखों का तर्पण करो ॥१४॥

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि स्वं लोकं गम्यतां नृप ।

इत्येवमुक्त्वा देवेशः सर्वलोकपितामहः ॥१५॥

यथाऽऽगतं तथागच्छद्देवलोकं महायशाः ।

भगीरथोऽपि राजर्षिः कृत्वा सलिलमुत्तमम् ॥१६॥

हे राजन् ! तुम्हारा कल्याण हो । अब हम अपने लोक को जाते हैं, तुम भी अपनी राजधानी को जाओ । यह कह कर देवेश महायशस्वी ब्रह्माजी अपने लोक को चले गए । राजर्षि भगीरथ ने भी श्रीगङ्गाजल से ॥१५॥१६॥

यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां महायशाः ।

कृतोदकः शुची राजा स्वपुर प्रविवेश ह ॥१७॥

यथाविवि महायशस्वी सगरपुत्रों का तर्पण कर और पवित्र हो, अपनी राजधानी में प्रवेश किया ॥१७॥

समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशास ह ।

प्रमुमोद च लोकस्तं नृपमासाद्य राघव ॥१८॥

और सब प्रकार के सुखों का उपभोग करते हुए राजा भगीरथ राज्य करने लगे । हे राघव ! भगीरथ के पुनः राज्यशासन की वागंडोर अपने हाथ में लेने से, प्रजा अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥१८॥

नष्टशोकः समृद्धार्थो वभूव विगतज्वरः ।

एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया ॥१९॥

सब लोगों का दुःख दूर हो गया, सब की चिन्ता मिट गई और सब धन धान्य से भरे पूरे हो गए । हे राम ! यह मैंने तुमसे श्रीगङ्गावतरण की कथा विस्तार पूर्वक कही ॥१९॥

स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते सन्ध्याकालोऽतिवर्तते ।

धन्यं यशस्यमायुष्यं पुत्र्यं स्वर्ग्यमतीव च ॥२०॥

तुम्हारा मङ्गल हो । अब सन्ध्योपासन का समय हो चुका है, सन्ध्योपासन कीजिए । धन, धान्य, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग का देने वाला यह आख्यान ॥२०॥

यः श्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च ।

प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते देवतानि च ॥२१॥

जो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को सुनाता है, उस पर पितर और देवता प्रसन्न होते हैं ॥२१॥

इदमाख्यानमन्यग्री गङ्गावतरणं शुभम् ।

यः शृणोति च काकुत्स्थ सर्वान् कामानवामुयात् ।

सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते ॥२२॥

इति चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥

हे रामचन्द्र ! इस श्रीगङ्गावतरण की शुभ कथा को जो कोई स्थिर चित्त हो सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी आयु और कीर्ति की वृद्धि होती है ॥२२॥

बालकाण्ड का चौवालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❀:—

पञ्चचत्वारिंशः सर्गः

—:०:—

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः ।

विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत् ॥१॥

विश्वामित्र जी की बातें सुन, श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे विश्वामित्र जी से कहने लगे ॥१॥

अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया ।

गङ्गावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम् ॥२॥

हे ब्रह्मन् ! आपने श्रीगङ्गा जी का अवतरण और श्रीगङ्गाजल से समुद्र के पूर्ण होने का आख्यान तो बड़ा अद्भुत सुनाया ॥२॥

तस्य सा शर्वरी सर्वा सह सौमित्रिणा तदा ।

जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्रकथां शुभाम् ॥३॥

इस कथा को सुनते सुनते वह रात बात की बात में बीत गई अर्थात् मालूम ही न पड़ी कि, कब बीती । श्रीगमचन्द्र ने लक्ष्मण सहित वह सारी रात उक्त उपाख्यान के चिन्तन करने ही में व्यतीत की ॥३॥

ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं महासुनिम् ।

उवाच राघवो वाक्यं कृताह्निकमरिन्दमः ॥४॥

जब विमल प्रातःकाल हो गया, तब श्रीगमचन्द्र जी आह्निक कर्म कर चुकने पर, विश्वामित्र जी से बोले ॥४॥

गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतम् ।

क्षणभूतेव नो रात्रिः संवृत्तेयं महातपः ॥५॥

हे महर्षि ! रात तो शुभ कथा के सुनने में व्यतीत हुई । हम लोगों को रात्रि क्षण के समान जान पड़ी ॥५॥

इमां चिन्तयतः सर्वां निखिलेन कथां तव ।

तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीम् ॥६॥

अब आइए आप की कथित समस्त कथा का चिन्तन करते हुए नदियों में श्रेष्ठ और पुण्य देने वाली त्रिपथगा श्रीगङ्गा जी को पार करें ॥६॥

नौरुषा हि सुखास्तीर्णा ऋतीणां पुण्यकर्मणाम् ।

भगवन्तमिह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता ॥७॥

आपको आया हुआ जान सुख से पार करने वाली ऋषियों की यह सजी सजाई (अर्थात् जिसमें अच्छा विज्ञान आदि विद्या हुआ था) नाव भी बहुत जल्द आ गई है ॥७॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः ।

सन्तारं कारयामास सर्षिसङ्घः सराघवः ॥८॥

महात्मा श्रीराम के ये वचन सुन, विश्वामित्र जी ने मल्लाहों को बुलाया और ऋषिगण एवं राजकुमारों के साथ वे सब श्रीगङ्गा के पार हुए ॥८॥

उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्यर्षिगणं तदा ।

गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीम् ॥९॥

श्रीगङ्गा जी के दूसरे तट पर पहुँच कर, ऋषियों का सत्कार कर वे सब श्रीगङ्गा के तट पर बैठ कर सुस्ताने लगे और सब लोगों ने वहाँ से विशाला नाम्नी एक नगरी को देखा ॥९॥

ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सहाराघवः ।

विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा ॥१०॥

तदनन्तर विश्वामित्र जी वहाँ से तुरन्त दोनों राजकुमारों सहित, इन्द्रपुरी के समान अति सुन्दर विशाला नगरी में गए ॥१०॥

अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम् ।

पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीम् ॥११॥

तब उस समय महाप्राज्ञ श्रीरामचन्द्र जी ने हाथ जोड़ कर विश्वामित्र जी से विशाला पुरी का इतिहास पूँछा ॥११॥

कतरो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने ।

श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कौतूहलं हि मे ॥१२॥

हे महर्षे ! आपका मङ्गल हो । अब बतलाइए कि इस पुरी में किस वंश का राजा राज्य करता है । यह जानने के लिए मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है ॥१२॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवः ।

आख्यातुं तत्समारेभे विशालस्य पुरातनम् ॥१३॥

मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी, श्रीरामचन्द्र जी का वह वचन सुन, विशाला पुरी का पुरातन इतिहास कहने लगे ॥१३॥

श्रूयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः शुभाम् ।

अस्मिन् देशे तु यद्वृत्तं तदपि शृणु राघव ॥१४॥

हे राम ! इस देश के सम्बन्ध में इन्द्र से मैंने जो वृत्तान्त सुना है उसे मैं कहता हूँ, तुम सुनो ॥१४॥

पूर्वं कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः ।

अदितेश्च महाभाग वीर्यवन्तः सुयार्भिकाः ॥१५॥

पहले सतयुग में दिति के महाबली पुत्र (दैत्य) और अदिति के भाग्यवान् और अत्यन्त धर्मात्मा पुत्र (देवता) हुए ॥१५॥

ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन् महात्मनाम् ।

अमरा अजराश्चैव कथं स्याम निरामयाः ॥१६॥

उन महात्मा बुद्धिमानों की यह इच्छा हुई कि, कोई ऐसा उपाय हो, जिससे हम लोग अजर, अमर और निरामय हो जायें,

प्रथात् रोग, मृत्यु और बुढ़ापे के कष्टों से हम सदा के लिए छुट्टी
 पा जावें ॥१६॥

तेषां चिन्तयतां राम झुडिरासीन् महात्मनाम् ।

क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै ॥१७॥

सोचते सोचते उन लोगों ने यह उपाय (ढूँढ़कर) निकाला
 कि, हम लोग क्षीरसमुद्र को मथें, जिससे हमको अमृत
 मिले ॥१७॥

ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिम् ।

मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमितौजसः ॥१८॥

ऐसा निश्चय कर, वासुकि नाग को मन्थन की डोरी और
 मन्दराचल को मन्थदण्ड (रई) बना, वे महापराक्रमी देवता
 समुद्र को मथने लगे ॥१८॥

अथ वर्षसहस्रेण योक्त्रसर्पशिरांसि च ।

वमन्त्यति विषं तत्र ददंशुर्दशनैः शिलाः ॥१९॥

हजार वर्ष तक मथने पर वासुकि विष उगलने लगे और
 (मन्दराचल की) शिलाओं को दाँतों से काटने लगे ॥१९॥

उत्पपाताग्निसङ्काशं हालाहलमहाविषम् ।

तेन दग्धं जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम् ॥२०॥

उससे अग्नि के समान हालाहल नाम का महाविष उत्पन्न हुआ
 और देव, असुर तथा मनुष्यों सहित मारे संसार को जलाने
 लगा ॥२०॥

अथ देवा महादेवं शङ्करं शरणार्थिनः ।

जग्मुः पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुवुः ॥२१॥

तव सव देवता महादेव अर्थात् श्रीशङ्कर जी के शरण में गए और "त्राहि त्राहि" (अर्थात् वचाइए. वचाइए) कह कर उनकी स्तुति करने लगे ॥२१॥

एवमुक्तस्ततो देवैर्देवदेवेश्वरः प्रभुः ।

प्रादुरासीत्ततोऽत्रैव शङ्खचक्रधरो हरिः ॥२२॥

देवताओं के इस आर्त्तनाद को सुन, देवदेव महादेव जी तथा शङ्खचक्रधारी श्रीहरि वहाँ प्रकट हुए ॥२२॥

उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलभृतं हरिः ।

दैवतैर्मध्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितम् ॥२३॥

त्रिशूल धारण किए हुए श्रीमहादेव जी से भगवान् विष्णु ने हँस कर कहा कि, देवताओं के (समुद्र) मथने पर जो वस्तु सर्व प्रथम निकली है ॥२३॥

तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रनोसि यत् ।

अग्रपूजासिमां मत्वा गृहाणेदं विपं प्रभो ॥२४॥

उसे हे सुरश्रेष्ठ ! आप ग्रहण कीजिए; क्योंकि आप देवताओं के अग्रुआ हैं, अतः आप इसे अपनी अग्रपूजा जान कर, इस विष को ग्रहण कीजिए ॥२४॥

इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठस्तत्रैवान्तरधीयत् ।

देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु शार्ङ्गिणः ॥२५॥

यह कह कर सुरश्रेष्ठ भगवान् विष्णु तो वहीं अन्तर्धान हो गए । तब देवताओं का कष्ट देख और भगवान् विष्णु के वचन सुन ॥२५॥

हालाहलविषं घोरं स जग्राहामृतोपमम् ।

- देवान्विसृज्य देवेशो जगाम भगवान् हरः ॥२६॥

भगवान् शिव उस महाविष को अमृत की तरह पी गए । तदनन्तर देवताओं को वहीं छोड़, महादेव जी कैलास को लौट गए ॥२६॥

ततो देवा सुराः सर्वे ममन्थू रघुनन्दन ।

प्रविवेशाय पातालं मन्थानः पर्वतोन्ध ॥२७॥

हे रघुनन्दन ! देवता और दैत्य पुनः समुद्र मथने लगे । किन्तु मन्थनदण्ड मन्दराचल धीरे धीरे पाताल की ओर अर्थात् (नीचे की ओर जाने) (खसकने) लगा ॥२७॥

ततो देवाः सगन्धर्वास्तुष्टुवुर्मधुसूदनम् ।

त्वं गतिः सर्वभूतानाम् विशेषेण दिवोकसाम् ॥२८॥

तव देवता और गन्धर्व मिल कर भगवान् विष्णु की स्तुति कर कहने लगे, वे बंले—हे भगवान् ! आप सब प्राणियों के स्वामी हैं और विशेष कर देवताओं के तो आप सर्वस्व ही हैं ॥२८॥

पालयास्मान् महाबाहो गिरिमुद्धर्तुमर्हसि ।

इति श्रुत्वा हृषीकेशः कामठं रूपमास्थितः ॥२९॥

अतः हे महाबाहो ! आप हम सब की रक्षा कीजिए और नीचे जाते हुए मन्दराचल को उठाइए । यह सुन कर भगवान् विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया ॥२९॥

पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिश्ये तत्रोदधौ हरिः ।

पर्वताग्रं तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशव ॥३०॥

भगवान् ने जल के भीतर जा मन्दराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और उसके आगे के सिरे को अपने हाथ से थाम, ॥३०॥

देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तम ।

अथ वर्षसहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् ॥३१॥*

देवताओं के बीच खड़े हो कर भगवान् पुरुषोत्तम समुद्र मथने लगे । एक हजार वर्षों तक इस प्रकार समुद्र का मन्थन करने के बाद आयुर्वेद के आचार्य ॥३१॥

उदतिष्ठत्स धर्मात्मा सदएदं सकमण्डलुः ।

पूर्वं धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः ॥३२॥

धर्मात्मा धन्वन्तरि जी हाथों में दण्ड कमण्डलु लिए हुए निकले । हे राम ! तदनन्तर सुन्दर अप्सराएँ निकलीं ॥३२॥

अप्सु निर्मथनादेव रसस्तस्माद्भ्ररस्त्रियः ।

उत्पेतुर्मनुजश्रेष्ठ तस्मादप्सरसोऽभवन् ॥३३॥

हे नरश्रेष्ठ ! उनका नाम अप्सरा इसलिए पड़ा कि, आप अर्थात् जल और सर अर्थात् निकलीं । अर्थात् जो जल से निकली हों । हे राम ! जल से निकलने के कारण वे सुन्दर स्त्रियाँ, अप्सरा कहलाईं ॥३३॥

षष्टिः कौट्योऽभवंस्तासामप्सराणां सुवर्चसाम् ।

असंख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिकाः ॥३४॥

हे राम ! इन सुन्दरी अप्सराओं की संख्या साठ हजार थी

* इस सर्ग के १६ से ३१ तक के श्लोक गोविन्दाराजीय टीका में नहीं हैं । गोविन्दराज जी ने इनको इत्यधिकः पाठः इतलाय है ।

और उनकी दासियों की संख्या तो इतनी अधिक थी कि, उसकी गणना नहीं हो सकती अर्थात् वे असंख्य थीं ॥३४॥

न ताः स्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवाः ।

अप्रतिग्रहणात्ताश्च सर्वाः साधारणाः स्मृताः ॥३५॥

उनको, न तो देवताओं ने और न दैत्यों ने ही लेना पसंद किया । अतः जब उन्हें किसी ने लेना स्वीकार न किया तब वे साधारण स्त्रियाँ (अर्थात् सर्वसाधारण की सम्पत्ति) (Public-women) कहलाईं ॥३५॥

वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन ।

उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम् ॥३६॥

हे रघुनन्दन ! तदनन्तर वरुणदेव की कन्या वारुणी उत्पन्न हुई और अपने ग्रहण करने वाले अर्थात् ग्राहक को खोजने लगी ॥३६॥

दितेः पुत्रा न तां राम जगृहुर्वरुणात्मजाम् ।

अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्तामनिन्दिताम् ॥३७॥

हे राम ! दिति के पुत्रों ने तो वरुण की बेटी को ग्रहण न किया, किन्तु अदिति के पुत्रों ने उस ऋनिन्दित वारुणी यानी सुरा को ग्रहण किया ॥३७॥

असुरान्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः ।

हृष्टाः प्रमुदिताश्चासन् वारुणीग्रहणात्सुराः ॥३८॥

* रामाभिरामी टीकाकार ने “अनिन्दिताम्” के ऊपर यह टिप्पणी चढ़ाई है:—“अदितिमुताङ्गीकरेहेतुरनिन्दितामिति, निषेधशान्त्रुमानुष-विषयं, शास्त्रं देवतानामधिकारात्” ॥

सुरा अर्थात् मदिरा को न ग्रहण करने वाले असुर और ग्रहण करने वाले सुर कहलाए । सुर अर्थात् देवता, सुरा को ग्रहण कर अत्यानन्दित हुए ॥३८॥

उच्चैःश्रवा हयश्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम् ।

उदतिष्ठन्नरश्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम् ॥ ३९॥

हे राम ! फिर उच्चैश्रवा (लंबे कानों वाला अथवा ऊँचा सुनने वाला या बहुरा) नाम का घोड़ा, फिर कौस्तुभमणि और तदनन्तर उत्तम अमृत निकला ॥३९॥

अथ तस्य कृते राम महानासीत्कुलक्षयः ।

अदितेस्तु ततः पुत्रा दितेः पुत्रानसूदयन् ॥४०॥

हे राम ! जिसके (अमृत के) कारण दोनों कुल वालों की (सुर असुरों को) बड़ी बरबादी हुई । क्योंकि अदिति के पुत्र, दिति के पुत्रों के साथ (अमृत के लिए) लड़ पड़े ॥४०॥

एकतोऽभ्यागमन् सर्वे ह्यसुरा राक्षसैः सह ।

युद्धमासीन् महाघोरं वीर त्रैलोक्यमोहनम् ॥४१॥

सब असुर राक्षसों से मिल गए । हे राम ! तीनों लोकों को मोहने वाला सुरों असुरों का बड़ा विकट युद्ध हुआ ॥४१॥

यदा क्षयं गतं सर्वं सदा विष्णुर्महाबलः ।

अमृतं सोऽहरत्पूर्णं मायामास्थाय मोहिनीम् ॥४२॥

जब दोनों पक्ष के बहुत से योद्धा मारे जा चुके, तब भगवान् विष्णु ने मोहिनी माया को फैला कर, उनसे अमृत छीन लिया ॥४२॥

ये गताऽभिमुखं विष्णुमक्षयं पुरुषोत्तमम् ।

सम्पिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥४३॥

अविनाशी भगवान् विष्णु का जिसने सामना किया उन सब को भगवान् विष्णु ने मार डाला ॥४३॥

अदितेरात्मजा वीरा दितेः पुत्रान्निजघ्नरे ।

तस्मिन् युद्धे महाघोरे दैतेयादित्योर्भृशम् ॥४४॥

देवताओं और दैत्यों के इस घोर संग्राम में अदिति के पुत्रों ने अर्थात् देवताओं ने दिति के पुत्रों को अर्थात् असुरों को छिन्न भिन्न कर दिया । अर्थात् इस युद्ध में दैत्य बहुत से मारे गए ॥४४॥

निहत्य दितिपुत्रांश्च राज्यं प्राप्य पुरन्दरः ।

शशास मुदितो लोकान् सर्पिसङ्घान् सचारणान् ॥४५॥

इति पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥

दिति के पुत्रों अर्थात् असुरों को मार कर, इन्द्र ने राज्य पाया और वे ऋषियों और चारणों सहित प्रसन्न हो शशासन करने लगे ॥४५॥

बालकाण्ड का पैंतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❀:—

षट्चत्वारिंशः सर्गः

—:०:—

हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परमदुःखिता ।

मारीचं कश्यपं राम भर्तारमिदमब्रवीत् ॥१॥

हे राम ! दिति अपने पुत्रों के मारे जाने पर अत्यन्त दुःखी हो, मरीच के पुत्र और अपने पति कश्यप से बोली ॥१॥

हतपुत्राऽस्मि भववंस्तव पुत्रैर्महाबलैः

शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितम् ॥२॥

हे भगवन् ! तुम्हारे बलावन् पुत्रों ने मेरे पुत्रों को मार डाला है । अतः मैं इन्द्र का मारने वाला पुत्र चाहती हूँ, भले ही वह बड़ी तपस्या करने पर ही क्यों न प्राप्त हो ॥२॥

साऽहं तपश्चरिष्यामि गर्भं मे दातुमर्हसि ।

वल्लवन्तं महेष्वासं स्थितिज्ञं समदर्शिनम् ॥३॥

मैं तपस्या करूँगी आप मुझे ऐसा गर्भ दीजिए जिसमें बलवान्, महाविजयी, दृढ़ बुद्धि वाला, समदर्शी ॥३॥

ईश्वरं शक्रहन्तारं त्वमनुज्ञातुमर्हसि ।

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः काश्यपस्तदा ॥४॥

तीनों लोकों का स्वामी और इन्द्र को मारने वाला पुत्र जन्मे । तब दिति के यह वचन सुन, मरीचसुत कश्यप जी, ॥४॥

प्रत्युवाच महातेजा दितिं परमदुःखिताम् ।

एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भव तपोधने ॥५॥

जो बड़े तेजस्वी थे, अत्यन्त दुःखी दिति से बोले । तेरा कल्याण हो और जैसा तू चाहती है, वैसा ही हो । हे तपोधने ! तू पवित्र हो ॥५॥

१ ईश्वरम् = त्रैलोक्यनियन्तारम् (गो०)

जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शक्रहन्तारमाहवे ।

पूर्णे वर्षसहस्रे तु शुचिर्यादि भविष्यसि ॥६॥

तू ऐसा पुत्र जनेगी जो युद्ध में इन्द्र को मारने वाला होगा ।
किन्तु यह तभी होगा, जब तू पूरे एक हजार वर्षों तक पवित्रता
से रहैगी ॥६॥

पुत्रं त्रैलोक्यभर्तारं मत्तस्त्वं^१ जनयिष्यसि ।

एवमुक्त्वा महातंजाः पाणिना स ममार्ज^२ ताम् ॥७॥

समालभ्य ततः स्वस्तीत्युक्त्वा स तपसे ययौ ।

गते तस्मिन्नरश्रेष्ठ दितिः परमहर्षिता ॥८॥

मेरे अनुग्रह से तीनों लोकों का स्वामी पुत्र तेरे उत्पन्न होगा ।
इस प्रकार कह और दिति को आश्वासन दे और उसका पैट
हाथ से सुहरा कर तथा उसे आशीर्वाद दे कश्यप जी तपस्या
करने चले गए । हे पुरुषोत्तम ! उनके जानं के बाद दिति बहुत
प्रसन्न हुई ॥७॥८॥

कुशप्लवनमासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम् ।

तपस्तस्यां हि कुर्वन्त्यां परिचर्यां चकार ह ॥९॥

सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसम्पदा ।

अग्निं कुशान् काष्ठमपः फलं मूलं तथैव च ॥१०॥

न्यवेदयत् सहस्राक्षो यच्चान्यदपि कांक्षितम् ।

गात्रसंबहनैश्चैव श्रमापनयनैस्तथा ॥११॥

और कुशलव नामक वन में जा घोर तप करने लगी। हे राम ! उसको तप करते देख, इन्द्र बड़ी भक्ति के साथ उसकी सेवा करने लगे। अग्नि, कुश, लकड़ी, जल, फल मूल आदि जिन जिन वस्तुओं की दिति को आवश्यकता पड़ती, इन्द्र उन्हें बड़ी विनम्रता के साथ ला देते थे और जब तप करने के कारण दिति का शरीर श्रान्त हो जाता, तब उसका शरीर भी दवाया करते थे ॥६॥१०॥११॥

शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचार ह ।

अथ वर्षसहस्रे तु दशोने रघुनन्दन ॥१२॥

इन्द्र सदा ही दिति की परिचर्या में लगे रहते थे। हे राम ! इस प्रकार करते करते जब एक हजार वर्ष पूरे होने में केवल दस वर्ष बाकी रह गए ॥१२॥

दितिः परमसन्धीता सहस्राक्षमथाव्रवीत् ।

याचितेन सुरश्रेष्ठ तव पित्रा महात्मना ॥१३॥

वरो वर्षसहस्रांते मम दत्तः सुतं प्रति ।

तपश्चरन्त्या वर्षाणि दश वीर्यवतां वर ॥१४॥

अवशिष्टानि भद्रं ते आतरं द्रक्ष्यसे ततः ।

तमहं त्वत्कृते पुत्रं समाधास्ये जयोत्सुकम् ॥१५॥

तब दिति ने इन्द्र से परम हर्षित हो कर कहा—हे इन्द्र ! तुम्हारे पिता ने मुझे माँगने पर एक हजार वर्ष बीतने पर एक पुत्र होने का वर दिया है। सो अब केवल दस वर्ष और शेष रह गए हैं। सो इसके बाद तुम (अपने) भाई को देखोगे। चर्यापि मैं उसे तुम्हें जीतने के लिए उत्पन्न करना चाहती हूँ ॥१३॥ ॥१४॥१५॥

त्रैलोक्यविजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वरः ।
एवमुक्त्वा दितिः शक्रं प्राप्ते मध्यं दिवाकरे ॥१६॥

तथापि उसके साथ तुम तीनों लोकों को विजय कर राज्य सुख भोगोगे । तुम किसी बात की चिन्ता मत करो । दिति ने इस प्रकार इन्द्र से कहा और इतने में दोपहर हो गया ॥१६॥

निद्रयाऽपहृता देवी पादौ कृत्वाऽथ शीर्षतः ।
दृष्ट्वा तामशुचिं शक्रः पादतः कृतमूर्धजाम् ॥१७॥
शिरःस्थाने कृतौ पादौ जहास च मुमोद च ।
तस्याः शरीरविवरं विवेश च पुरन्दरः ॥१८॥

दिति को नींद आ गई और वह पैताने की ओर सिर कर उल्टी सो गई । उसको सिराहने की ओर पैर और पैताने की ओर सिर किए सोती हुई अपवित्र दशा में देख, इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और हँसे । फिर वे उसके शरीर में घुस गए ॥१७॥१८॥

गर्भं च सप्तधा राम विभेद परमात्मवान् ।
भिद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण शतपर्वणा ॥१९॥

हे राम ! धैर्यवान् इन्द्र ने अपने असंख्य धारों वाले वज्र से गर्भस्थ बालक के शरीर के सात टुकड़े कर डाले ॥१९॥

रुरोद सुस्वरं राम ततो दितिर्बुध्यत ।
मा रुदो मा रुदश्चेति गर्भं शक्रोऽभ्यभाषत ॥२०॥

इस पर गर्भस्थ बालक जब रोने लगा तब दिति की नींद टूटी । इन्द्र ने गर्भस्थ बालक से कहा, मत रो, मत रो ॥२०॥

विभेदं च महातेजा रुदन्तमपि वासवः ।

न हन्तव्यो न हन्तव्य इत्येवं दितिरब्रवीत् ॥२१॥

इन्द्र रोते हुए बालक को भी पुनः काटने लगे । तब दिति इन्द्र से कहने लगी—अरे मत मारे ! मत मारे !! ॥२१॥

निष्पपात ततः शक्रो मातुर्वचनगौरवात् ।

प्राञ्जलिर्वज्रसहितो दितिं शक्रोऽभ्यभाषत ॥२२॥

इन्द्र, माता का कहना मान, उदर के बाहिर निकल आए और वज्र सहित हाथ जोड़ कर, वे दिति से कहने लगे ॥२२॥

अशुचिर्देवि सुप्तासि पादयोः कृतमूर्धजा ।

तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे ।

अभिदं सप्तधा देवि तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि ॥२३॥

इति षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥

हे देवि ! तू पैताने की ओर सिर कर सोई हुई थी । इससे तू अशुचि हो गई । इस अवसर को पा, मैंने युद्ध में अपने मारने वाले के सात टुकड़े कर डाले । इसके लिए तू मुझे क्षमा कर दे ॥२३॥

बालकाण्ड का छियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:०:—

सप्तचत्वारिंशः सर्गः

—:०:—

सप्तधा तु कृते गर्भे दितिः परमदुःखिता ।

सहस्राक्षं दुराधर्षं वाक्यं सानुनयाऽब्रवीत् ॥१॥

जब गर्भ के सात टुकड़े हो गए तब दिति बड़ी विकल हुई और दुराधर्ष इन्द्र से बड़ी विनय के साथ बोली ॥१॥

ममापराधाद्गर्भोऽयं सप्तधा विफलीकृतः ।

नापराधोऽस्ति देवेश तवात्र वलसूदन ॥२॥

हे इन्द्र ! हे वलसूदन ! मेरी भूल से मेरे गर्भ के सात टुकड़े हुए हैं । इसमें तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं है ॥२॥

प्रियं तु कर्तुमिच्छामि मम गर्भविपर्यये ।

मरुतां सप्त सप्तानां स्थानपाला भवन्त्वमे ॥३॥

यह गर्भ तो विगड़ ही चुका, किन्तु इस पर भी मैं तुम्हारा और अपना हित चाहती हूँ । अतः ये सात—उनचास पवना के स्थानपाल हों ॥३॥

वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक ।

मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः ॥४॥

दिव्य रूप वाले मेरे ये सातों पुत्र, बालस्कन्ध मारुत के नाम से विख्यात हो कर, आकाश में विचरण करें ॥४॥

ब्रह्मलोकं चरत्वेक इन्द्रलोकं तथाऽपरः ।

दिवि वायुरिति ख्यातस्तृतीयोपि यहायशाः ॥५॥

इनमें से एक ब्रह्मलोक में, दूसरा इन्द्र लोक में और महा-यशस्वी तीसरा वायु के नाम से, आकाश में विचरे ॥५॥

चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वै तव शासनात् ।

सञ्चरिष्यन्ति भद्रं ते देवभूता ममात्मजाः ॥६॥

हे इन्द्र ! शेष मेरे चारों पुत्र तुम्हारी आज्ञा के अनुसार देवता बन कर दिशाओं में घूमा करे ॥६॥

त्वत्कृतेनैव नाम्ना च मारुता इति विश्रुताः ।

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्षः पुगन्दरः ॥७॥

और ये सत्र के सत्र तुम्हारे रखे हुए मारुत नाम से प्रसिद्ध हों । दिति के ये वचन सुन, सहस्राक्ष इन्द्र ॥७॥

उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं दितिं वलनिषूदनः ।

सर्वमेतद्यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः ॥८॥

दिति से हाथ जोड़ कर बोले, तुमने जैसा कहा निश्चय वैसा ही होगा—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥८॥

विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवभूतास्तवात्मजाः ।

एवं तौ निश्चयं कृत्वा मातापुत्रौ तपोवने ॥९॥

तुम्हारे पुत्र देवरूप हो कर विचरेंगे । उस तपोवन में इस प्रकार समझौता कर माता और पुत्र—दोनों ॥९॥

जगमतुस्त्रिदिवं राम कृतार्थाविति नः श्रुतम् ।

एष देशः स काकुत्स्थ महेन्द्राध्युषितः पुरा ॥१०॥

दितिं यत्र तपःसिद्धामेवं परिचचार सः ।

इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः ॥११॥

हे राम ! कृतार्थ हो स्वर्ग गए । मैंने वही सुना है । हे राम-चन्द्र ! यह वही देश है, जहाँ इन्द्र ने तपःसिद्धा माता दिति की

सेवा की थी। हे पुरुषसिंह ! इच्छाकु-के परम धार्मिक पुत्र ॥१०॥११॥

अलम्बुसायामुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः ।

तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता ॥१२॥

विशाल ने, जो अलम्बुसा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, यहाँ पर यह विशाला नगरी बसाई ॥१२॥

विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महाबलः ।

सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरः ॥१३॥

हे राम ! विशाल का महाबलवान् हेमचन्द्र नामक पुत्र हुआ। फिर हेमचन्द्र के सुचक्र नामक पुत्र हुआ ॥१३॥

सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्व इति विश्रुतः ।

धूम्राश्वतनयश्चापि सृञ्जयः समपद्यत ॥१४॥

हे राम ! सुचन्द्र के धूम्राश्व हुआ और धूम्राश्व के सृञ्जय नाम का पुत्र हुआ ॥१४॥

सृञ्जयस्य सुतः श्रीमान् सहदेवः प्रतापवान् ।

कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधार्मिकः ॥१५॥

फिर सृञ्जय के बड़ा प्रतापी श्रीमान् सहदेव नाम का पुत्र हुआ। सहदेव का पुत्र कुशाश्व हुआ जो बड़ा धर्मात्मा था ॥१५॥

कुशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान् ।

सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्रुतः ॥१६॥

कुशाश्व के महातेजस्वी और प्रतापी सोमदत्त हुआ । फिर सोमदत्त के काकुत्स्थ नाम का पुत्र हुआ ॥१६॥

तस्य पुत्रो महातेजाः संप्रत्येष पुरीमिमाम् ।

श्रावसत्परमप्रख्यः सुमतिर्नाम दुर्जयः ॥१७॥

उसी का महातेजस्वी, परम प्रसिद्ध और दुर्जय पुत्र राजा सुमति आजकल इस विशाला पुरी में राज्य करता है ॥१७॥

इच्छाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः ।

दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः ॥१८॥

महाराज इच्छाकु की कृपा से विशाला पुरी के समस्त राजा दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी तथा बड़े धर्मिष्ठ होते रहे हैं । १८॥

इहाद्य रजनीं राम सुखं वत्स्यामहे वयम् ।

श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमर्हसि ॥१९॥

हे राम ! आज की रात हम यहीं पर सुखपूर्वक ठहरेंगे । कल प्रातःकाल पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज जनक जी से मेंट करेंगे ॥१९॥

सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रपागतम् ।

श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठः प्रत्युद्गच्छन् महायशाः ॥२०॥

इस बीच में राजाओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी और महायशस्वी राजा सुमति ने विश्वामित्र जी के आने का समाचार सुना और वे उनकी अगमानी को गए ॥२०॥

पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सवान्ववः ।

प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथात्रवीत् ॥२१॥

उपाध्याय तथा वन्धु वान्धवां के साथ उनका भली भाँति पूजन कर तथा हाथ जोड़ कर, कुशलादि पूँछी। तदनन्तर वे विश्वामित्र जी से बोले ॥२१॥

धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुनिः ।

सम्प्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मया ॥२२॥

इति सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥

हे मुनि ! आज मैं धन्य हूँ जो आपने मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिए। मुझसे बढ़ कर धन्य आज और कोई नहीं है ॥२२॥

बालकण्ड का सैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:❁:—

अष्टचत्वारिंशः सर्गः

—:❁:—

पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्परसमागमे ।

कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम् ॥१॥

भेंट के अवसर पर परस्पर कुशलप्रश्न के अनन्तर राजा सुमति ने महर्षि विश्वामित्र जी से कहा ॥१॥

इमौ कुमारौ भद्रं^१ ते देवतुल्यपराक्रमाँ ।

गजसिंहगती वीरौ शार्दूलवृषभोपमाँ ॥२॥

पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतूणीधनुर्धरौ ।

अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितर्यावनाँ ॥३॥

१ दृष्टिदोषोमाभूदित्याह—भद्रतइति (गो०)

यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ ।

कथं पद्मचामहि प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने ॥४॥

हे मुने ! (भगवान् करें) इन्हें नजर न लगे, यह तो बतलाइये कि, ये दोनों कुमार, जा देवताओं के समान पराक्रम वाले हैं, जो जगसिंह शार्दूल और वृषभ के समान चाल चलने वाले हैं, जो कमल जैसे नेत्र वाले हैं, जो खड्ग तरकम और धनुष धारण किए हुए हैं, जो अश्विनी कुमारों जैसे सुस्वरूप हैं, जो जवानी की सीमा पर पहुँचे हुए हैं, जो देवताओं की तरह निज इच्छानुसार पृथिवीतल पर आए हुए हैं, पाँच प्यादे अर्थात् पैदल कैसे और किस लिए यहाँ आए हैं और किस के पुत्र हैं ॥२॥३॥४॥

[टिप्पणी—ऊपर राजा सुनति ने राजकुमारों को गज, सिंह, शार्दूल तथा वृषभ जैसी चाल चलने वाला बतलाया है अथवा राजकुमारों की चाल की उक्त चार प्रसिद्ध पराक्रमी जीवों से उपमा दी है। इसका अभिप्राय यहाँ खोलना आवश्यक जान पड़ता है। श्रीगोविन्दराज जी लिखते हैं (१) “गाम्भीर्यगमने गजतुल्यौ”—गाम्भीर्यगमन में गज के समान गति वाले। (२) पराभिभवनाहंगमनेसिंहतुल्यौ”—दूसरे का पराभव करने को जाते समय सिंह के समान गमन करने वाले (३) “भयंकरगमने शार्दूलतुल्यौ” भयंकर चाल चलने में शार्दूल के समान। (४) “सर्वगमने वृषभ सदृशावितरथं” सर्व सहित चलने में घोड़े के समान।]

भूपयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्यावित्राम्बरम् ।

परस्परस्य सदृशौ प्रमाणेद्भितचेष्टितैः ॥५॥

इन दोनों ने इस देश को वैसे ही सुशोभित किया है जैसे सूर्य और चन्द्रमा आकाश को सुशोभित करते हैं। डालडाल..

बातचीत और चेष्टा से ये दोनों समान अर्थात् भाई, जान पड़ते हैं ॥५॥

किमर्थं च नरश्रेष्ठौ सम्प्रातौ दुर्गमे पथि ।

वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥६॥

ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर, श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए, इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं ? मैं इनका पूरा पूरा हाल सुनना चाहता हूँ ॥६॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत् ।

सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा ॥७॥

सुमति के प्रश्न को सुन, विश्वामित्र ने उनके (राजकुमारों के) सिद्धाश्रम में रहने और राक्षसों के मारने का जो वृत्तान्त था सो सब कहा ॥७॥

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमहर्षितः ।

अतिथी परमौ प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ ॥८॥

राजा सुमति विश्वामित्र जी के वचन सुन अत्यन्त हर्षित हुए और उन दोनों दशरथनन्दनों को परमपवित्र अतिथि मान ॥८॥

पूजयामास विधिवत् सत्काराहीं महाबलौ ।

ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ ॥९॥

उनका विधिवत् पूजन किया और सत्कार करने योग्य दोनों महाबलवानों का अच्छी तरह सत्कार किया । श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण, राजा सुमति से सत्कार प्राप्त कर ॥९॥

उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां ततः ।

तान् दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभाम् ॥१०॥

एक रात वहाँ ठहरे । दूसरे दिन मिथिलापुरी को प्रस्थानित हुए और महाराज जनक की सुन्दरपुरी को देख सब ऋषि ॥१०॥

साधु साध्विति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन् ।

मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः ॥११॥

पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् ।

श्रीमदाश्रमसङ्काशं किं न्विदं मुनिवर्जितम् ॥१२॥

“वाह वाह” कह, उसकी प्रशंसा करने लगे । श्रीरामचन्द्र जी ने मिथिलापुरी के एक उपवन में एक पुराना, निर्जन किन्तु रमणीक आश्रम देख कर विश्वामित्र जी से पूछा कि, हे मुने ! यह आश्रम तो परम शोभायमान है, परन्तु इसमें कोई ऋषि रहता हुआ नहीं देख पड़ता, सो यह बात क्या है ? ॥११॥१२॥

श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्वं आश्रमः ।

तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥१३॥

हे भगवन् ! मैं सुनना चाहता हूँ कि, पहले यह किसरा आश्रम था ? श्रीरामचन्द्र जी का कथन सुन, वाक्यविशारद (वातचीत करने में परम निपुण) ॥१३॥

प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ।

हन्त ते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव ॥१४॥

महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा—हे राघव ! मैं तुमसे इस आश्रम का समस्त वृत्तान्त कहूँगा उसे तुम सुनो ॥१४॥

यस्यैतदाश्रमपदं शप्तं कोपान् महात्मना ।

गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन् महात्मनः ॥१५॥

जिसका यह आश्रम है और जैसे एक महात्मा ने क्रोध में भरू इसे शाप दिया था । हे राम ! पूर्वकाल में यह आश्रम गौतम का था ॥१५॥

आश्रमो दिव्यसङ्काशः सुरैरपि सुपूजितः ।

स चेह तप आतिष्ठद्दहल्यासहितः पुरा ॥१६॥

वर्षपूगाननेकांश्च राजपुत्र महायशः ।

कदाचिद्विसे राम ततो दूरं गते मुनौ ॥१७॥

यह देवताओं जैसा आश्रम था और देवता इसकी वन्दना करते थे । इस आश्रम में अहल्या के साथ उन मुनि ने बहुत वर्षों तक तप किया । हे महायशस्वी श्रीराम ! एक दिन गौतम ऋषि कहीं दूर चले गए ॥१६॥१७॥

तस्यान्तरं विदित्वा तु सहस्राक्षः शचीपतिः ।

मुनिवेषधरांऽहल्यामिदं वचनमब्रवीत् ॥१८॥

आश्रम में मुनि को अनुपस्थित देख कर, सहस्राक्ष शचीपति इन्द्र ने गौतम का रूपधारण कर, अहल्या से कहा ॥१८॥

ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते ।

सङ्गमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥१९॥

फि कामी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते । हे सुन्दरी ! अतः आज हम तेरे साथ मैथुन करना चाहते हैं ॥१९॥

मुनिवेषं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन ।

मतिं चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलात् ॥२०॥

हे रघुनन्दन ! मुनिवेष धारण किए हुए इन्द्र को पहिचान कर भी, दुष्टा अहल्या ने प्रसन्नता पूर्वक इन्द्र के साथ भोग किया ॥२०॥

अथात्रवीसुरश्रेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना ।

कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो ॥२१॥

तदनन्तर वह (अहल्या) इन्द्र से बोली, हे इन्द्र ! मेरा मनोरथ पूरा हो गया, अतः हे देवताओं में श्रेष्ठ इन्द्र ! यहाँ से अब तुम शीघ्र चले जाओ ॥२१॥

आत्मानं मां च देवेश सर्वदा रक्ष मानद ।

इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यमहल्यामिदमब्रवीत् ॥२२॥

हे मानद ! (अर्थात् इज्जत बढ़ाने वाले) अपनी और मेरी सदा रक्षा (गौतम से) करते रहिए । इसके उत्तर में इन्द्र ने भी हँस कर यह कहा ॥२२॥

सुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम् ।

एवं सङ्गम्य तु तथा निश्चक्रामोटजात्ततः ॥२३॥

हे सुश्रोणि (सुन्दर कटि वाली) मैं तेरे साथ भोग करने से तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ । मैं अब आनन्द पूर्वक अपने स्थान को जाऊँगा । यह कह इन्द्र अहल्या की कुटी के बाहिर निकले ॥२३॥

स सम्भ्रमात्स्वरन् राम शङ्कितो गौतमं प्रति ।

गौतमं स ददर्शाय प्रविशन्तं महामुनिम् ॥२४॥

हे राम ! गौतम के भय से इन्द्र उस समय विकल और सशङ्कित थे कि, उन्होंने कुटी में गौतम को प्रवेश करते देखा ॥२४॥

देवदानवदुर्धर्षं तपोवलसमन्वितम् ।

तीर्थोदकपरिक्लिन्नं दीप्यमानमिवानलम् ॥२५॥

वे ऋषि, देवों और दानवों से न जीते जाने वाले, तपोबल से युक्त, तीर्थ के जल से भीगे हुए, अग्नि के तुल्य प्रकाशमान ॥२५॥

गृहीतसमिधं तत्र सकुशं मुनिपुङ्गवम् ।

दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विविर्णवदनोऽभवत् ॥२६॥

तथा हवन के लिए लकड़ियाँ और कुश हाथों में लिए हुए थे । उनको देखते ही इन्द्र बहुत डरे और उनका चेहरा फीका पड़ गया ॥२६॥

अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेषधरं मुनिः ।

दुर्घृत्तं वृत्तसम्पन्नो रोषाद्ब्रचनमब्रवीत् ॥२७॥

गौतम जी ने, इन्द्र को अपना रूप धारण किए हुए देख और (उनके चेहरे से) यह जान कर कि, वे असत्कर्म कर के जा रहे हैं, क्रोध में भर यह शाप दिया ॥२७॥

मम रूपं समास्थाय कृतवानसि दुर्मते ।

अकर्तव्यमिदं तस्माद्विफलस्त्वं* भविष्यसि ॥२८॥

अरे दुष्ट ! मेरा रूप बना कर तूने इस अनकरने काम को किया है अतः तू अण्डकोश रहित अर्थात् नपुंसक हो जा ॥२८॥

* विफलः—विगतवृषणः (गो०) अण्डकोप रहित ।

गौतमेनैवमुक्तस्य सरोपेण महात्मना ।

पेततुर्वृषणो भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात् ॥२६॥

महात्मा गौतम के कुपित हो कर यह शाप देते ही, उसी क्षण इन्द्र के दोनों वृषण (अण्डकोश) ज़मीन पर गिर पड़े ॥२६॥

तथा शप्त्वा स वै शक्रमहल्यामपि शप्तवान् ।

इह वर्षसहस्राणि बहूनि त्वं निवत्स्यसि ॥३०॥

इस प्रकार इन्द्र को शाप दे, गौतम जी ने अहल्या को भी शाप दिया कि, तू इसी स्थान पर हजारों वर्षों तक बस करेगी ॥३०॥

वायुभक्षनिराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी ।

अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमेऽस्मिन्निवत्स्यसि ॥३१॥

और तेरा भोजन केवल पवन होगा और कुछ भी न खा सकेगी, (मेरे शाप से) अपनी करनी का फल भोगती हुई भस्म में लोटा करेगी । तू इसी स्थान पर अदृश्य हो कर रहैगी अर्थात् तुम्हें कोई भी प्राणी नहीं देख सकेगा ॥३१॥

यदा चैतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजः ।

आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि ॥३२॥

जब इस घोर वनक्षेत्र में महाराज दशरथ के पुत्र अज्ञेय श्रीरामचन्द्र पधारेंगे, तब तू पवित्र होगी अर्थात् मेरे इस शाप से

* अभी तक तो वह स्थान सुरम्य मुनिआश्रम था, किन्तु तब ने वह मुनि के शाप से निर्जन वन हो गया ।

मुक्त होगी अथवा जो तूने यह गर्हित काम किया है, उसके पाप से छूटेगी ॥३२॥

तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते. लोभमोहविवर्जिता ।

मत्सकाशे मुदा युक्ता स्वं वपुर्यारयिष्यसि ॥३३॥

हे दुष्टे ! लोभ और मोह से रहित उनका सत्कार अर्थात् आतिथ्य करने पर, तू अपने पहले शरीर को धारण कर अति प्रसन्न हो, मेरे समीप आवेगी ॥३३॥

एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम् ।

इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते ।

हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः ॥३४॥

इति अष्टवत्वारिंशः सर्गः ॥

इस प्रकार महातेजस्वी गौतमऋषि व्यभिचारिणी अहल्या को शाप दे और इस आश्रम को त्याग कर, सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के शिखर पर जा, तप करने लगे ॥३४॥

बालकाण्ड का अड़तालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

[टिप्पणी—महर्षि वाल्मीकि जी के इस वर्णन से पाठकों को अवगत होगा कि, आदिकाव्य के अनुसार गौतम के शाप से अहल्या का शिला होना और इन्द्र के शरीर में सहस्रभग होना, जैसा कि लोक में प्रसिद्ध है, समर्थित नहीं होता । अहल्या के शिला बनने की कथा पद्मपुराण में आयी है । वहाँ इस घटना के समर्थन में यह एक श्लोक अवश्यक पाया जाता है ।

शापदग्धा पुराभं त्रीं राम शक्रापराधतः ।

अहल्याख्या शिला जज्ञे शतलिङ्गः कृतस्स्वराट् ॥

लिङ्गशब्देन भगाकारं चिह्नं । स्वराडिन्द्रः]

एकोनपञ्चाशः सर्गः

—:०:—

अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुगोधसः ।

अन्नवीत्रस्तवदनः सर्षिसङ्घान् सचारणान् ॥१॥

गौतमऋषि के शाप से नपुंसकत्व को प्राप्त हुए एवं उदात्त मन इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गन्धर्वों और चारणों से बोले ॥१॥

कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः ।

क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यमिदं कृतम् ॥२॥

महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रुद्ध कर, देवताओं का यह काम बनाया ॥२॥

[टिप्पणी—इन्द्र के इस कथन को मिथ्या न समझना चाहिए । क्योंकि सचमुच बात यही थी । गौतम ने सर्वदेवताओं का स्थान लेने के लिए तप किया था । क्रोधादि दुर्वृत्तियों के प्रादुर्भाव होने से तपस्वी की तपस्या नष्ट हो जाती है । अतः इन्द्र ने महर्षि गौतम की तपस्या नष्टभ्रष्ट करने के लिए ही उनको क्रुद्ध करने के अभिप्राय से अहत्या के साथ मोग किया था । नहीं तो स्वर्ग में अहत्या से वही अधिक सुन्दरी स्त्रियों का अभाव नहीं था । मृत्युलोकवासियों के सन्तुष्टानों ने देवता अपने स्वार्थ के लिए सदा से विघ्न करते चले आए हैं ।]

अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता ।

शायमोक्षेण महता तपोस्यापहतं मया ॥३॥

ऋषि ने क्रुद्ध हो मुझे तो नपुंसक कर दिआ और अहल्या को शाप दे कर त्याग दिआ । इस प्रकार उनसे शाप दिला कर, मैंने उनकी बड़ी तपस्या का फल हर लिआ ॥३॥

तस्मात् सुरवराः सर्वे सर्पिसङ्घाः सचारणाः ।

सुरसाह्यकरं सर्वे सफलं कर्तुमर्हथ ॥४॥

अतएव हे देवताओ ! देवर्षियो ! चारणो ! तुम सब मेरे अच्छे होने में (पुंस्त्व प्राप्ति के लिए) सहायता दो ॥४॥

शतक्रतोर्वचः श्रुत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः

पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्गणैः ॥५॥

इन्द्र के इन वाक्यों का सुन, अग्नि को आगे कर पवनादि— देवतागण, कव्यवाहनादि पितरों के पास जा कर बोले ॥५॥

अयं मेपः सवृषणः शक्रो ह्यवृषणः कृतः ।

मेपस्य वृषणां गृह्य शक्रायाशु प्रयच्छत ॥६॥

इन्द्र वृषण रहित हो गए हैं और तुम्हारे इस मेढ़े के अण्ड-कोश हैं, अतएव इसके अण्डकोप उखाड़ कर, इन्द्र को तुरन्त दे दीजिए ॥६॥

अफलस्तु कृतो मेपः परां तुष्टिं प्रदास्यति ।

भवतां हर्षणार्थे च ये य दास्यन्ति मानवाः ॥७॥

मेढ़े के अण्डकोश रहित होने से तुम्हें सन्तुष्ट करने में कुछ उठा न सखा जायगा । आज से जो मनुष्य, वृषण रहित मेढ़े का यज्ञ में बलिदान कर, आपको प्रसन्न करे, उनको ॥७॥

अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम् ।

अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः ॥८॥

तुम लोग अक्षय्य एवं अनन्त फल देना । अग्निदेव के यह वचन सुन, पितरों ने ॥८॥

उत्पाटय मेषवृषणौ सहस्राक्षे न्यवेशयन् ।

तदाप्रभृति काकुत्स्थ पितृदेवाः समागताः ॥९॥

मेढे के वृषण निकाल कर. इन्द्र के लगा दिए । तब से हे रामचन्द्र ! पितृगण ॥९॥

अफलान्भुञ्जते मेषान्फलैस्तेषामयोजयन् ।

इन्द्रस्तु मेषवृषणस्तदाप्रभृति राघव ॥१०॥

यज्ञ में अण्डकोष रहित मेढे लेने लगे । क्योंकि, हे राघव ! मेढे के अण्डकोष निकाल कर, इन्द्र के लगा दिए गए हैं ॥१०॥

[टिप्पणी—एक के शरीर के अवयव निकाल कर दूसरे के शरीर में लगा देने की अस्त्रक्रिया (Surgery) का विधान, इस आख्यान से सिद्ध होता है कि, प्राचीन है । आजकल के लोगों का नया आविष्कार नहीं है ।]

गौतमस्य प्रभावेन तपसश्च महात्मनः ।

तदागच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः ॥११॥

यह महात्मा गौतम के तप का प्रताप या फल है । इसलिए हे महातेजस्वी ! अब तुम पुण्यात्मा गौतम के आश्रम पर चलो ॥११॥

तारयैनां महाभागामहल्यां देवरूपिणीम् ।

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः ॥१२॥

और महाभागा अहल्या को तारिए जिनसे वह देवरूपिणी हो जाय । श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण ने. विश्वामित्र जी के ये वचन सुन ॥१२॥

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य तमाश्रममथाविशत् ।

ददर्श च महाभागां तपसा द्योतितप्रभाम् ॥१३॥

और उनको आगे कर, गौतमऋषि के आश्रम में प्रवेश किया । वहाँ जाकर देखा कि, अहल्या तप के तेज से प्रकाशित हो रही थी ॥१३॥

लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यां सुरासुरैः ।

प्रयत्नान्निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव ॥१४॥

उसे सुर, असुर और मनुष्य कोई भी नहीं देख सकते थे । मानों ब्रह्मा जी ने अति यत्न से स्वयं अपने हाथों से उस दिव्य स्त्री को मायाविनी की तरह बनाया हो ॥१४॥

स तुपारावृतां साभ्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव ।

मध्येऽम्भसो दुराधर्षां दीप्तां सूर्यप्रभामिव ॥१५॥

कोहरे (कुहासे) से छिपी हुई पूर्णमासी के चन्द्रमा की स्वच्छ चाँदनी की तरह, अथवा जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिम्ब के दुराधर्ष प्रकाश की वह तरह, दीप्तिमती देख पड़ती थी ॥१५॥

धूमेनापि परीताङ्गी दीप्तामग्निशिखामिव ।

सा हि गौतमयाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूव ह ॥१६॥

अथवा धुँएँ में जलती हुई आग की लपट की तरह, वह अहल्या गौतमऋषि के शाप से किसी को नहीं दिखलाई पड़ती थी ॥१६॥

त्रयाणामपि लोकाणां यावद्रामस्य दर्शनम् ।

शापस्थान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता ॥१७॥

अहल्या को लोग इसलिए नहीं देख सकते थे कि, गौतम मुनि ने शाप देते समय यह कह दिया था कि, जब तक श्रीरामचन्द्र

जी के दर्शन तुम्हे न होंगे, तब तक तेरे समीप जाकर भी त्रिलोकी का कोई भी जीव, तुम्हे नहीं देख सकेगा ॥१७॥

राघवौ तु ततस्तस्याः पादौ जगृहतुस्तदा ।

स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह सा च तौ ॥१८॥

श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण ने अहल्या के पैर छुए । अहल्या ने भी गौतमऋषि की कही बात को याद कर, और दोनों को पूजनीय समस्त उन दोनों के चरण पकड़े अर्थात् उनके पैरों पर गिरी ॥१८॥

पाद्यमर्घ्यं तथाऽऽतिथ्यं चकार सुसमाहिता ।

प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन^१ कर्मणा^२ ॥१९॥

अहल्या ने अर्घ्य पाद्यादि से भली भाँति उनका आतिथ्य किया । दोनों राजकुमारों ने भी शास्त्रों में वर्णित विधिविधान के साथ किए गए उसके आतिथ्य को ग्रहण किया ॥१९॥

पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद्देवदुन्दुभिनिःस्वनैः ।

गन्धर्वाप्सरसां चापि महानासीत् समागमः ॥२०॥

उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई, देवताओं ने नगाड़े बजाए । गन्धर्व और अप्सराएँ गाने और नाचने लगीं ॥२०॥

साधु साध्विति देवास्तामहल्यां समपूजयन् ।

तपोबलविशुद्धाङ्गीं गौतमस्य वशानुगाम्^३ ॥२१॥

१ विधिदृष्टेन—शास्त्रदृष्टेन । २ कर्मणा—प्रकारेण (गो०)

३ गौतमस्यवशानुगामित्यनेन गौतमस्तदा रामागमनं विदित्वा समागत इत्यवगम्यते । [गो०]

देवतागण अहल्या की प्रशंसा करने लगे । गौतम जी (अपने तपःप्रभाव से) श्रीरामचन्द्र जी का आना जान अपने आश्रम में पहुँचे और वहाँ पूर्व के समान धारण किए हुए अहल्या को पा कर प्रसन्न हुए ॥२१॥

गौतमोऽपि महातेजा अहल्यासहितः सुखी ।

रामं सम्पूज्य विधिवत्तपस्तेपेः महातपाः ॥२२॥

अहल्या सहित महातेजस्वी गौतम ऋषि ने प्रसन्न हो श्रीराम का भली भाँति पूजन किया और फिर वे उसी आश्रम में तप करने लगे ॥२२॥

रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महागुनेः ।

सकाशाद्विधिवत्प्राप्य जगाम मिथिलां ततः ॥२३॥

इति एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी भी महर्षि गौतम से विधिवत् पूजा ग्रहण कर, मिथिला पुरी में गए ॥२३॥

बालकाण्ड का उनचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:६:—

पञ्चाशः सर्गः

—:०:—

ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह ।

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत् ॥१॥

१ तपे तत्रैवाश्रम इतिशेषः । (गो०)

तव विश्वामित्र जी को आगे कर, श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण सहित ईशानकोण की ओर से चल कर, महाराज की यज्ञशाला में पहुँचे ॥१॥

रामस्तु मुनिशार्दूलमुवाच सहलक्ष्मणः ।

साध्वी यज्ञसमृद्धिर्हि जनकस्य महात्मनः ॥२॥

दोनों राजकुमारों ने पुरी और यज्ञशाला की सजावट देख कर विश्वामित्र जी से कहा—महाराज जनक के यज्ञ की तैयारी तो बड़ी अच्छी है ॥२॥

बहूनीह सहस्राणि नानादेशनिवासिनाम् ।

ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनाम् ॥३॥

हे महाभाग ! देखिए, नाना देशों के रहने वाले हजारों वेदाध्ययनशाली ब्राह्मण यहाँ देख पड़ते हैं ॥३॥

ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शकटीशतसङ्कुलाः ।

देशौ त्रिधीयतां ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम् ॥४॥

ऋषियों के आवासस्थानों में सैकड़ों (उनका समान होने वाले) छकड़े देख पड़ते हैं । हे ब्रह्मन् ! कोई स्थान ठीक कीजिए, जहाँ हम सब लोग (आराम के माथ) रहें ॥४॥

रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः ।

निवेशमकरोद्देशे ।ववित्ते सल्लिलायुने ॥५॥

श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन, महर्षि विश्वामित्र जी एक निराले स्थान में, जहाँ जल का भी सुपास था, जा उतरे ॥५॥

विश्वामित्रमनुप्राप्तं श्रुत्वा स नृपतिस्तदा ।
शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितम् ॥६॥
प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः ।

ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वर्घ्यमादाय सत्वरम् ॥७॥

विश्वामित्र जी के आने का संवाद पा कर अपने प्रसिद्ध पुरोहित शतानन्द को आगे कर, महाराज जनक अपने ऋत्विजों सहित, विश्वामित्र जी के लिए अर्घ्यादि का सामान साथ लिए हुए, बड़ी नम्रता के साथ तुरन्त वहाँ पहुँचे ॥६॥७॥

विश्वामित्राय धर्मेण ददुर्मन्त्रः पुरस्कृतम् ।

प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः ॥८॥

महाराज जनक ने धर्मशास्त्रानुसार मधुपर्क आदि विश्वामित्र जी के आगे रखा। महाराज जनक की पूजा अङ्गीकार कर, विश्वामित्र जी ने, ॥८॥

पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम् ।

स तांश्चापि मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्यायपुरोधसः ॥९॥

महाराज जनक से उनके गज्य का कुशल तथा यज्ञ की निर्विघ्नता पूछी। फिर शतानन्द आदि जो ऋषि महाराज जनक के साथ आए थे, उनसे भी कुशलप्रश्न किया ॥९॥

यथान्यायं ततः सर्वैः समागच्छत् प्रहृष्टवत् ।

अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिरभाषत ॥१०॥

और प्रसन्न हो सब से मिले भेंटे। तब राजा जनक हाथ जोड़ कर, विश्वामित्र जी से बोले ॥१०॥

१ मन्त्रपुरस्कृतमित्यनेनमधुपर्ककरणमुच्यते । (गो०)

आसने भगवानास्तां सहैभिर्मुनिपुङ्गवैः ।

जनकस्य वचः श्रुत्वा निषसाद महामुनिः ॥११॥

महाराज ! आप और अन्य ऋषिप्रवर आसनो पर विराजें । यह सुन विश्वामित्र जी अन्य ऋषियों सहित आसनों पर बैठे ॥११॥

पुरोध्या ऋत्विजश्चैव राजा च सह मन्त्रिभिः ।

आसनेषु यथान्यायमुपविष्टान् समन्ततः ॥१२॥

तदनन्तर राजा जनक भी अपने पुरोहित, ऋत्विजो और मंत्रियों के साथ उचित स्थानों पर आसनो के ऊपर बैठे । राजा जनक बीच में थे और अन्य सब उनके चारों ओर बैठे हुए थे ॥१२॥

दृष्ट्वा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथाब्रवीत् ।

अद्य यज्ञसमृद्धिर्मे सफला दैवतैः कृता ॥१३॥

सब लोगों को यथास्थान बैठा देख. महाराज जनक, विश्वामित्र जी से बोले—आज देवताओं के अनुग्रह से मेरे यज्ञ में जो कमी थी वह पूरी हुई ॥१३॥

अद्य यज्ञफलं प्राप्तं भगवदर्शनान् मया ।

धन्योऽस्म्यनुगृहीतास्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव ॥१४॥

यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह ।

द्वादशार्हं तु ब्रह्मर्षे शेषमाहुर्मनीषिणः ॥१५॥

हे भगवन् ! आज आपके दर्शन प्राप्तकर मुझे यज्ञ का फल मिल गया । आपके मुनियों सहित यज्ञशाला में पधारने से मैं आज धन्य और अनुगृहीत हुआ । हे ब्रह्मर्षे ! ऋत्विज लोग कहते हैं कि, अब केवल बारह दिन और यज्ञ पूर्ण होने को रह गए हैं ॥१४॥१५॥

ततो भागार्थिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिक ।

इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं प्रहृष्टवदनस्तदा ॥१६॥

तदनन्तर यज्ञ भाग लेने के लिए देवता आवेंगे । हे कौशिक ! आप उनको देखेंगे । विश्वामित्र जी से यह कह कर, राजा जनक प्रसन्न हुए ॥१६॥

[नोट—रामायण काल में होने वाले यज्ञों में देवगण अपना यज्ञीय भाग लेने प्रस्थान्त होकर आते थे । उनको तत्रस्थित सब लोग देख पाते थे ।]

पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः ।

इमौ कुमारौ भेद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥१७॥

और हाथ जोड़ कर वे फिर बोले आपके आशीर्वाद से इन कुमारों का कल्याण हो, (अर्थात् दीठ इन्हें न लगे) । यह तो बतलाइए कि, ये दोनों कुमार जो देवताओं के समान पराक्रमी हैं ॥१७॥

गजसिंहगती वीरौ शार्दूलवृषभोपमौ ।

पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतूणीधनुर्धरौ ॥१८॥

गज, सिंह, शार्दूल तथा वृषभ के समान चाल चलने वाले, वीर, कमल जैसे नेत्रों वाले, खड्ग, तरकस और धनुषधारी ॥१८॥

अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ ।

यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ ॥१९॥

सौन्दर्य में अश्विनीकुमारों जैसे, चढ़ती जवानी वाले, स्वेच्छा पूर्वक देवताओं की तरह स्वर्ग से पृथिवी पर उतरे हुए ॥१९॥

कथं पद्म्यामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने ।

पुण्डरीकविशालाक्षौ वरायुधधरौबुभौ ॥२०॥

क्यों और किस लिए पैदल यहाँ आए हैं और किसके पुत्र हैं ? इनके विशाल एवं कमल सदृश नेत्र हैं, श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं ॥२०॥

बद्धगोधाङ्गुलित्राणौ खड्गवन्तौ मदाद्युतौ ।
काकपक्षधरौ वीरौ कुमारविव पावकी ॥२१॥

गोह के दस्ताने हाथों में पहने हुए हैं, तलवारे भी लिए हुए हैं, बड़ी श्रुति वाले हैं, काकपक्ष धर रहे हुए हैं, कार्तिकेय के समान वीर हैं ॥२१॥

रूपौदार्यगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणौ ।
प्रकाश्य कुलमस्माकं मामुद्धर्तुमिहागतौ ॥२२॥

रूप और उदारता आदि गुणों से मनुष्य के मन को हरने वाले हैं। हमारे कुल को उजागर कर के, हमारा उद्धार करने यहाँ आए हैं ॥२२॥

भूपयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरम् ।
परस्परस्य सदृशौ प्रमाणेङ्गितचेष्टितः ॥२३॥

इस देश को ऐसा भूषित कर रहे हैं जैसा चन्द्र व सूर्य आकाश को भूषित करते हैं। डीलडौल चालढाल और चेष्टा में दोनों भाई जान पड़ते हैं ॥२३॥

कस्य पुत्रौ मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः ॥२४॥

* जनपुटी के ऊपर बड़े-बड़े वालों को काकपक्ष कहते हैं ।

हे मुनिवर ! बतलाइए ये दोनों किसके पुत्र हैं । मैं इनका पूर्ण वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ । राजा जनक के ये वचन सुन ॥२४॥

न्यवेदयन् महात्मानौ पुत्रौ दशरथस्य तौ ।

सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा ॥२५॥

विश्वामित्र जी कहने लगे कि, ये दोनों महाराज दशरथ के राजकुमार हैं । फिर विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों का सिद्धाश्रम में रहने, वहाँ राक्षसों का वध करने ॥२५॥

तत्रागमनमव्यग्रं विशालायाश्च दर्शनम् ।

अहल्यादर्शनं चैव गौतमेन समागमम् ।

महाधनुपि जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा ॥२६॥

रास्ते में विशाला नगरी को देखने, अहल्या के उद्धार और गौतम से भेंट होने का सारा वृत्तान्त कहा और यह भी कहा कि, यहाँ ये आपके बड़े धनुष को देखने के लिए आये हैं ॥२६॥

एतत्सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने ।

निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः ॥२७॥

इति पञ्चाशः सर्गः ॥

उन सब घटनाओं का वृत्तान्त महाराज जनक को सुना कर, महानेज्ज्वी महामुनि विश्वामित्र जी चुप हो गए ॥२७॥

बालकाण्ड का पचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

एकपञ्चाशः सर्गः

—:❀:—

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः ।

हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो महातपाः ॥१॥

बुद्धिमान् विश्वामित्र जी के वचन सुन कर, महातेजस्वी एवं महातपस्वी शतानन्द जी के रोंगटे खड़े हो गए ॥१॥

गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसा द्योतितप्रभः ।

रामसन्दर्शनादेव परं विस्मयमागतः ॥२॥

शतानन्द जी महर्षि गौतम के ज्येष्ठपुत्र थे और तपःप्रभाव से जगमगा रहे थे । वे श्रीरामचन्द्र जी का दर्शन कर, बड़े विस्मित हुए ॥२॥

स तौ निपण्णौ सम्प्रेक्ष्य सुखासीनौ नृपात्मजौ ।

शतानन्दो मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रमथाब्रवीत् ॥३॥

दोनों राजकुमारों को सुख पूर्वक बैठे हुए देख कर, शतानन्द जी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से बोले ॥३॥

अपि ते मुनिशार्दूल मम माता यशस्विनी ।

दर्शिता राजपुत्राय तपोदीर्घमुपागता ॥४॥

हे मुनिशार्दूल ! हमारी यशस्विनी माता बहुत दिनों से तपस्या करती थी, क्या आपने उसे श्रीरामचन्द्र जी को दिखाया था ? ॥४॥

अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी ।

वन्यैरुपाहरत् पूजां पूजाहं नर्वदेहिनाम् ॥५॥

क्या मेरी माता ने सब प्राणियों के पूज्य श्रीरामचन्द्र जी का फलमूलादि वन्य पदार्थों से सत्कार किया था ? ॥५॥

अपि रामाय कथितं यथावृत्तं पुरातनम् ।

मम मातुर्महातेजो दैवेन दुरनुष्ठितम् ॥६॥

इन्द्र ने मेरी माता के प्रति जो दुराचार किया था, वह प्राचीन वृत्तान्त क्या आपने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ? ॥६॥

अपि काँशिक भद्रं ते गुरुणा^१ मम सङ्गता ।

माता मम मुनिश्रेष्ठ रामसन्दर्शनादितः ॥७॥

हे काँशिक ! यह तो कहिए कि, श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन के प्रभाव से, मेरा माता, मेरे पिता का मिल गई या नहीं ? ॥७॥

अपि मे गुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज ।

इहागतो महातेजाः पूजा प्राप्तो महात्मनः ॥८॥

हे विश्वामित्र जी ! क्या मेरे पिता ने श्रीरामचन्द्र जी का सत्कार किया था ? क्या श्रीरामचन्द्र जी उनके (मेरे पिता के) द्वारा सत्कारित हो कर, यहाँ आए हैं ? ॥८॥

अपि शान्तेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मज ।

इहागतेन रामेण प्रयतनाभिवादितः ॥९॥

हे विश्वामित्र जा ! (यह भी बतलाइए कि) आश्रम में जब मेरे शान्ताचित्त पिता आए, तब श्रीरामचन्द्र जी ने उनको प्रणाम किया था या नहीं ? (अथवा मेरी माता के दाँपों पर ध्यान दे, उन्होंने उनका तिरस्कार तो नहीं किया ?) ॥९॥

तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः ।

प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् ॥१०

शतानन्द के इन प्रश्नों को सुन, महर्षि विश्वामित्र उं बातचीत करने का ढङ्ग भली भाँति जानते थे बातचीत कः बड़े निपुण शतानन्द जी से बोले ॥१०॥

नातिक्रान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यं कृतं मया ।

सङ्गता मुनिना पत्नी भार्गवेष्वः रेणुका ॥११॥

हे मुनिप्रवर ! जो कुछ मेरे कहने सुनने करने धरने का सो मैंने कहा सुना और किया धरा । मैंने अपना कोई कर्तव्य बाकी नहीं रखा । जैसे जमदग्नि ने रेणुका को शाप दिया और पीछे अनुग्रह कर उसे अङ्गीकार किया वैसे ही आपके पिता ने भी आपकी माता के ऊपर कृपा की और उसे ग्रहण कर लिया ॥११॥

तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः ।

शतानन्दो महातेजा रामं वचनमब्रवीत् ॥१२॥

बुद्धिमान् विश्वामित्र जी के इस उत्तर को सुन, महातेज शतानन्द जी श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥१२॥

स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि रायव ।

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिमपराजितम् ॥१३॥

हे पुरुषोत्तम ! आपका आना शुभप्रद हो । यह बड़े भाग्य की बात है, जो आप विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता के प्राशन में पधारं और मेरी माता का उद्धार किया । उन महर्षि विश्वामित्र

की कहीं तक प्रशंसा की जाय ! इनका सैकड़ों ऋषि सम्मान फलने हैं ॥१३॥

अचिन्त्यकर्मा तपसा ब्रह्मर्षिरतुलप्रभः ।

विश्वामित्रो महातेजा वेत्स्येनं परमां गतिम् ॥१४॥

इसके सब कर्म अचिन्त्य हैं (अर्थात् मन और बुद्धि के प्रार्थीचर हैं, साधारण मनुष्य की समझ में नहीं आ सकते ।)
 खण्ड, आप तपोबल से राजर्षि से ब्रह्मर्षि हो गए । फिर ऋषियों में भी साधारण ब्रह्मर्षि नहीं । प्रत्युत अमित प्रभावशाली हैं । इन महातेजस्वी विश्वामित्र जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ । यह आपके परम हितैषी हैं (अथवा जगत के परम हितैषी हैं ।) ॥१४॥

नास्ति धन्यतरां राम त्वत्ताञ्जयो भुवि कश्चन ।

गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः ॥१५॥

हे राम ! आपसे अधिक बढ़ कर धन्य इस भूतल पर और नहीं है, जिनके रक्षक महातपस्वी विश्वामित्र जी हैं ॥१५॥

श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः ।

यथा बलं यथा वृत्तं तन्मे निगदतः शृणु ॥१६॥

हे राम ! मुनिए, मैं महात्मा विश्वामित्र जी के बल का और इनका वृत्तान्त कहता हूँ ॥१६॥

राजाभ्रदेय धर्मात्मा दीर्घकालमरिन्दमः ।

धमत्तः कृत्विव्यश्च भ्रजानां च हितं गतः ॥१७॥

१ परमान्तिम्— तवपरमहितप्रदं । (गो०)

हे अरिन्दम ! पहले बहुत दिनों तक यह एक बड़े धर्मात्मा, शत्रुनाशक, सब विद्याएँ पढ़े हुए और प्रजापालन में तत्पर राजा रह चुके हैं ॥१७॥

प्रजापतिसुतस्त्वासीत्कुशो नाम महीपतिः ।

कुशस्य पुत्रो बलवान्कुशनाभः सुधार्मिकः ॥१८॥

प्रजापति के पुत्र कुश नाम के एक राजा हो गए हैं । उनके पुत्र कुशनाभ बड़े बलवान् और धर्मात्मा राजा हुए ॥१८॥

कुशनाभसुतस्त्वासीद्गाधिरित्येव विश्रुतः ।

गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥१९॥

कुशनाभ के प्रसिद्ध गाधि नामक पुत्र हुए । उन्हीं राजा गाधि के यह महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी पुत्र हैं ॥१९॥

विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीम् ।

बहुवर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत् ॥२०॥

महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने राजा हो कर हजारों वर्षों तक पृथिवी का पालन और राज्य किया ॥२०॥

कदाचित्तु महातेजा योजयित्वा वरुथिनीम् ।

अक्षौहिणीपण्डितः परिचक्राम मेदिनीम् ॥२१॥

एक बार राजा विश्वामित्र सेना इकट्ठी कर और एक पक्षी-हिणी सेना साथ ले घूमने के लिए (दौरा करने में) निकले ॥२१॥

नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च तथा गिरीन् ।

आश्रमान् क्रमशो राम विचरन्नाजगाम ह ॥२२॥

हे राम ! अनेक नगरों, राज्यों, नदियों, पर्वतों और ऋष्याश्रमों
को मन्नाते हुए ॥२२॥

वसिष्ठस्याश्रमपदं नानावृक्षलताकुलम् ।

नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितम् ॥२३॥

वसिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे । वसिष्ठ जी का आश्रम तरह
तरह के पक्षियों और लताओं से भरा पूरा और भाँति भाँति के
जीवां से शोभायमान हो रहा था । उसमें सिद्धचारण रहते
थे ॥२३॥

देवदानवगन्धर्वैः किन्नरैरुपशोभितम् ।

प्रशान्तहरिणाकीर्णं द्विजसङ्घनिषेवितम् ॥२४॥

देव, दानव, गन्धव, किन्नर भी उसकी शोभा बढ़ाते थे । वह
शान्तस्वभाव हिरणो से भरा पुरा था और ब्राह्मणगण भी वहाँ
वास करते थे ॥२४॥

ब्रह्मर्षिगणसङ्कीर्णं देवर्षिगणसेवितम् ।

तपश्चरणासंसिद्धैरग्निकल्पैर्महात्मभिः ॥२५॥

उसमें ब्रह्मर्षि और देवर्षि भी वास करते थे । तपश्चर्या से वे
अग्नि के समान देदीप्यमान थे ॥२५॥

सततं सङ्कुलं श्रीमद्ब्रह्मकल्पैर्महात्मभिः ।

अन्धर्षयायुर्भक्षैश्च शीर्णपर्णाशनैस्तथा ॥२६॥

वह आश्रम सदैव ब्रह्मा के समान वेदों की शाखाओं में
विभाग करने वाले महात्माओं से मदा भरा रहता था । इनमें

कोई तो केवल जल पी कर, कोई कोई केवल वायु भक्षण कर,
कोई कोई सूखी पत्तियों खा कर, ॥२६॥

फलमूलाशनैर्दान्तैर्जितरोपैर्जितेन्द्रियैः ।

ऋषिभिर्वालस्त्रिल्यैश्च जपहोमपरायणैः ॥२७॥

और कोई कोई फल मूल खा कर रहते थे । यहाँ अपने मन
और इन्द्रियों को अपने वश में रखने वाले ऋषि तथा वालस्त्रिल्य
(ब्रह्मचारी) सहस्रों थे । यहाँ कोई भी ऋषि ऐसा न था, जो
नियत समय पर (सन्ध्योपासन,) जप, अग्निहोत्र न करता
॥२७॥

अन्यैर्वै खानसैश्चैव समन्तादुपशांभितम् ।

वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलोकमिवापरम् ।

ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः ॥२८॥

इति एकपञ्चाशः सर्गः ॥

इनके अतिरिक्त उस आश्रम के चारों ओर अनेक वानप्रस्थ
भी रहते थे । (कहीं तक वर्णन करें) वसिष्ठ महाराज का आश्रम
क्या था—मानो दूसरा ब्रह्मलोक ही था । वीरश्रेष्ठ महाबली राजा
विश्वामित्र ने वसिष्ठ जी के ऐसे आश्रम को देखा ॥२८॥

वालकाण्ड या इन्द्रावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:१:—

६ जयतां—शश्यां (२८) ।

द्विपञ्चाशः सर्गः

—:०:—

स दृष्ट्वा परमर्षातो विश्वामित्रो महाबलः ।

प्रणम्य विधिना वीरो वसिष्ठं जपतांबरम् ॥१॥

ऐसे आश्रम को देख, महाबलवान् राजा विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और जप करने वाले में श्रेष्ठ वसिष्ठ जी को विनय सहित प्रणाम किया ॥१॥

स्वागतं तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना ।

आसनं चास्य भगवान् वसिष्ठो व्यादिदेश ह ॥२॥

वसिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत कर अथवा यह कह कर “आप बहुत अच्छे आए,” बैठने के लिए आमन दिया ॥२॥

उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते ।

यथान्यायं मुनिवरः फलमूलान्युपाहरत् ॥३॥

जब बुद्धिमान विश्वामित्र जी आसन पर बैठ गए, तब वसिष्ठ जी ने फल मूल जो वहाँ उस समय मौजूद थे, विश्वामित्र के भोजन के लिए दिए ॥३॥

प्रतिगृह्य च तां पूजां वसिष्ठाद्राजसत्तमः ।

तपोग्निहोत्रशिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छत् ॥४॥

इन प्रकार वसिष्ठ जी का सत्कार ग्रहण कर, नृपश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने वसिष्ठ जी से तप, अग्निहोत्र और शिष्य सम्बन्धी कुशल प्रश्न किए ॥४॥

विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणो^१ तथा ।

सर्वत्र कुशलं चाह वसिष्ठो राजसत्तमम् ॥५॥

वसिष्ठ जी ने इसके उत्तर में सर्वत्र और सब का—यहाँ तक कि, पेड़ों तक का कुशल नृपश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहा ॥५॥

सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपाः ।

पप्रच्छ जपतां^२ श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः ॥६॥

सुख से बैठे हुए राजा विश्वामित्र जी से महामुनि, तपस्विनों में श्रेष्ठ और ब्रह्मा जी के पुत्र वसिष्ठ जी ने पूछा ॥६॥

कच्चित्ते कुशलं राजन् कच्चिद्धर्मेण रञ्जयन् ।

प्रजाः पालयसे वीर राजवृत्तेन धार्मिक ॥७॥

हे राजन् ! आपके यहाँ तो कुशल है ? आप धर्मपूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हैं ? और राजवृत्ति से प्रजा का पालन तो करते हैं ? ॥७॥

[टिप्पणी—शास्त्रकारों ने राजवृत्ति चार प्रकार की कही है । यथा—

न्यायेनार्जनमर्थस्य वर्धनं पालनं तथा ।

सत्पात्रेऽतिपत्तिश्च राजवृत्तं चतुर्विधा ॥

अर्थात् (१) न्यायपूर्वक धन को उपार्जित करना (२) न्याय पूर्वक उसको बढ़ाना (३) न्यायपूर्वक उसकी रक्षा करना और (४) सत्पात्र वा अच्छे लोग हों, उनको दान देना]

^१ वनस्पति शब्देन वृक्षमानं, ननु विनापुत्रं फलवन्तं च ॥ (१००)

^२ जपतां —तपस्विना (१०) ।

कच्चित्तं सम्भृता भृत्याः कच्चित्तिष्ठन्ति शासने ।

कच्चित्तं विजिताः सर्वे रिपवो रिपुसूदन ॥८॥

राज्य के कर्मचारी को वेतन तो नियत समय पर दे दिया करते हो ? आपकी प्रजा आपके कहने में चलती है ? हे राजन् ! आपने अपने मव शत्रुओं को जीत तो लिया है ? ॥८॥

कच्चिद्वृत्तेषु कांशेषु मित्रेषु च परन्तप ।

कुशलं ते नरव्याघ्र पुत्रपौत्रे तवानघ ॥९॥

हे नरव्याघ्र ! हे अनघ ! आपकी सेना, धनागार, मित्र, पुत्र, पौत्रादि मव कुशल पूर्वक तो हैं ? ॥९॥

सर्वत्र कुशलं राजा वसिष्ठं प्रत्युदाहरत् ।

विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितः ॥१०॥

राजा विश्वामित्र जी इन प्रश्नों के उत्तर में वसिष्ठ जी से विनय पूर्वक बोलें कि, सब कुशलपूर्वक हैं ॥१०॥

कृत्वोभौं सुचिरं कालं धर्मिष्ठौ ताः कथाः शुभाः ।

मुदा परमया युक्तौ प्रीयेतां तौ परस्परम् ॥११॥

तदनन्तर वे दोनों बहुत देर तक प्रेमपूर्वक, तरह तरह की बातें और कथार्य कह सुन कर, एक दूसरे को प्रसन्न करते रहे ॥११॥

ततो वसिष्ठो भगवान् कथान्ते रघुनन्दन ।

विश्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच प्रहसन्निव ॥१२॥

हे रघुनन्दन ! जब विश्वामित्र जी मानचीन कर चुके, तब वसिष्ठ जी ने मुसक्या कर विश्वामित्र जी से यह कहा ॥१२॥

आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि वलस्यास्य महाबल ।

तव चैवाप्रमेयस्य यथार्हं सम्प्रतीच्छ मे ॥१३॥

हे राजन् ! यद्यपि आपके साथ बहुत बड़ी भाँड़ है, तथापि मेरी इच्छा है कि, यदि आप स्वीकार करें, तो सेना सहित आप सब की मैं आतिथ्य (महमानदारी) करूँ ॥१३॥

सत्क्रियां तु भवानेतां प्रतीच्छतु मयाद्यताम् ।

राजा त्वमतिथिश्रेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः ॥१४॥

क्योंकि हे राजन् ! आप राजा होने के कारण अनिथिश्रेष्ठ हैं। आपका आतिथ्य प्रयत्नपूर्वक करना ही उचित है। अतः मुझसे जो कुछ आतिथ्य बन वड़े उसे आप प्रयत्नपूर्वक अर्पण कर करें ॥१४॥

एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः ।

कृतमित्यग्रवीद्राजा पूजानाक्येन मे त्वया ॥१५॥

वसिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर राजा विश्वामित्र कहने लगे—हे भगवन् ! आपके इन आग्रपूर्वक कहे हुए वचनों की मे मेरा तो आतिथ्य हो चुका ॥१५॥

फलमूलेन भगवन् विद्यते गन्वाश्रमे ।

पाशेनाचमनीयेन भगवद्दर्शनेन च ॥१६॥

इसके अनिरिक्त, फलमूल, विमल जल जो आपके आश्रम में उपस्थित थे, उनमें तथा विशेष कर आपके दर्शन से मेरा आतिथ्य हो चुका ॥१६॥

सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजाहेण सुपूजितः ।

गमिष्यामि नमस्तेस्तु मंत्रेणोक्षस्व चक्षुषा ॥१७॥

हे महाप्राज्ञ ! उचित तो यह था, कि मैं आपकी पूजा करता, प्रत्युत आपने मेरा सत्कार किया। मैं अब आपको प्रणाम करता हूँ और अपने डरे को जाता हूँ। मेरे ऊपर सदा कृपादृष्टि बनाए रखिएगा ॥१७॥

[टिप्पणी—रुद्र आदि देवताओं के लिए वैदिक साहित्य में 'नमस्तं' का प्रयोग देखने में प्रायः आता है किन्तु एक राजा का एक महर्षि को 'नमस्तं' कहना यह यहीं देखने को मिलता है।]

एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्ठः पुनरेव हि ।

न्यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधीः ॥१८॥

राजा विश्वामित्र के इस प्रकार (निषेध पूर्वक) कहने पर भी उदारमत्ता वसिष्ठ जी ने न्योता स्वीकार करने के लिए राजा से बार बार आग्रह किया ॥१८॥

वाढमित्येव गाथेयो वसिष्ठं प्रत्युवाच ह ।

यथा प्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिसत्तम ॥१९॥

तब विश्वामित्र ने कहा—“बहुत अच्छा” आप जिससे प्रसन्न रहें वही ठीक है। अथवा आप मुझ पर प्रसन्न बने रहें, मुझे वही करना चाहिए ॥१९॥

एवमुक्तां महातेजा वसिष्ठो जपतांबरः ।

आजुहाव ततः प्रीतः कल्मषीं धृतकल्मषः ॥२०॥

जब विश्वामित्र ने ऐसा कहा अर्थात् वसिष्ठ जी का न्योता मान लिया; तब मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ जी ने अपनी प्यारी चित्तकवरी कल्मषेणु को बुलाया। २०॥

एहं हि शबले क्षिप्रं मृणु चापि वचो मम ।

सबलस्यास्य राजर्षेः कर्तुं व्यवसितोऽस्म्यहम् ॥२१॥

और उससे कहा—हे शबले ! यहाँ आओ और जो मैं कहता हूँ उसे सुनो । मैं सेना सहित राजर्षि विश्वामित्र की पहुनाई करना चाहता हूँ ॥२१॥

भोजनेन महार्हेण सत्कारं संविधत्स्व मे ।

यस्य यस्य यथाकामं पदसेष्वभिपूजितम् ।

तत्सर्वं कामधुक्क्षिप्रमभिवर्ष कृते मम ॥२२॥

अतः मेरे कहने से तू अच्छे अच्छे भोजनों से इनका अच्छी तरह सत्कार कर । पदरसों के पदार्थों में से, जो जिस रस का पदार्थ चाहे, उसे वही पहुँचना चाहिए । क्योंकि तुम कामधेनु ठहरी, तुम क्या नहीं दे सकती ॥२२॥

रसेनाग्नेन पानेन लेह्यचोष्येण संयुतम् ।

अन्नानां निचयं सर्वं सृजस्व शबले त्वर ॥२३॥

इति द्विपञ्चाशः सर्गः ॥

हे शबले ! तू छः प्रकार के खाद्य पदार्थों के जैसे भक्ष्य, अंघ्र्य, लेह्य, चोष्य, पेय, और खाद्य व्यञ्जनों के डेग तुम्हें लगा दे ॥२३॥

बालकारुड का जन्मनाम सर्ग पूरा हुआ ।

—:—

त्रिपञ्चाशः सर्गः

—:—

एवमुक्त्वा वनिष्ठेन शबला शत्रुमृदन ।

विदधे कामधुक्कामान् यम्य यम्य यथेप्सितम् ॥२४॥

वसिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर, शबला ने जिसको जो मनु अपेक्षित थी, उसे वही वही पहुँचा दी ॥१॥

इक्षुन् मयूस्तथा लाजान् मर्यांश्च वरासवान् ।
पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चावचांस्तथा ॥२॥

जाने के लिए उख के रस यानी शकर की बनी अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, शहद, धान के लावा: पीने के लिए मदिरा तथा तरह तरह के उत्तम आसव, प्रस्तुत किए ॥२॥

उष्णाढ्यस्यादनस्यात्र राशयः पर्वतोपमाः ।
मृष्टान्नानि च मूपाश्च दधिकुल्यास्तथैव च ॥३॥
नानास्यादुरसानां च पडसानां तथैव च ।
भोजनानि सुपूष्णानि गौडानि च सहस्रशः ॥४॥

गर्भागर्म भात के पर्वताकार ढेर लगा दिए । ग्वीर, कढ़ी, दही, मूग, आदि तरह तरह के स्वादिष्ट पदार्थात्मक हजारों पदार्थ और गुड़ की मिठाइयाँ प्रस्तुत कर दीं ॥३॥४॥

सर्वमासीलुसन्तुष्टं हृष्टं पुष्टं जनायुतम् ।
विश्वामित्रवलं राम वसिष्ठेनाभितर्पितम् ॥५॥

उन सब पदार्थों को खा पीकर और आदर सत्कार से विश्वामित्र के साथ के सब लोग अच्छी तरह वृप्त हुए और अत्यन्तानन्दित हुए । हे राम ! वसिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के साथी मंगियों का भली भाँति वृत्त किया ॥५॥

१ उच्चावचान्—नानाप्रकारान् (गो०) । २ गौडानि=गुडविकाराः (गो०) । ३ हृष्टः आदरेण (गो०) । ४ पुष्टः भोजनादिना (गो०) ।

विश्वामित्रोऽपि राजर्षिर्हृष्टः पुष्टस्तदाभवत् ।

सान्तःपुरवरो राजा सत्राह्मणपुगेहितः ॥६॥

राजर्षि विश्वामित्र जी भी अपने पुगेहित, मंत्री, दीवान मद्र के साथ अपूर्व पदार्थ भोजन कर तथा महर्षि के आदेश मत्कार से बहुत प्रसन्न हुए ॥६॥

सामात्यो मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूजितस्तदा ।

युक्तः परमहर्षेण वसिष्ठमिदमब्रवीत् ॥७॥

जब नौकर चाकर मंत्री, दीवान, सेना आदि के साथ विश्वामित्र जी भलीभाँति सत्कारित हो चुके, तब परम प्रसन्नता के साथ वसिष्ठ जी से बोले ॥७॥

पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसत्कृतः ।

श्रयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद ॥८॥

हे ब्रह्मन् ! आपने पूज्य होकर भी मेरा अच्छा सत्कार किया ! हे वाक्यविशारद ! अब मैं कुछ कहता हूँ, उसे आप सुनें ॥८॥

गवां शतसहस्रेण दीयतां शवला मम ।

रत्नं हि भगवन्नेतद्रत्नहारी च पार्थिवः ॥९॥

हे भगवन् ! आप अपनी इस शवला गा के बदले मुझसे एक लाख गौएँ ले लें और इसे मुझे दे दें । कारण यह है कि, शवला एक रत्न है और रत्न रखने का राजा ही अधिकारी है ॥९॥

तस्मान्मे शवलां देहि ममेवा धर्मतो द्विज ।

एवमुक्तस्तु भगवान् वमिष्टो मुनिस्ततः ॥१०॥

विश्वामित्रेण धर्मान्मा प्रत्युवाच मर्षापतिम् ।

नाहं शतसहस्रेण नापि काटिशर्तैर्गताम् ॥११॥

विश्वामित्र ने धर्मपति को प्रत्युवाच । मैं शतसहस्रेण नापि काटिशर्तैर्गताम् ॥११॥

हे द्विज ! अतः इस गौ को आप मुझे दे दें । धर्म की दृष्टि से यह मेरी ही है । जब मुनिश्रेष्ठ भगवान् वसिष्ठ जी से विश्वामित्र जी ने इस प्रकार कहा, तब धर्मात्मा वसिष्ठ जी राजा से बोले । हे राजन् ! एक लाख गौओं की तो बात ही क्या, एक करोड़ गौएँ भी यदि आप शबला के बदले में दें ॥१०॥११॥

राजन्द्रास्यामि शबलां राशिभी रजतस्य वा ।

न परित्यागमर्हेयं मत्सकाशादरिन्दम ॥१२॥

अथवा इसके बदले आप चाँदी का ढेर देना चाहें, तो भी मैं शबला आपको नहीं दे सकता । हे राजन् ! यह मेरे यहाँ से जाने योग्य नहीं है ॥१२॥

शाश्वती शबला मह्यं कीर्तिरात्मवतो यथा ।

अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च ॥१३॥

क्योंकि जिस प्रकार मनस्वी पुरुष का अपनी कीर्ति से प्रबन्ध होता है, उसी प्रकार शबला का मुझसे सम्बन्ध है । इसीके द्वारा मेरे देव और पितृ सम्बन्धी कार्यों का तथा मेरा निर्वाह होता है ॥१३॥

आयत्तमग्निहोत्रं च बलिर्होमस्तथैव च ।

स्वाहाकारवषट्कारां विद्याश्च विविधास्तथा ॥१४॥

मेरे अग्निहोत्र बलिवैश्वश्वदेव, स्वाहा, स्वधा, वषट्कार और विविध प्रकार की विद्याएँ, इसीके सहारे चलती हैं ॥१४॥

आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः ।

सर्वस्वमेतत्सत्येन मम तुष्टिकरी सदा ॥१५॥

हे राजर्षे ! कहाँ तक कहूँ, आप निश्चय जानिए मेरा तो सब काम यही चलाती है । यह मेरा सर्वस्व है । इसीसे मैं सदा

सन्तुष्ट चित्त रहता हूँ । (अर्थात् मुझे किसी से कुछ माँगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ॥१५॥

कारणैर्वह्नुभी राजन्न दास्ये गवलां तव ।

वसिष्ठेनैवमुक्तस्तु विश्वामित्रोऽब्रवीत्ततः ॥१६॥

संरब्धतरमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः ।

हैरण्यकक्ष्याग्रैवेयान् सुवर्णाङ्कुशभूषितान् ॥१७॥

इनके अतिरिक्त और भी अनेक कारण इसे न देने के हैं ।

अतः हे राजन ! शबला को तो मैं आपको न दूँगा । वसिष्ठ जी का यह उत्तर सुन, विश्वामित्र जी अत्यन्त आवेश में भर आग्रह पूर्वक कहने लगे । हे मुनिवर ! सोने के घंटो, सोने के अभूषणों और सोने के अंकुशों से भूषित ॥१६॥१७॥

ददामि कुञ्जराणां ते सहस्राणि चतुर्दश ।

हैरण्यानां रथानां ते श्वेताश्वानां चतुर्युजाम् ॥१८॥

ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितान् ।

हयानां देशजातानां कुलजानां महोजसाम् ॥१९॥

चौदह हजार हाथी मैं देता हूँ (इतना ही नहीं) चार चार सफेद घोड़ों वाले बड़े सुन्दर सोने के एक सौ आठ रथ देता हूँ । साथ ही अन्धही नरल के विसावर्ग और सुवर्ण के अभूषणों से सुसज्जित ॥१८॥१९॥

सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुव्रत ।

नानावर्णविभक्तानां वयःस्थानां तथैव च ॥२०॥

चारह हजार घोड़े तुमको देता हूँ । इनके अतिरिक्त दश तरह के रत्नों वाली जवान ॥२०॥

ददाम्येकां गवां कोटिं शबला दीयतां मम ।

यावदिच्छसि रत्नं वा हिरण्यं वा द्विजोत्तम ॥२१॥

करोड़ों गौएँ देता हूँ । आप मुझे शबला दे दें । हे द्विजोत्तम !
आप जितने रत्न और जितना सोना चाहें ॥२१॥

तावद्दास्यामि तत्सर्वं शबला दीयतां मम ।

एवमुक्तस्तु भगवान्विश्वामित्रेण धीमता ॥२२॥

[टिप्पणी—विश्वामित्र के वार्तालाप से पता चलता है कि वे बड़े ही विचारवान, सुमध्य शिष्टाचार में निपुण और ब्राह्मणभक्त थे । वसिष्ठ जी को सांसारिक सम्पत्ति का प्रलोभ दिखला कर उनसे उनका सर्वस्व-शबला को माँगना आश्चर्य में डालने वाला है । स्वार्थान्ध व्यक्ति को सदसद् का विवेक नहीं रह जाता ।]

मैं सब देने को तैयार हूँ । आप मुझे शबला दे ही दें । इस प्रकार विश्वामित्र जी के कहने पर भी बुद्धिमान् ॥२२॥

न दास्यामीति शबलां प्राह राजन् कथञ्चन ।

एतद्व हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम् ॥२३॥

वसिष्ठ जा ने कहा कि, हे राजन् ! शबला को तो मैं किसी तरह भी नहीं द सकता, क्योंकि मेरे लिए तो शबला मेरा रत्न और शबला ही मेरा धन है ॥२३॥

एतद्व हि सर्वस्वमेतद्व हि जीवितम् ।

दर्शश्च पूर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणाः ।

एतद्व हि मे राजन् विविधाश्च क्रियास्तथा ॥२४॥

शबला ही मेरा सर्वस्व है और शबला ही मेरा जीवन है ।
यही मेरे पौर्णमास और दश यज्ञों की, जो विविध दक्षिणा युक्त
किए जाते हैं, (अर्थात् जिनमें बहुत दक्षिणा दी जाती है) तथा
अन्य क्रियाओं की आधारभूता है अर्थात् इसके महारे में उक्त
सब यज्ञ किआ करता हूँ ॥२५॥

अदामूलाः क्रियाः सर्वा मम राजन् न संशयः ।

बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम् ॥२५॥

इति त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥

हे राजन् ! बहुत बकने की क्या आवश्यकता है, सारांश यह
है कि,) मैं सब क्रिया की मूल, इस कामधेनु को नहीं दूँगा ॥२५॥

बालकाण्ड का त्रिपवनां सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❀:—

चतुःपञ्चाशः सर्गः

—:❀:—

कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः ।

तदास्य शबलां राम विश्वामित्रोऽन्वकर्षत ॥२६॥

हे राम ! जब विश्वामित्र ने देखा कि, वसिष्ठ जी अपनी
रजासंदा से वह गौ नहीं देंगे, तब वे तदग्दस्त्री नर नाद धरे
खोल कर ले जाने लगे ॥२६॥

नीयमाना तु शबला राम राज्ञा महात्मना ।

दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककशिता ॥२६॥

हे राम ! जब राजा विश्वामित्र गौ को जवरदस्ती ले जाने लगे, तब दुःखी हां, वह रोने लगी और मारे शोक के विकल हो अपने मन में सोचने लगी ॥२॥

परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना ।

याऽहं राजभटैर्दीना द्वियेय भृशदुःखिता ॥३॥

महात्मा वसिष्ठ जी ने मुझे क्यों त्यागा ? मैंने तो उनका कोई अपराध भी नहीं किया । फिर क्यों राजा के भट (नौकर) मुझ दुःखिनी को जवरदस्ती पकड़ कर लिए जाते हैं ॥३॥

किं मयाऽपकृतं तस्य महर्षेर्भावितात्मनः ।

यन्मामनागमं शक्त्यामिष्टां त्यजति धार्मिकः ॥४॥

महासिद्ध महान्ना महर्षि वसिष्ठ का मैंने कौन अपराध किया जो मुझ निर्दोषिनी, अनुरागिनी और प्यारी को धार्मिक दुःखिनी प्रवर त्यागे देते हैं ॥४॥

इति सा चिन्तयित्वा तु विनिःश्वस्य पुनः पुनः ।

निर्धूय तांस्तदा भृन्याञ्जशतशः शत्रुसूदन ॥५॥

जगामानिलवेगेन पादमूलं महात्मनः ।

शबला सा रुदन्ती च क्रोशन्ती चेदमब्रवीत् ॥६॥

शबला गौ ऐसा सोच और वारंवार ऊँची साँसे ले तब नैकड़ों वार गजकर्मचारियों के हाथ से अपने को छुड़वायुवेग से भागी और वसिष्ठ जी के चरणों में जा गिरी तब वह जोर से चिन्तानती और रोती हुई कहने लगी ॥५॥६॥

वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदन्ती मेघनिःस्वना ।

भगवन् किं परित्यक्ता त्वयाऽहं ब्रह्मणः मुत ॥७॥

वसिष्ठ जी के सामने खड़ी हो, रोती हुई, मेघ के नमान उच्च स्वर से बोली—हे भगवन् ! हे ब्रह्मा के पुत्र ! क्या आपने मुझे त्याग दिखा ? ॥७॥

यस्माद्राजभटा मां हि नयन्ते त्वत्सकाशतः ।

एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षिरिदं वचनमब्रवीत् ॥८॥

जो आपके यहाँ से मुझे राजा के सिपाही लिए जा रहे हैं ? यह सुन कर ब्रह्मर्षि वसिष्ठ जी ने कहा ॥८॥

शोकसन्तप्तहृदयां स्वसारमिव दुःखिताम् ।

न त्वां त्यजामि शबले नापि मेऽपकृतं त्वया ॥९॥

वे परम दुःखित हो शबला से उसी प्रकार बोले जैसे कोई अपनी वहिन को दुखी देख उससे कहता है । हे शबले ! न तो तुझे कोई मेरा अपकार किया और न मैं अपनी इन्द्रा से तेरा परित्याग ही कर रहा हूँ ॥९॥

एष त्वां नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः ।

न हि तुल्यं बलं मयं राजा त्वद्य विशेषतः ॥१०॥

बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च ।

इयमर्शौहिणी पूर्णा सयाजिरथमङ्गुला ॥११॥

हस्तिध्वजसमार्कार्णा तेनार्ना बलवत्तरः ।

एवमुक्ता वसिष्ठेन प्रन्युवाच विर्नातयन् ॥१२॥

वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मर्षिममितप्रभम् ।

न वलं क्षत्रियस्याहुर्ब्राह्मणो बलवत्तरः ॥१३॥

यह राजा बल से मत्त हो बरजोरी मुक्से छान कर, तुम्हे लिए जाता है। मेरे पास राजा के बराबर सैन्यबल नहीं है। फिर एक तो वह राजा, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे पृथिवी का मालिक है। बाँड़ों रथों और हाथियों से परिपूर्ण इसके साथ एक बड़ी भारी सेना है। अतः वह मुक्से बल में अधिक है। वसिष्ठ जी के यह कहने पर, वार्तालाप में चतुर, उत्तर में, वह शबला अमित प्रभाव वाले ब्रह्मर्षि वसिष्ठ जी से बोली कि, हे ब्रह्मर्षे ! ब्राह्मणों के बल के मामले क्षत्रियों का बल तुच्छ है ॥१०॥११॥१२॥१३॥

ब्रह्मन् ब्रह्मवलं दिव्यं क्षत्रात्तु बलवत्तरम् ।

अप्रमेयवलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः ॥१४॥

हे ब्रह्मन् ! क्योंकि ब्राह्मणों का बल दिव्य (अर्थात् तपस्या का बल) होता है, अतः क्षत्रियबल (शारीरिक बल से) वह बहुत अधिक है। आपमें अनुलित बल है। वह अर्थात् क्षत्रिय राजा बल में आपका मामना नहीं कर सकता ॥१४॥

विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तव दुरासदम् ।

नियुङ्क्ष्व मां महाभाग त्वद्ब्रह्मवलसम्भृताम् ॥१५॥

विश्वामित्र अवश्य ही बड़ा बलवान है, किन्तु आपका (तपस्या का) तेज उसके लिए दुःमह है। हे महाभाग ! मुझे आप प्राज्ञा दीजिए तो मैं आपके ब्रह्मबल के प्रनाप से ॥१५॥

नस्य दर्पवलं यत्तन्नाशयामि दुरात्मनः ।

अन्युक्तस्तु नया राम वसिष्ठस्तु महायज्ञाः ॥१६॥

इस दुष्ट के बल का गर्व नष्ट कर दूँ। हे राम ! शत्रुता के यह वचन सुन महायशी वसिष्ठ जी ॥१६॥

सृजस्येति तदोवाच बलं परबलारुजम् ।

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सासृज्जत्तदा ॥१७॥

उससे बोले, अच्छा, तुम अपने बल से ऐसी सेना उत्पन्न करो जो शत्रु के (सैनिक) बल को मीज डाले। यह सुन गयना ने वैसी ही सेना उत्पन्न कर दी ॥१७॥

तस्या हुम्भारवोन्मृष्टाः पशुवाः शतशो नृप ।

नाशयन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः ॥१८॥

शत्रुता के "हुँमा" शब्द करने से, मैकड़ों (एक प्रकार के) म्लेच्छ उत्पन्न हो गए और विश्वामित्र की आँखों के सामने उनका अमल सेना का नाश करने लगे ॥१८॥

बलं भयं ततो दृष्ट्वा रथेनाक्रम्य कौशिकः ।

स राजा परमक्रुद्धो रोपविस्फारितेक्षणः ॥१९॥

तब अपनी सेना को नष्ट हुआ देख, राजा विश्वामित्र परम क्रुद्ध हुए और लाल लाल नेत्र कर रथ में बैठ आक्रमण किया, ॥१९॥

पशुवान्नाशयामास शर्वरुचावचैरपि ।

विश्वामित्रार्दितान्दृष्ट्वा पशुवाञ्छतशस्तदा ॥२०॥

और नाना प्रकार के छोटे बड़े प्यायुधों से पसवों (म्लेच्छ विशेष) को मार डाला। तब सैकड़ों पसवों या विश्वामित्र के राध से मारा जाना देख ॥२०॥

भूय एवामृजत्कोपाच्छकान् यवनमिश्रितान् ।
तैरासीत्संवृता भूमिः शकैर्यवनमिश्रितैः ॥२१॥

शबला ने क्रोध में भर यवनों सहित शकों (म्मेच्छों की एक जाति के लोगों) को उत्पन्न किया । इन यवनों और शकों से पृथिवी पूर्ण हो गई ॥२१॥

प्रभायद्रिमहार्वायैहेमकिञ्जल्कसन्निभैः ।
दीर्घासिपट्टिशयरेहेमवर्णाम्बरावृतैः ।
निर्दग्धं तद्वलं सर्वं प्रदीप्तैरिव पावकैः ॥२२॥

ये सब शक यवनादि बड़े तेजस्वी महापराक्रमी थे । सब के जगिर का रंग सुवर्ण की तरह चमकीला था । सब के सब पीली पोशाकें पहने हुए थे । बड़ी बड़ी तलवारें, व पटा, हाथों में लिए हुए थे । इन सब ने प्रदीप्त अग्नि की तरह विश्वामित्र के सैनिकों को दग्ध (अर्थान् नष्ट) कर डाला ॥२२॥

तताञ्छ्वाणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोच ह ।
तैस्तैर्यवनकाम्भोजाः पल्लवाश्चाकुलीकृताः ॥२३॥

इति चतुःपञ्चागः सर्गः ॥

तब महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने अन्न छोड़े, जिनसे वे सब यवन, *काम्भोज और पल्लव विकल हो गए ॥२३॥

बालकाण्ड का चौथरनवां सर्ग पूरा हुआ ।

—:०:—

* काम्भोज निपथ पर्वत के दक्षिण में बतलाया गया है । वहीं के निवासी "काम्भोजः" कहलाते हैं । इस देश की वर्तमान स्थिति अफगानिस्तान बतलाई जाती है । अश्व स्थान का अपभ्रंश "अफगानिस्तान" है ।

पञ्चपञ्चाशः सर्गः

—:—

ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वांमित्रास्त्रमोहितान् ।

वसिष्ठश्चोदयामास कामधुकसृज यागतः ॥१॥

त्रय विश्वामित्र के अर्धों शत्रुओं से उन यवनों को चम्पिष्ठ जी ने विकल देखा, तब उन्होंने शत्रुला से कहा कि, अब की मेरे कहने से योग की महिमा से और म्लेच्छ उत्पन्न कर ॥१॥

तस्या हुम्भारवाज्जाताः काम्भोजा रविसन्निभाः ।

ऊधसः स्वथ सजाताः पपुवाः शस्त्रपाणयः ॥२॥

तब शत्रुला के हुङ्कार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्भोज नामक म्लेच्छ और स्तनों से हाथों में शस्त्र लिए पल्लव उत्पन्न हुए ॥२॥

योनिदेशाच्च यवनाः शकृद्देशाच्छकास्तथा ।

रोमकूपेषु च म्लेच्छा दारीताः सकिरानकाः ॥३॥

योनि से यवन, गुदा से शक और रोमों से म्लेच्छ, दारीत और किरात उत्पन्न हुए ॥३॥

तैस्तैर्निष्पृदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् ।

सपदातिगजं साश्वं सरथं रघुनन्दन ॥४॥

हे राम ! इन लोगों ने विश्वामित्र की हाथियों घोड़ों गधों और पैदल सैनिकों सहित सारी सेना, तुरन्त नष्ट कर दी ॥४॥

१ ऊधसः—स्तनात् (गो०) ।

दृष्ट्वा निष्प्रदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना ।

विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम् ॥५॥

इस प्रकार अपनी सेना का वसिष्ठ जी द्वारा नाश देख, विश्वामित्र जी के मौ पुत्र अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले ॥५॥

अभ्यधावत्सुमंक्रुद्धं वसिष्ठं जपतांवरम् ।

हुङ्कारेणैव तान् सर्वान् ददाह भगवानृषिः ॥६॥

आर क्रुद्ध हो, नपस्वियों में श्रेष्ठ वसिष्ठ जी के ऊपर दौड़े, किन्तु भगवान् वसिष्ठ जी ने "हुङ्कार" कर, उन सब को भस्म कर डाला ॥६॥

न माश्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना ।

भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तदा ॥७॥

राजकुमारों के साथ जो घोड़े, रथ और पैदल सिपाही थे उनको भी राजकुमारों के साथ ही महात्मा वसिष्ठ जी ने जग भर में भस्म कर डाला ॥७॥

दृष्ट्वा विनाशितान् पुत्रान् बलं च सुमहायशाः ।

सत्रोडश्चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रोऽभवत्तदा ॥८॥

बड़े यशस्वी राजा विश्वामित्र अपने मौ पुत्रों को सैन्य सहित नष्ट हुआ देख, अत्यन्त लज्जित हो, चिन्तामग्न हो गए ॥८॥

समुद्र इव निर्वगो भग्नदंष्ट्र इवोरगः ।

उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्पभतां गतः ॥९॥

वे वेगरहित नमुद्र, विषदन्त रहित सर्प और राहुप्रस्तिन
सूर्य की तरह निष्प्रभ (तंजहीन) हो गए ॥६॥

हतपुत्रवलां दीनो लूनपक्ष इव द्विजः ।

हतदर्पो हतोत्साहां निर्वेदं समपद्यत ॥१०॥

वे अपने पुत्रों और सेना के मारे जाने से पत्तरहित पक्षी की
तरह दीन हो गए । वे दर्पहत और हनोत्साह हो, अत्यन्त दुःखिन
हुए ॥१०॥

स पुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च ।

पृथिवीं क्षत्रधर्मेण वनमेवान्त्रपद्यत ॥११॥

(वचे हुए) एक पुत्र को राज्य सौंप और क्षत्रधर्म से राज्य
करने का उसे उपदेश दे, वे स्वयं वन को चल दिए ॥११॥

स गत्या हिमवत्पार्श्वफिन्नरोग्गसेवितम् ।

महादेवप्रसादार्थं तपस्तेपे महानपाः ॥१२॥

वे हिमालय पर उभ जगद गए जहाँ फिन्नर और उरग रहते
थे और भगवान् शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने
लगे ॥१२॥

केनचित्त्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः ।

दर्शयामास वरदा विश्वामित्रं महाबलम् ॥१३॥

कुछ काल के बाद, वरदान्नी भगवान् वृषभध्वज महादेव जी
महाबली विश्वामित्र जी के प्राणे प्रकट हुए ॥१३॥

किमर्थं तप्यसे राजन् ब्रूहि यत्ते विवाक्षितम् ।

वरदोऽस्मि वगो यस्ते कांक्षितः सोऽर्धियायताम् ॥१४॥

वे बोले—हे राजन् ! तुम किस लिए तप कर रहे हो ?
वनलाओ तुम क्या चाहते हो ? जो तुम माँगो, वही धर देने को
मैं प्रस्तुत हूँ ॥१४॥

एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः ।

प्रणिपत्य महादेवमिदं वचनमब्रवीत् ॥१५॥

महादेव जी के ये वचन सुन, महातपस्वी विश्वामित्र उनको
प्रणाम कर यह बोले ॥१५॥

यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानव ।

१साङ्गापाङ्गापनिपदः सरहस्यः प्रदीयताम् ॥१६॥

हे महादेव ! हे अनव ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो
श्रद्धा, उपाङ्ग, उपनिपद् तथा रहस्य सहित, धनुर्वेद मुझे बतला
दीजिए ॥१६॥

यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु ।

गन्धर्वयक्षरक्षःसु प्रांतभान्तु ममानव ॥१७॥

जिन प्रसिद्ध अस्त्रों का प्रचार दानवों, महर्षियों, गन्धर्वों, यक्षों
और राक्षसों में हैं, वे सब ॥१७॥

तव प्रसादाद्भवतु देवदेव ममेप्सितम् ।

एवमस्त्विति देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा ॥१८॥

हे देवों के देव ! आपके अनुग्रह से मुझे प्राप्त हों । यह वर
माँगने पर महादेव जी “एवमन्तु” अर्थात्, ऐसा ही हो, कह कर
चले गए ॥१८॥

१ अद्भ्यः = सन्निपत्योपकारकम् । उपाङ्गम् = शरार्द्रुपकारकम् ।
उपनिपत् = रहस्य मन्त्रः । (गो०)

प्राप्य चास्त्राणि देवेशाद्विश्वामित्रो महाबलः ।

दर्पेण महता युक्तो दर्पपूर्णोऽभवत्तदा ॥१६॥

महादेव जी से अस्त्रों को पा कर महाबल' विश्वामित्र महान
दर्प से युक्त हो अभिमान में दूब गए ॥१६॥

विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव र्वर्षिण ।

हतमेव तदा मेने वसिष्ठमृपिसत्तमम् ॥२०॥

वे बल में ऐसे बढ़े, जैसे पर्वकाल में (अर्थात् पूर्णिमा के
दिन) चन्द्रमा को देख समुद्र बढ़ता है । उन्होंने अपने मन में
निश्चित कर लिया कि, वसिष्ठ अब मेरे ही धरे हैं ॥२०॥

ततो गत्वाऽऽश्रमपदं मुमोचास्त्राणि पार्थिवः ।

यैस्तत्तपोवनं सर्वं निर्दग्धं चास्त्रतेजसा ॥२१॥

तदनन्तर राजा विश्वामित्र, वसिष्ठ जी के आश्रम पर पहुँचे
और अस्त्रों की वर्षा करने लगे । उन अस्त्रों की आग से वन
(हराभरा) तपोवन जल उठा ॥२१॥

उदीर्यमाणमस्त्रं नद्विश्वामित्रस्य धीमतः ।

दृष्ट्वा विप्रदृता भीता मुनयः शतशो दिशः ॥२२॥

विश्वामित्र जी के अस्त्रों का प्रयोग देख (उन तपोवन वाली)
सैकड़ों मुनि भयभीत हो चारों ओर भाग गए ॥२२॥

वसिष्ठस्य च ये शिष्यास्तथैव मृगपक्षिणः ।

विद्रवन्ति भयाद्भीता नानादिग्भ्यः महत्प्रशः ॥२३॥

वसिष्ठ जी के जो शिष्य थे तथा जो हज़ारों पशु पक्षी वहाँ
रहते थे, वे भी सब भयभीत हो, चारों ओर भाग गए ॥२३॥

वसिष्ठस्याश्रमपदं शून्यमासीन् महात्मनः ।

मुहूर्तमिव निःशब्दमासीदिरिणसन्निभम् ॥२४॥

महात्मा वसिष्ठ जी के आश्रम में एक भी जीवधारी न रहा ।
गड़ी भर में ही वहाँ नन्नाटा झा गया अथवा वह आश्रम ऊसर
भूमि की तरह उजाड़ हो गया ॥२४॥

वदतो वै वसिष्ठस्य सा भैरिति मुहुर्मुहुः ।

नाश्याम्यत्र गाधेयं नीहारमिव भास्करः ॥२५॥

वसिष्ठ जी उन सब से बार बार चिल्ला चिल्ला कर यह कहते
जाते थे कि, डरो मत ! डरो मत ! मैं विश्वामित्र का अश्रम
उसी प्रकार नाश किए डालता हूँ जैसे मूर्य कोहरे का नाश करते
हैं ॥२५॥

एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपत.वरः ।

विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोपमिदमब्रवीत् ॥२६॥

उन सब से यह कह कर, तपस्विप्रवर वसिष्ठ जी ने रोप में
भर विश्वामित्र जी से यह कहा ॥२६॥

आश्रमं चिगसंवृद्धं यद्विनाशितवानसि ।

दुर्गचारोसि यन्मूढ तस्मात्त्वं न भविष्यसि ॥२७॥

तूने मेरे बहुत पुगने और भरे पूरे इस आश्रम को नष्ट कर
दिया है । अतएव हे दुर्गचारी और मूढ़ ! अब तू न बचने
पावेगा ॥२७॥

इत्युक्त्वा परमक्रुद्धा दण्डमुग्रम्य सत्वरः ।

विभ्रूममिव कालाग्निं यमदण्डमिवापरम् ॥२८॥

इति पञ्चमब्राह्मणः सर्गः ॥

यह कह कर, वसिष्ठ जी ने क्रोध पूर्वक वड़े देग से अपना दण्ड उठाया जो धूमरहित कालाग्नि के समान अध्वर, दृग्गन्धमदण्ड जैसा (भयङ्कर) था ॥२१॥

बालकाण्ड का पंचपनवें सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

षट्पञ्चाशः सर्गः

—:०:—

६२) एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः ।

आग्नेयमन्त्रमुत्क्षिप्य तिष्ठ तिष्ठन्ति चात्रर्वात् ॥१॥

वसिष्ठ जी के ऐसे कटोर वचन सुन कर, महाबली विश्वामित्र ने आग्नेयाम्ब उठाया और कहा खड़ा रह ! खड़ा रह ! ॥१॥

ब्रह्मदण्डं समुत्क्षिप्य कालदण्डमिवापरम् ।

वसिष्ठो भगवान् क्रोधादिदं वचनमब्रवीत् ॥२॥

वसिष्ठ जी ने भी दूसरे कालदण्ड के समान ब्रह्मदण्ड उठा कर क्रोधपूर्वक विश्वामित्र से यह कहा ॥२॥

क्षत्रवन्धोः स्थितोऽस्म्येन यद्वनं तद्विदर्शय ।

नाशयाम्यद्य ते दर्पं शत्रुस्य तव गाधिज ॥३॥

अरे जत्रियों में नाच ! ले मैं खड़ा हूँ । तुने महादेव से जो ऋष शत्रु प्राप्त किए हैं, उन सब को मेरे डण्ड चला । अरे गाधियों के शत्रुओं ! तुम जो इन ऋषियों की शत्रु हैं उन्हे मैं शत्रु ही के लिए देता हूँ ॥३॥

क च ते क्षत्रियवत्सं क च ब्रह्मवत्सं महत् ।

पश्य ब्रह्मवत्सं दिव्यं मम क्षत्रियपांसन ॥४॥

अरे कहाँ क्षत्रियों का पशुवत् ! और कहाँ ब्राह्मणों का बड़ा नपवत् ! ओ क्षत्रियाधम ! मेरा दिव्य ब्रह्मवत् देख ॥४॥

तस्यास्त्रं गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुद्यतम् ।

ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमग्नेर्वेग इवाम्भसा ॥५॥

वसिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मदण्ड से विश्वामित्र का चलाया हुआ वह भयङ्कर आग्नेयस्त्र उसी प्रकार शान्त कर दिया, जिस प्रकार जल आग को शान्त कर देता है ॥५॥

वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ।

ऐपीकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः ॥६॥

तदनन्तर विश्वामित्र ने क्रुद्ध हो वरुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत तथा ऐपीक अस्त्र चलाए ॥६॥

मानवं मोहनं चैव गान्धर्वं स्वापनं तथा ।

जृम्भणं मादनं चैव सन्तापनविलापने ॥७॥

फिर मानव, मोहन, गान्धर्व, स्वापन, जृम्भण, मादन, सन्तापन; विलापन. ॥७॥

शोषणं दाहणं चैव वज्रमस्त्रं मुदुर्जयम् ।

ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च ॥८॥

शोषण, दाहण, मुदुर्जय वज्रान्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुण-पाश. ॥८॥

पैनाकास्त्रं च दयितं शुष्कार्द्रं अशनी उभे ।

दण्डास्त्रमथ पैशाचं क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च ॥६॥

पिनाकास्त्र, प्यारा शुष्कार्द्र. दोनो अशनी. दण्डास्त्र. पैशा-
चान्त्र. क्रौञ्चास्त्र. ॥६॥

धर्मचक्रं कालचक्रं त्रिष्णुचक्रं तथैव च ।

वायव्यं मथनं चैव अस्त्रं ह्यशिरस्तथा ॥१०॥

धर्मचक्र, कालचक्र. त्रिष्णुचक्र. वायव्यास्त्र, मथनास्त्र तथा
ह्यशिरास्त्र भी चलाए ॥१०॥

शक्तिद्वयं च चिक्षेप कङ्कालं मुसलं तथा ।

वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणम् ॥११॥

तथा दोनो शक्तियों भी फेंकीं । तदनन्तर कङ्काल, मुसल,
वैद्याधर नामक महास्त्र, कठोर कालास्त्र ॥११॥

त्रिशूलमस्त्र घोरं च कापालमथ कङ्कणम् ।

एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि गघुनन्दन ॥१२॥

घोर त्रिशूल, कापाल और कङ्कणास्त्र ! हे राम ! ये सब अस्त्र
विश्वामित्र जी ने वमिष्ठ जी के ऊपर चलाए ॥१२॥

वसिष्ठे ऋषदांश्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभयत ।

तानि सर्वाणि दण्डेन प्रसूते ब्रह्मणः नूनः ॥१३॥

किन्तु ये ऋषयः कौशिक ! तदद्भुतमिवाभयत । तानि सर्वाणि दण्डेन प्रसूते ब्रह्मणः नूनः ॥१३॥
तपस्वियों में श्रेष्ठ वामिष्ठ जी ने इन सब अस्त्रों को अपने
ब्रह्मदण्ड से प्रसूत किया । अर्थात् पत्थर किया ॥१३॥

तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान् गाधिनिन्दनः ।

तदस्त्रमुद्यतं दृष्ट्वा देवाः साग्निपुरांगमाः ॥१४॥

इन सब अस्त्रों के विफल होने पर, विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए उठाया, यह देख अगत्या देव ॥१४॥

दंष्ट्रर्षयश्च सम्भ्रान्ता गन्धर्वाः समहोरगाः ।

त्रैलोक्यमासीत्संत्रस्तं ब्रह्मास्त्रं समुदीरिते ॥१५॥

देवर्षि, गन्धर्व और महोरग घबड़ा गए । ब्रह्मास्त्र के उठाते ही तीनों लोक बहुत भयभीत हुए ॥१५॥

तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मण तेजसा ।

वसिष्ठा ग्रसते सर्वं ब्रह्मदण्डेन राक्षस ॥१६॥

किन्तु, हे राम ! उस ब्रह्मास्त्र को भा अपने ब्रह्मविद्याभ्यास ज्ञानित तेज से अर्थात् ब्रह्मदण्ड से पकड़ कर, वसिष्ठ ने शान्त कर दिया ॥१६॥

ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः ।

त्रैलोक्यमोहनं रांद्रं रूपमार्सात्सुदारुणम् ॥१७॥

ब्रह्मास्त्र को ग्रस करते समय वसिष्ठ जी का तीनों लोकों को भय से मूर्च्छित करने वाला और अत्यन्त डरावना रूप हो गया ॥१७॥

रामकृपेपु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः ।

मरीच्य इव निष्पेतुर्गनेर्धूमाकुलार्चिषः ॥१८॥

उन महात्मा वसिष्ठ जी के प्रत्येक रामकृप से धूमराहित अग्नि ज्वाला की तरह चिनगारियाँ निकलन लगी ॥१८॥

१. त्रैलोक्यमोहनं = भयान्मूर्च्छाजनकार (गी०)

प्राञ्जलद्ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोत्यतः ।

विधूम इव कालाग्निर्मदण्ड इवापरः ॥१६॥

वसिष्ठ जी के हाथ का ब्रह्मदण्ड जो धूमग्हित कालाग्नि के तुल्य अथवा दूमरे यमदण्ड के समान था—जल उठा ॥१६॥

ततोऽस्तुवन् मुनिगणा वसिष्ठं जपतांवरम् ।

अमेयं ते बलं ब्रह्मंस्तजो धारय तेजसा ॥२०॥

यह देख तपस्त्रियों में श्रेष्ठ वसिष्ठ जी की अन्य मुनिगण स्तुति करने लगे और बोले—हे ब्रह्मन् ! आपका बल अमोघ है ! आप ब्रह्मास्त्र के इस तेज को अपने तप की मणि से शान्त कीजिए ॥२०॥

निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महातपाः ।

प्रसीद जपतांश्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः ॥२१॥

हे ब्रह्मन् ! आपने इस महातपा विश्वामित्र का गर्व नर्तक कर दिया । हे तपस्त्रिप्रवर ! अब आप प्रसन्न हों, जिससे सब लोगों को शान्ति प्राप्त हो ॥२१॥

एवमुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महातपाः ।

विश्वामित्रोऽपि निकृतां विनिःश्वस्येद्रमध्वरीन् ॥२२॥

मुनियों के ऐसा कहने पर महातपा वसिष्ठ जी शान्त हो गए । तिरस्कृत विश्वामित्र भी ठंडी नॉसें ले कर गए बोलने ॥२२॥

धिग्वलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजांबलं बलम् ।

एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे ॥२३॥

क्षत्रिय बल को धिक्कार है । ब्रह्मतेज ही का बल यथार्थ बल है । देखो न, अकेले ब्रह्मदेव ने मेरे सब अस्त्रों को निकरमा कर दिव्या ॥२३॥

तदेतत्समवेक्ष्याहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः? ।

तपो महत्समास्थस्ये यद्वै ब्रह्मत्वकारणम् ॥२४॥

इति षट्पञ्चाशः सर्गः ॥

अतः मैं अब क्षत्रिय-स्वभाव-सुलभ रोप को परित्याग कर, ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए तप करूँगा, जो ब्राह्मणत्व प्राप्त होने का कारण अर्थान् उपाय है ॥२४॥

बालकाण्ड का छुप्पनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❀:—

सप्तपञ्चाशः सर्गः

—:❀:—

ततः सन्तप्तहृदयः स्मरन् निग्रहमात्मनः ।

विनःश्वस्य विनिःश्वस्य कृतवैरो महात्मना ॥१॥

अपने तिरस्कार को बारंबार स्मरण कर, विश्वामित्र का हृदय सन्तप्त हुआ और वसिष्ठ जी के साथ वैर करने का जो फल प्राप्त हुआ, उसके लिए वे ऊँची स्वाँसें लेते हुए अर्थात् क्रोध से दग्ध होते हुए ॥१॥

स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव ।

तनाय परमं घोरं विश्वामित्रो महत्तपः ॥२॥

१ प्रसन्नेन्द्रियमानसः—परित्यक्तक्षत्ररोपः (गो०) । परित्यक्तक्षत्र-
स्वभावः (गो०) ।

हे रामचन्द्र ! विश्वामित्र अपनी रानी सहित दक्षिण दिशा में चले गए और वहाँ उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की ॥२॥

अथास्य जज्ञिरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः ।

हविःष्यन्दो मधुष्यन्दो दृढनेत्रो महारथः ॥३॥

विश्वामित्र जी के कुछ दिनों बाद सत्यवादी, महारथी और धर्मात्मा हविष्यन्द, मधुष्यन्द दृढनेत्र नाम के पुत्र हुए ॥३॥

[टिप्पणी—तपस्वी को ब्रह्मचर्य धारण करना आवश्यक है किन्तु विश्वामित्र तप के समय ऐसा न कर सके और फल यह हुआ कि वे तप से भ्रष्ट हो गए और पुत्रोत्पादन किया । अतः उन्हें ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में एक महत्त्व वप लगे ।

पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रह्मा लोकपितामहः ।

अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम् ॥४॥

जब तप करते करते एक हजार वर्ष पूरे हो गए, तब लोकपितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तपस्वी विश्वामित्र जी से बोले ॥४॥

जिता राजर्षिलोकःस्ते तपसा कुशिकात्मज ।

अनेन तपसा त्वां तु राजर्षिरिति विब्रूहे ॥५॥

हे कुशिक के पुत्र ! हे राजर्षे ! तुमने तप के बल से राजर्षियों के लोक जीत लिए । अतः तुम (अपनी इन तपस्या के प्रभाव से) राजर्षि हुए ॥५॥

एवमुक्त्वा महानेजा जगाम सह देवतैः ।

त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः ॥६॥

यह कह कर लोकेश्वर ब्रह्मा जी देवताओं नग्न अपने-
लोक को और देवगण स्वर्ग को चले गए ॥६॥

विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा द्विया किञ्चिद्वाङ्मुखः ।
दुःखेन महताऽऽविष्टः समन्यु'रिदमब्रवीत् ॥७॥

ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुन विश्वामित्र जी ने मारे लज्जा के मुख नीचा कर लिया और परम दुःखित हो, दीनतापूर्वक बोले ॥७॥

तपश्च सुमहत्तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः ।

देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपःफलम् ॥८॥

हा ! इतना धार तप करने पर भी समस्त देवता और ऋषि मुझे राजर्षि ही मानते हैं, (ब्रह्मर्षि नहीं) अतः मैं इसको तप का फल ही नहीं मानता ॥८॥

इति निश्चित्य मनसा भूय एव महातपः ।

तपश्चार काकुत्स्थ परमं परमात्मवान् ॥९॥

हे राघव ! अपने मन में यह निश्चय कर, परम यत्नवान् महातपस्वी विश्वामित्र फिर कठोर तप करने लगे ॥९॥

एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः ।

त्रिशङ्कुरिति विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धनः ॥१०॥

इसी बीच में सत्यवादी और जितेन्द्रिय इक्ष्वाकुवंशी त्रिशंकु नामक, राजा के ॥१०॥

तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव ।

गच्छेयं स्वशरीरेण देवानां परमां गतिम् ॥११॥

मन में, हे राघव ! यह बात उठी कि, हम ऐसा कोई यज्ञ करें।
जिससे हम अपने इस (पार्थिव) शरीर से स्वर्ग जाय ॥११॥

स वसिष्ठं समाहूय कथयामास चिन्तितम् ।

अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना ॥१२॥

और अपने मन के इस विचार को, वसिष्ठ जी को बुना कर
उनके सामने प्रकट किया । महात्मा वसिष्ठ जी ने त्रिशंकु का
विचार सुन कर कहा कि, ऐसा होना अनन्भव है ॥१२॥

प्रत्याख्याता वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशम् ।

ततस्तत्कर्मसिद्धयर्थं पुत्रांस्तस्य गतो नृपः ॥१३॥

जब वसिष्ठ जी ने त्रिशंकु को इस प्रकार का सूझा जवाब दे
दिया, तब यह दक्षिण दिशा में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए
वसिष्ठ जी के पुत्रों के पास गया ॥१३॥

वसिष्ठा दीर्यतपमस्तपो यत्र हि तेषिरे ।

त्रिशङ्कुः सुमहातेजाः शनः परमभास्वरम् ॥१४॥

वसिष्ठपुत्रान् दृष्ट्वा तप्यमानान् यशस्विनः ।

सौर्भगम्य महान्मानः सर्वानिव गुणैः सुतान् ॥१५॥

जाते जाते राजा त्रिशंकु वहाँ पहुँचा जहाँ वसिष्ठ जी के
अनेक पुत्र बड़ा तप कर रहे थे । वहाँ जा मतानेजस्वी त्रिशंकु ने
वसिष्ठ जी के बड़े यशस्वी पुत्रों को देखा जि. वे सब के
सब तपस्या में लीन हैं । उन सब महात्मा गुणपुत्रों के पास
जा ॥१४॥१५॥

१ शतंवासिष्ठानिनि — नारयणशतमितिनिसावनतममान्तपिकरम् ।

अभिवाद्यानुपूर्व्येण हिया किञ्चिदवाङ्मुखः ।

अत्रवील्लुमहाभागान् सर्वानिव कृताञ्जलिः ॥१६॥

त्रिशंकु ने यथाक्रम सब को प्रणाम किया, किन्तु वे लज्जा के मारे मुख नीचे ही किए रहे और हाथ जोड़ कर उन सब बड़े भाग्यवान गुरुपुत्रों से बोले ॥१६॥

शरणं वः प्रपद्येऽहं शरण्यान् शरणागतः ।

प्रत्याख्यातांऽस्मि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना ॥१७॥

आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। अतः मैं आपके शरण में आया हूँ। मैंने आपके पिता जी से यज्ञ कराने को कहा था किन्तु उन्होंने मुझे जवाब दे दिया (अर्थात् यज्ञ कराने से इनकार कर दिया) ॥१७॥

यद्भुक्तानां महायज्ञं तदनुजातुमर्हथ ।

गुरुपुत्रानहं सर्वान्नमस्कृत्य प्रसादये ॥१८॥

अब आप लोगों से प्रार्थना है कि, उस महायज्ञ करने की आज्ञा हो। मैं अपने सब गुरुपुत्रों को प्रसन्न करने के लिए उनका नमस्कार करना हूँ ॥१८॥

शिरसा प्रणतो याचं ब्राह्मणस्तपसि स्थितान् ।

ते मां भवन्तः सिद्धयर्थं याजयन्तु समाहिताः ॥१९॥

मैं बारम्बार प्रणाम कर, आप तपस्वी ब्राह्मणों से यह माँगता हूँ कि, आप लोग मुझे सावधानतापूर्वक यज्ञ करावें, जिससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो ॥१९॥

सशरीरो यथाहं हि देवलोकमवाप्नुयाम् ।

प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः ॥२०॥

और जिमसे मैं इसी शरीर से न्यर्ग जाऊँ । हे तपोधनो !
गुरु वसिष्ठ जी ने तो मुझे जवाब दे दिया, अतः मैं कुरुपुत्रों को
छोड़, इस काम के लिए अन्य किसी को योग्य नहीं समझता ॥२०॥

गुरुपुत्रानृते सर्वान्नाहं पश्यामि काञ्चन ।

इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोध्याः परमा गतिः ॥२१॥

यदि आप सब लोगों ने भी मूखा ही टकराया तो मुझे और
कोई नहीं देख पड़ता इक्ष्वाकुवंशीय सब राजा के तो काम उनके
पुरोहित द्वारा ही होते रहे हैं अथवा राजा इक्ष्वाकु के वंश की यह
रीति है कि, सदा पुरोहित से प्रीति करे अतः मेरा आपके शरीर
में आना कोई अनोखी बात नहीं है ॥२१॥

पुरोधसस्तु विद्वांसस्तारयन्ति सदा नृपान् ।

तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो देवतां मम ॥२२॥

इति सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥

श्रेष्ठ विद्वान् वसिष्ठ जी ही इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं के काम
से रक्षक रहे हैं । उनके बाद आप सब लोग ही मेरे रक्षक हैं ॥२२॥

बालकाण्ड का सत्तावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:६:—

१ तत्सारहस्येभ्यन्तएवरक्तमितिभावः । (गी०)

अष्टपञ्चाशः सर्गः

—:❀:—

ततस्त्रिशङ्कोर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितम् ।
ऋषिपुत्रशतं राम राजानमिदमब्रवीत् ॥१॥

हे राम ! राजा त्रिशंकु का वचन सुन, बसिष्ठ जी के सौ पुत्र क्रोध कर उनसे यह बोले ॥१॥

मन्याख्यातो हि दुर्वुद्धे गुरुणा सत्यवादिना ।
ते कथं समतिक्रम्य शास्त्रान्तरमुपेयिष्यान् ॥२॥

हे दुर्वुद्धे ! तेरे मन्यवादी गुरु ने तुझे जिस काम के करने का निषेध कर दिया, उनकी उम्र आज्ञा की अवहेला कर, तू दूसरों के पास क्यों आया है ॥२॥

इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधः परमो गुरुः ।
न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः ॥३॥

(तेरे ही कथनानुसार) इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं के लिए गुरु हित बसिष्ठ जी ही परमगति हैं । उन सत्यवादी की बातें कं टालना हमारे लिए असम्भव है ॥३॥

अशक्यमिति चोवाच बसिष्ठो भगवानृषिः ।
तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्ताः कथं तव ॥४॥

भला जिम्मे यज्ञ के विषय में भगवान् ऋषि बसिष्ठ जी कह चुके हैं कि, यज्ञ नहीं हो सकता, (जरा सोच तो), उस तेरे यज्ञ को हम कैसे करा सकते हैं ? ॥४॥

[नोट—बसिष्ठ जी के पुत्रों के क्रुद्ध होने का कारण यही था । उन लोगों ने समझा कि, त्रिशंकु हमारे और हमारे पिता के बीच बैर करना चाहता है । यही बात वे यहाँ कह रहे हैं ।]

वालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः ।

याजने भगवाञ्शक्तस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव ॥५॥

हे राजन् ! हम जान गए तुम अनाड़ी हो ! तुम अब अपना राजधानी को लौट जाओ । हे राजन् ! भगवान् बसिष्ठ जी ने तीनों लोकों को भी यज्ञ करा सकते हैं, फिर तुम तो उनके शिष्य ही हो । (यदि उन्होंने तुमको किसी कारण विशेष-वश, यज्ञ कराना नहीं चाहा तो इनका यह अर्थ मनममत्तो कि, वे यज्ञा यज्ञ करा नहीं सकते, किन्तु उनका यज्ञ न करवाना तुम्हारे ही हित के लिए है) ॥५॥

अवमानं च तत्कर्तुं तस्य शक्ष्यामहे कथम् ।

तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरम् ॥६॥

हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं । उनके ऐसे क्रोधयुक्त वचन सुन, ॥६॥

स राजा पुनरैवैतानिदं वचनमप्रवृत्त ।

प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्नर्धैव च ॥७॥

राजा ने उनसे फिर यह कहा—अन्हा गणगज ! गुरु जी ने जिस प्रकार जवाब दे दिया, उन्ही प्रकार प्रार लोगों ने भी मुझे मूखा टकराया ॥७॥

अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वम्नि वोऽन्तु तपोयताः ।

ऋषिपुत्रान्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं धीगभिसंहितम् ॥८॥

हे तपस्वियो ! आप लोग आनन्द कीजिए मैं अब जाता हूँ और अन्य किसी का महारा पकड़ूंगा। ऋषिपुत्रों ने जब राजा के मुख से निकले हुए ऐसे घोर अपमानकारक वचन सुने ॥८॥

गणुः परमसंक्रुद्धाश्चाण्डालत्वं गमिष्यसि ।

एवमुक्त्वा महात्मानो विविशुस्त स्वमाश्रमम् ॥९॥

तब वे परम क्रुद्ध हुए और राजा को शाप दिया कि, “तू चण्डाल हो जायगा” । यह श.प दे, वे मंत्र उठ कर अपनी अपनी कूटियो के भीतर चले गए ॥९॥

अथ रात्र्यां व्यर्तातायां राजा चण्डालतां गतः ।

नीलवस्त्रधरो नीलः परुषो ध्वस्तसूर्यजः^१ ॥१०॥

रात बीतने पर राजा चण्डालता को प्राप्त हो गया । (पीताम्बर को जगह) उमने नील रङ्ग का तहमन पहना, उसका शरीर भी काला पड़ गया । शरीर पर रुखाई आ गई । सिर के बाल छोटे हो गए ॥१०॥

चित्यमाल्यानुलेपश्च आयसाभरणोऽभवत् ।

तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चण्डालरूपिणम् ॥११॥

प्राद्रवन् सहिता राम पौरा येऽस्यानुगामिनः ।

एकां हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान् ॥१२॥

चिना की भस्म जर्जर में पुत गई । उसके पितने (सोने के) गहने थे वे मंत्र लोहे के हो गए । हे राम ! इस प्रकार राजा को चण्डालत्व की प्राप्त हुआ देख, सब पुरवासी, जो उसके अनुगामी

थे, नगर से भाग गए। हे राम ! तब राजा भी वहाँ से अकेला
चल दिश्या ॥११॥१२॥

दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम् ।

विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं विफर्लाकृतम् ॥१३॥

और रात दिन चिन्ताकुन वह राजा तपस्वी विश्वामित्र
जी के पास गया। विश्वामित्र जी को उस राजा को राज्य-
भ्रष्ट ॥१३॥

चण्डालरूपिणं राम मुनिः कारुण्यमागतः ।

कारुण्यात्स महातेजा वाक्यं परमधार्मिकः ॥१४॥

और चण्डालत्व को प्राप्त हुआ देख, उम पर दया
आई। दयावश, महातेजस्वी और परम धार्मिक विश्वामित्र
जी ने ॥१४॥

इदं जगाद् भद्रं ते राजानं घोररूपिणम् ।

किमागमनकार्यं ते राजपुत्र महाबल ॥१५॥

उस घोर रूपधारी राजा से यह कहा—हे महाबली राजपुत्र !
तुम्हारा भङ्गल हो। मेरे पास तुम किम काम के लिए आए
हो ? ॥१५॥

अयोध्याधिपते वीर शापाच्चण्डालतां गतः ।

अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चण्डालतां गतः ॥१६॥

मैं यह जानता हूँ कि, तुम अयोध्या के राजा हो और इन
समय तुम शापवश चण्डाल के रूप में हो। चण्डालता को प्राप्त
राजा त्रिशंकु इन वाक्यों को सुन. ॥१६॥

अत्रघोन् प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् ।

प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च ॥१७॥

अनवाप्यैव तं कामं मया प्राप्तो विपर्ययः ।

नगरीं दिवं यायामिति मे सौम्य दर्शनम् ॥१८॥

वचन बोलने में चतुर राजा हाथ जोड़ कर, परम चतुर विश्वामित्र मे बोला । महाराज ! मेरे गुरु और उनसे पुत्रों ने मुझे हताश किया है । मैं चाहता था कि, मैं सशरीर स्वर्ग जाऊँ जो तो उन्होंने न किया, उलटा मुझे चण्डाल बनाकर, इस लोक मे भी मुँह दिखाने योग्य नहीं रखा ॥१७॥१८॥

मया चेष्टं क्रतुशतं तच्चानावाप्यते फलम् ।

अनृतं नाक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन ॥१९॥

महाराज मैंने जो सौ यज्ञ किए उसका फल भी मुझे न मिला । न तो कभी झूठ बोला न कभी बोलूँगा ॥१९॥

कृच्छ्रेऽपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे ।

यत्तैर्वहुविधैरिष्टं प्रजा धर्मेण पालिताः ॥२०॥

भले ही मुझ पर कोई कष्ट ही क्यों न पड़े । मैं क्षत्रधर्म की शपथ खा कर कहता हूँ, मैंने अनेक यज्ञ किए, धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया, ॥२०॥

गुरुश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः ।

धर्मं प्रयनमानस्य यज्ञं चाहर्तुमिच्छतः ॥२१॥

यह बात राजा विश्वकु ने इसलिए कही है कि, झूठ बोलने से नष्ट हो जाता है ।

शीलवृत्तेन = शीलयुक्त वृत्तेन (गो०)

अपने शील और आचरण से पूज्य जनों और महात्माओं को सन्तुष्ट किया। अब भी मैं धर्म ही के लिए एक यज्ञ और करना चाहता था ॥२१॥

परितोषं न गच्छन्ति गुग्वां मुनिपुङ्गव ।

दैवमेव परं मन्ये पारुषं तु निरर्थकम् ॥२२॥

हे मुनिपुङ्गव ! परन्तु गुरु लोग राजी न हुए। गो हे मुने ! मैं तो भाग्य ही को प्रबल मानता हूँ, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है ॥२२॥

दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमा गतिः ।

तस्य मे परमार्तस्य प्रसादमभिकाङ्क्षतः ।

कर्तुमर्हसि भद्रं ते दैवांपहतकर्मणः ॥२३॥

जो कुछ होता है वह भाग्य ही से होता है, भाग्य ही सब कुछ है। सो मुझ परमदीन हतभाग्य पर, आप कृपा कीजिए, आपका मङ्गल हो ॥२३॥

नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यः शरणमस्ति मे ।

दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि ॥२४॥

मैं न तो किसी दूसरे के पान जाऊंगा और न मुझे कोई दूसरा इसके योग्य देख ही पड़ता है। अतः आप अपने पुण्यार्थ से मेरे दुर्भाग्य को दूर कीजिए ॥२४॥

बलभारद का प्रह्लादनर्षी नामक पुत्र ।

एकोनषष्टितमः सर्गः

—:०:—

उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः ।

अत्रवीन्मधुरं वाक्यं साक्षाच्चण्डालरूपिणम् ॥१॥

मात्मान चण्डालता को प्राप्त राजा ने जब ऐसा कहा, तब उस पर कृपाकर विश्वामित्र जी ने उससे मधुर वाणी में कहा ॥१॥

ऐश्वर्याक स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकम् ।

शरणं ते भविष्यामि मा भैषीन् नृपपुङ्गव ॥२॥

हे राजन् ! मैं तेरा स्वागत करता हूँ । मैं जानता हूँ कि, धर्मात्मा है । मैं तुझे अपने शरण में लूँगा; अथवा मैं तेरी रक्षा करूँगा । हे नृप पुङ्गव ! तू मत डर ॥२॥

अहमामन्त्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः ।

यज्ञसाह्यकरान् राजंस्ततो यक्ष्यसि निर्वृतः ॥३॥

हे राजन् ! मैं सब पुण्यकर्मनिरत महर्षियों के पास न्योत्र भेजता हूँ । वे सब आकर यज्ञ में सहायता करेंगे और तू सान्त्वित करेगा ॥३॥

गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते ।

अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि ॥४॥

गुरुशाप से तेरा यह जो रूप बिगड़ गया है, सो तू इसी रूप में और इसी शरीर से स्वर्ग को जायगा ॥४॥

हस्तप्राप्तमहं मन्ये स्वर्गं तव नराधिप ।

यस्त्वं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः ॥५॥

हे राजन ! जब तू शरणागतबत्सल विश्वामित्र के शरण में आ चुका; तब स्वर्ग को तो मैं तेरे हाथ में आया हुआ ही नमस्कृत हूँ ॥५॥

एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परमधार्मिकान् ।

ज्यादिदेश महाप्राज्ञान् यज्ञसम्भारकारणात् ॥६॥

राजा से यह कह कर, विश्वामित्र जी ने परम धार्मिक अपने पुत्रों को यज्ञ की तैयारी करने की आज्ञा दी ॥६॥

सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाच ह ।

सर्वानृषिः गणान् वत्सा आनयध्वं समाज्ञया ॥७॥

फिर अपने सब शिष्यों को बुला कर उनसे कहा कि, हे वत्सो ! तुम लोग जाकर मेरी आज्ञा से सब ऋषियों को लिवा लाओ ॥७॥

सशिष्यसुहृदर्थैव सत्विजः सुबहुश्रुतान् ।

यदन्यो वचनं ब्रूयान् सद्वाक्यवलचं दितः ॥८॥

वे सब अपने अपने शिष्यों, सुहृदों, ऋत्विजों और विद्वानों सहित आवें । और जो कोई मेरी आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहे ॥८॥

यत्सर्वमखिलेनोक्तं समाख्येयमनाहतम् ।

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तदाज्ञया ॥९॥

उसकी कही वह उद्योगों की न्यो (मेरे अपमान की) बात, प्यारर मुझसे कहो । विश्वामित्र जी के वचन सुन और उनकी आज्ञा से वे सब चारों ओर चल दिए ॥९॥

१ पाठान्तरे — सर्वानृषीन्सवात्सिष्ठानानप्यप्यंमनाज्ञया ।

आजगुरय देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः ।

ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलिततेजसम् ॥१०॥

विश्वामित्र जी का न्योता पाकर (अनेक देशों से ब्रह्मवादी ऋषि आने लगे। शिष्य भी (जो न्योता देने गए थे) परम तेजस्वी विश्वामित्र के पास लौट कर आए गए ॥१०॥

ऊचुश्च वचनं सर्वे सर्वेषां ब्रह्मवादिनः ।

श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः ॥११॥

आर बोले—आपका न्योता पा कर सब ब्रह्मवादी ऋषि और ब्राह्मण आ रहे हैं ॥११॥

सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम् ।

वासिष्ठं तच्छतं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरम् ॥१२॥

सब देश के ऋषि तो आ भी चुके हैं, पर महोदय नामक ऋषि नहीं आए। इनके अतिरिक्त वासिष्ठ जी के सौ पुत्रों ने महाक्रुद्ध हो जो कुवाच्य ॥१२॥

यदाह वचनं सर्वं शृणु त्वं मुनिपुङ्गव ।

क्षत्रियों याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः ॥१३॥

कहे, वे सब, हे मुनिपुङ्गव ! सुनिए। वे बोले कि, जिस में विशेष कर चण्डाल के यज्ञ में, क्षत्रिय तो याजक—यज्ञ करी वाला हो ॥१३॥

कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः ।

ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चण्डालभोजनम् ॥१४॥

कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः ।

एतद्वचनैष्टुर्यमृचुः संरक्तलोचनाः ॥१५॥

उस यज्ञ में देवर्षि किस प्रकार हविग्रहण करेंगे और द्राक्षरा वा महात्मा लोग जो विश्वामित्र के वश में हो, चाण्डाल का अन्न भोजन करेंगे कैसे स्वर्ग जायेंगे ? ये कठोर वचन, क्रोध में भर ॥१४॥१५॥

वासिष्ठा मुनिशार्दूल सर्वे ते समहोदयाः ।

तेषां तद्वचन श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुङ्गवः ॥१६॥

हे मुनिशार्दूल ! वसिष्ठ के उन सब पुत्रों ने तथा महोदय ऋषि ने कहे हैं । उन शिष्यों के मुख से ये वचन सुन कर, विश्वामित्र जी ॥१६॥

क्रोधसंरक्तनयनः सरोपमिदमत्रर्वात् ।

ये दूषयन्त्यदुष्टं मां तप उग्रं समास्थितम् ॥१७॥

मारो क्रोध के लाल लाल नेत्र कर, रोप सहित यह बोले । देवों में महा उग्र तपस्या कर रहा हूँ, सब प्रकार से दोषगठिन हूँ । तिस पर भी जो वसिष्ठ के दुष्ट पुत्र, मुझे दूषण देते हैं, वे सब के सब ॥१७॥

भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः ।

अथ ते कालपाशेन नीता वैवस्वतक्षयम् ॥१८॥

दुरात्मा, निश्चय ही भस्म हो जायेंगे और कालपाश ने दंडे हुए, आज ही यमपुरी में पहुँचा दिए जायेंगे ॥१८॥

मम जातिशतान्येव मृतयाः सन्तु सर्वशः ।

श्वमांसनियताहारा गुष्टिका नाम निर्घृणाः ॥१९॥

और सात सौ जन्म तक "मृतपा" (शव भक्षी) मुर्दा खाने वाले होंगे । उन्हें नियमित रूप से कुत्ते का माँस खाना पड़ेगा और 'मुष्टिक' उनका नाम होगा ॥१६॥

विकृताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरन्त्विमान् ।

महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मामदूष्यं ह्यतूपयत् ॥२०॥

निर्दय, घृणित और कुरूप हो कर इधर उधर घूमेंगे । महोदय नामक दुर्बुद्धि ने मुझ निर्दोष को जो दोष लगाया है ॥२०॥

दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति ।

प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः ।

दीर्घकालं मम क्रोधाद्दुर्गतिं वर्तयिष्यति ॥२१॥

सो वह सब लोगो से दूषित हो निषाद योनि पावेगा और हिंसक तथा निर्दय हो कर दीर्घकाल तक मेरे क्रोध से बड़ी दुर्गति भोगेगा ॥२१॥

एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः ।

विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः ॥२२॥

इति एकोनपष्ठितमः सर्गः ॥

महातपस्वी विश्वामित्र जी ऋषियों के बीच बैठे हुए इस प्रकार उनको शाप दे, चुप हो गए ॥२२॥

[टिप्पणी—इस कथा से यह पता चलता है कि वर्तमान कालीन मुष्टिका तथा निषाद जाति में कुछ लोग ऋषि वंशीय भी हैं ।]

बालकाण्ड का उनसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

षष्ठितमः सर्गः

—:०:—

तपोवलहतान् कृत्वा वासिष्ठान् समहोदयान् ।
ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१॥

महोदय सहित वसिष्ठ जी के पुत्रों को अपनी तपस्या के बल से मार कर, महातेजस्वी विश्वामित्र, ऋषियों के बीच में बैठे हुए, कहने लगे ॥१॥

अयमिक्ष्वाकुदायादस्त्रिशङ्कुरिति विश्रुतः ।
धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च मां चैव शरणं गतः ॥२॥

इक्ष्वाकुवंशी यह प्रसिद्ध राजा त्रिशंकु, जो धर्मिष्ठ और उदार है, मेरे शरण में आया है ॥२॥

तेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया ।
यथायं स्वशरीरेण स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥३॥

अपने इसी शरीर से देवलोक (स्वर्ग) को जाना चाहता है । इसलिए जिस प्रकार यह अपने इसी शरीर से स्वर्गलोक में जाय ॥३॥

तथा प्रवर्त्यतां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह ।
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः ॥४॥

उसी प्रकार आप लोग मेरे साथ मिल कर, इसे यज्ञ करवाइये । विश्वामित्र जी के वचन सुन नव महर्षि लोग, ॥४॥

ऊचुः समेत्य सहिता धर्मज्ञा धर्मसंहितम् ।

अयं कुशिकदायादो मुनिः परमकोपनः ॥५॥

जो धर्म का मर्म जानने वाले थे, आपस में कहने लगे—यह कुशिकवंशीय विश्वामित्र जी बड़े कोधी हैं ॥५॥

यदाह वचनं सम्यगेतत्कार्यं न संशयः ।

अग्निकल्पो हि भगवान् शापं दास्यति रोषितः ॥६॥

जो यह कह रहे हैं, यदि उसके अनुसार हम लोगों ने कार्य न किया, तो यह साक्षात् अग्नि के तुल्य विश्वामित्र क्रुद्ध हो हमें शाप दे देंगे ॥६॥

तस्मात्प्रवर्त्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवम् ।

गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा ॥७॥

अतः ऐसा यज्ञ करो जिससे ईश्वरकुवंशज त्रिशंकु, विश्वामित्र के तपः प्रभाव से सशरीर स्वर्ग को चला जाय ॥७॥

तथा प्रवर्त्यतां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठत ।

एवमुक्त्वा महर्षयश्चक्रुस्तास्ताः क्रियास्तदा ॥८॥

सो अब सर्व को मिल कर यज्ञारम्भ करना चाहिए। यह कह, वे सब ऋषि लोग वेदविधान से यज्ञक्रियाएँ करने लगे ॥८॥

याजकश्च महातेजा विश्वामित्रोऽभवत् कर्ता ।

ऋत्विजश्चानुपूर्व्येण मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः ॥९॥

उस यज्ञ में याजक विश्वामित्र जी हुए और अन्य बड़े बड़े विद्वानों लोग जो भली भाँति वेद के मंत्रों के जानने वाले थे, यथाक्रम ऋत्विज आदि हुए ॥९॥

चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथाकल्पं यथाविधि ।

ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः ॥१०॥

उन सब ने यज्ञ के समस्त कर्म विधिपूर्वक यथाक्रम किए । इस रीति से बहुत दिनों तक यज्ञक्रिया होती रही । तदनन्तर महा-तपस्वी विश्वामित्र जी ने ॥१०॥

चकारावाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवताः ।

नाभ्यागमंस्तदाहृता भागार्थं सर्वदेवताः ॥११॥

यज्ञभाग ग्रहण करने के लिए सब देवताओं को बुलाया । किन्तु बुलाने पर भी कोई भी देवता यज्ञभाग लेने को न आया ॥११॥

ततः क्रोधसमाविष्टो विश्वामित्रो महामुनिः ।

सुवमुद्यम्य सक्रांथस्त्रिशङ्कुमिदमब्रवीत् ॥१२॥

तब तो महर्षि विश्वामित्र जी क्षुपित हुए और श्रुवा उठा, त्रिशंकु से यह बोले ॥१२॥

पश्य मे तपसा वीर्यं स्वार्जितस्य नरेन्दर ।

एष त्वां सशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसाः ॥१३॥

हे राजन् ! मेरी तपस्या का प्रभाव देखिए, मैं तुमको इसी शरीर से अपने तपोबल द्वारा स्वर्ग पहुँचाता हूँ ॥१३॥

दुष्पापं श्वशरीरेण दिवं गच्छ नराधिप ।

स्वार्जितं किञ्चिदप्यस्ति मया हि तपनः फलम् ॥१४॥

हे राजन् ! यद्यपि इन (पार्थिव) शरीर ने स्वर्ग में जाना असम्भव है, तथापि मेरा जो कुछ थोड़ा बहुत तपस्या का फल है, ॥१४॥

राजन् स्वतेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रज ।

उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः ॥१५॥

हे राजन् ! उसके द्वारा तू सशरीर स्वर्ग को जा । जब विश्वामित्र ने यह कहा, तब त्रिशंकु सशरीर ॥१५॥

दिवं जगाम काकुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा ।

देवलोकगतं दृष्ट्वा त्रिशङ्कुं पाकशासनः ॥१६॥

मुनियों की आँखों के सामने (त्रिशंकु सशरीर) स्वर्ग को गए और वहाँ पहुँच गए । हे राम ! सशरीर राजा त्रिशंकु को स्वर्ग में आया हुआ देख, इन्द्र ने ॥१६॥

सह सर्वैः सुरगणैरिदं वचनमब्रवीत् ।

त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्गकृतालयः १ ॥१७॥

अन्य सब देवताओं सहित कहा, हे त्रिशंकु ! तू पृथिवी पर ही जा कर रह, तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है ॥१७॥

गुरुशापहतो मूढ पत भूमिमवाक्शिराः ।

एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङ्कुरपतत्पुनः ॥१८॥

क्योंकि तू गुरु के शाप से शापित है, अतः हे मूर्ख ! तू नीचे को सिर कर ज़मीन पर गिर । इन्द्र के यह कहते ही त्रिशंकु नीचे की ओर गिरने लगा ॥१८॥

विक्रोशमानस्त्राहीति विश्वामित्रं तपोधनम् ।

तन्श्रुत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः ॥१९॥

और विश्वामित्र जी को पुकार कर कहने लगा । मुझे बचाइये ! बचाइये !! इस प्रकार चिल्लाते हुए राजा के ऐसे वचन सुन विश्वामित्र जी ॥१९॥

१ स्वर्गकृतालयः = स्वर्गालयाहः (गो०)

रोपमाहारयत्तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ।

ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः ॥२०॥

महाकुपित हो बोले—“तिष्ठ तिष्ठ” (वही) ठहर ! (वही) ठहर ! उम समय ऋषियों के बीच, विश्वामित्र जी दूसरे प्रजापति जैसे मालूम पड़ने लगे ॥२०॥

सृजन् दक्षिणमार्गस्थान् सप्तर्षीनपरान्पुनः ।

नक्षत्रमालामपरामसृजत् क्रोधमूर्च्छितः ॥२१॥

विश्वामित्र जी ने कुपित हो दक्षिण दिशा में पहले तो नवीन सप्तर्षियों की रचना की. तदनन्तर अश्विनी आदि नक्षत्र नये नक्षत्र बना डाले ॥२१॥

दक्षिणां दिशमास्थाय मुनिमध्ये महातपाः* ।

सृष्ट्वा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन क्लृपीकृतः ॥२२॥

क्रोध से विकल और ऋषियों के बीच में बैठे हुए विश्वामित्र जी जब दक्षिण दिशा में नवीन नक्षत्र बना चुके तब विचारने लगे कि, ॥२२॥

अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लांकां वा स्यादनिन्द्रकः ।

देवतान्यपि स क्रोधात् स्रष्टुं समुपचक्रमे ॥२३॥

(मैंने जो यह नये स्वर्ग की कल्पना की है, उनके लिए एक नया इन्द्र भी बनाऊँ. प्रथवा (इन नये स्वर्ग को) पिना इन्द्र ही का रहने दूँ । (और इन नवीन स्वर्ग का मांसिक प्रयोग ही हो ।) फिर वे क्रोध में भग नवीन देवताओं की भी रचना करने लगे ॥२३॥

ततः परमसम्भ्रान्ताः सर्विसङ्घाः सुरासुराः ।

सकिन्नरमहायक्षाः सहसिद्धाः सचारणाः ॥२४॥

तब नो ऋषि, देवता, असुर, किन्नर, यक्ष, सिद्ध और चारण
बहुत घबड़ाए ॥२४॥

विश्वामित्रं महात्मानमूचुः सानुनयं वचः ।

अयं राजा महाभाग गुरुशापपरिक्षतः ॥२५॥

और विश्वामित्र जी के पास जा कर, विनयपूर्वक कहने
लगे हे महाभाग ! यह राजा गुरुशाप से शापित होने के
कारण ॥२५॥

सशरीरं दिवं यातुं नार्हत्येव तपोधन ।

तेपां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवः ॥२६॥

हे तपोधन ! सशरीर स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं है । उन
देवताओं का यह वचन सुन महर्षि ॥२६॥

अब्रवीत् सुमहद्वाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः ।

सशरीरस्य भद्रं वस्त्रिशङ्कोरस्य भूपतेः ॥२७॥

विश्वामित्र उन सब देवताओं से बोले कि, हे महात्माओ !
आपका कल्याण हो. इस राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग
में ॥२७॥

आरोहणं प्रतिज्ञाय नानृतं कर्तुमुत्सहे ।

स्वर्गोऽस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरत्र शाश्वतः ॥२८॥

पहुँचाने की मैंने जो प्रतिज्ञा की है, उसे मैं अन्यथा नहीं कर
सकता । इस राजा त्रिशंकु को निरन्तर स्वर्ग में रखने के
लिए ॥२८॥

नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथ ।

यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः ॥२६॥

मेरे बनाए ध्रुव सहित वे सब नक्षत्र. नक्षत्र तक बने रहें, जब तक अन्य सब लोक बने रहें । अर्थात् जब तक अन्य स्वर्गादि लोक रहें, तब तक मेरा बनाया हुआ नया स्वर्ग भी रहै. ॥२६॥

मत्कृतानि सुराः सर्वे सदनुव्रातुमर्हथ ।

एवमुक्त्वाः सुरा सर्वे प्रत्यूचुर्मुनिपुङ्गवम् ॥३०॥

और मेरे बनाये सब देवता भी रहें । हे देवताओं ! तुम सब ऐसी अनुमति दो । यह मुन उन सब देवताओं ने विश्वामित्र जी से कहा, ॥३०॥

एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः ।

गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपथाद्भवतिः ॥३१॥

अच्छी बात है, आपका मङ्गल हो । आपके बनाए ये (नक्षत्र, ध्रुव, तथा देवता) सबै बने रहेंगे; किन्तु प्राचीन वैश्वानरमार्ग (उत्तरायण मार्ग) के बाहर रहेंगे ॥३१॥

नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन् ।

अवाकिशरास्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठत्वमग्निभिः ॥३२॥

हे मुनिश्रेष्ठ ! उन चमकते हुए नक्षत्रों में पधोमुख राजा त्रिशङ्कु भी अमर के तुल्य (देवताओं की तरह) बना रहेंगा ॥३२॥

अनुयास्यान्त चैतानि ज्योतीषि नृपमत्तमम् ।

कृतार्थं कार्त्तिकमन्तं च स्वर्गलोकगर्तं यथा ॥३३॥

और जिस प्रकार कीर्तिवान्- एवं सिद्धमनोरथ जीव के पीछे नक्षत्र चलते हैं, उसी प्रकार त्रिशंकु के पीछे पीछे आपके बनाए हुए सब नक्षत्र भी चला करेंगे ॥३३॥

विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वद्वैरभिष्टुतः ।

ऋषिभिश्च महातेजा वाढमित्याह देवताः ॥३४॥

देवताओं ने धर्मात्मा विश्वामित्र जी से इस प्रकार कहा और उनकी स्तुति की । विश्वामित्र जी ने भी उनकी (देवताओं की) बात मान ली ॥३४॥

ततो देवा महात्मानो मुनयश्च तपोधनाः ।

जगमुर्यथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम ॥३५॥

इति षष्ठितमः सर्गः ॥

हे राम ! उस यज्ञ में जो देवता और तपस्वी ऋषि आए थे वे यज्ञ की समाप्ति हो चुकने पर, अपने अपने स्थानों को चले गए ॥३५॥

बालकाण्ड का साठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

एकषष्टितमः सर्गः

—:०:—

विश्वामित्रो महात्माथ प्रस्थितान् प्रेक्ष्य तानृषीन् ।

अत्रवीन्नरशार्दूलः सर्वांस्तान् वनवासिनः ॥१॥

हे राम ! नरशार्दूल महात्मा विश्वामित्र जी ने उन ऋषियों को जाते हुए देख कर, उन सब तपोवन वासियों से कहा ॥१॥

महान् विघ्नः प्रवृत्ताऽयं दक्षिणामास्थितो दिशम् ।

दिशमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तप्स्यामहे तपः ॥२॥

इस दक्षिण दिशा में रहने से मेरी तपस्या में यह एक बड़ा विघ्न पड़ा। अतः अन्य किसी दिशा में जा कर, मैं अब तप करूँगा ॥२॥

पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः ।

सुखं तपश्चरिष्यामो वरं तद्धि तपोवनम् ॥३॥

विशाल पश्चिम दिशा में, जहाँ पुष्कर आनन्द तीर्थ हैं और जिसके समीप बहुत अच्छा तपोवन है, वहाँ मैं जा कर आनन्द से तप करूँगा ॥३॥

एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महासुनिः ।

तप उग्रं दुराधर्षं तेपे मूलफलाशनः ॥४॥

यह कह विरवामित्र जी पुष्कर को चले गए और वहाँ पहुँच कर और फल फूल खा कर, वे उग्र तप करने लगे ॥४॥

एतस्मिन्नैव काले तु अयांध्याधिपतिर्नृपः ।

अन्वरीष इति ख्यातो यष्टु समुपचक्रमे ॥५॥

इसी बीच में अयोध्या के अन्वरीष नामक राजा ने, यज्ञ करना आरम्भ किया ॥५॥

तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहार ह ।

प्रणष्टे तु यशो विप्रो राजानमिदमवर्षान् ॥६॥

उस राजा के यज्ञ पशु को इन्द्र चुग कर ले गए। यज्ञ के इस प्रकार नष्ट होने पर पुरोहित ने राजा से कहा ॥६॥

पशुरद्य हतो राजन् प्रणष्टमन्य दूनयात् ।

अरक्षितारं राजानं ध्नन्ति दोषा नर्ग्वन् ॥७॥

हे राजन् ! आज यज्ञपशु चोरी हो गया है, सो तुम्हारी अन-
वधानता ही से गया है । यह अच्छा नहीं हुआ । क्योंकि अरक्षित
पशु के हरे जाने का दोष रक्षक ही के माथे रहता है ॥७॥

प्रायश्चित्तं महद्व्यतेन्नरं वा पुरुषर्षभ ।

आनयस्व पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते ॥८॥

हे राजन् ! अतएव यज्ञकर्म समाप्त होते होते या तो कोई
दूसरा पशु लाइए अथवा गोधन दे कर कोई नर ही शीघ्र लाइए,
जिससे इस विघ्न का प्रायश्चित्त हो ॥८॥

[टिप्पणी—इससे पता चलता है कि रामायण काल में गोधन सर्व-
श्रेष्ठ और बहुमूल्यवान समझा जाता था ।]

उपाध्यायवचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभ ।

अन्वियेय महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः ॥९॥

पुरोहित के वचन सुन, वह नरोत्तम बड़ा बुद्धिमान् राजा,
सहस्रों गायों दे कर यज्ञपशु को ढूँढने लगा ॥९॥

देशाञ्जनपदांस्तांस्तान् नगराणि वनानि च ।

आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः ॥१०॥

उन्होंने यज्ञपशु की तालाश में अनेक देश, नगर, जनपद,
वन, आश्रम और तीर्थ मक्का डाले ॥१०॥

स पुत्रसहितं तात सभार्यं रघुनन्दन ।

भृगुतुङ्गे* समासीनमृचीकं सन्ददर्श ह ॥११॥

पशु की तालाश करते करते, अम्बरीपने भृगुतुङ्ग नामक किसी

* पाठान्तरे 'भृगुतुन्दे' ।

१ भृगुतुङ्गा = भृगुतुङ्गारके पर्वते । यह पर्वत वर्तमान राजपूताने में
*हीं पर जान पड़ता है ।

पर्वत के शृङ्ग पर भार्या और पुत्रों सहित बैठे हुए ऋचीक को देखा ॥११॥

तमुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च ।

ब्रह्मर्षितपसा दीप्तं राजर्षिरमितप्रभः ॥१२॥

महाप्रतापी राजा ने मुनि को प्रणाम कर उन्हें अनेक प्रकार से प्रसन्न किया और तपस्या में निरत ब्रह्मर्षि से ॥१२॥

पृष्ठा सर्वत्र कुशलमृचीकं तमिदं वचः ।

गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि ॥१३॥

पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव ।

सर्वे परिसृता देशा याज्ञीयं न लभे पशुम् ॥१४॥

कुशलप्रश्न पूछा । तदनन्तर अम्बरीष ने ऋचीक से कहा कि, यदि आप एक लाख गौएँ ले कर अपने पुत्र को यज्ञरथ बनाने के लिए, हमारे हाथ बेच डालते, तो मैं आपका बड़ा अनुगृहीत होता । सारे के सारे देश मन्ना डालते, न तो मेरे (पशु) यज्ञरथ ही का पता चला और न (दाम देने पर ही) कोई यज्ञरथ मिला ॥१३॥१४॥

दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकामितां मम ।

एयमुक्तो महातेजा ऋचीकस्त्वग्रयीदृचः ॥१५॥

अतः आप मूल्य ले कर मुझे अपना एक पुत्र दे दीजिए । मैं सुन महातेजस्वी ऋचीक बोले ॥१५॥

नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथञ्चन ।

ऋचीकस्य वचः श्रुत्वा तेषां भाता महान्मनाम् ॥१६॥

हे राजन् ! मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो कभी न बेचूँगा ऋचीक जी यह बात सुन, उनसे महात्मा पुत्रों की भाता ॥१६॥

[टिप्पणी—श्लोक १२ ऋचीक को ब्रह्मर्षि व्रतज्ञाया है। ब्रह्मर्षि हो कर, गोघन के बदले अपने पुत्र को बेचने जैसे अमत्कर्म का क्या समाधान हो सकता है? राजा जब स्पष्टतया कहता है कि उसे यज्ञपशु बनाने को ऋचीक के पुत्र की आवश्यकता है, तब भी फल बेचने को तैयार होना—ब्रह्मर्षि ब्रह्मलाने वाले के योग्य कार्य नहीं कहा जा सकता। इस शब्दा का समाधान टीकाओं में अप्राप्त है।]

उवाच नरशार्दूलमम्बरीषमिदं वचः ।

अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाह भार्गवः ॥१७॥

राजा अम्बरीष से यह बोली। मेरे पति महाभाग भार्गव ने कहा है कि, ज्येष्ठपुत्र तो बेचा जा नहीं सकता (क्योंकि वह देव पितृ कर्म करने का अधिकारी है) ॥१७॥

ममापि दायितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं नृप ।

तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव ॥१८॥

हे राजन् ! सब से छोटे पुत्र शुनक पर आप मेरी बड़ी प्रीति जाने, अतः उसे मैं आपको न दूँगी ॥१८॥

प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु बल्लभाः ।

मातृणां च कनीयांसस्तस्माद्रक्षे कनीयसम् ॥१९॥

हे नरश्रेष्ठ, पुत्र पिता को और सब से छोटा माता को प्रायः बहुत प्यारे होते हैं। अतः मैं छोटे को न दूँगी ॥१९॥

उक्तवाक्ये मुनीं तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च ।

शुनःशेषः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत् ॥२०॥

हे राम ! मुनि और मुनिपत्नी की इस बातचीत को सुन, उन का मन्त्रला पुत्र शनःशेष स्वयं राजा से बोला ॥२०॥

पिता ज्येष्ठमविक्रेशं माता चाह कनीयसम् ।

विक्रीतं मध्यमं मन्ये राजन् पुत्रं नयस्व माम् ॥२१॥

पिता जी बड़े को बेचा नहीं चाहते और माता छोटे को देना नहीं चाहती । इससे मझोले को बेचा हुआ समझ, आप मुझे ले चलिए ॥२१॥

गवां शवसहस्रेण शुनःशेषं नरेश्वरः ।

गृहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥२२॥

हे राम ! यह सुन, राजा ने ऋचीक को एक लाख गौएँ दी और शुनःशेष को ले कर, वहाँ से चला ॥२२॥

अम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य सत्वरः ।

शुनःशेषं महातेजा जगामाशु महायशाः ॥२३॥

इति एकषष्टितमः सर्गः

महातेजस्वी और महायशस्वी राजर्षि अम्बरीष शुनःशेष को रथ पर चढ़ा, वहाँ से शीघ्र रवाना हो गया ॥२३॥

नालकाण्ड का एकमठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:३:—

द्विषष्टितमः सर्गः

—:०:—

शुनःशेषं नरश्रेष्ठ गृहीन्वा तु महायशाः ।

व्यश्राम्यत् पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन ॥१॥

हे राम ! महायशा राजा अम्बरीष शुनःशेष को लिए हुए पुष्कर पहुँचे और दो पहर भर वहाँ विश्राम किया ॥१॥

तस्य विश्रममाणस्य शुनःशेपो महायशाः ।

पुष्करं श्रेष्ठभागम्य विश्वामित्रं ददर्श ह ॥२॥

जब राजा विश्राम कर रहे थे, तब अक्सर पा शुनःशेप
श्रेष्ठ पुष्कर जी में जा विश्वामित्र जी के दर्शन किए ॥२॥

तप्यन्तमृषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः ।

विषण्णवदनो दीनस्तृष्णया च श्रमेण च ॥३॥

ऋषियों के समूह में बैठ कर रूप करते हुए अपने मास
(विश्वामित्र) को देख, उदास, प्यासा, थका हुआ और पर
मातुर ॥३॥

पपाताङ्के मुनौ राम वाक्यं चेदमुवाच ह ।

न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो वान्धवाः कुतः ॥४॥

शुनःशेप उनकी गोद में गिर पड़ा और बोला—जब मेरे माता
और पिता ही नहीं हैं, तब जाति विरादरी और भाई बन्धु हो ही
कहाँ सकते हैं ॥४॥

त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुङ्गव ।

त्राता त्वं हि मुनिश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः ॥५॥

हे सौम्य ! हे मुनिराज ! मैं शरणागत धर्म को दुहाई देता हूँ,
मुझे बचाइए । मेरी ही क्यों ? शरण आने पर आप समस्त संसार
की रक्षा कर सकते हैं ॥५॥

राजा च कृतकार्यः स्यादहं दीर्घायुरव्ययः ।

स्वर्गलांकमुपाश्रीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुचसम् ॥३॥

१ पाठान्तरे पुष्करं ज्येष्ठ । (रा०) पुष्करक्षेत्र । (गो०)

२ भावनः = हितप्रापकः (गो०)

अतः ऐसा कीजिए जिससे राजा का नां यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो जाय और मैं बहुत दिनों तक जीवित रहूँ और उत्तम तपस्या कर अन्त मे स्वर्ग जाऊँ ॥६॥

त्वं मे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा ।

पितृव पुत्रं धर्मज्ञं त्रातुमर्हसि किल्बिषान् ॥७॥

आप मुझ अनाथ के नाथ हों कर जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मेरी भी इस मन्त्र मे रक्षा कीजिए ॥७॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः ।

सान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमृवाच ह ॥८॥

शुनःशेष के ऐसे दीन वचन मून, विश्वामित्र जी ने उसे बहुत कुछ मान्त्वना दी और अपने पुत्रों से बोले ॥८॥

यत्कृतं पितरः पुत्राञ्जनयन्ति शुभार्थिनः ।

पग्लोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः ॥९॥

हे पुत्रो ! जिस परलोक के प्रयोजन के लिए पिता मनपुत्रों को जन्म करते हैं, उमका समय आ पहुँचा ॥९॥

अयं मुनिमुतो वालो मत्तः जग्गामिच्छति ।

अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुन्त पुत्रकाः ॥१०॥

हे पुत्रो ! यह अन्वीक मुनि का पुत्र है । अभी बड़ा है और तारे शरण में आया है । उमके प्राणों की रक्षा कर एनाग प्रिय करो ॥१०॥

सर्वे सुकृतकर्माणाः नये धर्मपरायणाः ।

पशुभूता नगन्द्रस्य तृप्तिमग्नः प्रयच्छत ॥११॥

तुम सब पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो। अतः तुम लोग स्वयं राजा के यज्ञपशु बनकर अग्निदेव को तृप्त करो ॥११॥

नाथवांश्च शुनःशेपो यज्ञश्चाविघ्नतो भवेत् ।

देवतामन्तर्पिताश्च स्युर्मम चापि कृतं वचः ॥१२॥

ऐसा करने से शुन शेष के प्राण बच जायँगे, राजा का यज्ञ भी निर्विघ्न पूरा हो जायगा, देवता सन्तुष्ट होंगे और मेरी बात भी रह जायगी ॥१२॥

मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा मधुष्यन्दादयः सुताः ।

साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदमब्रुवन् ॥१३॥

विश्वामित्र जी के ये वचन सुन, उनके मधुछन्दादि पुत्र अभिमान सहित (अपने पिता का) उपहास करते हुए यह बोले ॥१३॥

कथमात्मसुतान् हत्वा त्रायसेऽन्यसुतं विभो ।

अकार्यमिव पश्यामः श्वमांसमिव भोजने ॥१४॥

हे महाराज ! आप अपने पुत्रों को छोड़, अन्य के पुत्र की रक्षा क्यों करते हैं ? यह तो दैमे ही कर्म है, जैसा कि सुन्दर भोज्य पदार्थों को छोड़ कुत्ते का मांस खाना। अथवा आपका यह कार्य बर्नी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार कुत्ते का मांस खाना अनुचित है ॥१४॥

तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्गवः ।

क्रोधसंरक्तनयनो व्याहर्तुमुपचक्रमे ॥१५॥

अपने पुत्रों की ये बातें सुन, क्रोध से लाल लाल आँखें कर, विश्वामित्र जी उनसे कहने लगे ॥१५॥

निःसाध्वसमिदं प्राक्तं धर्मादपि विगर्हितम् ।

अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम् ॥१६॥

६ तुम्हारा यह कहना उद्दण्डनापूर्ण. धर्म की दृष्टि से भी भ्रष्ट, और पितृभक्तिरहित होने के कारण दारुण (कठोर) है. अतएव रोमाश्रकारी और मेरी अवज्ञा करने वाला है ॥१६॥

श्वमांसभोजिनः सर्वे वामिष्ठा इव ज्ञानिषु ।

पूर्णं वर्षमहत्त्रं तु पृथिव्यामनुवत्स्यथ ॥१७॥

अतः तुम लोग भी वामिष्ठ जी के पुत्रों की तरह चरदाल हो और कुत्तो का मॉन ग्वाने हुए पूरे एक हजार वर्ष तक पृथिवी पर घूमोगे ॥१७॥

- [टिप्पणी—आधुनिक चारदालों में कुत्तों को अवश्य ही निरनामिष मशॉय होने ।]

कृत्वा शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा ।

शुनःशेषमुवाचार्त्तं कृत्वा रक्षां निरामयाम् ॥१८॥

इस प्रकार मुनिवर अपने पुत्रों को शाप दे. मर प्रकार से शुन.शेष की रक्षा कर, उससे बोले ॥१८॥

पवित्रापशैरासक्तो रक्तमाल्यानुलेपनः ।

वैष्णवं वृषमामाद्य वाग्भिरग्निमुदाहर ॥१९॥

इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक ।

अम्बरीषस्य यज्ञेऽस्मिन्मनः सिद्धिमवाप्स्यथि ॥२०॥

हे मुनिपुत्र ! जब तुम अम्बरीष के यज्ञ में पवित्र ऋषि से, वैष्णवस्तम्भ से, लाल माला और लाल चन्दन से मञ्जित हुए गाथे

जाओ, तब तुम इन दो मंत्रों से स्तुति करना । इससे तुम्हा काम हो जायगा अर्थात् तुम बच जाओगे ॥१६॥२०॥

शुनःशेषां गृहीत्वा ते द्वे गाथे सुसमाहितः ।

त्वरया राजसिंहं तमम्बरीषमुवाच ह ॥२१॥

शुनःशेष ने बड़ी मावधानी से उन दोनों मंत्रों को याद व लिखा और फिर तुरन्त अम्बरीष से जा कर कहा; ॥२१॥

राजसिंह महासत्व शीघ्रं गच्छावहे सदः ।

निर्वर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुपाविश ॥२२॥

हे महाबलवान् राजसिंह ! चलिए अब शीघ्र चलें और पहुँच कर आप यज्ञदीक्षा लें, अपना यज्ञ पूरा कीजिए ॥२२॥

तद्वाक्यमृषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमुत्सुकः ।

जगाम नृपतिः शीघ्रं यज्ञवाटमतन्द्रितः ॥२३॥

ऋषिपुत्र का वचन सुन, राजा परमहर्षित हो तुरन्त अप यज्ञशाला को गया ॥२३॥

सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणम् ।

पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा युपे तं समबन्धयत् ॥२४॥

फिर यज्ञ कराने वालों की सम्मति से राजा ने उम्र शु शेष का पशु बना आंग लाल कपड़े पहना, खम्भे में ब दिखा ॥२४॥

स चन्द्रो वाग्भिरग्याभिरभितुष्टाव वै सुरां ।

इन्द्रमिन्द्रानुजं चैव यथावन्मुनिपुत्रकः ॥२५॥

तत्र वैश्वे ह्ये शुन.शेष ने विश्वामित्र जी के बनलाग हुए मन्त्रों से इन्द्र और उपेन्द्र की यथावत् स्तुति की ॥२५॥

ततः प्रीतः सहस्राक्षो गृहस्यस्तुतितर्पितः ।

दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुनःशपाय वामवः ॥२६॥

शुन.शेष की मन ही मन कर्षा हुई स्तुति को सुन. इन्द्र उम पर प्रसन्न हो गए और इन्द्र ने उन्हे दीर्घजीर्घा होने का वरदान दिया ॥२६॥

स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्यान्तमवाप्तवान् ।

फलं बहुगुणं गाम सहस्राक्षप्रसादजम् ॥२७॥

हे गाम ! नरश्रेष्ठ राजा ने भी यज्ञ समाप्त कर, इन्द्र की कृपा से अनेक प्रकार के वरदान पाए ॥२७॥

विश्वामित्रोऽपि धर्मान्ना भूयस्तपे महानयाः ।

पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च ॥२८॥

एति द्विपष्टिनः मर्गः ॥

हे राजन ! धर्मान्ना विश्वामित्र ने भी पुन. पुन.सेप में दस हजार वर्षों तक अच्छी तरह तप किया ॥२८॥

त्रिषष्टितमः सर्गः

—:०:—

पूर्णे वर्षसहस्रे तु व्रतस्नातं^१ महामुनिम् ।

अभ्यागच्छन्सुराः सर्वे तपःफलचिकीर्षवः^२ ॥१॥

विश्वामित्र जी को तप करते हुए जब पूरे एक हजार वर्ष बीत गए, (अथवा जब उनका पुरश्चरण पूरा हुआ), तब सब देवता उनको उनके तप का फल स्वरूप वर देने की इच्छा से आए ॥१॥

अब्रवीत् सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः ।

ऋपिस्त्वमसि भद्रं ते स्याजितैः कर्मभिः शुभैः ॥२॥

उनमें परमतेजस्वी ब्रह्मा जी परम रुचिकर यह वचन बोले कि, हे विश्वामित्र ! तुम्हारा मङ्गल हो; तुम अपने उपार्जित शुभ कर्मों द्वारा ऋषि हुए । (अर्थात् अभी तुमको ब्रह्मर्षिपद अथवा ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं) ॥२॥

[टिप्पणी—जो लोग केवल कर्म द्वारा वर्णव्यवस्था की व्यवस्था मानते हैं और अपने तर्क की पुष्टि में विश्वामित्र का उदाहरण देते हैं, उन्हें उचित है कि, वे इस बात पर भाँजरा ध्यान दें कि, विश्वामित्र जी को अपने जन्मजात क्षत्रियत्व को छोड़ा कर, ब्रह्मत्व प्राप्त करने में कितने दिनों तक और केंसा कठोर तप करना पड़ा था और कितनी लाञ्छनाएँ भोगनी पड़ी थी ।]

तमेवमुक्त्वा देवैशस्त्रिदिवं पुनरभ्यगात् ।

विश्वामित्रो महानेजा भूयस्तेपे महत्तपः ॥३॥

१ व्रतस्नातं—व्रतान्तेस्नात समामपुश्चरणमितियावत् । (गो०) २
तपः फलचिकीर्षवः—तपःफलं दातुमिच्छवः । (गो०)

यह कह ब्रह्मादि देवता अपने अपने लोकों को लौट गए और विश्वामित्र जी पुनः तप करने लगे ॥३॥

ततः कालेन महता मेनका परमाप्सराः ।

पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचक्रमे ॥४॥

जब तप करते करते उन्हें बहुत दिन हो गए, तब एक दिन मेनका नाम की एक अप्सरा पुष्कर में स्नान करने की इच्छा से वहाँ आई ॥४॥

तां ददर्श महातंजा मेनकां कुशिकात्मजः ।

रूपेणाप्रतिमां तत्र विद्युत् जलदं यथा ॥५॥

मेघ में चमकती हुई बिजली की तरह मेनका के नान्यत्र की देख, महातपस्वी विश्वामित्र ॥५॥

कन्दर्पदर्पवशागो मुनिस्तामिदमब्रवीत् ।

अप्सरः स्वागतं नैस्तु वस चंत समाश्रमे ॥६॥

मुनि कामासक्त हो, उनसे यह बोले—दे अप्सरा ' मे तेरा स्वागत करता हूँ । तू मेरे इन आश्रम में रह ॥६॥

अनुगृहीष्व भद्रं ते मदनेन तुमांहितम् ।

इत्युक्त्वा सा वरारोहा तत्र वासमथाकरोत् ॥७॥

तेरा मङ्गल हो, तू मेरे ऊपर अनुग्रह कर । क्योंकि मैं तुझे देख कामासक्त हो गया हूँ । यह मुनि यह सुन्दरी मेनका अपनी ही के आश्रम में रहने लगी ॥७॥

[टिप्पणी—व्यास स्मृति में लिखा है—एतदन् इन्द्रियगणो विद्यासमपि कर्षति इन्द्रियाँ बड़े बड़े परियुक्तों को भी बसने तप में बंध लेता है । विश्वामित्र ने पलमूल खाकर सहस्रों वर्षों कष्टों तक किया; किन्तु मेनका को देखते ही काम बंधवर्ती हो गए !]

तपसा हि महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागतः ।

तस्यां वमन्त्यां वर्षाणि पञ्च पञ्च च राघव ॥८॥

मेनका के वहाँ आश्रम में रहने के कारण, विश्वामित्र जी की तपस्या में बड़ा भारी विघ्न पड़ा। हे राघव ! मेनका अप्सरा दस वर्ष तक ॥८॥

विश्वामित्राश्रमे तस्मिन् सुखेन व्यतिचक्रमुः ।

अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः ॥९॥

विश्वामित्र के उस आश्रम में सुखपूर्वक रही। (अर्थात् मुनि-गज विश्वामित्र ने उसके साथ भोग विलास कर बात की बात में दस वर्ष निकाल दिए।) तदनन्तर दस वर्ष बीतने पर महर्षि विश्वामित्र जी ॥९॥

मर्त्रीड इव मन्दृत्तश्चिन्ताशोकपरायणः ।

धुद्धिर्मुनेः समुत्पन्ना सामर्पा रघुनन्दन ॥१०॥

। अपनी इस भूल पर) लज्जित हुए और चिन्ता में पड़ कर बहुत दुःखी हुए। हे रघुनन्दन ! जब विश्वामित्र जी ने इसका कारण विचार, तब उनकी ममक में क्रोधपूर्वक यह आया कि ॥१०॥

मर्व सुराणां कर्मतत्तपोपहरणं महत् ।

अद्भोगत्रापदेशेन गताः संवत्सरा दश ॥११॥

मेरे इस चिरकालीन तप को हरण करने के लिए यह सब देवताओं की करतूत हैं। उन्होंने यह विघ्न डाला है। अरे ! दस वर्ष बीत गए ; किन्तु मुझे जान पड़ता है, मानों अभी केवल एक रात्रि ही बीती है ॥११॥

काममोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः ।

विनिःश्वसनं मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः ॥१२॥

हा ! काममत्त होने के कारण मेरे नप में बड़ा भारी विघ्न पड़ा ! महर्षि जी यह कह और बार बार ऊँची लामें के, पढ़ना कर दुःखी हुए ॥१२॥

भीतामप्सरसं दृष्ट्वा वृपन्तीं प्राञ्जलिं स्थिताम् ।

मेनकां सधुरैर्वाक्यैर्विगृज्य कुशिकान्मजः ॥१३॥

शाप के डर से शरथगती और हाथ जोड़े खड़ी हुई मेनका को देख, विश्वामित्र जी ने, सींटे बदन कह कर उसे बिना किष्ण ॥१३॥

उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रो जगाम ह ।

स कृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिं जेतुकामो महायज्ञाः ॥१४॥

हे राम ! तदनन्तर विश्वामित्र जी (पुनःकञ्चन रां लोह) उत्तर दिशा में पर्वत पर अर्थात् हिमालय पर चले गए और वन समाप्त होने तक काम को जीतने की इच्छा ने महायज्ञा विश्वामित्र ॥१४॥

कौशिकीतीरसामाद्य तपस्तेपे मुदारुणम् ।

तस्य वर्षसहस्राणि घोरं तत्र उगमनः ॥१५॥

कौशिकी नदी के तट पर जा फिर उत्र तपस्या करने लगे । जब उनको वहाँ उत्र तप करने करने एक हजार वर्ष बीत गए ॥१५॥

उत्तरे पर्वते राम देवतानामभृद्भयम् ।

अमन्त्रयन् समागम्य नर्वे सर्पिणतः नृगः ॥१६॥

१ नैष्ठिकीं वनसमाप्ततपस्त्वाम् । (नोः)

तव हे राम ! हिमालय पर्वत पर तप करने से देवता लोग बहुत डरे और सब देवर्षि और देवता सम्मति कर, ब्रह्मा जी के पास जा कर बोले ॥१६॥

महर्षिशब्द लभतां साध्वयं कुशिकात्मजः ।

देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः ॥१७॥

अब विश्वामित्र को “महर्षि” का पदवी प्रदान कीजिए । देवताओं का यह वचन सुन ब्रह्मा जी ॥१७॥

अत्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम् ।

महर्षे स्वागतं वत्स तपसोऽग्रेण तोषितः ॥१८॥

तपस्त्री विश्वामित्र जी के पास जा उनसे मीठे वचनों में कटा । हे विश्वामित्र ! तुम बहुत अच्छे हो (भले हो) तुम्हारी उम्र तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ॥१८॥

महत्त्वमृषिमुख्यत्वं ददामि तव सुव्रत ।

ब्रह्मणः स वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः ॥१९॥

और तुमको ऋषियों में मुख्य होने का आशीर्वाद देता हूँ । ब्रह्मा जी के वचन सुन तपोधन विश्वामित्र जी ॥१९॥

प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम् ।

ब्रह्मर्षिशब्दमतुलं स्वार्जितः कर्मभिः शुभैः ॥२०॥

हाथ जोड़ आंग प्रणाम कर ब्रह्मा जी से बोले । मैंने तो तपस्या अतुलित ब्रह्मर्षिपद प्राप्त करने के लिए की थी ॥२०॥

यदि मे भगवानाह तर्ताहं विजितेन्द्रियः ।

तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत्त्वं जितेन्द्रियः ॥२१॥

यदि आप मुझे महर्षि ही कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं जितेन्द्रिय नहीं हूँ । (तभी तो आप मेरा अभीष्ट ब्रह्मर्षिपद प्रदान

नहीं करते और महर्षि मुझे कहते हैं) इस पर ब्रह्मा जी ने कहा—हाँ अभी तक तुम (सचमुच) जितेन्द्रिय नहीं हो पाए ॥२१॥

यतस्व मुनिशार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः ।

विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रां महामुनिः ॥२२॥

हे मुनिशार्दूल! अभी और तप करो। यह कह ब्रह्मा जी स्वर्ग को चले गए। सब देवताओं के यथास्थान चले जाने पर, महर्षि विश्वामित्र जी ॥२२॥

ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बां वायुभक्षस्तपश्चरन् ।

धर्मे पञ्चतपा भूत्वा वर्षास्वाकाशसंश्रयः ॥२३॥

बिना सहारे ऊपर की बाँह उठाए और केवल वायु से पेट भर कर, तप करने लगे। गर्मी में वे पञ्चाग्नि तपते, वर्षाऋतु में छायादार जगह से निकल, खुले मैदान में बैठते ॥२३॥

शिशिरे सलिलस्थार्या रात्र्यहानि तपाधनः ।

एवं वर्षसहस्रं हि तपो धारमुपागमत् ॥२४॥

जाड़ों में दिन रात वे जल के भीतर खड़े रहने में इस प्रकार उन्होंने एक हजार वर्षों तक उग्र तप किया ॥२४॥

तस्मिन् सन्तप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनी ।

सम्भ्रमः सुमहानार्सान् सुराणां वासवस्य च ॥२५॥

महर्षि विश्वामित्र के इस प्रकार तप करने से इन्द्र मन्त्रि समस्त देवताओं में बड़ी खलबली मचाने लगे। वे लोग बहुत घबराए ॥२५॥

रम्भामप्सरसं शक्रः सह सर्वैर्मरुद्गणैः ।

उवाचात्महितं वाक्यमहितं कौशिकस्य च ॥२६॥

इति त्रिपष्टितमः सर्गः ॥

तदनन्तर देवराज इन्द्र सब देवताओं सहित रंभा अप्सरा से अपने हित और विश्वामित्र के अनहित की यह बात बोले ॥२६॥

बालकाण्ड का त्रिसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❀:—

चतुःषष्टितमः सर्गः

—:❀:—

सुरकार्यमिदं रम्भे कर्तव्यं मुमहत्त्वया ।

लोभनं कौशिकस्येह काममोहसमन्वितम् ॥१॥

हे रम्भे ! देवताओं का यह बड़ा भारी काम है कि, विश्वामित्र को कामासक्त करना (जिससे वे तपस्या से विमुख हों) ॥१॥

तथोक्त्वा साऽप्लग राम सहस्राक्षेण धीमता ।

व्रीडिता प्राञ्जलिभूत्वा प्रत्युवाच सुरेश्वरम् ॥२॥

हे राम ! जब इन्द्र ने रम्भा से यह कहा, तब वह बहुत लज्जित हुई और हाथ जोड़ कर इन्द्र से बोली ॥२॥

अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनिः ।

क्रोधमुत्सृजते योरं मयि देव न संशयः ॥३॥

हे इन्द्र ! यह विश्वामित्र बड़े क्रोधी हैं । जैसे ही मैं उनके पास गईं कि, वे अत्यन्त क्रुद्ध हो, निश्चय ही शाप देंगे ॥३॥

ततो हि मे भयं देव प्रसादं कर्तुमर्हसि ।

एवमुक्तस्तया राम रम्भया भीतया तया ॥४॥

इसी लिए मैं उनके समीप जाती हुई बहुत डरती हूँ । आप कृपया मुझे वहाँ न भेजिए । हे राम ! उस डरी हुई रम्भा के यह कहने पर ॥४॥

तामुवाच सहस्राधो वेपमानां कृताञ्जलिम् ।

मा भैषि रम्भे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम् ॥५॥

इन्द्र ने (भय से) थर थर काँपती हुई और हाथ जोड़े खड़ी हुई रम्भा से कहा—डरे मन ; तेरा मङ्गल हो, मेरी आज्ञा मान ॥५॥

कोकिलो हृदयग्राही माधवे रुचिरद्रुमे ।

अहं कन्दर्पसहितः स्थास्यामि तव पार्वतः ॥६॥

मैं स्वयं वसन्तऋतु में, मनाहर कुहुक करने वाला कोकिल पत्नी बन कर, कामदेव सहित किसी सुन्दर वृक्ष के ऊपर, तेरे आन पास ही रहूँगा ॥६॥

त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परमभास्वरम् ।

तमृषिं कौशिकं रम्भे भेदयस्वरे तपोधनम् ॥७॥

हे रम्भे ! तू अपना बड़ा सुन्दर और चटकीला भास्वरूप शृङ्गार कर, उन तपस्वी विश्वामित्र का मन (तप से) चतान मान करना ॥७॥

— प्रसादं—निशेगनिवृत्तित्वं । (गो० ।) —भेदयस्वरे—वर्तमान-
कर्म । (गो०)

सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमम् ।
लोभयामास ललिताः विश्वामित्रं शुचिस्मिता ॥८॥

इन्द्र के इस प्रकार समझाने पर वह सुन्दरी अपना शृङ्गार कर और मन्द मन्द सुस्रव्याती हुई, विश्वामित्र के मन को लुभाने लगी ॥८॥

कोकिलस्य स शुश्राव वल्गुः व्याहरतः स्वनम् ।
सम्प्रहृष्टेन मनसा तत एनामुदैक्षत ॥९॥

उस समय विश्वामित्र जी कोकिल का मधुर कुहकना सुन और प्रसन्न हो, रम्भा की ओर देखने लगे ॥९॥

अथ तस्य च शब्देन गीतेनाप्रतिमेन च ।
दर्शनेन च रम्भाया मुनिः सन्देहमागतः ॥१०॥

(परन्तु) उस कोकिल की कुहूक तथा रम्भा का मनोहारी गाना सुन और उसको देख, विश्वामित्र जी के मन में सन्देह उत्पन्न हो गया ॥१०॥

सहस्राक्षस्य तत्कर्म विजाय मुनिपुङ्गवः ।
रम्भां क्रोधसमाविष्टा शशाप कुशिकात्मजः ॥११॥

और यह जान कर कि, यह सब नटखटी इन्द्र की है, विश्वामित्र जी बहुत क्रुद्ध हुए और रम्भा को यह शाप दिया ॥११॥

यन्मां लोभयसे रम्भे कामक्रोधजयैषिणम् ।
दश वर्षसहस्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे ॥१२॥

हे रम्भे ! काम क्रोध को अपने वश में करने की इच्छा रखने वाले मुझे जो तू लुभार्ता है, सो हे दुभगे ! (अभागिनी) तू इस हजार वर्ष तक शिला हो कर रहैगी ॥१२॥

ब्राह्मणः सुमहातेजास्तपोबलसमन्वितः ।

उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मत्क्रांयकलुषीकृताम् ॥१३॥

हे रम्भे ! फिर कोई बड़ा तेजस्वी एवं नवम्बी ब्राह्मण तुम्हारे रूपिणी को, मेरे क्रोध से अर्थात् शाप से उबारेगा ॥१३॥

एवमुक्त्वा यहातेजाविश्वामित्रो महामुनिः ।

। अशक्नुवन् धारयितुं श्लोथं सन्नापमागतः ॥१४॥

महर्षि विश्वामित्र यह शाप देने के अनन्तर, क्रोध को रोक न सकने के लिए, बहुत पड़ताए । (इसलिए कि क्रोधातुर हो कर शाप देने से उनका तपोबल, जो उन्होंने उग्र तप कर मन्पादन किया था, नष्ट हो गया । इन्द्र यही चाहते भी थे ।) ॥१४॥

तस्य शापेन मद्गता रम्भा गैर्ला तदाऽभवन् ।

वचः श्रुत्वा च कन्दर्पो महर्षेः स चः निर्गतः ॥१५॥

विश्वामित्र जी के उस महाशाप से रम्भा शिला हो गई और महर्षि विश्वामित्र के क्रोधयुक्त वचन सुन कानदेव और इन्द्र वहाँ से रफूचकर हुए ॥१५॥

कोपेन सुमहातेजास्तपोपदग्णे कृते ।

इन्द्रियैरजितं राम न लेभे शान्तिमात्मनः २ ॥१६॥

हे राम ! क्रोध करने से महातेजस्वी विश्वामित्र का तप नष्ट हो गया । वे अपनी इन्द्रियों को अपने वश में न रख सके, इस लिए उनके मन को शान्ति न मिली ॥१६॥

वभ्वास्य मनश्चिन्ता' तपोपहरणे कृतं ।

नैव क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्यामि किञ्चन ॥१७॥

वल्कि उन्होंने तप के नष्ट होने पर, प्रतिज्ञा की कि, आगे मैं कभी न तो किसी पर क्रोध करूँगा और न किसी से कुछ बात-चीत ही करूँगा ॥१७॥

अथवा नोच्छ्वसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि ।

अहं विशोषयिष्यामि ह्यात्मानं विजितेन्द्रियः ॥१८॥

इतना ही नहीं, वल्कि मैं सैकड़ों वर्षों तक साँस भी न लूँगा । इस प्रकार इन्द्रियों को जीतने के लिए मैं अपने शरीर को सुखा डालूँगा और इन्द्रियों को अपने वश में करूँगा ॥१८॥

तावद्यावद्भि मे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसार्जितम् ।

अनुच्छ्वसन्नभुञ्जानस्त्रिष्टयं शाश्वतीः समाः ॥१९॥

जब तक तपोबल से मुझे ब्राह्मणत्व प्राप्त न होगा, जब तक, कितना ही समय क्यों न लगे, मैं न तो साँस ही लूँगा और न भोजन करूँगा और मदा हा खड़ा रहूँगा ॥१९॥

न हि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यान्ति मूर्तयः^१ ।

एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां^२ स मुनिपुङ्गवः ।

चकाराप्रतिमां^३ लोके प्रतिज्ञां रघुनन्दन ॥२०॥

इति चतु.षष्टितमः सर्गः ॥

मुझे इस बात का तो भय ही नहीं है कि, भोजन न करने या साँस न लेने अथवा सदैव खड़े रहने से मेरे शरीर के अवयव चीण हो जायेंगे । हे रघुनन्दन ! महर्षिप्रवर विश्वामित्र ने एक हजार वर्षों तक उक्त विधि से (साँस न ले कर, भोजन न कर के, मौनी हो कर, खड़े रह कर) तप करने का अतुल्य महत्त्व कहा ॥२०॥

बालकाण्ड का चौसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:ॐ:—

पञ्चषष्टितमः सर्गः

—:ॐ:—

अथ हैमवतीं^४ राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिः ।

पूर्वां दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे मुदाह्वणम् ॥१॥

तदनन्तर महर्षि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में जा कर, फिर उम्र तप करने लगे ॥१॥

१ मूर्तयः—शरीरावयवाः (गो०) २ दीक्षां—अनुष्ठानम्, मोक्ष-महत्त्वम् । (गो०) ३ अप्रतिमां—निस्तुता । (गो०) ४ हैमवतीं—उत्तमान् । (गो०)

मौनं वर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमम् ।
चकाराप्रतिमं राम तपः परमदुष्करम् ॥२॥

हे राम ! उन्होंने, एक हजार वर्षों तक मौनव्रत धारण कर परम दुष्कर अतुलित तप किया ॥२॥

पूर्णे वर्षसहस्रे तु काष्ठभूतं महासुनिम् ।
विघ्नैर्वहुभिराधृतं क्रोधां नान्तरमाविशत् ॥३॥

यहाँ तक कि, जब एक हजार वर्ष पूरे हुए, तब विश्वामित्र जी का शरीर काठ की तरह हो गया । इस बीच में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए; किन्तु मुनिराज के अन्तःकरण में क्रोध उत्पन्न न हुआ ॥३॥

स कृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठदव्ययम् ।
तस्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः ॥४॥

हे राम ! जब विश्वामित्र जी को निश्चय हो गया कि, उन्होंने क्रोध को जीत लिया और उनका एक हजार वर्ष तप करने का सङ्कल्प पूरा हो गया ॥४॥

भोक्तुमारव्यवानन्नं तस्मिन् काले रघूत्तम ।
इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तं मिद्धमन्नमयाचत ॥५॥

हे राघव ! तब वे अन्न भोजन करने को बैठे । उसी समय इन्द्र ब्राह्मण का रूप धर कर आए और विश्वामित्र की थाली में परोसे हुए भोज्य पदार्थों के लिए उनसे याचना की ॥५॥

तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चिनः ।
निःशेषितेऽन्ने भगवानभुक्त्वंव महातपाः ॥६॥

भोजन के लिए जो अन्न तैयार हुआ था वह सब का सब उठा कर, उन्होंने इन्द्र को सचमुच ब्राह्मण जान दे दिया। स्वयं बिना खाए ही रह गए ॥६॥

न किञ्चिद्वदद्विभं मौनव्रतमुपास्थितः ।

अथ वर्षसहस्रं वै नोच्छ्वसन् मुनिपुङ्गवः ॥७॥

किन्तु ब्राह्मण से कुछ भी न कहा, क्योंकि, वे मौनव्रत धारण किए हुए थे। तदनन्तर फिर उन्होंने एक हजार वर्ष तक माँस रोक कर तप करना आरम्भ किया ॥७॥

तस्यानुच्छ्वसमानस्य मूर्ध्नि धूमो व्यजायत ।

त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्तमादीपितःमिवाभवत् ॥८॥

साँस रोक कर रखने से (अर्थात् कुम्भक करने से) उनके सिर से धुआँ निकलने लगा। इससे तीनों लोकवासी घबड़ा लठे और तीनों लोक तप्त हो गए ॥८॥

ततो देवाः सगन्धर्वाः पन्नगोरगराक्षसाः ।

२मोहितास्तेजसा तस्य तपसा मन्दरश्मयः ॥९॥

तब तो देवता, गन्धर्व, सर्प, नाग और राक्षस सब ही उनके तप रूपी आग्नि से मूर्च्छित हो गए और उनके तेज मन्द पड़ गए ॥९॥

कश्मलोपहताः^३ सर्वे पितामहमथाब्रुवन् ।

बहुभिः कारणैर्देव विश्वामित्रो महामुनिः ॥१०॥

१ आदीपितम्—तापितं । (गो०) २ मोहिता—मूर्च्छिता । (गो०)

३ कश्मलोपहताः—दुःखोपहताः । (गो०)

उन सब ने दुःखी हो ब्रह्मा जी से कहा—हे देव ! हम महर्षि विश्वामित्र को अनेक प्रकार से ॥१०॥

लोभितः क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते ।

न ह्यस्य वृजिनः किञ्चिद्दृश्यते सूक्ष्ममप्यथ ॥११॥

लुभाया और क्रुद्ध करना चाहा, किन्तु ये अपने तप से न डिंगे, प्रत्युत इनका तप बढ़ता ही गया। अब इनमे राग द्वेष नाम मात्र को भी नहीं रह गया ॥११॥

न दायते यदि त्वस्य मनसा यदभीप्सितम् ।

विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम् ॥१२॥

यदि अब भी उनको उनका अभीष्ट वर (अर्थात् ब्रह्मर्षि की पदवी) न दिआ गया, तो वे अपने तप से सचराचर तीनों लोकों को नष्ट कर डालेंगे ॥१२॥

व्याकुलाश्च दिशः सर्वा न च किञ्चित् प्रकाशते ।

सागराः क्षुभिताः सर्वे विशीर्यन्तं च पर्वताः ॥१३॥

देखिए सब दिशाएँ विकल हैं और प्रकाशरहित हैं। (अर्थात् इनकी तपस्या के तेज से कव का तेज छिप गया है) समुद्र लुब्ध हो गए हैं और सब पर्वत फटे जाते हैं ॥१३॥

भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षेस्तस्य तेजसा ।

प्रकम्पते च पृथिवी वायुर्वति भृशाकुलः ॥१४॥

महर्षि का तपस्या के तेज से सूर्य प्रभाहीन पड़ गया है। पृथिवी काँप रही है और वायु की गति भी गड़गड़ा गई है ॥१४॥

शेषितः

१ वृजिन—राग, रागद्वेषादिलक्षणं । (गा०)

ब्रह्मन्? प्रतिजानीमो नास्तिको? जायते जनः ।

सम्मूढमिव? त्रैलोक्यं सम्प्रक्षुभितमानसम् ॥१५॥

हे ब्रह्मन् ! इनका प्रतिकार हम लोगों को अब नहीं मूक पड़ता । इस हलचल के कारण लोग नास्तिकों की तरह कर्मानुष्ठान शून्य हुए जाते हैं । क्योंकि इस समय किमी का मन ठिकाने नहीं है और सब विकल है ॥१५॥

शुद्धिं न कुरुते यावन्नाशं देव महाद्युतिः ।

तावत्प्रसाद्यो भगवानग्निरूपो महाद्युतिः ॥१६॥

अतः हे देव ! विश्वामित्र जी के मन में इस जगत् को नाना करने की इच्छा उत्पन्न होने के पूर्व ही, आप इनको मन्नुष्ट कर दीजिए । क्योंकि इस समय वे अग्नि रूप होने के कारण महाद्युतिमान हो रहे हैं ॥१६॥

कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दद्यात् भृशम् ।

देवराज्यं चिकीर्षत् दीयतामस्य यन्मतम् ॥१७॥

जैसे प्रलय के समय कालाग्नि तीनों लोकों का जला कर नाश कर डालते हैं, वैसे ही ये भी जला कर भस्म कर डालेंगे । यदि यह इन्द्रामन चाहें तो वह भी इनको दे कर इनका अभीष्ट पूरा कीजिए अथवा यदि आप इनको ब्रह्मर्षिपद जो इनका अभीष्ट है, नहीं देंगे : तो यह इन्द्रपुरी के राज्य भी इच्छा करने लगेंगे ॥१७॥

१ न प्रजिज्ञानीनः—अभिज्ञानमितिनेयः । (गो०) २ नास्ति नदी इत्येत
इति—उक्तमत्तो भवशास्त्रादिति कश्च कर्मानुष्ठानशून्योऽप्यनन्तरं । (गो०)
३ सम्मूढमिवेति—व्याकुलचित्तं । (रा०)

ततः सुरगणाः सर्वे पितामहपुरोगमाः ।

विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमब्रुवन् ॥१८॥

(उन लोगो से इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर) ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ ले, महात्मा विश्वामित्र जी से जा कर, (ये) मधुर वचन बोले ॥१८॥

ब्रह्मर्षे स्वागतं तंस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ।

ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक ॥१९॥

हे ब्रह्मर्षे ! हम तुम्हारा स्वागत* करते हैं (अर्थात् तुम्हें वधाई देते हैं ।) हम तुम्हारी तपस्या से भली भाँति सन्तुष्ट हुए हैं । हे विश्वामित्र ! तुमने अपने उग्र तप के प्रभाव से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ॥१९॥

दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गणः ।

स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथासुखम् ॥२०॥

अब हम सब देवताओं सहित तुमको आशीर्वाद देते हैं कि, तुम दीर्घजीवी हो; तुम्हारा मङ्गल हो । हे सौम्य ! अब जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ जाओ ॥२०॥

पितामहवचः श्रुत्वा सर्वेषां च दिवोकसाम् ।

कृत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार महामुनिः ॥२१॥

* श्रीयुत वामन शिवराम आपटे ने स्वागतं का अर्थ बतलाते हुए, इस शब्द के प्रयोग के विषय में लिखा है—“Used chiefly in greeting a person, who is put in the dative case”

ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुन, विश्वामित्र जी ने सब देव-
ताओं को प्रणाम किया और वे प्रसन्न हो बोले ॥२१॥

ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तथैव च ।

ॐकारश्च वषट्कारो वेदाश्च वरयन्तु माम् ॥२२॥

यदि मुझे ब्राह्मणत्व दिया है और दीर्घायु प्राप्त हो चुका है,
तो ओंकार वषट्कार तथा वेद भी मुझे अङ्गीकार करें ॥२२॥

[नोट—ओंकार का यहाँ अर्थ है ब्रह्मज्ञानसाधन और वषट्कार ने
अभिप्राय है यज्ञसाधन । वेद ने अभिप्राय है साद्विषय वेदविद्या ने ।
अङ्गीकार करें (वरयन्तु) अर्थात् जैसे वसिष्ठादि ब्रह्मर्षियों को वेदपढ़ाने
का तथा यज्ञकराने का अधिकार है—विश्वामित्र जी ब्रह्मा जी से कहते हैं
कि, वैसे ही मुझे भी वेदपढ़ाने और यज्ञकराने का अधिकार प्राप्त है ।]

भद्रवेदविदां श्रेष्ठो ब्रह्मवेदविदामपि ।

ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देवताः ॥२३॥

और ऋषियों की वेदविद्या (अथर्वणवेद) जानने वालों
में श्रेष्ठ तथा ब्राह्मणों की वेदविद्या जानने में भी श्रेष्ठ (अर्थात्
चारों वेदों के ज्ञाता) ब्रह्मा जी के पुत्र वसिष्ठ जी भी मुझे
“ब्रह्मर्षि” कहें ॥२३॥

यद्ययं परमः कामः कृतो यान्तु सुरर्षभाः ।

ततः प्रसादितो देवैर्वसिष्ठो जपतांवरः ॥२४॥

१ सत्रवेदाः—सत्रिणांशांशान्तिपुष्ट्यादिप्रसोचनास्यनन्दवेदाः सः
विदा भेदः । (गी०)

यदि मेरा यह बड़ा अभीष्ट पूरा हो जाय, तो आप लोग (अर्थात् सब देवता) चले जा सकते हैं। यह सुन देवता लोग ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठ जी के पास गए और उन्हें मना कर राजी किआ ॥२४॥

सग्न्यं चकार ब्रह्मर्षिरेवमस्त्विति चाब्रवीत् ।

ब्रह्मर्षिस्त्वं न सन्देहः सर्वं सम्पत्स्यते तव ॥२५॥

वसिष्ठ जी आए और विश्वामित्र जी से मेल कर लिआ (अर्थात् बैर छोड़ दिआ) और कहा, तुम ब्रह्मर्षि हो गए। तुम्हारे ब्रह्मर्षि होने में अब कुछ भी सन्देह नहीं है। अब तो सब ने तुम्हारा ब्रह्मर्षि होना मान ही लिआ है ॥२५॥

इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जग्मुर्यथागतम् ।

विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम् ॥२६॥

यह कह कर देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। विश्वामित्र ने भी उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके ॥२६॥

पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतांवरम् ।

कृतकामो महीं सर्वां चचार तपसि स्थितः ॥२७॥

विश्वामित्र जी ने महर्षिप्रवर ब्रह्मर्षि वसिष्ठ जी का पूजन किआ और स्वयं कृतकार्य हो और तप करते हुए ये अब सारी पृथिवी पर भ्रमण करने लगे हैं ॥२७॥

एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राम महात्मना ।

एष राम मुनिश्रेष्ठ एष विग्रहवांस्तपः ॥२८॥

(शतानन्द जी बोले) हे राम ! इम नरह् इन महात्मा विश्वामित्र जी ने ब्राह्मणत्व पाया है । हे राम ! यह मुनियों में श्रेष्ठ है और तप की तो साक्षात् मूर्ति ही है ॥२८॥

एष धर्मपरो नित्यं वीर्यस्यैव परायणम् ।

एवमुक्त्वा महातेजा विरगाम द्विजोत्तमः ॥२९॥

यह सदा धर्मकार्यो के करने में तत्पर रहते हैं, यह अब भी तपोवीर्य परायण हैं । यह कह कर ब्राह्मणश्रेष्ठ महानेजम्बी शतानन्द जी चुप हो गए ॥२९॥

शतानन्दवचः श्रुत्या गमलक्ष्मणमन्त्रिणो ।

जनकः प्राञ्जलिवर्कियमुवाच कृशिकात्मजम् ॥३०॥

शतानन्द जी की बात पूरी होने पर, श्रीगमचन्द्र लक्ष्मण के सामने राजा जनक ने हाथ जोड़ कर कौशिक जी से कहा, ॥३०॥

धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव ।

यज्ञं काकुन्स्थमहितः प्राप्तवानसि कौशिक ॥३१॥

हे कौशिक ! मैं अपने को धन्य मानता हूँ और आपका धन्य अनुगृहीत हूँ । क्योंकि आप श्रीगम और लक्ष्मण मन्त्रि, मेरे यज्ञ में पधारे हैं ॥३१॥

पावितोऽहं त्वया ब्रह्मण दर्शनेन महामुने ।

[विश्वामित्र महाभाग ब्रह्मर्षिणां वर्योत्तम] ॥३२॥

हे ब्रह्मण ! अपने दर्शन दे कर आपने मुझे पवित्र किया है । हे महाभाग, हे ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ! ॥३२॥

१ गुणा बहुविधाः प्राप्तास्तव सन्दर्शनान् मया ।

विस्तरेण च ते ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महात्तपः ॥३३॥

आपके दर्शन से मेरा मान बढ़ा है, मैंने विस्तारपूर्वक आप तप की कीर्त्ति का वृत्तान्त सुना है, ॥३३॥

श्रुतं मया महातेजां रामेण च महात्मना ।

सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवां गुणाः ॥३४॥

मैंने, श्रीरामचन्द्र जी ने तथा मेरे सभासदों ने आपके असंख्य गुण सुने ॥३४॥

अप्रमेयं तपस्तुभ्यमप्रमेयं च तं बलम् ।

अप्रमेयाः गुणाश्चैव नित्यं ते कुशिकात्मज ॥३५॥

हे कौशिक ! आपका तप और बल अचिन्त्य है । आपके गुण अपार हैं ॥३५॥

तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो ।

कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम् ॥३६॥

हे विभो ! आपकी विस्मयोत्पादिनी कथाओं को सुनते सुनते मेरा जी नहीं भरा । अब सूर्य अस्त होने वाला है, सन्ध्योपासनादि कर्म करने का समय समीप है । (अतः अब मैं विदा होता हूँ) ॥३६॥

श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि मां पुनः ।

स्वागतं तपतांश्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि ॥३७॥

१ गुणाः—कर्मश्रेष्ठयज्ञातिश्रेष्ठयलक्षणाः । (रा०) २ अप्रमेयाः—इयत्तयाज्ञातुमशक्याः । (गो०)

हे तप करने वालों में श्रेष्ठ ! आप इस समय भले पधारे ।
कल प्रातःकाल फिर मुझे आपके दर्शन होंगे । अब जाने की आज्ञा
दीजिए ॥३७॥

एवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभम् ।

विससर्जाशु जनकं प्रीतं प्रीतमनास्तदा ॥३८॥

जब जनक जी ने ऐसा कहा, तब विश्वामित्र जी ने उनको
प्रशंसा करते हुए, प्रसन्न मन से बड़े प्रेम के साथ उनकी तुल्य
विदा कर दिया ॥३८॥

एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः ।

प्रदक्षिणं चकाराय सांपाध्यायः सवान्धवः ॥३९॥

तदनन्तर राजा जनक ने अपने उपाध्याय और बन्धु दान्धवों
सहित उठ कर, विश्वामित्र जी की प्रदक्षिणा की और वे वहाँ से
चल दिए ॥३९॥

विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सरामः सहलक्ष्मणः ।

स्ववाटःसभिचक्राम पूज्यमानो महर्षिभिः ॥४०॥

इति पञ्चपष्ठितमः सर्गः ॥

धर्मात्मा विश्वामित्र भी श्रीराम लक्ष्मण सहित मुनिगों ने
सन्मानित हो अपने निवासस्थान में आए ॥४०॥

बालकाण्ड का पैम्ठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:ॐ:—

षट्षष्टितमः सर्गः

—:०:—

ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः ।

विश्वामित्र महात्मानमाजुहाव सराधवम् ॥१॥

प्रातःकाल होते ही राजा जनक ने आह्निक कर्मानुष्ठान से निश्चित हो, दोनो राजकुमारों सहित विश्वामित्र जी को बुलवा भेजा ॥१॥

तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ।

रात्र्यां च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाच ह ॥२॥

शास्त्रविधि के अनुसार अर्घ्यपाद्यादि से विश्वामित्र व राम लक्ष्मण की पूजा कर, धर्मात्मा राजा जनक बोले, ॥२॥

भगवन् स्वागतं तेऽस्तु किं करोमि तवानघ ।

भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्यहम् ॥३॥

हे भगवन् ! आपका मैं स्वागत करता हूँ, कुछ सेवा करने के लिए आज्ञा दीजिए । क्योंकि मैं आपकी आज्ञा पाने का पात्र हूँ ॥३॥

एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना ।

प्रन्युवाच मुनिर्वीरं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥४॥

जब महात्मा जनक जी ने ऐसा कहा, तब वातचीत करने में अत्यन्त चतुर विश्वामित्र जी राजा से बोले ॥४॥

पुत्रो दशरथस्येमां क्षत्रियों लोकविश्रुतां ।
द्रष्टुकामां धनुःश्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठति ॥५॥

ये दोनों कुमार महाराज दशरथ के पुत्र, क्षत्रियों में श्रेष्ठ आंग
लोक में विख्यात श्रीरामचन्द्र एवं लक्ष्मण, वह धनुष देखना
चाहते हैं, जो आपके यहाँ रखा है ॥५॥

एतदृश्य भद्रं ते कृतकामां नृपात्मजां ।
दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः ॥६॥

आपका मङ्गल हो : अतः आप उसे इन्हें दिखलवा दीजिए
से देखने ही से इनका प्रयोजन हो जायगा और ये चले
गिये ॥६॥

एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम् ।
श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति ॥७॥

यह सुन राजा जनक, विश्वामित्र जी से बोले कि, जिन प्रश्नों
के लिए यह धनुष यहाँ रखा है, उसे सुनिए ॥७॥

देवरात इति ख्यातो निमिः पृष्टो मर्हापतिः ।
न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मना ॥८॥

हे भगवन् ! राजा निमि की छठवीं पीढ़ी में देवरात नाम के
एक राजा हो गए हैं । उनको यह धनुष भगोहर के रूप में मिला
था ॥८॥

दक्षयज्ञवधे पूर्व धनुरायन्य वीर्यवान् ।
रुद्रस्तु त्रिदशान् गोपान् सर्लान्मिदमब्रवीन् ॥९॥

पूर्वकाल में जब महादेव जी ने दक्ष प्रजापति का विध्वंस कर डाला (क्योंकि उसमें महादेव जी को यज्ञभाग नहीं मिला था) तब लीलाक्रम से शिव जी ने क्रोध में यही धनुष उठा देवताओं से कहा था ॥६॥

यस्माद्भागार्थिनो भागान्नाकल्पयत मे सुराः ।

वराङ्गाणि^१ महार्हाणि धनुषा शतयामि^२ वः ॥१०॥

हे देवो ! यतः (चूँकि) तुम लोगों ने मुझ भागार्थी को यज्ञ-भाग नहीं दिया, अतः मैं इस धनुष से तुम सब के सिरों को काटे डालना हूँ ॥१०॥

ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुङ्गव ।

प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतोऽभवद्भवः ॥११॥

हे मुनिप्रवर ! शिव जी का यह वचन सुन, देवता लोग बहुत उदास हो गए और किसी न किसी तरह शिव जी को मना कर प्रसन्न किया ॥११॥

प्रीतियुक्तः स सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनाम् ।

तदेतदेवदेवस्य धनूरत्रं महात्मनः ॥१२॥

तब प्रसन्न हो कर महादेव जी ने यह धनुष देवताओं को दे दिया और देवताओं ने उस धनुषरत्न को धरोहर की तरह देवरात को दे दिया । सो यह वही धनुष है ॥१२॥

१ वराङ्गाणि—शिरांसि । (गो०) २ शतयामि—छिनत्ति । (गो०)
३ क्षेत्रं—यागभूमि । (गो०)

न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वके विभो ।

अथ मे कृषतः क्षेत्रं^३ लाङ्गलादुत्थिता ततः ॥१३॥

क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता ।

भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा ॥१४॥

एक समय यज्ञ करने के लिए मैं हल से खेत जोत रहा था ।

उस समय हल की नोक से एक कन्या भूमि से निकली । अपने जन्म* के कारण सीता के नाम से प्रसिद्ध है और मेरी लड़की कहलाती है । पृथिवी से निकली हुई वह कन्या दिनो दिन

मेरे यहाँ बड़ी होने लगी ॥१३॥१४॥

वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा ।

भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजाम् ॥१५॥

उस अयोनिजा कन्या के विवाह के लिए मैंने पराक्रम ही शुल्क रखा है । पृथिवी से निकली हुई मेरी यह कन्या जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी ॥१५॥

वरयामासुरागम्य राजानो मुनिपुङ्गव ।

तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षिताम् ॥१६॥

वीर्यशुल्केति भगवन् न ढढामि सुतामहम् ।

ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुङ्गव ॥१७॥

तब, हे मुनिश्रेष्ठ ! मेरी उस कन्या के साथ अपना विवाह करने के लिए अनेक देशों के राजा आए । सीता के साथ विवाह करने की इच्छा रखने वाले उन सब राजाओं से कहा गया कि, वह कन्या "वीर्यशुल्का" है । अतः मैं वर के पराक्रम की परीक्षा

* हल की नोक का नाम सीता है, यह कन्या हल की नोक से भूमि खोदते समय पृथिवी से निकली थी ; अतः इसका नाम सीता पड़ा ।

क्रिप बिना अपनी कन्या किसी को नहीं दूँगा । तब तो हे मुनि-
श्रेष्ठ ! सब राजा लोग इकट्ठे हो ॥१६॥१७॥

मिथिलामभ्युपागम्य वीर्यजिज्ञासवस्तदा ।

तेषां जिज्ञासमानानां वीर्यं धनुरुपाहृतम् ॥१८॥

अपने पराक्रम की परीक्षा देने को मिथिलापुरी में आए ।
उनके बल की परीक्षा के लिए मैंने यह धनुष उनके सामने
(रोदा चढ़ाने के लिए) रखा ॥१८॥

न शंकुग्रहणे तस्य धनुपस्तोलनेऽपि वा ।

तेषां वीर्यवतां वीर्यमल्पं ज्ञात्वा महामुने ॥१९॥

उनमें से कोई भी राजा उस धनुष को उठा कर उस पर रोदा
न चढ़ा सका, तब उन राजाओं को अल्पवीर्य समझा ॥१९॥

प्रत्याख्याता नृपतयस्तन्निबोध तपोधन ।

ततः परमकोपेन राजानां मुनिपुङ्गव ॥२०॥

न्यरुन्धन् मिथिलां सर्वे वीर्यसन्देहमागताः ।

आत्मानंभवधृतं^३ ते विज्ञाय नृपपुङ्गवाः ॥२१॥

मैंने उनमें से किसी को अपनी कन्या नहीं दी । हे मुनिराज !
यह बात आप भी जान ले । (जब मैंने अपनी कन्या का विवाह
उनमें से किसी के साथ नहीं किया) तब उन लोगों ने क्रुद्ध हो
मिथिलापुरी घेर ली । क्योंकि धनुष द्वारा बल की परीक्षा देने में
उन्होंने अपना अपमान समझा ॥२०॥२१॥

१ तोलने—भारपरीक्षाथैहस्तनेचालने । (गो०) २ आत्मानं—स्वा-
त्मानं (गो०) ३ अवधृतं—वीर्यशुल्ककरणेन तिरस्कृतंविज्ञाय । (गो०)

राषेण महताऽऽविष्टाः पीडयन् मिथिलां पुरीम् ।

ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः ॥२२॥

साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः ।

ततो देवगणान् सर्वास्तपसाहं प्रसादयम् ॥२३॥

उन लोगों ने अत्यन्त क्रुद्ध हो मिथिलावासियों को बड़ बड़े कष्ट दिए । एक वर्ष तक लड़ाई होने से मेरा धन भी बहुत नष्ट हुआ । इसका मुझे बड़ा दुःख हुआ । तब मैंने तप द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया ॥२२॥२३॥

ददुश्च परमप्रीताश्चतुरङ्गबलं सुराः ।

ततो भद्रा नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः ॥२४॥

देवताओं ने अत्यन्त प्रसन्न हो कर मुझे चतुरङ्गिणी सेना दी । तब तो वे हतोत्साह राजा पराजित हो भाग गए ॥२४॥

अवीर्या वीर्यसन्दिग्धा सामात्याः पापकारिणः ।

तदेतन्मुनिशार्दूल धनुः परमभास्वरम् ।

रामलक्ष्मणयांश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत ॥२५॥

भीरु और वीरता की झूठी डींगें मारने वाले वे राजा अपने मंत्रियों सहित भाग गए । हे मुनिभेष्ठ ! यह वही दिव्य धनुष है । हे सुव्रत ! मैं इसे श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण को भी दिग्ग-
लाऊंगा ॥२५॥

यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने ।

मुतामयोनिजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम् ॥२६॥

इति पट्षष्टितमः सर्गः

और यदि श्रीरामचन्द्र जी ने धनुष पर रोड़ा चढ़ा दिया, तो मैं अपनी अयोनिजा सीता उनको व्याह दूँगा ॥२६॥

बालकाण्ड का छियासठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

सप्तषष्टितमः सर्गः

—:६:—

जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः ।

धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम् ॥१॥

राजा जनक की बातें सुन, महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा—हे राजन् ! वह धनुष श्रीरामचन्द्र को दिखलाइए नो ॥१॥

ततः स राजा जनकः सचिवान् व्यादिदेश ह ।

धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यविभूषितम् ॥२॥

तब राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि, जो दिव्य धनुष चन्दन और पुष्पमालाओं से भूषित है, उसे ले आओ ॥२॥

जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन् पुरीम् ।

तद्धनुः पुरतः कृत्वा निर्जग्मुः पार्थिवाज्ञया ॥३॥

राजा जनक की आज्ञा पाकर मंत्री लोग मिथिलापुरी में गए (बझशाला नगरी के बाहर बनी थी) और उस धनुष को आगे कर चले ॥३॥

नृणां जनानि पञ्चाशद्व्यायतानां महोत्सवाम् ।

सञ्जृपामष्टचक्रां तां समूहुस्ते कथञ्चन ॥४॥

* पाठान्तरे—“समन्तान्” ।

सम्प्रपष्टितमः सर्गः

पाँच हजार मजबूत मनुष्य, धनुष की आठ पहिये की पेटी को, कठिनाता से खींच और ढकेल कर वहाँ ला सके ॥४॥

तामादाय तु मञ्जूषामायसीं यत्र तद्धनुः ।

सुरोपमं ते जनकमूचुर्नृपतिमन्त्रिणः ॥५॥

जिन पेटी में धनुष रखा था वह लोहे की थी—उसे ला कर, मंत्रियों ने सुरोपम महाराज जनक को इस बात की सूचना दी ॥५॥

इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजभिः ।

मिथिलाधिप राजेन्द्र दर्शयन् यदीच्छसि ॥६॥

मंत्री बोले—हे राजन ! यह वही धनुष है, जिसकी पूजा सब राजा कर चुके हैं। हे मिथिला के अधीश्वर ! हे राजेन्द्र ! अब आप जिसको चाहे उसे इसे दिखलाइए ॥६॥

तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिर्भाषत ।

विश्वामित्रं महात्मानं तां चोभां रामलक्ष्मणौ ॥७॥

मंत्रियों की बात सुन, राजा ने हाथ जोड़ कर, महात्मा विश्वामित्र और राम लक्ष्मण से कहा ॥७॥

इदं धनुर्वरं ब्रह्मनकैरभिज्ञपूजितम् ।

राजभिश्च महावीरैरशक्तैः पूरितं पुरा ॥८॥

हे ब्रह्मन् ! यह श्रेष्ठ धनुष वही है, जिनका पूजन सब निमिर्वंशीय राजा करते चले आते हैं और यह वही धनुष है जिन पर बड़े-बड़े पराक्रमी राजा लोग रोदा नहीं चढ़ा नके ॥८॥

नैतत् सुरगणाः सर्वे नासुरा न च राक्षसाः ।

गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः ॥६॥

क गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे ।

आरोपणे समायोगे वेपने तोलनेऽपि वा ॥१०॥

समस्त देवता, असुर, राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर और नाग भी जब इस धनुष को उठा और झुका कर इस पर रोदा नहीं चढ़ा सके, तब वपुरे मनुष्य की तो बात ही क्या है, जो इस धनुष को उठा कर और झुका कर, इस पर रोदा चढ़ा सके ॥६॥१०॥

तदेतद्धनुषां श्रेष्ठमानीतं मुनिपुङ्गव ।

दर्शयैतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः ॥११॥

हे ऋषिश्रेष्ठ ! वह श्रेष्ठ धनुष आ गया है । हे महाभाग ! उसे इन राजकुमारों को दिखाइए ॥११॥

विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितम् ।

वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमब्रवीत् ॥१२॥

धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने जब राजा जनक के ये वचन सुने, तब उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी से कहा—हे वत्स ! इस धनुष को देखो ॥१२॥

ब्रह्मर्षेर्वचनाद्रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः ।

मञ्जूषां तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथाब्रवीत् ॥१३॥

महर्षि के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी वहाँ गए जहाँ धनुष था और उस पेटी को, जिसमें वह धनुष था, खोल कर, धनुष देखा और बोले ॥१३॥

इदं धनुर्वरं ब्रह्मन् संस्पृशामीह पाणिना ।

यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणेपि वा ॥१४॥

हे ब्रह्मन् ! अब इस धनुष को मैं हाथ लगाता हूँ और इसे
पूरा कर इस पर रोदा चढ़ने का प्रयत्न करता हूँ ॥१४॥

वाढमित्येव तं राजा मुनिश्च समभाषत ।

लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान्मुनेः ॥१५॥

राजा जनक और विश्वामित्र ने उनकी बात अङ्गीकार करते
कहा “बहुत अच्छा” । मुनि के वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी
वेना प्रयास धनुष को बीच से पकड़ उठे उठा लिया ॥१५॥

पश्यतां नृसहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः ।

आरोपयन्स धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनुः ॥१६॥

और हजारों मनुष्यों के सामने धर्मात्मा श्रीगमचन्द्र जी ने
वेना प्रयास उस पर रोदा भी चढ़ा दिया ॥१६॥

आरांषयित्वा धर्मात्मा पूरयामास वीर्यवान् ।

तद्भवभङ्ग धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः ॥१७॥

महायशस्वी पुरुषोत्तम एवं बलवान् श्रीगम ने रोदा चढ़ाने के
लिए ही रोदे को खींचा, त्यों ही वह धनुष बीच में टूट गया ।
अर्थात् उस धनुष के दो टुकड़े हो गए ॥१७॥

तस्य शब्दो महानासीन्निर्यातसमनिःस्वनः ।

भूमिकम्पश्च सुमहान् पर्वतस्येव दीर्यतः ॥१८॥

उसके टूटने का शब्द वज्रपात के समान हुआ । बड़े जोर से भूमि हिल गयी और बड़े-बड़े पहाड़ फट गए ॥१८॥

निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः ।

वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ ॥१९॥

धनुष के टूटने के विकराल शब्द के होने पर, विश्वामित्र, राजा जनक और दोनों राजकुमारों को छोड़, सब लोग मूर्च्छित हो गिर पड़े ॥१९॥

प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगतसाध्वसः ? ।

उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुङ्गवम् ॥२०॥

सब लोगो की मूर्छा भङ्ग हुई वे सचेत हुए तथा राजा जनक के सब सन्देश दूर हो गए । तब राजा जनक हाथ जोड़, चतुर विश्वामित्र से कहने लगे ॥२०॥

भगवन् दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः ।

अत्यद्भुतमचिन्त्यं च न तर्कितमिदं मया ॥२१॥

हे भगवन् ! महाराज दशरथ जी के पुत्र श्रीरामचन्द्र जी का यह अत्यन्त विस्मयोत्पादक अचिन्त्य और अतर्कित (जिसमें सन्देह करने की गुञ्जायश न हो) पराक्रम मैंने देखा ॥२१॥

जनकानां कुले कीर्त्तिमाहरिष्यति मे सुता ।

सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम् ॥२२॥

१ विगतसाध्वस इत्यनेन रामनामातृकताप्रापक धनुरारोपणमपि न भवेदिति पूर्वभीतोऽभूदिति गम्यते । (गो०)

मेरी बेटी सीता, महाराज दशरथ जी के पुत्र श्रीरामचन्द्र जी को अपना पति बना कर, मेरे वंश की कीर्ति फैलाएगी ॥२२॥

मम सत्या प्रतिज्ञा च वीर्यशुल्केति कौशिक ।

सीता प्राणैर्बहुमता देया रामाय मे सुता ॥२३॥

हे कौशिक ! मैंने सीता के विवाह के लिए "वीर्यशुल्क" की जो प्रतिज्ञा की थी वह आज पूरी हो गई । आज मैं अपनी प्राणों से भी बढ़ कर प्यारी सीता श्रीराम को दूंगा ॥२३॥

भवतोऽनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मन्त्रिणः ।

मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथैः ॥२४॥

हे ब्रह्मन् ! हे कौशिक ! यदि आपकी सम्मति हो तो, मेरे मंत्री रथ पर सवार हो, शीघ्र अयोध्या को जाँय ॥२४॥

राजानं प्रश्रितैर्वाक्यैरानयन्तु पुरं मम ।

प्रदानं वीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सर्वगः ॥२५॥

और महाराज दशरथ को तन्मनापूर्वक यहाँ का नारा हाल सुना कर, यहाँ लिवा लावें ॥२५॥

मुनिगुप्तौ च काकुत्स्थौ कथयन्तु नृपाय वै ।

प्रीयमाणं तु राजानमानयन्तु सुशीघ्रगाः ॥२६॥

और महाराज को, आपसे रक्षित, दोनों राजकुमारों का कुशल समाचार भी सुनावें और इस प्रकार महाराज को प्रसन्न कर, उन्हें अति शीघ्र यहाँ बुला लावें ॥२६॥

कौशिकश्च तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिणः ।

अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान् ॥२७॥

इति सप्तषष्ठितमः सर्गः ॥

इस पर जब विश्वामित्र ने कह दिया कि, बहुत अच्छी बात है, तब राजा ने मंत्रियों को समझा कर और महाराज दशरथ के नाम का कुशलपत्र उन्हें दे, अयोध्या को रवाना किया ॥२७॥

बालकाण्ड का सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:०:—

अष्टषष्टितमः सर्गः

—:०:—

जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहनाः ।

त्रिरात्रमुषिता मार्गे तेऽयोध्यां प्राविशन् पुरीम् ॥१॥

राजा जनक की आज्ञा पा, वे दूत शीघ्रगामी रथों पर सवार हो और रास्ते में तीन रात्रि व्यतीत कर, अयोध्या में पहुँचे । उस समय उनके रथ के घोड़े थक गए थे ॥१॥

राज्ञो भवनमासाद्य द्वारस्थानिदमब्रुवन् ।

शीघ्रं निवेद्यतां राज्ञे दूतान्नो जनकस्य च ॥२॥

और राजभवन की ल्योढ़ी पर जा कर, द्वारपालों से यह बोले कि, जा कर तुरन्त महाराज से निवेदन करो कि, हम राजा जनक के दूत (आपके दर्शन करना चाहते हैं) ॥२॥

इत्युक्त्वा द्वारपालास्ते राघवाय न्यवेदयन् ।

ते राजवचनाद्दूता राजवेश्म प्रवेशिताः ॥३॥

दूतों के ऐसा कहने पर उन द्वारपालों ने जा कर महाराज दशरथ से निवेदन किया । तब महाराज दशरथ की परवानगी से राजा जनक के दूत राजभवन के भीतर गए ॥३॥

ददृशुर्देवसङ्काशं वृद्धं दशरथं नृपम् ।

वद्भ्राञ्जलिपुटाः सर्वे दूता विगतसाध्वसाः १ ॥४॥

राजानं प्रणता वाक्यमब्रुवन् मधुराक्षरम् ।

मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्रपुरस्कृतम् ॥५॥

कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्यायपुरोहितम् ।

मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेहसंयुक्तया गिरा ॥६॥

जनकस्त्वां महाराजाऽऽपृच्छते सपुरःसरम् ।

पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रं वैदेहो मिथिलाधिपः ॥७॥

वहाँ जा कर उन लोगों ने देवोपम वृद्ध महाराज दशरथ के दर्शन किए और उनके सौजन्य को देख, निर्भय हो तथा हाथ जोड़ कर, बड़ी नम्रता से यह मधुर वचन कहे । महाराज ! मिथिलापुरी के स्वामी, महायज्ञशाली राजा जनक ने चारंपार मधुर और स्नेहयुक्त वाणी तथा शान्त मन से आपकी और आपके पुरवासियों की कुशल चैन पेंछी है ॥४॥५॥६॥७॥

कौशिकानुमतो वाक्यं भवन्तमिदमब्रवीत् ।
पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा ॥८॥

और विश्वामित्र जी की अनुमति से आपको यह सन्देशा भेजा है कि, श्रीमान् को तो यह मालूम ही है कि, मेरी पुत्री वीर्यशुल्का है ॥८॥

राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखीकृताः ।
सेयं मम सुता राजन्विश्वामित्रपुरःसरैः ॥९॥

उसके लिए अनेक राजा लोग हतोत्साह हो, विमुख हुए । उस मेरी कन्या को विश्वामित्र के साथ ॥९॥

यदृच्छयाऽऽगतैर्वीरैर्निर्जिता तव पुत्रकैः ।
तच्च राजन्धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना ॥१०॥
रामेण हि महाराज महत्यां जनसंसदि ।
अस्मै देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने ॥११॥

मेरे सौभाग्य से आ कर श्रीमान् के कुँवर ने जीत लिया है । क्योंकि महात्मा श्रीगमचन्द्र जी ने एक बड़ी सभा के बीच, उस दिव्य धनुष को बीचोबीच से तोड़ा है । अतः मैं अपनी वीर्यशुल्का सीता का विवाह श्रीगम जी के साथ करना चाहता हूँ ॥१०॥११॥

प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि ।
सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरःसरः ॥१२॥

जिससे मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकूँ। आप इस सम्वन्ध के विषय में मुझे आज्ञा दें। हे महाराज ! आप उपाध्याय और पुरोहितों के सहित ॥१२॥

शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवां ।
प्रीतिं च मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि ॥१३॥

शीघ्र यहाँ पधार कर अपने राजकुमारों को देखिए और हे राजेन्द्र ! मेरी प्रीति को निवाहिए ॥१३॥

पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमपि लप्स्यसे ।
एवं विदेहाधिपतिर्मधुरं वाक्यमब्रवीत् ॥१४॥
विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः ।
इत्युक्त्वा विरता दूता राजगौरवशङ्किताः ॥१५॥

और यहाँ पधार कर दोनों राजकुमारों के विवाह की शोभा देख प्रसन्न हूजिए। हे महाराज ! यह शुभ सन्देशा, महाराज जनक ने, महर्षि विश्वामित्र और अपने पुरोहित शतानन्द जी की अनुमति से आपकी सेवा में निवेदन करने को कहा है। इतना कह और दशरथ के रोव में आ, दूत चुप हो गए ॥१४॥१५॥

दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः ।
वसिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणोन्यांश्च सोऽब्रवीत् ॥१६॥

उन दूतों की बातों को सुन, महाराज दशरथ अत्यस्त प्रसन्न हुए और वसिष्ठ वासदेव तथा अन्य मंत्रियों से फाने लगे ॥१६॥

गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः ।

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ ॥१७॥

विश्वामित्र से रक्षित, कौशल्या के आनन्द को बढ़ाने वाले लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र, आजकल मिथिलापुरी में हैं ॥१७॥

दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना ।

सम्प्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति ॥१८॥

श्रीरामचन्द्र जी का पराक्रम राजा जनक भली भाँति देख चुके हैं और अब वे अपनी कन्या का विवाह श्रीरामचन्द्र जी के साथ करना चाहते हैं ॥१८॥

यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः ।

पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥१९॥

यदि इसे आप लोग पसन्द करें, तो हम लोगों को मिथिलापुरी के लिए शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए, जिससे वहाँ पहुँचने में विलम्ब न हो ॥१९॥

[टिप्पणी—इस श्लोक में “यदि वो रोचते वृत्तं” को देखने से यह अवगत होता है कि, रामायणकाल में एकाधिपत्य राज्यशासन प्रणाली प्रचलित होने पर भी, तत्कालीन राजा लोग अपने घरेलू कामों में भी अपने पार्श्ववर्तियों की सम्मति लिए बिना कोई कार्य नहीं करते थे ।]

मन्त्रिणो वाढमित्याहुः सह सर्वैर्महर्षिभिः ।

सुप्रीतश्चाब्रवीद्राजा श्वो यात्रेति स मन्त्रिणः ॥२०॥

महाराज का वचन सुन, सब उपस्थित ऋषियों और मंत्रियों ने कहा—“यह तो बहुत ही अच्छी बात है ।” तब महाराज ने

प्रसन्न हो कर. मंत्रियों से कहा—“तो कल ही यहाँ से चल देना चाहिए” ॥२०॥

मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रेण रात्रिं परमसत्कृताः ।

ऊषुः प्रमुदिताः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः ॥२१॥

इति अष्टषष्टितमः सर्गः ॥

राजा जनक के मंत्रियों की, जो दूत बन कर अयोध्या गए थे. बड़ी अच्छी तरह खातिरदारी की गई और उन लोगों ने बड़े सुख से रात व्यतीत की ॥२१॥

बालकाण्ड का अरसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❀:—

एकोनसप्ततितमः सर्गः

—:❀:—

ततो राज्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सवान्धवः ।

राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत् ॥१॥

गत बीतने पर महाराज दशरथ, उपाध्याय और बन्धु-बान्धवां सहित. प्रसन्न हो. अपने प्रमुख मंत्री सुमन्त्र से या बोले ॥१॥

अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम् ।

व्रजन्त्यग्रे सुविहिता नानारत्नसमन्विताः ॥२॥

आज सब से पहले हमारे सब खजानची लोग बहुतसा धन और तरह-तरह के रत्न अपने साथ ले कर, उचित प्रयत्न के साथ आगे चलें ॥२॥

चतुरङ्गं बलं सर्वं शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ।

ममाज्ञासमकालं च यानयुग्यं मनुत्तमम् ॥३॥

मेरी समस्त चतुरङ्गिणी सेना शीघ्र ही तैयार की जाय ।
उसके साथ ही रथ और पालकियाँ भी तैयार की जाँय । देखो
मेरी आज्ञा में अन्तर न पड़ने पावे ॥३॥

वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिरथ काश्यपः ।

मार्कण्डेयः सुदीर्घायुर्ऋषिः कात्यायनस्तथा ॥४॥

वसिष्ठ, वामदेव, जावालि, कश्यप, दीर्घायु, मार्कण्डेय और
कात्यायन ॥४॥

एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे ।

यथा कालात्ययो न स्याद्दूता हि त्वरयन्ति माम् ॥५॥

ये सब ब्राह्मण आगे चलें । मेरा रथ भी तैयार कराओ
जिससे देर न होने पावे । देखो, राजा जनक के दूत जल्दी कर
रहे हैं ॥५॥

वचनोत्तु नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरङ्गिणी ।

राजानंमृषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वगात् ॥६॥

जब महाराज दशरथ, उक्त ऋषियों के साथ रवाना हुए, तब
उनकी आज्ञा से चतुरङ्गिणी सेना उनके पीछे-पीछे चली ॥६॥

गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवान् ।

राजा तु जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजामकल्पयत् ॥७॥

१ यानयुग्य—यानं शिविकान्दोलिकादि; युग्यं रथादि । (गो०)

रास्ते में चार दिन बिता कर, महाराज दशरथ जनकपुर में जा पहुँचे। उधर इनका आगमन सुन राजा जनक ने इनके सत्कार के लिए सब समान सजाए और आगे जा कर, बड़े आदर सत्कार के साथ अगमानी की ॥७॥

ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपम् ।

जनको मुदितां राजा हर्षं च परमं ययौ ॥८॥

राजा जनक, वृद्ध महाराज दशरथ जी से मिल कर परमानन्दित हुए ॥८॥

उवाच च नरश्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितः ।

स्वागतं ते महाराज दिष्ट्या प्राप्तोसि राघव ॥९॥

और नरश्रेष्ठ जनक नरश्रेष्ठ दशरथ जी से अत्यन्त हर्षित हो बोले—हे महाराज ! मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है, जो आप पधारे हैं ॥९॥

पुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीर्यनिर्जिताम् ।

दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा त्रिसिष्ठो भगवानृषिः ॥१०॥

अपने दोनों पराक्रमी राजकुमारों को देव्य कर, आप परम प्रसन्न होंगे। यह भी बड़े ही सौभाग्य की बात है, जो महातेजस्वी भगवान् त्रिसिष्ठ ऋषि ॥१०॥

सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठैर्देवैर्ग्वि शतक्रतुः ।

दिष्ट्या मे निर्जिता विघ्ना दिष्ट्या मे पूजितं कुलम् ॥११॥

मैं ऋषियों के साथ, देवताओं सहित दण्ड की तरह, यहाँ पधार हूँ। सौभाग्य की बात है कि, कन्यादान के नम्रय के नमस्त विघ्न अब नष्ट हो गए और मेरा यह प्रतिष्ठित कुल भी ॥११॥

राघवैः सह सम्बन्धाद्वीर्यश्रेष्ठैर्महात्मभिः ।
श्वः प्रभाते नरेन्द्र त्वं निर्वर्तयितुमर्हसि ॥१२॥

यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहमृपिसम्मतम् ।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋपिमध्ये नराधिपः ॥१३॥

वीरो मे श्रेष्ठ और महात्मा गधुर्वांशयो के साथ सम्बन्ध होने से प्रतिष्ठित हो गया । हे नरेन्द्र ! आप कल प्रातःकाल यज्ञान्त-स्तान (अवभृथ) हो चुकने पर, ऋपियों की सम्मति से विवाहा-चार की रीति करावे । इसी प्रकार राजा जनक के वचन सुन कर, ऋपियों के बीच बैठे हुए महाराज दशरथ, ॥१२॥१३॥

वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम् ।

प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन् मया पुरा ॥१४॥

जो बोलने वालों में चतुर थे, राजा जनक से बोले—हमने तो यह पहले ही से सुनरखा है कि, दान, दान देने वाले के अधीन है ॥१४॥

यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम् ।

धर्मिष्ठं च यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः ॥१५॥

हे धर्मज्ञ ! अतः आप जैसा कहेंगे, हम लोग बसा ही करेंगे । सत्यवादी महाराज दशरथ के ऐसे धर्मयुक्त और यश बढ़ाने वाले वचन ॥१५॥

श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः ।

ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे ॥१६॥

सुन, राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ । (विस्मित होने की बात यह थी कि, राजा जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार सीता जी जब

श्रीरामचन्द्र की न्यायानुसार हो ही चुकीं, तब महाराज दशरथ जी यह विनम्र वचन कि, “दान, दान देने वाले के अर्धान है” क्यों कहते हैं। अर्थात् राजा जनक सीता का दान नहीं करते। सीता जी तो “वीर्यशुल्का” हैं) तदनन्तर ऋषियों ने भी आपन में मिल भेट कर ॥१६॥

हर्षेण महता युक्तास्तां निशामवसन् सुखम् ।
 राजा च राघवो पुत्रो निशाम्य परिहर्षितः ।
 उवास परमप्रीतो जनकेनाभिपूजितः ॥१७॥

बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ रह कर रात बिताई। महाराज दशरथ भी अपने पुत्रों (श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण) को देख्य परम प्रसन्न हुए और राजा जनक की खातिरदारी से सुखपूर्वक वहाँ वास किया ॥१७॥

जनकोऽपि महातेजाः क्रियां धर्मेण तत्त्वचित् ।
 यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवास ह ॥१८॥

इति एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥

उदार राजा जनक ने भी, यज्ञ और विवाह की परने योग्य रीति भौति को कर के, विश्राम किया ॥१८॥

बालकाण्ड का उनहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

सप्ततितमः सर्गः

—:०:—

ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा^१ महर्षिभिः ।

उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितम् ॥१॥

प्रातःकाल होने पर राजा जनक ऋषियों की सहायता से यज्ञादि क्रिया समाप्त कर, अपने पुरोहित शतानन्द जी से बोले ॥१॥

भ्राता मम महातेजा यवीयानतिधार्मिकः ।

कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम् ॥२॥

देखो, महातेजस्वी, महाबलवान् और अत्यन्त धर्मिष्ठ कुशध्वज नाम के मेरे छोटे भाई (साङ्काश्य नामक) पवित्र पुरी में रहते हैं ॥२॥

वार्याफलकपर्यन्तां पिवन्निक्षुमतीं नदीम् ।

साँकाश्यां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकम् ॥३॥

साँकाश्या नाम की पवित्र पुरी के चारों ओर उसकी रक्षा के लिए खाई (परिखा) है और तरह-तरह के यंत्र (कलें) हैं। इच्छु नदी पास ही बहती है और वह पुरी पुष्पक विमान के आकार की बनी हुई है ॥३॥

तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता^३ स मे मतः ।

प्रीतिं सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह ॥४॥

१ कृतकर्मा—समाप्तयज्ञादिक्रियः । (गौ०) २ अफातका-यंत्र यत्रफल-
कास्तद्युक्तः । (गौ०) ३ यज्ञगोप्ता—साकाशये स्थित्वा यज्ञसामग्रीप्रेषणादि-
नेति भावः । (गौ०)

मेरे यज्ञ में सामग्री आदि भेज कर, सहायता करने वाले मैं अपने उस प्यारे भाई को देखना चाहता हूँ। वह भी इस विवाहोत्सव में सम्मिलित हो हम लोगों के साथ आनन्दित हों ॥४॥

एवमुक्ते तु वचने शतानन्दस्य सत्रियौ ।

आगताः केचिद्व्यग्रा? जनकस्तान्समादिशत् ॥५॥

इस प्रकार राजा जनक शतानन्द से कह ही रहे थे कि, इमी द्रोच में सामने कुछ सामर्थ्यवान् (जो काम सँपा जाय, उनको अपने बुद्धिबल से करने की सामर्थ्य रखने वाले) दूत (भी) आ गए । राजा जनक ने उनको जाने की आज्ञा दी ॥५॥

शासनात्तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः ।

समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्ञया यया ॥६॥

वे दूत राजा जनक की आज्ञा से शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार हो कर, ऐसे चले, जैसे इन्द्र की आज्ञा पा कर, देवता लोग वामन जी को लेने गए थे ॥६॥

सांकाश्यां ते समागत्य ददृशुश्च कुशध्वजम् ।

न्वेदयन् यथावृत्तं जनकस्य च चिन्तितम् ॥७॥

सांकाश्या पुरी में पहुँच कर, वे राजा कुशध्वज से मिले और जनक महाराज ने जो सन्देश भेजा था, वह ज्यों का त्यों निवेदन किया ॥७॥

तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाबलैः ।

आज्ञयाऽथ नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः ॥८॥

उन महावली श्रेष्ठ दूतों के द्वारा राजा जनक का सन्देशा सुन, राजा जनक के आज्ञानुसार राजा कुशध्वज जनकपुरी में आ गए ॥८॥

स ददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलम् ।
सोऽभिवाद्य शतानन्दं राजानं चातिधार्मिकम् ॥९॥

जनकपुरी में आ कर, राजा कुशध्वज, धर्मवत्सल एवं महात्मा जनक जी से मिले और शतानन्द जी तथा अत्यन्त धर्मिष्ठ जनक जी को प्रणाम किया ॥९॥

राजार्ह परमं दिव्यमासनं सोऽध्यरोहत ।
उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरावमितौजसौ ॥१०॥

तदनन्तर-वे राजाओं के बैठने योग्य आसनों पर बैठे । जब वे अति तेजस्वी दोनों भाई आसन पर बैठ गए ॥१०॥

प्रेषयामासतुर्वीरौ मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनम् ।
गच्छ मन्त्रिपते शीघ्रमैच्चाकममितप्रभम् ॥११॥

तब उन दोनों वीरों ने मन्त्रिप्रवर सुदामा नामक अपने मंत्री को (दशरथ महाराज) के पास भेजा और कहा कि, हे मन्त्रिपते ! तुम शीघ्र अमित तेजवाले महाराज दशरथ के पास जाओ ॥११॥

आत्मजैः सह दुर्धर्पमानयस्व समन्त्रिणाम् ।
औपकार्यं स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम् ॥१२॥

१ औपकार्यम्—दशरथशिविरनिवेशं । (गो०)

और उन दुर्धर्ष महाराज को मय राजकुमारों और मंत्रियों के
हाँ बुला लाओ। यह सुन, वह मंत्री वहाँ गया जहाँ महाराज
थीं जी डेरे तंबुओं में ठहरे हुए थे ॥१२॥

ददर्श शिरसा चैनमभिवाद्येदमब्रवीत् ।

अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः ॥१३॥

और उनके सामने जा तथा प्रणाम कर बोला—हे वीर
अयोध्यानाथ ! मिथिलाधिप विदेह ॥१३॥

म त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्यायपुरोहितम् ।

मन्त्रिश्रेष्ठवचः श्रुत्वा राजा सर्पिणस्तदा ॥१४॥

राजकुमारों, उपाध्याय और पुरोहित सहित आपके दर्शन
करना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ मंत्री के यह बचन सुन, महाराज
शरथ, ऋषियो ॥१४॥

सवन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र वर्तते ।

स राजा मन्त्रिसहितः सोपाध्यायः सवान्यवः ॥१५॥

और बन्धु बान्धवों सहित वहाँ गए, जहाँ राजा जनक अपने
पुरोहित, बान्धवों और मंत्रियों सहित थे ॥१५॥

वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहमिदमब्रवीत् ।

विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदेवतम् ॥१६॥

बोलने में चतुर महाराज दशधर, राजा जनक से बोले। हे
जनक जी महाराज ! आप तो जानते ही हैं कि, भगवान् बसिष्ठ
जी इक्ष्वाकुकुल के देवता हैं ॥१६॥

वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवानृषिः ।

विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह सर्वैर्महर्षिमिः ॥१७॥

और ऐसे सब कामों में मेरी ओर से बोलने वाले भगवान् वसिष्ठ ऋषि जी ही हैं । अतः विश्वामित्र जी की तथा अन्य महर्षियों की सलाह से ॥१७॥

एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठस्ते यथाक्रमम् ।

तूष्णींभूते दशरथे वसिष्ठो भगवानृषिः ॥१८॥

धर्मात्मा वसिष्ठ जी ही हमारी गोत्रावली यथाक्रम आपको सुनावेंगे । यह कह जब महाराज दशरथ चुप हुए, तब भगवान् वसिष्ठ ऋषि, ॥१८॥

उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोहितम् ।

अव्यक्तप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः ॥१९॥

जो बातचीत करने का ढंग भली भाँति जानते थे राजा जनक तथा उनके पुरोहित (शतानन्द जी) को सम्बोधन कर कहने लगे । हे राजन् ! अव्यक्त (प्रत्यक्षाद्यगोचरं वस्तु प्रभवः कारण यस्य सोऽव्यक्तप्रभवः) ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो सनातन, नित्य और अव्यय हैं ॥१९॥

[टिप्पणी—इस श्लोक में “शाश्वत” “नित्य” और “अव्यय” तीन विशेषण ब्रह्मा के लिए आये हैं, उनके अर्थ इस प्रकार हैं: “शाश्वत” का अर्थ है बहुकालस्थायी ! “नित्य” का अर्थ है द्विपरार्ध काल तक नाशरहित और “अव्यय” का अर्थ है प्रवाह रूप से प्रतिकल्प में रहने वाले ।]

तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः काश्यपः सुतः ।

विवस्वान् काश्यपाज्जज्ञे मनुर्ववस्वतः स्मृतः ॥२०॥

उनसे मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य. सूर्य से वैवस्वत मनु हुए ॥२०॥

मनुः प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोः सुतः ।

तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम् ॥२१॥

यह मनु प्रथम प्रजापति कहलाए । मनु से इक्ष्वाकु हुए जो अयोध्या के प्रथम राजा थे ॥२१॥

इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः ।

कुक्षेरधात्मजः श्रीमान् विकुक्षिरुद्रपद्यत ॥२२॥

इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षि और कुक्षि के विकुक्षि नामक पुत्र उत्पन्न हुए ॥२२॥

विकुक्षेस्तु महातेजा वाणः पुत्रः प्रतापवान् ।

वाणस्य तु महातेजा अनरण्यो महायशाः ॥२३॥

विकुक्षि के महातेजस्वी और प्रतापी वाण हुए । वाण के महातेजस्वी और महायशस्वी अनरण्य हुए ॥२३॥

अनरण्यात् पृथुर्जज्ञे त्रिशङ्कुस्तु पृथोः सुतः ।

त्रिशङ्कोरभवत् पुत्रो धुन्धुमारो महायशाः ॥२४॥

अनरण्य के पृथु और पृथु के त्रिशंकु हुए । त्रिशंकु के धुन्धुमार नामक महायशस्वी पुत्र हुए ॥२४॥

धुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो महाबलः ।

युवनाश्वसुतस्त्वार्सान्मान्धाता पृथिवीपतिः ॥२५॥

धुन्धुमार के महाबली युवनाश्व हुए । युवनाश्व के पृथिवीपति मान्धाता हुए ॥२५॥

मान्धातुस्तु सुतः श्रीमन् सुसन्धिरुदपद्यत ।

सुसन्धेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित् ॥२६॥

मान्धाता के सुसन्धित नामक पुत्र उत्पन्न हुए । सुसन्धि के दो पुत्र हुए, जिनके नाम ध्रुवसन्धि और प्रसेनजित् ॥२६॥

यशस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो नाम नामतः ।

भरतात्तु महातेजा असितो नाम जातवान् ॥२७॥

यशस्वी ध्रुवसन्धि के भरत और भरत के महातेजस्वी असित हुए ॥२७॥

यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः ।

हैहयास्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशिविन्दवः ॥२८॥

असित के हैहय, तालजङ्घ और शशिविन्द तीन पुत्र हुए । ये तीनों वीर राजा हुए, किन्तु इन तीनों ने अपने पिता असित के साथ वैर बाँधा ॥२८॥

तांस्तु स प्रतियुध्यन्वै युद्धे राज्यात्प्रवासितः ।

हिमवन्तमुपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा ॥२९॥

और असित को लड़ाई में हरा कर राज्य से निकाल दिआ । तब राजा असित अपनी दो रानियों को साथ ले कर, हिमालय पर चले गए ॥२९॥

असितोऽल्पवलो राजा कालधर्ममुपेयिवान् ।

द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्रुतम् ॥३०॥

अल्पवली राजा असित वहाँ (हिमालय पर) जा कर मर गए । उस समय उनकी दोनों रानियाँ गर्भवती थीं ॥३०॥

एका गर्भविनाशाय सपत्न्यै सगरं ददौ ।

ततः शैलवरं रम्यं बभूवाभिरतो मुनिः ॥३१॥

एक ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उनको विष दे दिया। उस समय उस हिमालय पर्वत पर एक मुनि रहते थे, ॥३१॥

भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः ।

तत्र चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसम् ॥३२॥

जो भृगुवंशी थे और उनका नाम च्यवन था। वे हिमालय पर्वत पर तप करते थे। असित की रानियों में से एक, भृगुवंशी एवं देववर्चस, (देवताओं के समान तेजमम्पन्न) च्यवन के पास गई ॥३२॥

ववन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षन्ती मुतमुत्तमम् ।

तमृषिं साऽभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत् ॥३३॥

उत्तम पुत्र होने की इच्छा से उम कमलनयनी ने मुनि की वन्दना की और वह उनके नामने बैठ गई। उम रानी का नाम कालिन्दी था ॥३३॥

स तामभ्यवदद्विप्रः पुत्रं पुंसुं पुत्रजन्मनि ।

तव कुक्षौ महाभागो सुपुत्रः सुमहायशाः ॥३४॥

महावीर्यो महातेजा अचिरात् संजनिष्यति ।

गरेण सहितः श्रीमान्मा शुचः कमलेक्षणो ॥३५॥

पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाली उस रानी ने च्यवन जी ने कहा कि, हे महाभागो ! तेरी कुक्षि में उत्तम, महायशस्वी, महावीर्यो

और महातेजस्वी एक बालक है जो विषसहित शीघ्र उत्पन्न होगा। हे कमलनयनी ! तू कुछ भी चिन्ता मत कर ॥३४॥३५॥

च्यवनं तु नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता ।

पतिशोकातुरा तस्मात्पुत्रं देवी व्यजायत ॥३६॥

तदनन्तर पतिव्रता एवं पति के शोक से आतुर उस राजपुत्री ने च्यवन को प्रणाम किया। (च्यवन जी के आशीर्वाद से) उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३६॥

सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया ।

सह तेन गरेणैव जातः स सगराऽभवत् ॥३७॥

उसकी सौत ने उसका गर्भ नष्ट करने को उसे जो विष खिलाया था, उस विष के साथ लड़का उत्पन्न होने के कारण, उस बालक का नाम सगर पड़ा ॥३७॥

सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जात्तथांशुमान् ।

दिलीपोंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥३८॥

सगर के असमञ्जस, असमञ्जस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ हुए ॥३८॥

भगीरथात्ककुत्स्थोऽभूत्ककुत्स्थस्य रघुः सुतः ।

रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः ॥३९॥

भगीरथ के ककुत्स्थ और ककुत्स्थ के रघु हुए। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुआ जो नरमांस भोजी अर्थात् राक्षस था ॥३९॥

कल्माषपादो ह्यभवत्तस्माज्जातश्च शङ्खणः ।

सुदर्शनः शङ्खणस्य अग्निवर्णः सुदर्शनात् ॥४०॥

पीछे यही कल्माषपाद भी कहलाया । कल्माषपाद के शङ्खण, शङ्खण के सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए ॥४०॥

शीघ्रगस्त्वग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः ।

मरोः प्रशुश्रुकस्त्वासीदम्बरीपः प्रशुश्रुकान् ॥४१॥

अग्निवर्ण के शीघ्रग, शीघ्रग के मरु मरु के प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक के अम्बरीप हुए ॥४१॥

अम्बरीपस्य पुत्रोऽभून्नहुषः सत्यविक्रमः ।

नहुषस्य ययातिश्च नाभागस्तु ययातिजः ॥४२॥

अम्बरीप के सत्यपराक्रमी नहुष हुए. नहुष के ययाति और ययाति के नाभाग हुए ॥४२॥

नाभागस्य बभूवाजो अजादशरथाऽभवत् ।

अस्मादशरथाज्जातो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥४३॥

नाभाग के पुत्र अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ और दशरथ के पुत्र ये दोनों भाई श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण हैं ॥४३॥

आदिवंशविशुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम् ।

इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां नत्यवादिनाम् ॥४४॥

आदि से ले कर इक्ष्वाकुवंश वाले राजाओं का विशुद्ध वंश, जो धर्मिष्ठ, वीर और सत्यवादी है मैंने आपको सुनाया । ४४॥

रामलक्षणयोरथे त्वत्सुते वरये नृप ।

सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदृशे दातुमर्हसि ॥४५॥

इति सप्ततितमः सर्गः ॥

महाराज दशरथ आपकी कन्याओं को अपने पुत्रों के लिए माँगते हैं। यह सब प्रकार से योग्य हैं। अतः आप इनको अपनी श्रेष्ठ कन्याएँ दे दीजिए ॥४५॥

बालकाण्ड का सत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❀:—

एकसप्ततितमः सर्गः

—:❀:—

एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः ।

श्रोतुमर्हसि भद्रं ते कुलं नः परिकीर्तितम् ॥१॥

वसिष्ठ जी के यह कहने पर, राजा जनक ने वसिष्ठ जी के हाथ जोड़े और उसने वे कहने लगे—हे महर्षे ! आपका मङ्गल हो; अब मेरे कुल की भी परम्परा सुनिए ॥१॥

प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निरवशेषतः ।

वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामुने ॥२॥

क्योंकि कन्यादान के समय कुलीन को अपने कुल की आद्यन्त अथवा समस्त परम्परा अवश्य बतलानी चाहिए। हे महर्षे ! अतः आप सुनिए ॥२॥

राजाऽभूच्चिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा ।

निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववतांवरः ॥३॥

अपने सुकर्मों द्वारा तीनों लोकों में प्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी और सब राजाओं में श्रेष्ठ निमि नाम के एक राजा हुए ॥३॥

तस्य पुत्रो मिथिर्नाम प्रथमो मिथिपुत्रकः ।

प्रथमाज्जनको राजा जनकादप्युदावसुः ॥४॥

निमि के मिथि हुए, मिथि के जनक हुए । (इन्हीं जनक के नाम से इस वंश के सब राजा जनक कहलाते हैं) इन आदि जनक के उदावसु हुए ॥४॥

उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिर्वर्धनः ।

नन्दिर्वर्धनपुत्रस्तु सुकेतुर्नाम नामतः ॥५॥

उदावसु के धर्मात्मा पुत्र नन्दिर्वर्धन हुए और नन्दिर्वर्धन के पुत्र सुकेतु हुए ॥५॥

सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः ।

देवरातस्य राजर्षेर्वृहद्रथ इति स्मृतः ॥६॥

सुकेतु के महाबली धर्मात्मा देवरात हुए और देवरात के राजर्षि वृहद्रथ हुए ॥६॥

वृहद्रथस्य शूरोऽभून्महावीरः प्रतापवान् ।

महावीरस्य धृतिमान्सुधृतिः सत्यविक्रमः ॥७॥

वृहद्रथ के बड़े शूरवीर और प्रतापी महावीर, महावीर के धृतिमान, और धृतिमान के सत्यपराक्रमी सुधृति हुए ॥७॥

सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः ।

धृष्टकेतांस्तु राजर्षेर्हर्यश्व इति विश्रुतः ॥८॥

सुधृति के धर्मात्मा धृष्टकेतु और धृष्टकेतु के राजर्षि हर्यश्व हुए ॥८॥

हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरुः पुत्रः प्रतिन्धकः ।

प्रतिन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः ॥६॥

हर्यश्व के मरु, मरु के प्रतिन्धक और प्रतिन्धक के धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए ॥६॥

पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः ।

देवमीढस्य विवुधो विवुधस्य महीध्रकः ॥१०॥

कीर्तिरथ के देवमीढ, देवमीढ के विवुध और विवुध के महीध्रक हुए ॥१०॥

महीध्रकसुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः ।

कीर्तिरातस्य राजर्षेमहारोमा व्यजायत ॥११॥

महीध्रक के महाबली कीर्तिरात हुए और कीर्तिरात के राजर्षि महारोमा हुए ॥११॥

महारोमास्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत ।

स्वर्णरोमास्तु राजर्षेह्रस्वरोमा व्यजायत ॥१२॥

महारोमा के धर्मात्मा स्वर्णरोमा हुए और स्वर्णरोमा के राजर्षि ह्रस्वरोमा हुए ॥१२॥

तस्य पुत्रद्वयं जज्ञे धर्मज्ञस्य महात्मनः ।

ज्येष्ठोऽहमनुचो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः ॥१३॥

धर्मज्ञ ह्रस्वरोमा के दो पुत्र हुए । उन दो में बड़ा मैं हूँ और दूसरा मेरा वीर छोटा भाई कुशध्वज है ॥१३॥

मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य नराधिपः ।

कुशध्वजं समवेश्यं धारं मयि वनं गतः ॥१४॥

हमारे पिता मुझ ज्येष्ठ को राज्य सौंप तथा कुशध्वज को, मेरे पास रख, वन को चले गए ॥१४॥

वृद्धे पितरि स्वयति धर्मेण धुरमावहम् ।

भ्रातरं देवसङ्काशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजम् ॥१५॥

जब वृद्धे पिता जी स्वर्गवासी हुए, तब मैं धर्मपूर्वक राज्य धरने लगा और देवता के समान अपने छोटे भाई को स्नेहपूर्वक बालने लगा ॥१५॥

कस्यचित्त्वथ कालस्य सांकाश्यादगमत्पुरात् ।

सुधन्वा वीर्यवान् राजा मिथिलामवरोधकः ॥१६॥

कुछ काल बाद सांकाश्या पुरी के विक्रमी राजा सुधन्वा ने मिथिला को आ घेरा ॥१६॥

स च मे प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमम् ।

सीता कन्या च पद्माक्षी मह्यं वै दीयतामिति ॥१७॥

उसने मेरे पास यह सन्देश भेजा कि, शिवधनुष और कमलनयनी सीता मुझे दे दो ॥१७॥

तस्याऽप्रदानाद्ब्रह्मर्षे युद्धमासीन्मया सह ।

स हतोऽभिमुखं राजा सुधन्वा तु मया रणे ॥१८॥

हे ब्रह्मर्षे ! उसकी इस बात को मैंने स्वीकार न किया: तब नेरे साथ उसका घोर युद्ध हुआ। मैंने इस युद्ध में सुधन्वा को मार डाला ॥१८॥

निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम् ।

साँकाश्ये भ्रातरं वीरमभ्यषिञ्चं कुशध्वजम् ॥१६॥

हे मुनिश्रेष्ठ ! राजा सुधन्वा को मार कर, मैंने, साँकाश्या पुरी के राजसिंहासन पर अपने वीर भाई कुशध्वज को बिठा दिया ॥१६॥

कनीयानेष मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने ।

ददामि परमप्रीतो बध्वो ते मुनिपुङ्गव ॥२०॥

हे महर्षे ! यह मेरा छोटा भाई है और मैं इसका बड़ा भाई । हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं बड़ी प्रीति के साथ दो बहुएँ आपको देता ॥२०॥

सीता रामाय भद्रं ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय च ।

वीर्यशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम् ॥२१॥

उनमें सीता तो श्रीरामचन्द्र के लिए और ऊर्मिला लक्ष्मण जी के लिए देता हूँ । वीर्यशुल्का सीता जो देवकन्या के समान है ॥२१॥

द्वितीयामूर्मिलां चैव त्रिददामि न संशयः ।

रामलक्ष्मण्यां राजन् गोदानं कारयस्व ह ॥२२॥

और दूसरी ऊर्मिला मैं यथाक्रम श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को त्रिवाचा भर कर देता हूँ । अब इस बात में कुछ भी संशय नहीं है । अब आप दोनों राजकुमारो से गोदान करवाइए ॥२२॥

पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु ।

मथा ह्यद्य महावाहां तृतीये दिवसे विभो ॥२३॥

हे राजन् ! आपका मङ्गल हो । तदनन्तर आप नान्दीमुख श्राद्ध करवा कर, विवाह सम्बन्धी विधि करवाइए । हे महाबाहो ! आज मघा नक्षत्र है । आज के तीसरे दिन ॥२३॥

फल्गुन्यामुत्तरे राजंस्तस्मिन् वैवाहिकं कुरु ।

रामलक्ष्मणयो राजन् दानं कार्यं सुखोदयम् ॥२४॥

इति एकसप्ततितमः सर्गः ॥

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र आवेगा । हे महाराज ! उसी नक्षत्र में विवाह होना चाहिए । श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण के सुखोदय के लिए (गो, तिल, भूमि आदि का) दान कीजिए ॥२४॥

बालकाण्ड का एकहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❀:—

द्विसप्ततितमः सर्गः

—:❀:—

तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः ।

उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपम् ॥ १ ॥

जब जनक जी ने इस प्रकार कहा, तब वसिष्ठ जी के अभिप्रायानुसार महामुनि विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा ॥१॥

१ अचिन्त्यान्यप्रमेयानि कुलानि नरपुङ्गव ।

इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैपां तुल्यांऽस्ति कश्चन ॥२॥

१ अचिन्त्यानि—आश्चर्यभूतानि । (गो०) २ अप्रमेयानि—अपरिच्छेद्य महिमानि । (गो०)

हे राजन् ! इच्छाकु और विदेह—दोनों ही वंशों की वंश-परम्पराएँ विस्मयोत्पादनी हैं और इनकी महिमा असीम है। इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई कुल ही नहीं है ॥२॥

सदृशो धर्मसम्बन्धः सदृशो रूपसम्पदा ।

रामलक्ष्मणयो राजन् सीता चोर्मिलया सह ॥३॥

श्रीरामचन्द्र और सीता का तथा लक्ष्मण एवं उर्मिला का धर्म सम्बन्ध अर्थात् वैवाहिक सम्बन्ध बराबर का है। क्योंकि बर बधू दोनों ही क्या रूप और क्या सम्पत्ति—सब बातों में समान हैं ॥३॥

वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रयतां वचनं मम ।

भ्राता यवीयान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः ॥४॥

हे राजन् ! यह होने पर भी मुझे इस पर कुछ वक्तव्य है, उसे सुनिए। आपके यह छोटे और धर्मज्ञ भाई जो कुशध्वज हैं, ॥४॥

अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेणाप्रतिमं भुवि ।

सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे ॥ ५ ॥

इन धर्मात्मा की दो कन्याओं को, जो इस संसार में अपने सौन्दर्य में सर्वश्रेष्ठ हैं, वही बनाने के लिए मैं माँगता हूँ ॥५॥

भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः ।

वरयेम सुते राजंस्तयोरर्थे महात्मनोः ॥६॥

अर्थात् हे राजन् ! एक कन्या बुद्धिमान् राजकुमार भरत के लिए और एक शत्रुघ्न के लिए हम माँगते हैं ॥६॥

पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः ।

लोकपालोपमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः ॥७॥

महाराज दशरथ के चारों राजकुमार रूपवान्, यौवनशाली, लोकपालों के समान, अथच देवतुल्य पराक्रमी हैं ॥७॥

उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धां ह्यनुबध्यताम् ।

इक्ष्वाकोः कुलमव्यग्रं^१ भवतः पुण्यकर्मणः ॥८॥

सो हे राजेन्द्र ! इन दोनों राजकुमारों का भी सम्बन्ध कीजिए ।

इक्ष्वाकुकुल निर्दोष है और आप भी पुण्यात्मा हैं ॥८॥

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा ।

जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच मुनिपुङ्गवौ ॥९॥

विश्वामित्र जी के ये वचन सुन और वसिष्ठ जी की सम्मति ज्ञान अथवा वसिष्ठ जी के सम्मत विश्वामित्र जी के वचन सुन, महाराज जनक हाथ जोड़ कर दोनों महर्षियों से बोले ॥९॥

कुलं धन्यमिदं मन्ये येषां नो मुनिपुङ्गवौ ।

सदृशं कुलसम्बन्धं यदाज्ञापयथः स्वयम् ॥१०॥

मेरा कुल धन्य है, जो आप दोनों महर्षियों ने स्वयं इस कुल-सम्बन्ध को समान बतलाया है ॥१०॥

एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजसुते इमे ।

पत्न्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्नभरतावुभौ ॥११॥

आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। आपका मङ्गल हो, कुशध्वज की कन्याओं का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जायगा ॥११॥

एकाहा राजपुत्रीणां चतसृणां महामुने ।

पाणीनृहन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः ॥१२॥

हे मुनि ! एक ही दिन महाराज दशरथ के चारों महाबली राजकुमार, इन चारों का पाणिग्रहण करें। अर्थात् चारों का विवाह एक ही दिन हो ॥१२॥

उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः ।

वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः ॥१३॥

हे ब्रह्मन् ! कल उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र है। पण्डितों का मत है कि, इस नक्षत्र में विवाह होना उत्तम है। क्योंकि इस नक्षत्र का प्रजापति भग देवता है ॥१३॥

एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः ।

उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यमब्रवीत् ॥१४॥

यह कह राजा जनक खड़े हो गए और हाथ जोड़ कर दोनों मुनिवरों से बोले ॥१४॥

परो धर्मः? कृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोः सदा ।

इमान्यासनमुख्यानि आसातां मुनिपुङ्गवौ ॥१५॥

आप दोनों के अनुग्रहसे मुझे यह कन्यादान रूप धर्म प्राप्त हुआ। (अर्थात् कन्याप्रदान करने का उपदेश।) मैं सदा आप

१ परोधर्मः—कन्याप्रदानरूपः । (गो०)

दोनों का दास हूँ। आप दोनों इन मुख्य आसनों पर विराजिए
(दो मुख्य आसन—राजा जनक का और महाराज दशरथ
का) ॥१५॥

यथा दशरथस्येयं तथायोध्या पुरी मम ।

प्रभुत्वे नास्ति सन्देहो यथार्हं कर्तुमर्हथ ॥१६॥

प्रभुत्व में जैसे जनकपुरी महाराज दशरथ की है, वैसे ही
अयोध्यापुरी मेरी है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। अतएव
आपको जो उचित जान पड़े सो कीजिए ॥१६॥

तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः ।

राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम् ॥१७॥

जब जनक ने ये वचन महाराज दशरथ से कहे, तब उन्होंने
प्रसन्न हो कर, जनक से कहा, ॥१७॥

युवामसंख्येयगुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ।

ऋपयो राजसङ्घाश्च भवद्भ्यामभिपूजिताः ॥१८॥

हे मिथिलेश्वर ! आप दोनों भाइयों में असंख्य गुण हैं।
आपने ऋषियो और राजाओं का अच्छा सत्कार किया है ॥१८॥

स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामि स्वमालयम् ।

श्राद्धकर्माणि सर्वाणि विधास्यामीति चाब्रवीत् ॥१९॥

फिर महाराज दशरथ ने कहा कि, मैं आपको आशीर्वाद देता
हूँ कि, आपका कल्याण हो। अब मैं स्वस्थान पर जा कर विधि-
पूर्वक नान्दीमुख आदि सब श्राद्धकर्म करता हूँ ॥१९॥

तमापृष्ट्वा नरपतिं राजा दशरथस्तदा ।

मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायगाः ॥२०॥

इस प्रकार राजा जनक से बिदा हो महाराज दशरथ दोनों मुनियों को आगे कर, तुरन्त चल दिए ॥२०॥

स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः ।

प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम् ॥२१॥

अपने स्थान पर जा कर महाराज दशरथ ने विधि से श्राद्ध किया और अगले दिन प्रातःकाल होते ही गोदानादि किए ॥२१॥

गवां शतसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः ।

एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः ॥२२॥

महाराज दशरथ ने अपने राजकुमारों की मङ्गलकामना के लिए एक एक लाख गौएँ, एक एक ब्राह्मण को दीं ॥२२॥

सुवर्णभृङ्गाः सम्पन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः ।

गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः ॥२३॥

उन गौओं के सींग सोने के पत्रों से मढ़े हुए थे, वे दुधार थीं उनके साथ उनके बछड़े थे । प्रत्येक गौ के साथ काँसे का दूध दुहने का पात्र (दुधैड़ी) था । इस प्रकार की चार लाख गौएँ महाराज ने दी ॥२३॥

वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः ।

ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ॥२४॥

पुत्रवत्सल राजा ने पुत्रों के कल्याण के लिए बहुत सा धन गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया ॥२४॥

स सुतैः कृतगोदानैर्घृतस्तु नृपतिस्तदा ।

लोकपालैरिवाभाति घृतः सौम्यः प्रजापतिः ॥२५॥

इति द्विसप्ततितमः सर्गः ॥

पुत्रों सहित गोदान कर महाराज दशरथ ऐसे शोभित हुए
जैसे लोकपालों सहित ब्रह्मा जी शोभित होते हैं ॥२५॥

बालकाण्ड का बहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:०:—

त्रिसप्ततितमः सर्गः

—:०:—

यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् ।

तस्मिंस्तु दिवसे शूरो युधाजित्समुपेयिवान् ॥१॥

जिस दिन महाराज दशरथ जी ने उत्तम (विधिपूर्वक) गोदान
किए, उसी दिन युधाजित् जी भी (जनकपुर) पहुँचे ॥१॥

पुत्रः केकयराजस्य साक्षाद्भरतमातुलः ।

दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत् ॥२॥

केकय देश के राजा के पुत्र, भरत जी के साक्षात् मामा ने,
महाराज दशरथ जी से मिल कर, कुशलचेम पूछी और बह
बोले ॥२॥

केकयाधिपती राजा स्नेहात्कुशलमब्रवीत् ।

येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्पत्त्यनामयम् ॥३॥

हे महाराज ! केकय देशाधिपति ने बड़ी प्रीति के साथ अपना कुशल कहा है और कहा कि आप जिन लोगों की कुशल चाहते हैं वे सब प्रकार से कुशल हैं ॥३॥

स्वस्त्रीयं१ मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः ।

तदर्धमुपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दन ॥४॥

हे राजेन्द्र ! हमारे पिता को भरत जी के देखने की इच्छा है । मैं इसीलिए प्रथम अयोध्या गया ॥४॥

श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् ।

मिथिलासुपयातांस्तु त्वया सह महीपते ॥५॥

जब मैंने वहाँ सुना कि, आप राजकुमारों का विवाह करने के लिए उनको ले कर मिथिलापुरी पधारे हैं, तब मैं ॥५॥

त्वरयाऽभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम् ।

अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम् ॥६॥

तुरन्त अपने भांजे को देखने के लिए यहाँ चला आया हूँ । महाराज दशरथ ने अपने नातेदार (साले) को आया हुआ ॥६॥

दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हमपूजयत् ।

ततस्तामुपितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः ॥७॥

देख, उस सत्कार करने योग्य नातेदार का अच्छी तरह सत्कार किया और अपने राजकुमारों सहित रात्रि को सुखपूर्वक निवास किया ॥७॥

प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवित् ।
ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत् ॥८॥

(अगले दिन) प्रातःकाल होते ही महाराज दशरथ नित्यकर्म कर, ऋषियों सहित यज्ञशाला में गए ॥८॥

युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः ।
भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः ॥९॥

वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि ।
वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत् ॥१०॥

विजयमुहूर्त में वसिष्ठादि सब ऋषियों सहित सुन्दर वस्त्रों और आभूषणों से सुमञ्जित भाइयों के साथ श्रीरामचन्द्र जी को विवाह के मङ्गलाचार की रीति करा कर, वसिष्ठ जी राजा जनक से बोले ॥९॥१०॥

राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः ।
पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठ दातारमभिकाङ्क्षते ॥११॥

हे राजन् ! महाराज दशरथ अपने राजकुमारों से (आरम्भिक) मङ्गल कृत्य करवा चुके। हे नरवरश्रेष्ठ ! अब वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥११॥

दातृप्रतिग्रहीतृभ्यां सर्वार्थाः प्रभवन्ति हि ।
स्वधर्मः प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम् ॥१२॥

क्योंकि दान दाता और दान लेने वाला, जब दोनों तत्पर हों तभी काम होता है। अतः आप भी वैवाहिक मङ्गलकर्म कर के अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए ॥१२॥

इत्युक्तः परमोदारोऽ वसिष्ठेन महात्मना ।

प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित् ॥१३॥

जब महात्मा वसिष्ठ जी ने परमदाता राजा जनक से यह कहा तब परम धर्मात्मा राजा जनक बोले ॥१३॥

कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञा सम्प्रतीक्ष्यते ।

स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव ॥१४॥

महाराज दशरथ को क्या किसी मेरे दरवान ने रोका है ? (जो यज्ञशाला के द्वार पर वे खड़े हुए हैं) महाराज किसकी परवानगी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ? अपने घर के अन्दर आने में भी क्या कोई रुकावट होती है ? यह भी तो उन्हींका घर (या राज्य) है । चले क्यों नहीं आते । (मेरे आने की प्रतीक्षा क्यों करते हैं) ॥१४॥

[नोट—इसका भाव यह है कि, महाराज दशरथ के लिए कोई रोक टोक नहीं वे आनन्द से पधारें ।]

कृतकौतुकसर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः ।

मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता बह्वैर्यथार्चिषः ॥१५॥

हमारी तो सब कन्याएँ मङ्गलाचार किए हुए वेदी के समीप बैठी हैं, वे सब अग्निशिखा की तरह देदीप्यमान हैं ॥१५॥

१ परमोदारः—परमदाता । (रा०)

सञ्जोऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः ।

अविघ्नं क्रियतां राजन् किमर्थमवलम्बते ॥१६॥

मैं स्वयं यहाँ वेदी के पास बैठा हुआ आप लोगों ही की बात जोह रहा हूँ। सो अब विलम्ब किस बात का है ? महाराज से कहिए कि, सब कार्य्य अब शीघ्र निर्विघ्न होने चाहिए ॥१६॥

तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा ।

प्रवेशयामास सुतान् सर्वानृषिगणानपि ॥१७॥

वसिष्ठ जी द्वारा राजा जनक का यह सन्देश पा, महाराज दशरथ ने राजकुमारों और ऋषियों सहित विवाहमण्डप में प्रवेश किया ॥१७॥

ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् ।

कारयस्व ऋषे सर्वामृषिभिः सह धार्मिकैः ॥१८॥

रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभां ।

तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठा भगवानृषिः ॥१९॥

तदनन्तर राजा जनक ने वसिष्ठ जी से कहा कि, हे ऋषे ! आप अन्य ऋषियों सहित लोकाभिराम श्रीरामचन्द्र जी के विवाह की विधि करवाइए। यह सुन और जनक जी से, “बहुत अच्छा कराते हैं” कह कर, भगवान् वसिष्ठ जी ने ॥१८॥१९॥

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम् ।

प्रपामध्ये? तु विधिवद्वेदिं कृत्वा महातपाः ॥२०॥

१ प्रपामध्ये—यज्ञशालामध्ये इतिकतकः । अभिनवनारिकेलादिरचित-
मण्डप इत्यर्थः । (गो०)

विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानन्द को आगे कर, विवाह मण्डप के बीच में अग्निस्थापन करने के लिए विधिवत् वेदी बनाई ॥२०॥

अलंचकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः ।

सुवर्णपालिकाभिश्चच्छिद्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः ॥२१॥

फिर उस वेदी को चारों ओर गन्धपुष्पादि से सजाया और सुवर्ण शलाकाओं, करवा एवं दूर्वाङ्कुरादि से शोभित किआ ॥२१॥

अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः ।

शङ्खापात्रैः सुवैः सुग्भिः पात्रैरर्घ्याभिपूरितैः ॥२२॥

दूर्वाङ्कुर, सरवा और दूध से भर कर बहुत से पात्र रखे । अर्घ्य का सामान भर कर पात्र भी स्थापित किए । सुवादि वा अर्घ्यपात्र भी शङ्खाकार रखे ॥२२॥

लाजपूर्णैश्च पात्रौघैरक्षतैरपि संस्कृतैः ।

दभैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् ॥२३॥

बहुत से पात्रों में धान की खीलें (लावा) और जल से धुलाकर अक्षत भरवा कर रखाए और मंत्र पढ़ कर विधिपूर्वक वरावर वरावर के (अथात् एक नाप के) कुश विछवाए ॥२३॥

अग्निमाधाय वेद्यां तु विधिमन्त्रपुरस्कृतम् ।

जुहावायौ महातेजा वसिष्ठो भगवानृषिः ॥२४॥

तदनन्तर विधिवन् और मंत्र पढ़ कर, वेदी पर अग्नि स्थापन किआ और महातेजस्वी भगवान् वसिष्ठ ऋषि. उस अग्नि में आहुति देने लगे ॥२४॥

१ सुवर्णपालिकाभिः— साङ्कुराभिरिति लङ्गविपरिणामेनानुकृष्यते ।
(गो०)

ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषिताम् ।

समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा ॥२५॥

फिर सीता जी को सब गहने पहना कर, वेदी के निकट श्रीरामचन्द्र जी के सामने बैठाया ॥२५॥

अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् ।

इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव ॥२६॥

राजा जनक ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा—हे राम ! यह मेरी कन्या सीता, आज से आपकी सहधर्मचारिणी हुई ॥२६॥

प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना ।

पतिव्रता महाभागा च्छायेवानुगता सदा ॥२७॥

इसे आप लीजिए और अपने हाथ से इसका हाथ पकड़िए । यह महाभागा पतिव्रता सदा छाया की तरह आपकी अनुगामिनी बनी रहैगी । आप दोनों का मङ्गल हो ॥२७॥

इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा ।

साधु साध्विति देवानामृषीणां वदतां तदा ॥२८॥

यह कह कर राजा जनक ने मंत्रों द्वारा पवित्र किन्ना हुआ जल दोनों पर छिड़का । उस समय सब देवता और ऋषिगण "साधु साधु" कहने लगे ॥२८॥

देवदुन्दुभिनिर्वोषः पुष्पवर्षो महानभूत् ।

एवं दत्त्वा तदा सीतां मन्त्रादकपुरस्कृताम् ॥२९॥

देवताओं ने नगाड़े बजाए और बड़ी भारी पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार सीता का श्रीरामचन्द्र जी के साथ विवाह कर के ॥२६॥

अब्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः ।

लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते ऊर्मिला च ममात्मजाम् ॥३०॥

प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः ।

तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत ॥३१॥

राजा जनक अत्यन्त प्रसन्न हो बोले, हे लक्ष्मण! तुम्हारा मङ्गल हो, तुम भी शीघ्र आ कर मेरी पुत्री ऊर्मिला को ग्रहण करो और अपने हाथ से इसका हाथ पकड़ो। विलम्ब मत करो। फिर राजा जनक ने भरत से कहा ॥३०॥३१॥

पाणिं गृह्णीष्व माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन ।

शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीज्जनकेश्वरः ॥३२॥

हे भरत ! तुम माण्डवी का पाणिग्रहण करो। तदनन्तर राजा जनक ने शत्रुघ्न से भी कहा, ॥३२॥

श्रुतकीर्त्या महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना ।

सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः ॥३३॥

हे शत्रुघ्न ! तुम श्रुतकीर्ति का हाथ अपने हाथ से पकड़ो। तुम सब के सब जैसे सौम्य स्वभाव व सुचरित्र हो, ॥३३॥

पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः ।

जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन् पाणिभिरस्पृशन् ॥३४॥

बैसे ही तुम्हें तुम्हारी पत्नियाँ भी मिली हैं। इन्हें अङ्गीकार करो, जिससे काल न बीत जात। अर्थात् विवाह की लग्न न निकल जाय ॥३४॥

[नोट—इसको मि० ग्रिफिथ ने, इस प्रकार व्यक्त किया है।

“Now, Raghu's sons, may all of you,
Be gentle to your wives and true;
Keep well the vows you make to-day,
Not let occasion slip away,”

अर्थात् हे राजकुमारों ! तुम सब अपनी इन पत्नियों के साथ सदा अच्छा और सत्य व्यवहार करना और आज तुम लोग जिस प्रतिज्ञा को करते हो, इसका आजन्म निर्वाह करना, अब विलम्ब मत करो।]

चत्वारस्ते चतसृणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः ।

अग्निं प्रदक्षिणां कृत्वा वेदिं राजानमेव च ॥३५॥

ऋषींश्चैव महात्मानः सभार्या रघुसत्तमाः ।

यथोक्तेन तदा चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकम् ॥३६॥

राजा जनक के इस प्रकार कहने पर चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ पकड़े और वसिष्ठ जी की आज्ञा से पत्नियों सहित, अग्निवेदी, राजा जनक तथा ऋषियों की परिक्रमा कर के विधिपूर्वक सब बवाहिक कर्म किए ॥३५॥३६॥

काकुत्स्थैश्च गृहीतेषु ललितेषु च पाणिषु ।

पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदन्तरिधात्सुभास्वरा ॥३७॥

इस प्रकार चारों काकुत्स्थनन्दनों द्वारा उन राजकुमारियों के सुन्दर हाथों के पकड़ जाने पर, अर्थात् पाणिग्रहण हो चुकने पर, आकाश से दिव्य पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा हुई ॥३७॥

दिव्यदुन्दुभिनिर्घोषैर्गीतवादित्रनिःस्वनैः ।

नृतुश्चाप्सरःसङ्घा गन्धर्वाश्च जगुः कलम् ।

विवाहे रघुमुख्याणां तद्द्रुतमदृश्यत ॥३८॥

देवताओं ने नगाड़े बजाए, अप्सराएँ नर्चा और गन्धर्वों ने गीत गाए । दशरथनन्दनों के विवाह में ये विस्मयोत्पादक कौतुक देख पड़े ॥३८॥

ईदृशं वर्तमाने तु तूर्योद्घुष्टनिनादिते ।

त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊर्हुर्भार्या रघूत्तमाः ॥३९॥

इस प्रकार बाजे बजते हुए तीन तीन बार तीनों* अग्निओं की प्रदक्षिणा कर, राजकुमारो ने अपनी पत्नियों को ग्रहण किया ॥३९॥

अथोपकार्यां जग्मुस्ते सदारा रघुनन्दनाः ।

राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्घः सवान्धवः ॥४०॥

इति त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥

तदनन्तर सब राजकुमार अपनी पत्नियों सहित जनवासे को सिधारे । महाराज जनक भी ऋषियो और वन्धुवान्धवों सहित विवाह का कौतुक देखने हुए जनवासे को गए ॥४०॥

बालक एंड का तिहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

[टिप्पणी—इस विवाह कार्य में लक्ष्मण के बाद भरत जी का विवाह हुआ देख, कुछ लोगों को यह शंका हो सकती है कि, ज्येष्ठ भरत को छोड़ छोटे लक्ष्मण का विवाह प्रथम क्यों हुआ ? इस शंका की

* तीन अग्निवा—अर्थात् १ गार्हपत्य २ आहवनीयाग्नि और ३ लौत्राग्नि ।

निवृत्ति टीकाकारों ने यह कह कर की है कि, लक्ष्मण और भरत सगे भाई न थे। अतः ज्येष्ठ और लघु की गङ्गा यहाँ नहीं हो सकती।]

—:०:—

चतुःसप्ततितमः सर्गः

—:ॐ:—

अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः ।

आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तरपर्वतम् ॥१॥

विवाह हो चुकने पर अगले दिन सबेरा होते ही महर्षि विश्वामित्र दोनों राजाओं (महाराज दशरथ और राजा जनक) से विदा माँग, हिमालय पर (तप करने) चले गए ॥१॥

आशीर्भिः पूरयित्वा च कुमारान्श्च सराधवान् ।

विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् ॥२॥

विश्वामित्र ने जाते समय राजकुमारों को तथा महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिए। महर्षि विश्वामित्र के विदा होने पर महाराज दशरथ ने मिथिलेश्वर राजा जनक से ॥२॥

आपृष्ट्वाथ जगामाशु राजा दशरथः पुरीम् ।

गच्छन्तं तं तु राजानमन्वगच्छन्नराधिपः ॥३॥

विदा माँग अति शीघ्र अयोध्या को प्रस्थान किया। राजा जनक कुछ दूर तक महाराज दशरथ के पीछे पीछे उन्हें विदा करने गए ॥३॥

अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं^१ बहु ।

गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः ॥४॥

और दहेज के लवाजमें में (दैनदायजे में) मिथिलेश्वर ने अयोध्याधिपति को एक लाख गौएँ दीं ॥४॥

कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमक्रोव्यम्बराणि च ।

हस्त्यश्वरथपादातं दिव्यरूपं स्वलङ्कृतम् ॥५॥

बहुत से बहुमूल्य दुशाले और एक करोड़ रेशमी वस्त्र दिए । अनेक सुन्दर और सजे सजाए हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, ॥५॥

ददौ कन्यापिता तासां दासीदासमनुत्तमम् ।

हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च ॥६॥

दासियाँ और दास दिए । बहुत सी बढियाँ मोहरें और अशर्कियाँ, मोती, मूँगे (अथवा बढिया सोने के मोती जड़े गहने) दिए ॥६॥

ददौ परमसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम् ।

दत्त्वा बहुधनं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम् ॥७॥

इस प्रकार परम प्रसन्न हो और भाँ बहुतसा बहुमूल्य दायजा दे कर, राजा जनक, महाराज दशरथ से आज्ञा माँग ॥७॥

प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः ।

राजाप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रैर्महात्मभिः ॥८॥

मिथिलेश्वर अपने मिथिलापुरी वाले राजभवन में गए । महाराज दशरथ भी, राजकुमारों को साथ लिए हुए ॥८॥

ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः ।

गच्छन्तं तं नरव्याघ्रं सर्षिसङ्घं सरायवम् ॥६॥

तथा ऋषियों को आगे कर, सेना सहित चल दिए ऋषियों और श्रीरामचन्द्र जी के साथ जाते हुए महाराज दशरथ ॥६॥

घोराः स्म पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति ततस्ततः ।

भौमाश्चैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम् ॥१०॥

के मार्ग में चारों ओर भयङ्कर पक्षी बोलने लगे । हिरन दौड़ कर रास्ता काटने लगे ॥१०॥

तान् दृष्ट्वा राजशार्दूलो वसिष्ठं पर्यपृच्छत ।

असौम्याः पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः ॥११॥

इन अपशकुनों को देख, महाराज दशरथ ने वसिष्ठ जी से पूछा कि, यह एक ओर दुष्ट पक्षी बुरी तरह बोल रहे हैं और दूसरी ओर हिरन दाहिनी ओर से रास्ता काट रहे हैं ॥११॥

किमिदं हृदयोत्कम्पि मनो मम विपीदति ।

राज्ञो दशरथस्यैतच्छ्रुत्वा वाक्यं महानृपिः ॥१२॥

यह हृदय दहलाने वाला क्या उत्पात है । इन अपशकुनों को देख मेरा मन उदास हो गया है । महाराज के इन प्रश्नों को सुन महर्षि वसिष्ठ जी ने ॥१२॥

उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्फलम् ।

उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्च्युतम् ॥१३॥

मधुरवाणी से उत्तर दिंआ कि, इनका फल सुनिए ! प
बोली बोल कर बतला रहे हैं कि, कोई बड़ा भारी भय उपस्थि
होने वाला है ॥१३॥

मृगाः प्रशमयन्त्येते सन्तापस्त्यज्यतामयम् ।
तेषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्बभूव ह ॥१४॥

परन्तु मृगों के रास्ता काटने से अर्थात् बाईं ओर से दाहि
ओर जाने से, उस भय का नाश प्रतीत होता है । अतः अ
सन्तप्त न हों । यह बात हो ही रही थी कि, बड़े जोर की आँ
चली ॥१४॥

कम्पयन् मेदिनीं सर्वां पातयंश्च महाद्रुमान् ।
तमसा संवृतः सूर्यः सर्वा न प्रवभुर्दिशः ॥१५॥

जिससे पृथिवी काँपने लगी, बड़े बड़े वृक्ष गिरने लगे । धूल
के कारण सूर्य छिप गए और अन्धकार छा गया, दिशाओं का
ज्ञान न रहा ॥१५॥

भस्मना चावृतं सर्वं सम्मूढमिव तद्बलम् ।
वसिष्ठश्चर्षयश्चान्ये राजा च ससुतस्तदा ॥१६॥

इतनी धूल उड़ी कि, सैनिकों के छक्के छूट गये । वसिष्ठ जी
तथा अन्य ऋषियों को, महाराज दशरथ तथा उनके राजकुमारों
को ॥१६॥

ससंज्ञा इव तत्रासन् सर्वमन्यद्विचेतनम् ।
तस्मिंस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमूः ॥१७॥

तो उस समय चेत रहा और सब अचेत हो गए। क्योंकि उस घोर अन्धकार में, सब सेना भस्माच्छादित हो गई थी। अर्थात् मानों धूल से ढक गई थी ॥१७॥

ददर्श भीमसङ्काशं जटामण्डलधारिणम् ।

भार्गवं जामदग्न्यं तं राजराजविमर्दिनम् ॥१८॥

तदनन्तर महाराज दशरथ ने भयङ्कर रूप धारण किए, जटाजूटधारी, भृगुवंशी जमदग्नि जी के पुत्र और राजाओं का मान मर्दन करने वाले परशुराम को देखा ॥१८॥

कैलासमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुःसहम् ।

ज्वलन्तमिव तेजोभिर्दुर्निरीक्षं पृथग्जनैः १ ॥१९॥

परशुराम जी कैलास की तरह दुर्धर्ष, कालाग्नि के समान दुस्मह, क्रोध से जलते हुए अग्नि के समान और पामर लोगों द्वारा दुर्निरीक्ष्य थे ॥१९॥

स्कन्धे चासाद्य परशुं धनुर्विद्युद्गणोपमम् ।

प्रगृह्य शरमुख्यं च त्रिपुरघ्नं यथा शिवम् ॥२०॥

वे अपने कंधे पर फरसा रखे हुए थे और बिजली की तरह चमचमाता धनुष और बाण लिए हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानों त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिवजी आए हों ॥२०॥

तं दृष्ट्वा भीमसङ्काशं ज्वलन्तमिव पावकम् ।

वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे जपहोमपरावणाः ॥२१॥

दहकती हुई आग के समान उन भयानक रूपधारी परशुराम जी को देख, जपहोमपरायण वसिष्ठ प्रमुख ॥२१॥

सङ्गता मुनयः सर्वे सञ्जलपुरथो मिथः ।
कच्चित्पिवृवधामर्षी क्षत्रं नोत्सादयिष्यति ॥२२॥

ऋषिगण आपस में कहने लगे कि, पिता के मारे जाने कारण क्रोध में भर, परशुराम जी क्षत्रियों का नाश करने को कहीं नहीं आए ॥२२॥

पूर्व क्षत्रवधं कृत्वा गतामन्युर्गतज्वरः ।
क्षत्रस्योत्सादनं भूयो न खल्वस्य चिकीर्षितम् ॥२३॥

क्षत्रियों का नाश कर पहले तो इनका क्रोध शान्त हो चुका है। अब क्या पुनः क्षत्रियों का नाश करने पर तुले हैं ॥२३॥

एवमुक्त्वाऽर्घ्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनम् ।
ऋषयो रामरामेति वचो मधुरमब्रुवन् ॥२४॥

इस प्रकार परस्पर बातचीत कर ऋषिगण अर्घ्य पाद्य ले उनके आगे गए और राम ! राम ! ऐसा मधुर बचन कहने लगे ॥२४॥

प्रतिगृह्य तु तां पूजामृषिदत्तां प्रतापवान् ।
रामं दाशरथिं रामो जागदग्न्योऽभ्यभाषत ॥२५॥

इति चतुःषप्ततितमः सर्गः ॥

प्रतापी परशुराम ने ऋषियों का वह आतिथ्य ग्रहण किया दशरथनन्दन श्रीराम जी से परशुराम जी इस प्रकार बातचीत करने लगे ॥२५॥

बालकाण्ड का चौदत्तरवो सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

पञ्चसप्ततितमः सर्गः

—:०:—

राम दाशरथे राम वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतम् ।
धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम् ॥१॥

हे वीर राम ! तुम्हारा पराक्रम अद्भुत सुनाई पड़ता है । जनकपुर में तुमने जो धनुष तोड़ा है, उसका सारा वृत्तान्त भी मैंने सुना है ॥१॥

तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्त्वया ।
तच्छ्रुत्वाऽहमनुप्राप्तो धनुर्गृह्यापरं शुभम् ॥२॥

उस धनुष का तोड़ना विस्मयोत्पादक और ध्यान में न आने योग्य बात है । उसीका वृत्तान्त सुन हम यहाँ आए हैं और एक दूसरा उत्तम धनुष लेते आए हैं ॥२॥

तदिदं घोरसङ्काशं जामदग्न्यं महद्धनुः ।
पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च ॥३॥

यह भयङ्कर बड़ा धनुष जमदग्नि जी का है (अर्थात् इस धनुष का नाम जामदग्न्य है) इस पर रोदा चढ़ा कर और बाण चढ़ा कर, आप आपना बल मुझे दिखाइए ॥३॥

तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽस्य प्रपूरणे ।

द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव ॥४॥

इस धनुष के चढ़ाने से तुम्हारे बल को हम जान लेंगे और उनकी प्रशंसा कर, हम तुम्हारे साथ द्वन्द्व युद्ध करेंगे ॥४॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा ।

विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् ॥५॥

परशुराम जी की ये बातें सुन, महाराज दशरथ उदास हो गए और दीनतापूर्वक (अर्थात् परशुराम की खुशामद कर के) और हाथ जोड़ कर, कहने लगे ॥५॥

क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महायशाः ।

वालानां मम पुत्राणामभयं दातुमर्हसि ॥६॥

हे परशुराम जी ! आपका क्षत्रियों पर जो क्रोध था वह शान्त हो चुका, क्योंकि आप तो बड़े यशस्वी ब्राह्मण हैं । (अथवा आप ब्राह्मण हैं अतः क्षत्रियों जैसी गुस्सा को शान्त कीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों को क्रोध करना शोभा नहीं देता) आप मेरे इन बालक पुत्रों को अभयदान कीजिए ॥६॥

भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्यायव्रतशालिनाम् ।

सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं निक्षिप्तवानसि ॥७॥

वेदपाठ में निरत रहने वाले भार्गववंश में उत्पन्न आप तो इन्द्र के सामने प्रतिज्ञा कर सब हथियार त्याग चुके हैं ॥७॥

स त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुन्धराम् ।

दत्त्वा वनमुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः ॥८॥

और सारी पृथिवी का राज्य कश्यप को दे, आप तो महेन्द्राचल के वन में तप करने चले गए थे ॥८॥

मम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्वं महामुने ।

न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम् ॥९॥

(पर हम देखते हैं कि,) आप हमारा सर्वस्व नष्ट करने के लिए (पुनः) आए हैं । (आप यह जान रखें कि,) यदि कहीं हमारे अकेले राम ही मारे गए तो हममें से कोई भी जीता न बचेगा ॥९॥

ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् ।

अनादृत्यैव तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत ॥१०॥

महाराज दशरथ की इन बातों की अवहेलना कर, अर्थात् कुछ भी उत्तर न दे, प्रताप परशुराम, श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥१०॥

इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिविश्रुते ।

दृढे बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्माणा ॥११॥

हे राम ! ये दोनों धनुष अत्युत्तम हैं और सारे संसार में प्रसिद्ध हैं । ये बड़े दृढ़ हैं और ये विश्वकर्मा द्वारा बड़ी सावधानी से बनाये गए हैं ॥११॥

अतिसृष्टं सुरैरेकं त्र्यम्बकाय युयुत्सवे ।

त्रिपुरध्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यत्त्वया ॥१२॥

इनमें से एक तो देवताओं ने महादेव जी को युद्ध करने के लिये दिआ था, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर को मारा था और उसीको तुमने तोड़ डाला है ॥१२॥

इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः ।

तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपूरञ्जयम् ॥१३॥

यह दूसरा भी, जो हमारे पास है, बड़ा मजबूत है। इसे देवताओं ने विष्णु भगवान् को दिया था। हे राम ! यह विष्णु का धनुष भी शत्रुओं के पुर को जीतने वाला है ॥१३॥

समानसारं काकुत्स्थ रौद्रेण धनुषा त्विदम् ।

तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम् ॥१४॥

और महादेव जी वाले धनुष के जोड़ का है। एक बार सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि, ॥१४॥

शितिकण्ठस्य विष्णोश्च वलावल्लनिरीक्षया ।

अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः ॥१५॥

महादेव जी और विष्णु भगवान् के धनुषों में कौन सा बढ़ कर है। ब्रह्मा जी ने देवताओं का अभिप्राय जान कर ॥१५॥

[विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतांवरः ।

वि रोधे च महद्बुद्धमभवद्रोमहर्षणम्] ॥१६॥

सत्यवानों में श्रष्ट (ब्रह्मा जी ने) उन दोनों में बड़ा विरोध उत्पन्न कर दिया। इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि, उन दोनों में रोमाञ्चकारी घोर युद्ध हुआ ॥१६॥

शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयैषिणोः ।

तदा तु जृम्भितं शैवं धनुर्भीमपराक्रमम् ॥१७॥

महादेव और विष्णु एक दूसरे को जीतने की इच्छा करने लगे। महादेव जी का बड़ा मजबूत धनुष ढीला पड़ गया ॥१७॥

हुङ्कारेण महादेवस्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः ।

देवैस्तदा समागम्य सर्पिसङ्घैः सचारणैः ॥१८॥

तीन नेत्र वाले महादेव जी विष्णु जी के हुँकार करने ही से स्तम्भित हो गए । (अर्थात् विष्णु ने शिव को हरा दिया) तब ऋषियों और चारणों सहित सब देवताओं ने वहाँ पहुँच कर, ॥१८॥

याचितौ प्रशमं तत्र जग्मस्तुस्तौ सुरोत्तमौ ।

जृम्भितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णुपराक्रमैः ॥१९॥

दोनों से प्रार्थना की और युद्ध वन्द करवाया । विष्णु के पराक्रम से शिव के धनुष को ढीला देख. ॥१९॥

अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः सर्षिगणास्तदा ।

धनू रुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशाः ॥२०॥

ऋषियों सहित देवताओं ने विष्णु को (अथवा विष्णु के धनुष को) अधिक पराकमी (अथवा दृढ़) समझा । महादेव जी ने इस पर क्रुद्ध हो, अपना धनुष विदेह देश के महायशस्वी ॥२०॥

देवरातस्य राजर्षेर्ददौ हस्ते ससायकम् ।

इदं च वैष्णव राम धनुः परपुरञ्जयम् ॥२१॥

राजर्षि देवरात के हाथ में वाण सहित दे दिआ । हे राम ! मेरे हाथ में यह जो धनुष है, यह विष्णु का है और यह भी शत्रुओं के पुर का नाश करने वाला है ॥२१॥

ऋचीके भार्गवे प्रादाद्विष्णुः सन्न्यासमुत्तमम् ।

ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकर्मणः १ ॥२२॥

पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्नेर्महात्मनः ।

न्यस्तशस्त्रे पितरि मे तपोबल समन्विते ॥२३॥

पूर्वकाल में त्रिषणु भगवान् ने यह धनुष भृगुवंशी ऋचीक को दिया । ऋचीक ने अपने सहनशील पुत्र व हमारे पिता महात्मा जमदग्नि को दिया । जब हमारे पिता, शस्त्रधारण करना त्याग, तप करने लगे ॥२२॥२३॥

अर्जुनो विदधे मृत्युं प्राकृतां बुद्धिमास्थितः ।

वधमप्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम् ॥२४॥

तब राजा सहस्रबाहु ने मेरे पिता को गंवारपन कर मार डाला । पिता के इस अयोग्य और अत्यन्त निष्ठुरता पूर्वक मारे जाने का हाल सुन, ॥२४॥

भत्रमुत्सादयन् रोषाज्जातं जातमनेकशः ।

पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने ॥२५॥

क्रोध में भर, जैसे जैसे क्षत्रिय उत्पन्न होते गए, वैसे ही वैसे हमने कितनी ही बार उनको मारा । सारी पृथिवी का राज्य अपने हस्तगत कर. हमने महात्मा कश्यप को ॥२५॥

यज्ञस्यान्ते तदा राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे ।

दत्त्वा महेन्द्रनिलयस्तपोबलसमन्वितः ॥२६॥

स्थितोऽस्मि तस्मिस्तप्यन्वै सुसुखं सुरसेविते ।

अद्य तूत्तमवीर्येण त्वया राम महाबल ॥२७॥

यज्ञ के अन्त में उम पुण्यकर्म की दक्षिणा स्वरूप दे दिया और हम तब से सुरसेवित महेन्द्राचल पर तप करते हुए, बड़े सुख से रहते हैं । आप हे महाबली राम ! तुम्हारे उत्तम पराक्रम ॥२६॥२७॥

श्रुत्वा तु धनुषो भेदं ततोऽहं द्रुतमागतः ।

तदिदं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत् ।

क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमम् ॥२८॥

द्वारा धनुष का दूटना सुन, हम तुरन्त यहाँ चले आए हैं ।
अत्र वैष्णु प्रदत्त हमारे पुरुषों के इस उत्तम धनुष को क्षत्रिय-
धर्म में स्थित हो, लीजिए ॥२८॥

योजयस्व धनुःश्रेष्ठे शरं परपुरञ्जयम् ।

यदि शक्नोषि काकुत्स्थ द्वन्द्वं दास्यामि ते ततः ॥२९॥

इति पञ्चमसप्ततमः सर्गः ॥

हे शत्रुओं के पुर को जीतने वाले ! इसे सज्जित कर (रोदे से)
इस पर बाण चढ़ाइए । हे काकुत्स्थ ! यदि तुम इस पर बाण चढ़ा
सके तो (परीक्षार्थ) मैं तुमसे द्वन्द्वयुद्ध करूँगा ॥२९॥

बालकाण्ड का पचहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❀:—

षट्सप्ततितमः सर्गः

—:०:—

श्रुत्वा तज्जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा ।

गौरवाद्यन्त्रितकथः पितू राममथाब्रवीत् ॥१॥

* क्षत्रियधर्म में स्थित हो; अर्थात् यद्यपि मैंने क्षत्रधर्म अर्थात् युद्ध
करना परित्याग कर दिया है, तथापि इस समय मैं युद्ध से पराङ्गमुख नहीं
हाऊँगा । कहीं यह मत कह देना कि, ब्राह्मण को शान्त रहना ही शोभा
देता है ।

परशुराम जी के वचन सुन श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता महाराज दशरथ के गौरव से अर्थात् अपने पिता का अदब कर के, मन्दस्वर (धीरे) से बोले ॥१॥

श्रुतवानस्मि यत्कर्म कृतवानसि भार्गव ।

अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरानृण्यमास्थितः ॥२॥

हे परशुराम जी ! आपने जो जो काम किए हैं, वे सब मैं सुन चुका हूँ। आपने जिस प्रकार अपने पिता के मारने वाले से बदला लिआ—वह भी मुझे विदित है ॥२॥

वीर्यहीनमिवाशक्तं क्षत्रधर्मेण भार्गव ।

अवजानामि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम् ॥३॥

किन्तु आप जो यह समझते हैं कि, हम वीर्यहीन हैं, हममें क्षत्रधर्म का अभाव है, अतः आप जो हमारे तेज का निरादर करते हैं सो आप अब हमारा पराक्रम देखिए ॥३॥

इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य शरासनम् ।

शरं च प्रतिजग्राह हस्ताल्लघुपराक्रमः ॥४॥

यह कह कर और क्रोध में भर श्रीरामचन्द्र जी ने परशुराम के हाथ से धनुष और बाण छूट ले लिए ॥४॥

आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार ह ।

जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धोऽब्रवीदिदम् ॥५॥

और धनुष पर रोदा चढ़ा कर उस पर बाण चढ़ा, जमदग्नि के पुत्र परशुराम से श्रीरामचन्द्र जी क्रुद्ध हो यह बोले ॥५॥

ब्राह्मणोऽसीति मे पूज्यो विश्वामित्रकृतेन च ।

तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम् ॥६॥

हे परशुराम जी ! एक तो ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, दूसरे आप विश्वामित्र जी के नातेदार (विश्वामित्र जी की बहिन के पौत्र) हैं । अतः इस बाण को आपके ऊपर छोड़ कर, आपके प्राण लेना तो मैं नहीं चाहता ॥६॥

इमां वा त्वद्गतिं राम तपोबलसमार्जितान् ।

लोकानप्रतिमान् वा ते हनिष्यामि यदिच्छसि ॥७॥

किन्तु इस बाण से या तो आपकी गति को, (यानी पैरों को) या आकाशगमनादि की आपकी शक्ति को अथवा तपस्या द्वारा प्राप्त आपके लोकों को मैं नष्ट अवश्य कर दूँगा । आप जो पसंद करें वही किआ जाय ॥७॥

न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरञ्जयः ।

मोघः पतति वीर्येण वलदर्पविनाशनः ॥८॥

क्योंकि यह वैष्णव बाण है । यह अपनी शक्ति से शत्रु के बल और अभिमान को नष्ट करने वाला है । यह विना कुछ किए, तर्कस में नहीं जाता—यह अमोघ (अर्थात् निष्फल न जाने वाला) है ॥८॥

वरायुधधरं रामं द्रष्टुं सर्पिगणाः सुराः ।

पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः ॥९॥

गन्धर्वाप्सरसश्चैव सिद्धचारणकिन्नराः ।

यक्षराक्षसनागाश्च तद्द्रष्टुं महदद्भुतम् ॥१०॥

श्रीरामचन्द्र जी को उस दिव्य धनुष पर बाण धारण किए हुए देख, गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग सब ब्रह्मा जी के पीछे पीछे इस अद्भुत व्यापार को देखने के लिए वहाँ जमा हो गए ॥६॥१०॥

जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे ।

निर्वीर्यो^१ जामदग्न्योऽथ रामो राममुदैक्षत^२ ॥११॥

श्रीरामचन्द्र के उस दिव्य धनुष को हाथ में लेने से तीनों लोक स्तम्भित हो गए । परशुराम जी के शरीर से वैष्णव तेज निकल गया, इससे वे विस्मित हुए ॥११॥

तेजांभिहतवीर्यत्वाज्जामदग्न्यो जडांकृतः ।

रामं कमलपत्राक्षं मन्दं मन्दमुवाच ह ॥१२॥

श्रीरामचन्द्र जी के तेज से जब परशुराम जी जड़ के समान वीर्यहीन हो गए, तब वे कमलनयन श्रीरामचन्द्र जी से धीरे धीरे कहने लगे ॥१२॥

कश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुन्धरा ।

विपये^३ मे न वस्तव्यमिति मां कश्यपोऽब्रवीत् ॥१३॥

जब यज्ञान्त में हमने सारी पृथिवी कश्यप मुनि को दी, तब उन्होंने हम से कहा था कि, आज से तुम हमारी भूमि या राज्य में न वसना ॥१३॥

१ निर्वीर्यः—निर्गतवैष्णवतंजः । (गो०) । २ उदैक्षत विस्मित इति-
शेषः । (गो०) ३ विपये—देशे । (रा०)

सोऽहं गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्यां न वसे निशाम् ।

तदा प्रतिज्ञा काकुत्स्थ कृता भूः कश्यपस्य हि ॥१४॥

अतः हे काकुत्स्थ ! कश्यप जी के कथनानुसार या उनकी आज्ञा को मान, मैं रात में पृथिवी पर नहीं रहता । क्योंकि तब से हमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यह पृथिवी* कश्यप ही की कर दी है ॥१४॥

तदिमां त्वं गतिं वीर हन्तुं नार्हसि राघव ।

मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् ॥१५॥

हे राघव ! अतः आप हमारी सर्वत्र की गति (लोगों में आने जाने की शक्ति को) नष्ट न कीजिए । जिससे हमारी वेगवती चाल बनी रहै और हम शीघ्र पर्वतों में उत्तम महेन्द्राचल पर पहुँच जाया करें । (यदि कहीं यह चली गई तो प्रतिज्ञाभङ्ग करने का पातक और सिर पर चढ़ेगा । प्रतिज्ञा यह कि, काश्यपी पर न रहेंगे) ॥१५॥

लोकास्त्वप्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया ।

जहि तान् शरमुख्येन मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥१६॥

हे राम ! किन्तु हमने तप द्वारा जो लोक जीत रखे हैं (अर्थात् जिनकी प्राप्ति का अधिकार सम्पादन कर रखा है) उनको इस विशेष वाण से हनन कीजिए । अब इसमें विलम्ब न कीजिए ॥१६॥

अक्षयं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरोत्तमम् ।

धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्ति तेऽस्तु परन्तप ॥१७॥

१ परामर्शात्—ग्रहणात् (गो०)

* पृथिवी का दूसरा नाम काश्यपी तभी से पड़ा है ।

हे परन्तप ! आपके द्वारा इस घनुष के ग्रहण किए जाने से, हमने अच्छी तरह जान लिया कि, आप अक्षय (अविनाशी) हैं मधु हैत्य के मारने वाले हैं और सब देवताओं में उत्तम अर्थात् विष्णु हैं । आपकी जय हो ! ॥१७॥

एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः ।

त्वामप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्द्वं १माहवे ॥१८॥

ये सब देवतागण आपके दर्शन करने आए हुए हैं । आप सब कामों के करने में चतुर और समर में अपने प्रतिद्वन्द्वी को नाश करने वाले हैं ॥१८॥

न चेयं मम काकुत्स्थ व्रीडा भवितुमर्हति ।

त्वया त्रैलोक्यनार्थेन यदहं विमुखीकृतः ॥१९॥

हे राघव ! आप तीनों लोकों के स्वामी हैं । अतः यदि हम आपसे हार भी गए तो इसकी हमें लज्जा नहीं है ॥१९॥

शरमप्रतिमं राम मोक्तुमर्हसि सुव्रत ।

शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् ॥२०॥

हे राम ! अब आप इस अद्वितीय वाण को छोड़िए । वाण के छूटते ही मैं पर्वतोत्तम महेन्द्राचल पर चला जाऊँगा ॥२०॥

तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान् ।

रामो दाशरथिः श्रीमांश्चिक्षेप शरमुत्तमम् ॥२१॥

जब प्रतापी परशुराम ने श्रीरामचन्द्र से इस प्रकार कहा, तब दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र ने उस उत्तम वाण को छोड़ दिया ॥२१॥

स हतान् दृश्य रामेण स्वाँल्लोकांस्तपसाऽऽर्जितान् ।

जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् ॥२२॥

बाण से तप द्वारा इकट्ठे किए हुए लोकों* को नष्ट हुआ

देख, परशुराम जी तुरन्त महेन्द्राचल पर चले गए ॥२२॥

ततो वितिमिराः सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा ।

सुराः सर्षिगणा रामं प्रशशंसुरुदायुधम् ॥२३॥

सब दिशाएँ और विदिशाएँ पूर्ववत् प्रकाशमान हो गई अर्थात्
अन्धकार जो छाया हुआ था, वह दूर हो गया । ऋषि और देवता
वनुष-बाण-धारी श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा करने लगे ॥२३॥

रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्यः प्रशस्य च ।

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा जगामात्मगतिं प्रभुः ॥२४॥

इति षट्सप्ततितमः सर्गः ॥

जमदग्नि के पुत्र परशुराम, दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी की
प्रशंसा कर के तथा उनकी परिक्रमा कर, अपने स्थान को चले
गए ॥२४॥

बालकण्ड का छियत्तरवों सर्ग समाप्त हुआ ।

१ आत्मगति—त्वस्थानं । (गो०)

* लोकों से अभिप्राय यहाँ पर तप के उस फल से है, जो तप द्वारा
परशुराम जी ने सम्पादन किया था । अर्थात् श्रीरामचन्द्र जी ने परशुराम
की तपस्या का वह फल जिससे उन्होंने अनेक लोकों की प्राप्ति का अधिकार
प्राप्त किया था, नष्ट कर दिया ।

सप्तसप्ततितमः सर्गः

—:०:—

गते रामे प्रशान्तात्मा^१ रामो दाशरथिर्धनुः ।

वरुणायाप्रमेयाय ददौ हस्ते^२ ससायकम् ॥१॥

विगत क्रोध परशुराम जी के चले जाने के बाद, दशरथनन्दन श्रीराम जी ने अपने हाथ का बाण सहित वह धनुष वरुण जी को धरोहर की तरह सौंप दिया ॥१॥

अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखानृषीन् ।

पितरं विह्वलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥२॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने वसिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम किया और महाराज दशरथ को घबड़ाया हुआ देख, उनसे बोले ॥२॥

जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी ।

अयोध्माभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता ॥३॥

परशुराम जी चले गए, अब आप अपनी चतुरङ्गिणी सेना को अयोध्यापुरी की ओर चलने की आज्ञा दीजिए ॥३॥

रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतम् ।

बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मूर्ध्नि चाघ्राय राघवम् ॥४॥

श्रीराम जी का यह वचन सुन, महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्रीरामचन्द्र को छाती से लगा लिया और उनका माथा सूँघा ॥४॥

१ प्रशान्तात्मा—गतक्रोधआत्माचितंयस्य । (रा०) २ हस्ते—
स्वहस्ते । (रा०)

गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः ।
पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च ॥५॥

परशुराम जी का जाना सुन महाराज दशरथ परम प्रसन्न हुए और अपना तथा अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना ॥५॥

चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम् ।
पताकाध्वजिनीं रम्यां जयोद्धुष्टनिनादिताम् ॥६॥

और सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दी । महाराज दशरथ बड़ी जल्दी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित और जयघोष से निनादित अयोध्यापुरी को गए ॥६॥

सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्कराम् ।
राजप्रवेशसुमुखैः^१ पौरैर्मङ्गलवादिभिः^२ ॥७॥

अयोध्यापुरी की सड़कें जल से छिड़की हुई थीं और उन पर पुष्प बिखरे हुए थे । वे बड़ी रम्य जान पड़ती थीं । महाराज के आगमन से प्रसन्नमुख पुरवासी अनेक प्रकार के आशीर्वादात्मक वचन बोल रहे थे ॥७॥

सम्पूर्णां प्राविशद्राजा जनौघैः समलङ्कृताम् ।
पौरैः प्रत्युद्गतो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः ॥८॥

ऐसी सजी हुई और बन्धुबान्धवों से भरी पुरी अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ ने प्रवेश किया और नगर से आगे बढ़, पुरवासी ब्राह्मणों ने उनकी अगमानी की ॥८॥

१ सुमुखैः—विकसनमुखैः । (गो०) २ मङ्गल—आशीर्वाचनं वक्तुं शीलमेवामस्तीति मङ्गलवादिभिः । (गो०)

पुत्रैरनुगतः श्रीमान् श्रीमद्भिश्च^१ महायशाः ।
प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सदृशं प्रियम् ॥६॥

महायशा महाराज दशरथ, अपने राजकुमारों और बहुओं सहित अपने बर्फ की तरह सफेद रंग के प्रिय राजभवन में गए ॥६॥

ननन्द सजनो^२ राजा गृहे कामैः^३ सुपूजितः ।
कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा ॥१०॥

वधूप्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः ।
ततः सीतां महाभागामूर्मिलां च यशस्विनीम् ॥११॥

कुशध्वजसुते चोभे जगृहुर्नृपपत्नयः ।
मङ्गलालेपनैश्चैव शोभिताः क्षौमवाससः ॥१२॥

प्रमन्नचित्त हो राजभवन में पहुँचने पर, महलवासी नाते रिश्तेदारों ने महाराज का फूलमाला चन्दनादि से भली भाँति सत्कार किया। उधर कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा अन्य रानियाँ बहुओं का पनीछा करने में लगीं। रानियाँ महाभागा सीता, यशस्विनी ऊर्मिला और कुशध्वज की दोनों बेटियों को महलों में लिवा ले गईं और वहाँ उनके मङ्गल लेप अर्थात् ऐपन और कुङ्कुमादि लगाए। फिर उनको अच्छे अच्छे रेशमी चन्द्रधारण करवा ॥१०॥११॥१२॥

१ श्रीमद्भिः—दारपरिग्रहादधिकलक्ष्मावद्भिः पुत्रैः । (रा०) २ जनः—सम्बन्धिनः । (गो०) ३ कामैः—सकृच्चन्दनादिभिः । (रा०)

देवतायतनान्याशु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन् ।

अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा ॥१३॥

और तुरन्त देवमन्दिरों में ले जा कर, उनसे देवताओं की पूजा करवाई । तदनन्तर सब बहुओं ने सासों तथा अन्य बड़ी बूढ़ी स्त्रियों को प्रणाम किया ॥१३॥

[टिप्पणी—१३ वें श्लोक में “देवतायन” शब्द को देख यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि, रामायणकाल में भी देवताओं के मन्दिर बनाए जाते थे और उस समय भी भारतवर्ष में मूर्तिपूजा प्रचलित थी ।]

रेमिरे मुदिताः सर्वा भर्तृभिः सहिता रहः ।

कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः ससुहृज्जनाः ॥१४॥

तदनन्तर वे सब अपने अपने पतियों के साथ राजभवन में जा हर्षित हो निवास करने लगीं । उधर श्रीरामचन्द्रादि सब राजकुमार विवाहित हो तथा सब अस्त्रशस्त्र चलाने और रोकने की विद्या में निपुण एवं धनवान हो, अपने इष्ट मित्रों सहित ॥१४॥

शुश्रूषमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरर्षभाः ।

कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतस् ॥१५॥

भरतं केकयीपुत्रमब्रवीद्रघुनन्दनः ।

अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक ॥१६॥

त्वां नेतुमागतो वीर युधाजिन् मातुलस्तव ।

श्रुत्वा दशरथस्यैतद्भरतः कैकयीसुतः ॥१७॥

गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्नसहितस्तदा ।

आपृच्छथ पितरं शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणम् ॥१८॥

मातृश्चापि नरश्रेष्ठः शत्रुघ्नसहितो ययौ ।

गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः ॥१९॥

पिता की सेवा करते हुए रहने लगे । कुछ दिनों बाद महाराज दशरथ अपने पुत्र कैकेयीनन्दन भरत जी से बोले । यह तुम्हारे मामा युधाजित् तुम्हें ले जाने के लिए आए हुए हैं कैकेयीनन्दन भरत जी महाराज दशरथ के यह वचन सुन शत्रुघ्न जी के साथ ननिहाल जाने को तैयार हो गए । तदनन्तर अपने वीरवर पिता और अति कारुणिक भाई श्रीरामचन्द्र तथा कौशल्यादि माताओं से पूँछ, वे शत्रुघ्न को साथ ले चल दिए । भरत जी के जाने पर, श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण ॥१५॥१६॥१७॥१८॥१९॥

पितरं देवसङ्काशं पूजयामासतुस्तदा ।

पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः ॥२०॥

चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च ।

मातृभ्यो मातृकार्याणि रामः परमयन्त्रितः ॥२१॥

अपने देव समान पिता की सेवा करने और अपने पिता से पूँछ पूँछ कर पुरवासियों के प्रिय व हितकर सब कार्य करते थे । इतना ही नहीं वे माताओं के भी सब काम वड़ी अच्छी तरह किया करते थे ॥२०॥२१॥

गुरुणां गुरुकार्याणि काले काले चकार ह ।

एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणा नैगमास्तदा ॥२२॥

१ नैगमाः—वर्णिलः । (गो०)

वे गुरुओं की भी सेवा समय समय पर करते थे । श्रीराम-चन्द्र जी के ऐसे वर्त्ताव से क्या महाराज दशरथ क्या ब्राह्मण और क्या बनिए सभी सन्तुष्ट थे ॥२२॥

रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः १ ।

तेषामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः ॥२३॥

श्रीरामचन्द्र जी के शील स्वभाव से सब ही पुरवासी सन्तुष्ट थे । राजकुमारों में सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी का नाम बहुत अधिक व्याप्त था । अर्थात् वे प्रसिद्ध हो गए थे ॥२३॥

स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः ।

रामस्तु सीतया सार्धं विजहार बहूवृतून् ॥२४॥

स्वयम्भू—ब्रह्मा की तरह वे सब प्राणियों से बढ़ कर गुणवान् समझे जाते थे । श्रीरामचन्द्र जी ने बहुत वर्षों (वारह) तक सीता जी के साथ विहार किया ॥२४॥

प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति ।

मनस्वी तद्गतमना नित्यं हृदि समर्पितः ॥२५॥

श्रीरामचन्द्र जी को, ब्राह्मविवाह से प्राप्त जानकी जी अति प्यारी थीं और वे उन पर आसक्त थे तथा उनको बहुत चाहते थे ॥२५॥

गुणाद्रूपगुणाच्चापि प्रीतिर्भूयोऽभ्यवर्धत ।

तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तते ॥२६॥

प्रीति, रूप, गुण और शील के प्रभाव से सदा बढ़ा करती हैं और ये सब बातें सीता जी में श्रीरामचन्द्र जी से दूनी थीं ॥२६॥

१ विषयवासिनः प्रीता इति शेषः ॥ २ बहूवृतून्—द्वादशवर्षाणांस्थिर्यं इति बहवः । (रा०)

अन्तर्जातमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा ।

तस्य भूयो विशेषेण

मैथिली जनकात्मजा ।

देवताभिः समा रूपे

सीता श्रीरिव रूपिणी ॥२७॥

श्रीरामचन्द्र जी के मन की बातें बिना कहे ही जानकी जी, जिनकी शोभा देवताओं के समान थी और जो साक्षात् लक्ष्मी देवी के तुल्य थीं, विशेष रूप से जान लिखा करती थीं ॥२७॥

तया स राजर्षिसुतोऽभिरामया

समेयिवानुत्तमराजकन्यया ।

अतीव रामः शुशुभेऽतिकामया^१ ।

विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः^२ ॥२८॥

इति सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये

चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां

बालकाण्डः समाप्तः ॥

राजर्षि जनक की दुहिता जानकी जी के साथ श्रीरामचन्द्र जी उसी प्रकार अति शोभा को प्राप्त हुए, जिस प्रकार अमरेश्वर (देवताओं के स्वामी) भगवान् आदिविष्णु श्रीलक्ष्मी जी के साथ सुशोभित होते हैं ॥२८॥

बालकाण्ड का सतहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

^१ अतिकामया—सीतया । (गो०) ^२ अमरेश्वरोविष्णुः—आदि-
विष्णुः । (गो०)

॥ श्रीः ॥

श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः

श्रीवैष्णवसम्प्रदायः

—*—

एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः ।

प्रव्याहरत विस्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम् ॥१॥

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः ।

येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥२॥

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी ।

देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥३॥

कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः ।

श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम् ॥४॥

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः ।

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥५॥

मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये ।

चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥६॥

वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये ।

पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् ॥७॥

विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः ।
 भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् ॥८॥
 पितृभक्ताय सनतं भ्रातृभिः सह सीतया ।
 नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम् ॥९॥
 त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे ।
 सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम् ॥१०॥
 सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे ।
 संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् ॥११॥
 दण्डकारण्यवासाय खण्डितामारंशत्रवे ।
 गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् ॥१२॥
 सादरं शवरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे ।
 सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्विक्ताय मङ्गलम् ॥१३॥
 हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने ।
 वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् ॥१४॥
 श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लङ्घितसिन्धवे ।
 जितरक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् ॥१५॥
 आसाद्य नगरं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया ।
 राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् ॥१६॥
 मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः ।
 सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॥१७॥

माध्वसम्प्रदायः

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः ।

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी ।

देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥२॥

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः ।

येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥३॥

मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणावघये ।

चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥४॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा

बुद्ध्य्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् ।

करोमि यद्यत्सकलं परस्मै

नारायणायेति समर्पयामि ॥५॥

स्मार्तसम्प्रदायः

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः ।

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी ।

देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥२॥

अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः ।

अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् ॥३॥

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् ।
 एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् ॥४॥
 शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा ।
 स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥५॥
 रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे ।
 रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥६॥
 यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कुते ।
 वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥७॥
 मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने ।
 चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥८॥
 यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत्पुरा ।
 अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥९॥
 अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नतो वज्रधरस्य यत् ।
 अदितिर्मङ्गलं प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥१०॥
 त्रीन्विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः ।
 यदासीन् मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥११॥
 ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते ।
 मङ्गलानि महाबाहो विशन्तु तव सर्वदा ॥१२॥
 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
 बुद्ध्यात्ना वा प्रकृतेः स्वभावात् ।
 करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
 नारायणायेति समर्पयामि ॥१३॥

